

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**  
**KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

॥ श्रीः ॥

# विद्यासंघन सम्मानावाग्रहसाला

## वेदार्थ-चन्द्रिका

लेखक

डॉ० मुंशोराम शर्मा

- एम० ए०, पीएच० डी०, डॉ० लिट०

संचालक

वैदिक शोष संस्थान, डी. ए. बी. कालेज  
आयनगर, काशीपुर

चौखंडा विद्यासंघन, वाराणसी-१

प्रकाशक : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी  
सुदृक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी  
संस्करण : प्रथम, वि० सं० २०२४  
मूल्य : ६-००

(C) The Chowkhamba Vidyabhawan  
Post Box No. 69,  
Chowk, Varanasi-1 ( India )  
1967  
Phone : 3076

प्रधान कार्यालय : —

चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिसं  
गोपाल भन्दिर लेन,  
पो० आ० चौखम्बा, पोस्ट बाक्स नं० ८, वाराणसी-१

THE  
VIDYABHAWAN RASHTRABHASHA GRANTHAMALA

112

VEDĀRTHA-CHANDRIKĀ

By  
Dr. MUNSHIRĀMA SHARMĀ,  
M. A., Ph. D., D. Litt.  
*Director, Vedic Research Institute,  
D. A. V. College, Arya Nagar, Kanpur.*

THE  
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN  
VARANASI-1  
1967

**First Edition**

**Price Rs. 6-00**

*Also can be had of*

**THE CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE**

**Publishers & Antiquarian Book-Sellers**

**P. O. Chowkhamba, Post Box 8, Varanasi-1 ( India )**

**Phone : 3145**

## प्राक्षेत्र

मनु अपनी सृति में बाली वृत्ति के सम्पादनाथे स्वाध्याय को साधनों में प्रभुत्वता देते हैं। स्वाध्याय 'स्व' का अध्ययन है। 'पर' का अध्ययन करने में वृत्ति वहिमुखी हो जाती है। 'स्व' के अध्ययन में वह अन्तमुखी बनती है। जिसने अन्तमुख होकर अपना अध्ययन नहीं किया, वह 'पर' को समझने में भी असमर्थ रहेगा। जो बाहर को आन्तर का ही प्रकटन मानते हैं, उनके लिये तो वह सिद्धान्त-वाच्य है।

स्वाध्याय से वेद और प्रवचन से बालण ग्रन्थों का अर्थ अभिप्रेत रहा है। परम्परा में यही मान्यता प्रस्त्वात रही है। मनु के शब्दों में जो बालण वेद से व्यतिरिक्त शास्त्र में श्रम करता है, वेद का अध्ययन नहीं करता, वह इस जीवन में ही कुलसहित शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। वेद का अध्ययन अपना अध्ययन है। अन्य शास्त्रों में 'पर' का अध्ययन है। जो शास्त्र या वाङ्मय वेद का प्रवचन करता है, वह मानों स्वाध्याय = स्व के अध्ययन—का ही विस्तार करता है। वेद के साथ वह भी माल्य है, पर जो स्थान स्वाध्याय में वेद का है, वह अन्य किसी का भी नहीं।

स्वाध्याय में वेद को इतना अग्रतम स्थान क्यों मिला है? इसलिये कि वह निखिल वाङ्मय का मूल है, आदि स्रोत है। वह अदिति है, अत्यण्ड है, तो अन्य ग्रन्थ खण्ड हैं। वेद में समस्त सत्य विद्यायें हैं, तो अन्यत्र एक-एक विद्या या उसका भी एक-एक अन्त है। मुण्डक उपनिषद ने वेदों को अपरा विद्या कहा है, उसका तात्पर्य वाचिक (theoretical) विद्या से है। अनुभवी साधक जानते हैं, कि परा विद्या के सूत्र भी वेदों

में विद्यमान हैं। हाँ, उसका कियात्मक रूप (*practical side*) तो साधना-गम्य ही है। इसी हेतु मुँडक उपनिषद् 'परा यथा तदज्ञरमधिगम्यते' जट्ठों द्वारा पराविद्या के महत्व का प्रतिपादन कर रही है। इससे वेद की हीनता अभिव्यक्त नहीं होती।

वेद आयों का प्राण है। आर्य उस मानव की संज्ञा है जो कर्तव्य के निर्वाह में दत्तचित्त रहता है, जो सज्जन है, जो यज्ञ-परायण है और धर्म के उचयन में संलग्न रहता है। वेद में अनेक बार सवनशील आर्य की प्रशंसा की गई है। उरु ज्योति का वही एकमात्र अधिकारी है। तृतीय सद, स्थान, पद, धाम या स्तर में वही पहुँच सकता है, दस्यु नहीं। वेद आर्य के लिये प्रकाश-प्रदाता है। उनका रहस्य आर्य पुरुष पर ही प्रकट होता है, क्योंकि आर्य ही तृतीय स्तर में पहुँचकर परम ज्योति के साथ सधस्य हो पाता है। जो उसके साथ एक हो गया, उसे उसका ज्ञान भी सुलभ हो गया।

वेद के स्वाध्यायी पाण्डित्य का तिरस्कार नहीं करते, पर ज्योति से उसका अवर पद अवश्य स्वीकार करते हैं। पाण्डित्य सहायक है, अर्थ की ऊहा उसके द्वारा होती ही है, पर साक्षात्कार तो प्रकाश में ही संभव है। वैदर्घ्य श्रुत एवं अनुमान का सहारा लेकर वस्तु के इधर-उधर के कोने दिखा देगा। वस्तु के सभी पाथों का सम्यक् दर्शन तो प्रज्ञा ही करा सकती है। प्रज्ञा ही प्रकाश-भूमि है। उसीके साविध्य में दर्शन होता है। उसके पूर्व नहीं। मन्त्र-दर्शन, अर्थ-दर्शन या देव-दर्शन करना है, तो परम ज्योति के आशीर्वादों का आश्रय प्राप्त करना होगा। उसकी शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त सिद्धि-प्राप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है।

वेदार्थ चन्द्रिका में पचीस निवन्ध हैं। इनमें पुरुषसूक्त सबसे बड़ा है। कतिपय मन्त्रों के अधों में पाठकों को नूतन दिशाओं के संकेत उपलब्ध होंगे। मन्त्रों के जिन अधों की ओर उनकी दृष्टि संभवतः इसके पूर्व न

गई हो अथवा आमास तक न हुआ हो, उन्हें वे ध्यान से अबलोकन करें। शब्दों के नैरूपिक अर्थ उन्हें प्रचलित अर्थों से हटे हुए प्रतीत होंगे। ऐसा करने में वर्तमान वैज्ञानिक गन्तव्यपणों की सत्यता यदि वेदार्थों को मान्यता प्रदान करे, तो प्रयास की समीचीनता स्वतः सिद्ध हो जायगी।

मत्रों का अर्थ करने में श्रद्धा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। जैसे ही उसके चरणों की ओर बढ़ा हूँ, वैसे ही मुझे मार्गदर्शन मिलता गया है। यह परम प्रभु का प्रसाद ही है कि मेरे जैसा स्वल्पशक्ति अबोध इस क्षेत्र में कुछ लिख सका। पाठकों को इन निवन्धों में यदि कुछ प्राप्त हो जाके, तो उसके अनुग्रह का फल समझकर वे उसी की ओर बढ़ें, यही प्रार्थना है।

आर्यनगर, कानपुर  
व्यासपूर्णिमा, २०२४

मुंशीराम शर्मा

## विषय-सूची

क्रम	विषय	पृ० सं०
१.	प्रेमी पाठकों से	३
२.	प्रभु के चरणों में	८
३.	देव ! बोलो	१८
४.	पुरुष सूक्त	३१
५.	सुष्टि प्रकरण	८३
६.	प्रलय प्रकरण	१०२
७.	वेदों का आविर्भाव	१०६
८.	वेद और परतत्व	१२५
९.	हमारा वायुमण्डल	१३८
१०.	तीन और सात	१५०
११.	यात्रा की सफलता	१६०
१२.	स्वस्ति पंथा	१६६
१३.	स्वस्ति तथा शान्ति	१७३
१४.	शान्ति का धाम	१८३
१५.	ज्ञान	१९२
१६.	ज्ञान सूक्त	२०२
१७.	शुचिता	२१३
१८.	समिद्धता	२२०
१९.	चार देवता	२२७
२०.	अध्वर तथा स्तोम	२३७
२१.	हमारा योग ज्ञेय	२४७
२२.	महाब्याहृतियाँ	२५१
२३.	वेद और आर्य	२६२
२४.	पुनर्जन्म	२६९
२५.	मोक्ष	२८३

# वेदार्थ-चन्द्रिका

## प्रेमी पाठकों से

### परमसूर्य

शान-सूर्य की विर्मल दयोतिर्मय फिरणो !

आपने अनेक लोकों के दर्शन किये हैं। अन्तरिक्ष में वहती हुई प्रकाश-धाराओं तथा ध्वनि-लहरों की गति को देखा है। आपने उन कहा-शूतों को भी देखा है, जिनमें सूर्य, चंद्रादि भ्रमण करते हैं। यह पृथ्वी लन्तः प्रवित किन्तु ऊपर से कठोर रूप को धारण किये नाना प्राणियों की निवासस्थली बनी है। इसके अन्तः बाह्य रूपों की भी आपने परीक्षा की है। प्राणियों की प्रवृत्तियों को भी परखा है। आपने पश्चियों से तो उन्हें पालतू बनाकर बातें की ही हैं, उनके व्योमविहारी, दूर-दूर देशों की जानकारी रखने वाले, आसद्ध संकट को समझकर शीघ्र पलायन करने वाले, सुन्दर गृह-निर्माता शिल्पी, परोपजीवी, दूरदर्शी आदि रूपों की भी निकट से पहचान की है। इस भूमि के वृक्ष-लता-बनस्पति-ओषधि आदि के हृदय की घड़कन को भी आपने सुना है। आरण्यक पशुओं को ग्राम्य बनाकर अपने लिए उनके उपयोगी अंशों का प्रयोग किया है। शृंखला की उर्वरा शक्ति को पहिचानकर विविध प्रकार के धन-धान्य उत्पन्न किये हैं। अरण्यसम्पत्ति भी आपकी तीव्र दृष्टि से लोकाल न रह सकी। धन-विभाग, खनिज विभाग, भूगर्भ विभाग आदि की स्थापना हारा आपने दिग्दिग-रान्त-गामिनी अपनी कुशल त्रुदि एवं दर्शन शक्ति का परिचय दिया है। उदाम निर्झरों, उत्पाती नदों, तथा प्रशान्त झीलों एवं समुद्रों को भी आपने दश में किया है। दाचानल तो देखी ही थी, बड़वानल भी आपकी दृष्टि-परिधि में आई और जड़वानल जिसका प्रतिदिन हम अनुभव करते रहते हैं, आपके महिताप्त द्वारा ही विश्लेषण पा सकी। आपने इन सबको देखा और फिर अपने को भी देखा। यह दर्शीर क्या है ? इसके शिर, शिर की ऊँचें, कान, नाक, मुख,

जिह्वा, विवर-पार्श्व, श्वासनलिका, भोजननलिका, काक, कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त, ओष्ठ, हनु; इसके बहस्थल, बहस्थल में फुफ्फुस, हृदय, पसलियाँ, वायु-संचार, स्पन्दन, मलापहरण; इसके उदर, उदर के आमाशय, यकृत, प्लीहा, नाड़ीजाल, नाभि, रस, मांस, मेद, अस्थि, स्फन्ध, स्कन्ध से शाखाओं की भाँति फूटती भुजायें, पुट्टे, कुहनी, पोंचा, करतल, करपृष्ठ, हथेली, अँगुली, पोर, नख, कटि, कटि से नीचे ऊरु, जंधा, छुटने, पिंडली, तिळी, देंडी, पैर, अँगूठा, अँगुली, नख, शरीर के स्नायुजाल, ज्ञान शिरा, संबोदन नाड़ी, कर्मतन्तु, रक्तवाहिनी प्रणाली, प्राण-प्रक्रिया, जीवन-भरण, विजातीय-निष्कासन, सजातीय-संचरण, समानी-करण, व्याहिकरण, उच्चयन, ग्रहण, उत्सर्जन, प्रजनन आदि क्या हैं? आपकी अन्तर्भेदी चक्रुशक्ति कहाँ-कहाँ नहीं पहुँची? आपने इन सब का ज्ञानजीन किया। फिर ज्ञानशक्ति भी आपसे अकृती न रही। ज्ञान क्या है? प्रमाण, प्रमेय तथा प्रमाता, शब्द-अनुमान-प्रत्यक्ष, प्रत्यय, संज्ञान, साक्षात्कार, भाव-क्रिया-देवना, जागरण-स्वप्न-सुपुसि—सबकी ऊहापोह करता, चिन्तन, मनन, स्मरण, अहंता और प्रकाश की उपलब्धि—सब आपकी दर्शन-शक्ति का विषय बन गये। पर यह सब जानकर भी आप यही कहते रहे—अभी बहुत कुछ जानना दोप है। यह तो सागर के तटवर्ती प्रस्तर, शंख, सीप तथा धोंधे हैं। ज्ञानसागर के अतल-जल में जो रस भरे पड़े हैं, वे अभी कहाँ निकल पाये? उनका दर्शन अभी कहाँ हुआ? अपने से भी बढ़कर किसी मरजीवा, गोतापोर, छुबकी लगाने वाले की आप प्रतीक्षा करते रहे हैं। पर यह आप में से ही निकलेगा, इन ज्योतिर्मय किरणों का ही अंश होगा और आपका ही पूरक कहा जायगा।

आपने देखा, लिखा और दूसरे को बताया। संवाद और प्रवचन चले। एक परम्परा पड़ी। प्रभूत ज्ञान-राशि एकत्र हुई। यह सब आपके दर्शन और वाणी का प्रसाद था। जब काल के कराल गाल में इस राशि का प्रभूतांश चला गया, भस्म हो गया, तो ज्ञान के एक तन्तु को दूसरे तन्तु से जोड़ने वाले तथा उसका विस्तार करने वाले ज्ञानी, दार्शनिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक भी उत्पन्न

होते रहे। इस ज्ञान का एकान्त विनाश वर्भी नहीं हुआ। परम्परा की शुंखला दूट कर भी जुड़ती रही, वियुक्त होकर भी संयुक्त होती रही। आखिर ज्ञान भागेगा कहाँ? यही तो ब्रह्माण्ड है, यही तो प्राणि-जगत है, यही तो मानव जाति है और इन सब में व्याप्त एक संयोजक सूत्र है। ज्ञान इन्हीं में तो समाया हुआ है। ज्ञान भागेगा भी तो एकाग्रचित्त होते ही पुनः पास आ जायगा। चित्त व्यस्तिगत तथा समर्थित दोनों रूपों में वासनाओं का, संस्कारों का भाष्टार है। एक चित्त वा, एक जन्म का बोध प्रतिबोध बनता रहता है और सूक्ष्म रूप में स्थिर भी रहता है। रम्य इश्यों, भवुर शब्दों, सुरस् शब्दों की अनुभूति करने ही अबोधपूर्व प्राचीन अनुभूति जाग्रत होती रहती है। प्राचीन परिभोपायें अनिनव रूप में व्यारदात भी होती हैं। प्राकृत ज्ञान नदीन रूप में अभिव्यक्त होता है। पुरानन भावनायें नव्यांशुक धारण करती हैं। पर प्राकृतिक और चेतन जीवन की सामग्री में परिवर्तने नहीं होता। ज्ञान तथा ज्ञेय वही रहते हैं। ज्ञेय बदलते रहते हैं। कभी ब्रह्माण्ड का धर्मयन प्रथान रहता है, कभी चेतना और प्राणी जगत का और कभी संयोजक सूत्र का। कभी युग्म-बोध की भी विशिष्टता परिलिपित होने लगती है। मेरा ब्रह्माण्ड से क्या सम्बन्ध है? ब्रह्माण्ड का संयोजक सूत्र से क्या संबंध है? मेरा अन्तर्यामी से क्या संबंध है? ऐसा युग्म-बोध भी मीमांसा का विषय बनता रहा है, जो युग-युग की परिस्थिति, बोधवृत्ति तथा आवश्यकता का परिणाम होता है। एक वृत्ति में भी कई अन्तः वृत्तियाँ या अनुवृत्तियाँ प्रकट होती रही हैं। अद्वैत-द्वैत-त्रैत वादों में ये स्पष्टतया ललक रही हैं। अद्वैत, ही भूद्वाद्वैत, द्वैताद्वैत; विशिष्टाद्वैत आदि अन्तः वृत्तियाँ तथा कनकलुण्डल, मूर्ग-मरीचिकी, रञ्जुर्मयं और्दि की अनुवृत्तियाँ हैं। एक अन्दर ही अन्दर मेद-दर्शन करती हैं, दूसरी बाहर से उनकी व्याख्या या अनुवर्तन अन्तर के साथ बगती हैं। देले के समान यही पात-पात में पात हैं। मुष्ठे मुष्ठे मतिभित्ता। यहाँ बाद-बाद में बाद तथा बात-बात में बात है। प्रपञ्च के पञ्चीकरण तथा पञ्चीकरण के बहुत्व और नानात्व की क्या कोई मिति है? इस यहुधा, सहजधा, लज्जधा, कोटिधा, असंरयधा, भेद का पार सम्प्रसः

आजतक कोई भी प्राप्त नहीं कर सका। पर, तुम कहते हो, इस वहुधा का एक बीज है, एक मूल है, एक स्रोत है जिसे ज्ञान लेने से सब कुछ ज्ञान लिया जाता है। मूल को पकड़ने से सब पकड़ में आ जाता है। एक के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाता है।

हम सब पर जन्म-जन्मान्तरों से, प्राकृत स्थितियों से संस्कार, पढ़ते रहे हैं। ये बड़े गहरे हैं और बड़े विस्तृत हैं। ये संस्कार ज्ञानार्जन में भी सहायता देते हैं। इनके कारण धर्मिकम् का विनाश नहीं हो पाता। प्रत्यवाय आते हैं, पर संस्कारों की प्रवलता के कारण नष्ट हो जाते हैं। विज्ञानवादियों वा कथन है कि हम निरंतर-उच्चति कर रहे हैं। विगत जन्म से यह जन्म अच्छा है और कल से आज अच्छा है, श्रेष्ठ है। नोतिवादी कहते हैं, कर्म का स्वातंत्र्य आपके सिद्धान्त को झुट्ठाता है। यदि हम निरन्तर उच्चति ही करते गये होते, तो - आज मानव-मानव में इतना भेद दिखाई न देता। कितने स्तरों पर हम आज खड़े हैं? क्या यह निरन्तर उच्चति का दोतक है। कर्म का स्वातंत्र्य मानव को उच्चावच स्थितियों में ढालता रहता है। एक दिन में ही हम कभी बहुत ऊँचे उठ जाते हैं और कभी बहुत नीचे गिर जाते हैं। इसी प्रकार एक जीवन में सदाचारी व्यक्ति कुसंगति के प्रभाव से दुराचारी बनता देखा गया है और दुराचारी सत्संग के प्रभाव से सदाचारी में परिणत भी होता रहा है। धनेक जन्मों की कथा यदि ज्ञात हो सके तो तथ्य और भी अधिक स्पष्ट हो सकता है। पर राशि का एक दाना भी राशि की गाथा गा सकता है, तुलसी का एक बीज भी तुलसी की संपूर्ण कहानी को बता सकता है। इसी प्रकार जीवन का एक खण्ड भी जीवन के सम्पूर्ण इतिहास पर प्रकाश ढाल सकता है। जब एक दिन में ही हम ऊँची-नीची स्थितियों में जा सकते हैं, एक जीवन में ही राजा रंक और रंक राजा बन सकता है, तो जीवन की जनन्त शृङ्खलाओं में हम ऊँचे ही उठते रहे हैं, यह सिद्ध नहीं होता। हाँ, उत्थान हमारे स्वभाव में है। इसीलिए नीचे गिरकर भी हमारे उत्थान वी संभावना बनी रहती है। पर यह भी निर्विकार सत्य है कि संस्कारों का हमारे जीवन में यहाँ महत्व है। सत्संस्कार

उठाने वाले हैं और कुसंस्कार गिराने वाले। हमारा कर्मस्वातंत्र्य यदि कु के तिरस्कार और सु के संस्कार का संस्कार बनाता रहे, तो हम उठते जायेंगे। पर कर्म-स्वातंत्र्य बड़ा विचित्र है। कभी-कभी सु की ओर प्रयाण करते हुए भी हम कु में जा पहुँचते हैं। इसका कारण ज्ञान है। अतः कर्म-स्वातंत्र्य ज्ञान के सहयोग की अपेक्षा रखता है। ज्ञान और कर्म मिल कर मानव का उत्थान करते हैं। ज्ञानसूर्य की निर्मल ज्योतिर्नीय किरणों ! क्या तुम्हारा ज्ञान कर्म के साथ एक होगा ? ज्ञान कर्म का और कर्म ज्ञान का व्यभिचार सो महीं करेगा ? इस व्यभिचार से ही ज्ञान अज्ञान और कर्म अकर्म बनता रहता है। यह अ कालान्तर में कु में परिणत होता है और परिणामतः अषाढ़-प्राढ़, उच्चावच गतियों का कारण बनता है। हमारे ज्ञान और कर्म का समन्वय हो। दोनों ही पुण्य हों, पवित्र हों, जिससे ब्रह्म के तन्तु को चोरते हुए हम मूल ज्योति को, परम सूर्य को प्राप्त कर सकें।

---

## प्रभु के चरणों में

त्वं हि नः पिता वस्तो त्वं माता शतकतो वभूविथ ।

अथा ते सुमनमीमहे ।

( ऋ० ८९८।१ )

हे अनन्त क्रतु ! हे असंख्य यज्ञ करने वाले ! हे असीम पराक्रमी ! हे अतुल सामर्थ्य-सम्पन्न ! भगवान ! आप ही हमारे पिता हैं, आप ही माता हैं । आपसे ही हम सुख की धाचना करते हैं ।

स नः पितेव सूनवेथग्ने सूपायनोभव । सचस्या नः स्वस्तये ॥

( ऋ० १।१।५ )

पुत्र के लिये पिता जैसे सुगमता से प्राप्तव्य होता है, वैसे ही आप हमारे लिये अत्यन्त निकट वा जाह्ये और हमें व्यापार के लिये एकद तथा सुखमंबुद्ध कर दीजिए ।

न हि अन्यं वल्लाकरं मर्दितारं शतकतो । त्वं न इन्द्रं मृलय ।

( ऋ० ८।८।१ )

पिता ! आप परमैश्वर्य के निधान हैं, शतक्रतु हैं, अनन्त ब्रह्माण्डों के संचालक और असंख्य जीवों को कर्म-फल देने वाले हैं । आप ही हमें सुखी कर सकते हैं । आपके अतिरिक्त भन्य कोई भी सुख देने वाला नहीं है । आप ही हमें सुखी कीजिये । •

यो नः शश्यत् पुराविथ अमृधो धाजसातये । स त्वं न इन्द्रं मृलय ॥

( ऋ० ८।८।२ )

पिता ! आप अमृध हैं, आपकी हिंसा कोई भी नहीं कर सकता । आप वलवानों में दिरोमणि हैं । जब जब हमें धाज की, वल की, ज्ञान की आवश्यकता पड़ी है, तब तब हमने आपको ही पुरारा है । पुराकाल में आपसि

पहने पर आप ही ने हमारी सदैव रक्षा की है। प्रभो ! वही आप आज भी कृपा कीजिये, आज भी हमारा संकट से ब्राह्मण कीजिये, हमें सुखी बनाइये।

**यदंग दाशुपे त्वमने भद्रं करिष्यसि । तवेतत्सत्यमंगिरः ॥**

( अ० १११६. )

हे अंगिरः ! हे मेरे प्राण ! तुम्हारे सम्बन्ध में यह सत्य ही कहा जाता है, तुम्हारा यह विरुद्ध ही है कि जिसने अपने आपको तुम्हें दे दिया, तुम्हारे समर्पित कर दिया, तुम उसका निश्चित रूप से भला ही करते हो, उसका कल्याण करते हो, उसे सुख देते हो।

**त्वं नः सोम विश्वतो रक्षा राजद्वयायतः । न रिष्येत् त्वावतः सक्षा ॥**

( अ० १-९१-८. )

मेरे सोम ! तुम राजा हो, ब्रह्मविज्ञानियों में चमकते हो ! अपनी इस प्रभाद्वारा मेरी रक्षा करो। जो दक्षि मेरे प्रति पाप, अपराध, या दुष्टाचरण करने का अभिलाषी हो, उसमे सुखे बचाओ। जिसने तुम सरका बन जाते हो, उसका कभी बिनाश नहीं होता। तुम्हारी दया इष्ट से पापी हमें भी भयभीत न कर सकें।

**सोम रारन्धि नो हृदि गायो न यवसेष्या । मर्य इव स्य ओक्ये ॥**

( अ० १९५१९३ )

सौम्य सुखदाता सोम ! हमारे हृदय में आप वैसे ही रमण करें जैसे गायें जौ के खेत में रमण करती हैं अथवा जैसे मनुष्य अपने घर में रमण करता है।

**यां मेवां देवगणाः पितरश्चोपासने । तयामामद्य मेवया अग्ने मेघाविनं कुरु ।**

( अ० ३२।१४ )

हे ज्ञान प्रवाश के निधान ! आज मुझे उम मेघा से मेघावी, ज्ञानसम्पन्न, प्रकाशपूर्ण कर दो जिस मेघा की देव तथा पितर उपासना करते रहे हैं।

पुनरोहि वाचस्पते ! देवेन मनसा सह । वसोष्पते निरमय मर्ये-  
वास्तु मे श्रुतम् ॥ ( अथ० १११२ )

हे वाचस्पते ! वाणी के अधिष्ठिति ! पुनः उसी दिव्य मन के साथ आओ ।  
हे वसुष्पते ! ब्रह्मानेवालों के भी स्वामी ! मेरे अन्दर रम जाओ जिससे मेरा  
सुना हुआ मेरे अन्दर वस जावे, मेरा अङ्ग चन जावे, मेरा परित्याग न करे ।

यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृणां वृहस्पतिमें  
तदधातु । शशो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॥ ( यजु० ३६१२ )

हे वृहस्पते ! बृहत लोक-लोकान्तरों के स्वामी ! मेरे सबसे बड़े रक्षक ! मेरे  
नेत्र, हृदय या मन में जो छिद्र हों, न्यूनता हो, धाव हों, उसे आप पूरा कर  
दें । हे भुवनाधिष्ठिति ! हम सबको आप शान्ति प्रदान करें ।

जातवेदसे सुनवाम सोम मरातीयतो निदद्वाति वेदः ।  
स नः पर्वदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं, दुरितात्यग्निः ॥  
( ऋ० १९९१ )

हे जात मात्र को जानने वाले ! आपका ज्ञान सुप्रसिद्ध है । हम ज्ञान-दान  
का सवन करें, क्योंकि आप अदानी के धन को, ज्ञान को नष्ट कर देते हो ।  
इस पुण्यपथ में जो दुर्ग, प्रथूह या विघ्न खड़े हों, उन्हें आप पीस ढालें, नष्ट  
कर दें और हमें दुरित से, पाप से, दुराचरण से बैसे ही पार कर दें जैसे यात्री  
नाव पर चढ़कर समुद्र को पार कर जाते हैं ।

स नः पग्निः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः ।  
इन्द्रो विश्वा अति द्विष्यः ॥ ( ऋ० ८१६११ )

हे पुरुहूत ! तुम्हें मैं ही नहीं, अनेक युकार रहे हैं, तुम पग्निः हो, सबको  
पार लगाने वाले हो । अपनी स्वस्ति की नीका पर चढ़ा कर मुझे भी पार लगा-  
दो । भवसागर में राग-द्वेष के थपेड़े खाते-खाते बहुत दिन हो गये । हे शक्ति-

शाली परमेश्वर ! मुझे सभी प्रकार के द्वेषों से पृथक् करो । तुम्हारी स्वस्तिनाय पर चढ़ने वा अधिकारी मैं निवैर होऊ रही बन सकूँगा ।

उरुं नो लोकमनुनेपि विद्वान् स्वर्वत् ज्योतिरभयं स्वस्ति ।

कष्या त इन्द्र स्थविरस्य वाहू उपस्थे याम शरणा वृहन्ता ॥

( ऋ० ६।४।१८ )

हे ब्रह्महस्त ! परम सामर्थ्य से सम्पन्न प्रभु ! तुम स्थविर हो, पुरातन हो, सनातन हो, पूज्य हो । तुम्हारी भुजायें सब ओर फैली हुई हैं और विघ्नों का नाश कर रही हैं । तुम्हारी विशाल शरणदायिनी ये भुजायें, यह गोद हमें भी प्राप्त हो । आपही कृपा करके हमें ऐसे विस्तृत लोकों में ले चलें जहाँ सुख हो, प्रकाश हो, निर्भयता हो और स्वस्ति-कल्याण-शुभ-अस्तित्व हो ।

यत्र ज्योतिरजस्तं यस्मिन् लोके स्वर्हितम् ।

तस्मिन् मां धेहि पवमान अमृते लोके अक्षिते ।

इन्द्राय इन्दो परिस्थय । ( ऋ० १।१।३।७ )

हे मेरे पवमान ! हे मेरे इन्दु ! जहाँ अजस्त ज्योति है, जिस लोक में सुख हीं सुख है, वहाँ, उसी अमृत, अक्षित लोक में मुझे स्थापित कर दो ! देव ! तनिक द्रवित हो जाओ ! मेरी ओर दयादृष्टि करो !

अग्नये समिधमादार्पं वृहते जातवेदसे ।

स्तु मे श्रद्धाङ्ग मेधाङ्ग जातवेदाः प्रयच्छतु ॥ ( अथ० १।१।६।४।५ )

हे सहस्रों सूर्यों की प्रभा चाले ! प्रभु ! तुझ अरिन की मैं आज समिधा हूँ । अपने आपको तेरे अन्दर डाल रहा हूँ । अग्नि जैसे समिधा को अपने रूप का बना लेती है, तू भी मुझे अपने रूप का बना ले । हे वृहत, हे महान् ! हे जातवेद ! तू मुझे श्रद्धा तथा मेधा प्रदान कर । मैं श्रद्धालु तथा मेधावी बनकर तेरे जैसा ही जातवेद बन जाऊँ ।

मधुमन्मे निकमणं मधुमन्मे परायणम् ।

वाचा वदामि मधुमद् भूयासं मधुसंदशः ॥ (अ० ११३४३)

हे मधु के, अमृत के भाण्डार ! मेरा आमा-जाना, गति-प्रत्यागति, जाचार-च्यवदार सब मधुमय हो । बागी से मैं मधुर वचन छोलूँ ! मैं मधु के सदा, समान रूप वाला ही हो जाऊँ ।

यन्मन्यसे वरेष्य इन्द्र द्युक्षं तदाभर ।

विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावने ॥ (ऋ० ५३९१२)

हे वैभव के कोश ! जिस धन को तुम मेरे लिये वरणीय, उपयुक्त समझो, वही धन तुम सुखे दो । हम तुम्हारे उसी दान को प्राप्त करें जिससे कुरिसित नहीं, सुभग पूरण और पोषण होता हो ।

सख्ये त इन्द्र धाजिनो मा भेम शवसस्पते ।

त्वामभि यणोनुमो जेतारमपराजितम् ॥ (ऋ० ११११२)

हे बलवान ! शक्ति के केन्द्र परम प्रभु । धाप बलों के स्वामी हैं । हमें भी अपने सरय में ले लें । हे जेता ! हे ध्यपराजित ! आपके समुख हम श्रद्धा से ग्रन्थि हैं, वार-वार झुकते हैं ।

अग्ने ! नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।

युथोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्टान्ते नम उक्ति विधेम ॥

(ऋ० ११४९१)

हे अग्निदेव ! मेरे सर्वज्ञ भगवान् ! हमें अपना पेशवर्य देने के लिए सुपथ से ले चलो ! धाप उग समस्त कर्मों तथा प्रणीतियों को जानते हैं जिन पर चलने से पेशवर्य प्राप्त होता है । हमारे अन्दर से हुटिलता रूप पाप को हटा दो जिससे हम वार-वार आपके चरणों में प्रणत हो सकें, आपका सामीक्ष्य प्राप्त कर सकें ।

कत्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा शुचे । मृळा सुक्षत्र मृळय ॥  
 ( ऋ० ७।८९।३ )

हे तेजोराशि ! हे पवित्र ! हे व्राणकर्ता ! अपनी दीनता के बारण में  
 कर्तव्यपथ से विमुख हो गया हूँ, विपरीत चला गया हूँ, अब तुम्हाँ दया करो ।  
 तुम्हाँ सहारा दो । तुम्हाँ अदीन बना कर मुझे कर्तव्यपथ पर लगा दो ।

अपां मध्ये तस्थिवांसं तुणा विद्वारितारम् । मृळा सुक्षत्र मृळय ॥  
 ( ऋ० ७।९९।४ )

हे धार्मों से रक्षा करने वाले ! शोभन शक्तिशाली ! तेरा भक्त राशि की  
 राशि जल के बीच में खड़ा होने पर भी प्यास से मर रहा है । देव ! दया  
 करो, दया करो । इस प्यासे की प्यास को शान्त करो । सुक्ष दुखी को सुखी  
 करो । तुम आनन्द के भाण्डार हो । अपने आनन्द के कुछ कण मुझे भी भीए  
 में दे दो ।

आ त्वा रम्भं न जिव्रयो ररम्भा शबस्तप्ते । उश्मसि त्वा सधस्थ था ॥  
 ( ऋ० ८।४५।२० )

हे वलाधिपति ! वृद्ध की लकुटि के समान मैंने केवल तुम्हारा सहारा  
 लिया है । देव ! मैं चाहता हूँ कि तुम अब, सदैव के लिए मेरे सामने बने  
 रहो ।

मा प्रगाम पथो धर्यं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । मान्तः स्युरो अरातयः ॥  
 ( ऋ० १।०।५७।१ )

हे ऐश्वर्यशालिन् ! हम सत्पथ से दूर न जावें । सोम रूप हृष्य को पास  
 रख कर भी यज्ञ का त्याग न करें । अदान आदि शत्रु हमारे अन्तस्तल में  
 स्थिर न होने पावें ।

इमं मे वरुण श्रुधि हृषमद्या ध मृळय । त्वामवस्युराचके ॥  
 ( ऋ० १।२।५।१९ )

हे वरणीय, सर्वश्चेष्ट देव ! आज सो मेरी पुकार को सुन लो, मुझे सुनो कर दो । रक्षा की कामना लिये मैं तुम्हीं को बुला रहा हूँ ।

त्वञ्च सोम तो वशो जीवातुं न मरामहे । प्रिय स्तोत्रो वनस्पतिः ॥  
( ऋ० ११११६ )

हे सोम ! अपनी उमाशक्ति से समर्वेत देव ! यदि तुम हमें जीवित रखना चाहते हो, तो हमें कोई नहीं मार सकता । हे प्रिय स्तोत्रों वाले, हे भजन करने वाले भक्त के रक्षक ! तुम्हारे रक्षण के रहते हम कैसे मर सकते हैं ?

पृच्छे तदेनो वरुण दिवश्चुः उपो पमि चिकितुपो विपृच्छम् ।  
समानमिन्मे कवयश्चिदाहुः अर्यं ह तुभ्यं वरुणो हणीते ॥  
( ऋ० ३८६३ )

हे वरुण ! वर्णन करने योग्य देव ! मेरे अन्दर, तुम्हारे दर्शन की अभिलापा जाग उठी है । यह दर्शन कैसे हो, इसे पूछने के लिये मैं विद्वानों के पास जाता हूँ, पर सभी विद्वान् एक स्वर से बहने लगते हैं :—वरुण देव तुम से रुठ गये हैं, उन्हें प्रसन्न करो । देव ! तुम मुझसे क्यों अप्रसन्न हो ? मुझसे क्या अपराध हुआ है ? बताओ तो । मैं पूछ रहा हूँ—बताओ तो—मेरा अपराध क्या है ?

य आपिर्नित्यो वरुण प्रियः सन् त्वां आगांसि कृष्णवत्सखा ते ।  
मा त एनस्वन्तो यक्षिन् भुजेम यन्विष्मा विप्रः स्तुयते वरुधम् ॥  
( ऋ० ३८८१६ )

हे वरुण ! यह स्तोता तुम्हारा अपना प्यारा सखा है, किर भी इससे तुम्हारे प्रति कितने अपराध होते रहते हैं ! हे पूजनीय ! पापी बन कर हम भोग न भोगें । हे सर्वज्ञ ! अब इस स्तोता को अपनी शरण में रख लो, जिससे इसकी प्रबुत्ति ही पाप की ओर न हो । तुम्हारी आँखों के आगे से हटकर ही तो यह पाप की ओर जाता है । तुम्हारी देखनेरेख में रहेगा, पल-पल में तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव करेगा, तो पाप की ओर जा ही न सकेगा ।

का ते अस्ति अरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मधवन् दाशेम ।  
विश्वामतीराततने त्वाया अधा म इन्द्र शृणवो हवेमा ॥

( ऋ० ३२१३ )

हे मधवन् ! इन सूक्तों से, सुन्दर उक्तियों से वया मैं तुम्हें अलंकृत कर सकता हूँ ? वया कभी ऐसा समय नहीं आवेगा, जब मैं इस अस्तित्व को ही तुम्हें समर्पित कर दूँ ? नहीं, नाथ ऐसी कृपा करो कि मैं अभी अपने आपको ही तुम्हारे लिये दे दूँ । आज मेरी समस्त मतियाँ तुम्हारे लिये ही विस्तृत हो रही हैं, तनती-खिचती चली जा रही हैं । हे इन्द्र ! आज तो मेरी इस पुकार को सुन ला ।

का ते उपेतिर्मनसो वराय भुवदग्ने शंतमा का मनीषा ।  
को वा यज्ञैः परिदक्षं त आप केन वा ते मनसा दाशेम ॥

( ऋ० ३७६१ )

हे भग्ने ! तुम्हारे मन को धरने का कौम सा उपाय है ? ऐसी कौन सी हमारी मनीषा है जो तुम्हें सर्वोत्तम सुख या शान्ति दे सकती है ? ऐसे यज्ञ यहाँ किसके पास हैं, जो तुम्हारे दृश्य को माप सकें, ग्रास कर सकें ? प्रभो ! हम किस मन से तुम्हारे आगे अपना समर्पण करें ?

कस्य ते रुद्र मृद्याकुर्हस्तो योअस्ति भेषजो जलायः ।  
अपभर्ता रपसो दैवस्य अभी नु मा वृपम चक्षमीथाः ॥

( ऋ० २१३३१ )

हे रुद्र ! रोगों तथा कष्टों को दूर भगाने वाले । तुम्हारा वह सुखदायक हाथ कहाँ है जो धौपघूर्णप है तथा शान्ति देने वाला है ? हे देव ! तुम्हाँ दिव्यता-सम्बन्धी पापों को नष्ट करने वाले हो । हे वृपम ! अभीष्ट की वर्पा करने वाले ! मुझ पापी को, हुखी को, छाना करो ।

घर्यं घा ते त्वे इत् उ इन्द्रविशा अपि स्मसि ।

नहि त्वदन्यः पुरुहृत कश्चन मधवनस्ति मर्डिता ॥ ( ऋ० १६६१३ )

हे ऐश्वर्यशाली देव ! हम तेरे हैं, निश्चित रूप से तेरे हैं । तू सर्वव्यापक है, महान् है । तेरी कृपा से हम भी विप्र, ज्ञानी, व्यापक और महान् बनें । हे अनेकों के द्वारा बार-बार पुकारे गये प्रभु ! हे मघवन् ! तेरे अतिरिक्त कोई भी अन्य हमें सुख देने वाला नहीं है ।

सखीयतामविता वोधि सखा गृणान् इन्द्रं स्तुवतेष्योधः ।

वयंहाते चक्रमा सवाध आभिः शमीभिः मद्यन्त इन्द्र ॥

( श० ४।१७।१८ )

हे इन्द्र ! तुम सखाभाव की इच्छा करने वालों के सखा हो, रक्षक हो । मुझ स्तोता को, अपने भक्त को, वोध दो, प्रकाश में ले चलो, जीवन का दाम दो । हम अपना सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पण करते हैं । आप अपनी इन शान्तिदायिनी शक्तियों के साथ हमें महत्ता की ओर, मंगल और कल्याण की ओर ले चलें ।

स त्वं नो अग्ने अवमो भवोती नेदिष्टो अस्या उपसो व्युष्टौ ।

अवयक्ष्य नो वरुणं रराणो वीहि मृलीकं सुहवो न एधि ॥

( श० ४।१९।५ )

हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! उपा का उदय हो गया है, अविनेकस्पी रात्रि का तम दूर हो चुका है । इस पावन वेला में तुम मेरे निकटतम आ जाओ, ऊपर से नीचे उत्तर आओ, परम से अवम बन जाओ, तुम्हारी ऊँचाई तक मैं न पहुँच सकूँगा । अतः तुम्हीं मेरी भूमि तक आ जाओ और यहाँ मेरे चारक, अवरोधक, तुम तक पहुँचने में वाधा डालने वाले मेरे इन बन्धनों को काट दो । पिता, मेरी यह उपाकाल वाली स्थिति तुम्हें सुख देगी, तुम्हें प्रसन्न करेगी । मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और मेरे लिये सुहव हो जाओ, सुगमता से पुकारने योग्य बन जाओ ।

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव ।

यद् भद्रन्तन्न आसुव ॥ ( यज० ३।०।३ श० ५।८।२।५ )

हे प्रेरक, सर्वोत्पादक देव ! हमारे समस्त दुरितों, दुराचरणों, पारों को नष्ट कर दो और जो कल्पाणकारी गुण हैं, उन्हें ही हमें प्रदान करो ।

परि पूपा परस्ताद् हस्तं वधातु दक्षिणम् । पुनर्नो नष्टमाजतु ॥

( ४० ६१५४११० )

है देवताओं का पोषण करने वाले, दिव्यता का संवर्धन करने वाले, नष्टि को साहित में परिणत करने वाले पूर्ण, तुम्होंने सब के पोषक हो, तुम्होंने प्रजापति हो, तुम्होंने पुष्टि हो । देवधिदेव ! हृषा करो, अपना दक्षिण हस्त मेरे ऊपर रखो । मेरी वामता नष्ट हो । आपकी चरदायिनी छाया में, मंगलमयी शरण में, मेरा योग्या हुआ अपना रूप सुने पुनः प्राप्त हो । मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम भी मेरे ही हो—यह भाव अब मेरा संतृप्त साथी रहे । दिव्यता के प्रकाश में, आपके लाश्रय में, आपका होकर रह सकूँ मैं अपने रूप को भूल गया था, आपको द्वोढ़ बैठा था—अब मेरा मुझ में सदैव त्रुपस्थित रहे—वहस यही याचना है, यही प्रार्थना है ।

अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावपुर्थिवी उभे इमे ।

अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुच्चरादधरादभयं नोऽस्तु ॥

अभयं मित्रादभयमित्रादभयं शतादभयं पुरो यः।

धर्मयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ॥

( अर्द्ध १९(१७०५, ६ )

अन्तरिक्ष हमें अभय करे। आवा और पृथ्वी दोनों होकों में हम निर्भय हों। पीछे से, आगे से, ऊपर से, नीचे से हमारे लिये अभय ही अभय हो। हम मित्रों से निर्भय हों, अमित्रों से निर्भय हों, जाने हुए और जो आगे आने वाले अनज्ञान हैं उनसे भी हम निर्भय हों, दिन और रात्रि में हम निर्भय हों, समस्त दिशायें और उनमें रहनेवाले प्राणी मेरे भित्र हों।

## देव ! बोलो

आतारो देवा अधिवोचता नो मा नः निद्रा ईशात् मोतजलिपः ।  
यर्यं सोमस्य विश्वद् प्रियासः सुवीरासो विद्यथमावदेम ॥

( का० १४८१५ )

देव ! बोलो । कितने दिन थीत गये ! बोलना तो दूर, तुम मेरी ओर देखते भी नहीं । यह ठीक है, साम्मुख्य समानधर्माभीं का होता है । कहाँ तुम सतत जागरूक और कहाँ मैं निद्रालु ! कहाँ तुम परमशान्त और कहाँ मैं जलपी, चाढ़ी । कहाँ तुम सोम के प्यारे और कहाँ मैं केवल भासधारी । कहाँ तुम वीर, प्रेरक और सत्यदृष्टा, कहाँ मैं कायर, गतिहीन एवं असत्-लीन ! यह ठीक है, पर यह भी ठीक है कि तुम चाता हो, रक्षक हो, संकटों से निकालने वाले हो, विषदाओं से बचानेवाले हो, बलेश-कष्ट को नष्ट करने वाले हो । तो क्या तुम मेरा ग्राण नहीं करोगे ? क्या मैं हसी प्रकार राग-द्वेष के धरेहे स्नाते-खाते, तम और रज के पाशों में ग्रसित, निद्रा और जलप का दयनीय जीवन व्यतीत करते हुए अपने अस्तित्व को विकृत होते देखा करूँगा ? शत्रुओं ने मुझे शक्तिहीन कर दिया है, इसीलिये तो तुम्हारे अबलम्बन की याचना करता हूँ, घार-घार विनय करता हूँ, तुम्हें बुलाता हूँ । देव ! आओ ! अपने सरस वचनों द्वारा मुझे आश्वस्त करो । कुछ तो कहो । तुम न आये, तुम न चौले, तो यह निद्रा के चंगुल से कैसे निकल सकेगा, जलप के शासन से कैसे मुक्त होगा ? प्रभु का प्यारा कैसे बन सकेगा ? प्रभु का प्यारा बनने के लिये तम एवं रज से निकल कर सत्त्वस्थ होने की आवश्यकता है—ऐसा उन सभी मुनियों ने वहाँ है जिन्होंने तनिक भी दया-दृष्टि से मेरी ओर देखा—पर ये रवर्यं तुम्हारी ओर देखते थे—देखकर चले गये—मेरा उदार न हो सका—सत् की संधिनी औपर दमके पास पी ही नहीं—वह तो तुम्हारे ही पाम है । प्रभु के साथ तुम्हारी

नित्य संधि है, निरन्तर सुपास है, अनवरत नैकव्य है। इसीलिये तो तुम्हें दुला रहा हूँ। देव ! बोलो ! अपनी प्रेरक शक्ति, वीरण-विभा ज्ञान के स्वरों के साथ, विद्यु की वाणी बोलते हुए मेरी लोर भी भोड़ दो। देव ! बोलो ! मेरे ज्ञाता ! बोलो ! शरीर से भत दिखाई दो, पर कानों में तो अपने मधुर स्वर पहने दो !

विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये चायध्यं नो दुरेवाया अभिहुतः ।  
सत्यया घो देवहृत्या हुवेम ग्रुणवतो देवा अवसे स्वस्तये ॥

(ऋ० १०।६३।११ )

देव ! तुम यजत्र हो ! तुम्हारा यज्ञ निरन्तर निर्वाध चला करता है। यज्ञ में तो दान ही दान है, ओषधि-उपचार का ही नहीं, रोग को निवारण करने का ही नहीं, पोषण-पाठन का भी, शक्ति-सामर्थ्य का भी। मुझे ओषधि एवं पोषण दोनों की आवश्यकता है। कर्म-सम्पत्ति कभी माता-पिता से मिली थी, पर आज तो वह सभी प्रकार से जीण हो चुकी है, गुरुजनों से ज्ञान-सम्पदा भी प्राप्त हुई थी, पर आज न जाने वह कहाँ चली गई है, भक्ति-भवानी ने भी कभी कृपा की थी, पर आज तो मैं भाव-सुगन, विमलता-बृत्त, पावनता-पंगु बना हुआ न जप कर पाता हूँ, न तप, न अन्य कोई साधना। अनुरूप का संकल्प तथा प्रतिकूल का परित्याग करते नहीं बनता। हाँ, तुम्हारे रक्षण में विश्वास है, तुम्हारे गोप्तृत्व का इसीलिये तो वरण कर रहा हूँ—अपना नियंदन इसीलिये तो तुम्हारे चरणों तक पहुँचा रहा हूँ। अपनी उत्ति, रक्षा के लिये तुम्हें पुकार रहा हूँ। तुम ब्राण करने के लिये न आये, तो मेरी स्वस्ति, सु=सुन्दर, अस्ति=सत्ता विनष्ट हो जायगी। मैं दुरेवा—दुर्गति का आखेट बन जाऊंगा, कुटिलता मेरा कचूमर निरुल डालेगी ! ब्राण तुम मेरी इस दुर्दशा को देखते रहोगे ? मेरे उद्धार के लिये नहीं आओगे ? नहीं, देव ! आओ ! मुझे बचाने के लिये शीघ्र से शीघ्र आजाओ। तुम्हें मैं अपनी सत्य, अन्वरतम की वाणी से पुकार रहा हूँ। दूल और दृश्य अव मेरे पास नहीं रहे। हृदय से सीधे ध्वनि

निकल रही है । देव ! इसे सुनलो, इस आतं वाणों को बर्जंगोचर होने दो ! तुम यजव्र हो, दीन-हीन की सेवा करने में, साथ रह कर उसके दुर्स दूर करने में तुमने कभी आगार्ष्यान्वय नहीं किया । फिर आज यह विपरीत आत वयों ? नहीं, देव, आओ, मेरे कल्पाण के लिये आओ, सुर्स बचाओ, सुर्स ज्ञान दो ।

**उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः ।**

**उतागश्चक्रुपं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ (श० १०।१३।१)**

देव ! देवो, मैं कितना नीचे गिर गया हूँ ! धानन्द से खंचित हुआ, प्रभु की गोद से पृथक हुआ, उद्दि में विभ्रम आया, अपनों की रक्षति ही जाती रही, चिन्तन और मनन साथ छोड़ गये, प्राण जैसे-तैसे चिपटा रहा है, पर अब वह भी कैंच करना चाहता है । पवित्र साधियों में विदुक्त होकर और पाप से संयुक्त होकर आज इम मरण की घिनीनी दशा को प्राप्त हो गया हूँ—धौर कष हेठल रहा हूँ—ऐसी अवांछनीय अदस्या में पढ़ा हूँ कि कुछ बहते नहीं बनता । देव ! मर्मान्तक पीड़ा है । उठने की शक्ति नहीं रही । अब तुम्हीं उठा दो, हाथ पकड़ कर खड़ा कर दो । मुझ अंधेरी लाटी तुम्हीं हो । इस मरे हुए को पुनः जीवन-दान दो । तुम्हारे लाते ही प्राण पुलकित हो उठोगे, हृदय का इपन्द्रन फड़कने लगेगा, रोम-रोम आहुदित हो जायगा । इस मृत को संजीवनी-सुधा पिला कर एक बार पुनः अपने धनोधरान की धोपगा होने दो । मुझे जीवन दो, मुझे उठाओ, मुझे पवित्र बनाओ ।

**न दक्षिणा विचिकिते न सव्या न प्राचीनमादित्या नोत पश्चा ।**

**पाक्या चिद् वस्यो धीर्याचिद् युप्मानीतो अभयं ज्योति रश्याम् ॥**

(श० १२।१।१)

हे वसुओ । हे आदियो । हे प्रकाश-गुरु देवो । तुम वामवी दक्षिणों से युक्त हो, असंद एवं असर स्थिति में निवास करते हो । तुम्हारे शरीर में प्रकाश की किरणें निकलती हैं—वहां संधरार का चिद्र तक नहीं । पर मैं सप्तन अन्धकार में पढ़ा हूँ । मेरे चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार है । न दादिनी

जोर कुछ दिखाई देता है, न वाई जोर, न भागे और न पीछे । यह अन्धकार सुने खाए जा रहा है । इसकी उपस्थिति ने सुने भयभीत कर दिया है । मैं कहीं से ज्योति की एक किरण भी प्राप्त नहीं कर रहा हूँ । तड़प रहा हूँ, अधीर हो उठा हूँ, प्रकाश की प्रतीक्षा में सुग के युग निकल गये, पर अन्धकार ही बना रहा । प्रकाश केहीं से भी नहीं मिला । तो क्या यह तमसाच्छब्द रात्रि ही सुने आच्छादित किये रहेगी ? क्या मैं इम अंधकार में ही भट्टा करूँगा ? क्या यह भवावह बैला कभी समाप्त नहीं होयो । नहीं, देव, ऐसा नहीं । अपने ज्योति-रथ पर चढ़कर यहाँ चले आओ । तुम देव हो, दूसरे के सुख में ग्रास ढालने वाले हो, मरे हुए को जीवन-दान देने वाले हो । आओ, मेरे पास आओ । मुझ अधीर और पक्ताभिलापी के पास आओ । तुम्हारे आते ही अंधकार भग्न हो जायेगा, नैराश्य जाता रहेगा । उपा के उदय के समान उद्दित हो तो जाओ ! जन्म-जन्म के दूस अधीर अन्धे को निर्भय ज्योति के दर्शन तो हों ।

जीवान्मो अभिधेतन आदित्यासः पुरा हृथोद ।

कद्मस्थ हृवन श्रुतः ( क्र० ८-६७-५ )

हे आदित्यो ! अदिति माता के प्रकाश-पीयुप को पान करने वालो ! ज्योति-मधु के अमर सेवियो ! तुम्हारे रहते क्यों मैं मर जाऊँगा ? तुम हवनेंशुत हो, पुकार को सुनने वालो हो ! ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। कि कोई तुम्हें पुकारे, आतं स्वर में तुम्हारा आह्वान करे, कातर होकर तुम्हें बुलावे, और तुम न जाओ ! तुम तो दीन की विनय पर दौड़े चले जाते हो और सामने आकर उपस्थित हो जाते हो ! तो किर मेरी पुकार व्यर्थ क्यों जा रही है ? वह तुम्हारे कानों में क्यों नहीं पड़ी ? तुम कहां हो ? तुम जहां हो, क्या वहां तक मेरा करुण-कन्दन नहीं जा पाता ? नहीं, देव, तुम जहां कहीं हो, वहो से पीड़ित की पीड़ा को अनुभव कर लेते हो ! अतः आओ, मेरे मरण के पूर्व ही आ जाओ, जब तक सांसें चल रहीं हैं, जीवन-ज्योति टिमटिमा रही है, तब तक आ जाओ, दौड़ कर आ जाओ और इस मृतप्राय को बचालो !

**भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।  
स्थिरै रंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभि वर्यदोमहि देवहितं यदायुः ॥**  
( क्र० १-८५-८ )

देव कृपा करो । अस्वहितत और अभद्र अब हमारे पास न आवें । उन्हीं के कारण मरण की निदाखण दशा तक हम पहुँच गये थे । 'तुमने जीवन-दून दिया । अब जितनी तुम्हारे द्वारा स्थापित आयु है, उतनी आयु तक हम स्थिर हूँ अंगों से तुम्हारा प्रियाचरण करते रहें, कानों से भद्र का ही अवण करें और आंखों से भद्र का ही दर्शन करें । तुम यज्ञ करने वाले हो । हमारे चतु-ध्रोव्रादि सभी अंग इस यज्ञ कार्य में सहचर बनें । वे सेवक बनकर यज्ञ के भरण-पोषण-प्रसरण में सहायता दें । यही कार्य तुम्हारे संतोष का कारण हो सकेगा । देवहित में यह जीवन समर्पित हो । जो उनका दिया हुआ है, वह उन्हीं के कार्य में लगे । समर्पण की यह भावना हो भद्र के भव्यागम का हेतु है । जीवन पाकर अब हम अयज्ञिय न रहें । देव यज्ञ में आते हैं, वे मेरे जीवन-यज्ञ में भी प्रसन्न मन से आवें । यह यज्ञमय जीवन उन्हें आहुदित बर सर्के, यही कामना है ।

**अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णु विंचकमे ।**

**पृथिव्याः सप्त धामभिः । ( क्र० १-२२-१६ )**

देवो ! तुम्हें विष्णु की, सर्व व्यापक प्रभु की शक्ति प्राप्त है । तुम उनकी सन्निधि में जो रहते हो । जो जिसके साथ रहता है, उसके गुणों को भी प्राप्त कर लेता है । प्रभु ने पृथिव्यादि सप्त धामों की रचना की है । भू से साथ लोक तक उसकी रचना का प्रकाश है । यह रचनात्मक सामर्थ्य प्रभु के अन्दर है, तो देव भी हस शरीर के अन्दर यह रचना कर रहे हैं । पैरों से लेकर तिर तक उन्हीं की लीला विस्तृत हो रही है, उन्हीं का पराक्रम प्रकट हो रहा है । प्राण देव है, मन और तुष्टि देव है, ज्ञानेन्द्रियां ज्ञापि हैं, कर्मन्द्रियां अप्युपु हैं । इनका अप्रणीत चैतन्याधिष्ठित आत्मा हृन्द्र है, देवाधिदेव है । यदि ये सब विष्णु के पथ पर चलें, तो रक्षा ही रक्षा है, भद्र ही भद्र है, कर्त्याण ही कर्त्याण है ।

यह केन्द्र उन्हें दिघ्यता के धनी निष्काम देवों में निल गया है। हृदय की धीतियाँ, धारणायें, संख्यनायें, कारणित्री रचनात्मक शक्तियाँ सबकी सब इन देवताओं की ओर आकर्षित हो रही हैं। प्रेमभरित भावनाओं की लासकि आज देवों में संलग्न हो जाना चाहती है। दैवी भाद्रेश भी इसी दिशा का संकेत दे रहे हैं। देवों के अतिरिक्त अन्य कोई सुखदेने वाला, प्रीति एवं तृप्ति प्रदान करने वाला दियाई भी नहीं देता। यह तथ्य आज स्पष्टता पूर्वक प्रत्यष्ठ हो रहा है। अतः मेरी समस्त कामनायें देवों में संयत हो गई हैं।

ऋतस्य ऋतेन आदित्या यजत्रा मुञ्चतेह नः ।  
यज्ञं यद् यज्ञवाद्वसः शिक्षन्तो नोपशेकिम् ॥

( धर्मवं ५-११४-२ )

देव ! तुम यजत्र हो, याजक हो, यज्ञ कर्ता हो, पर साथ ही यज्ञवादक भी हो, अन्य की यज्ञक्रिया को बहन तथा सफल करने वाले भी हो। यज्ञ की भावना भी यदि किसी के अन्दर आती है तो तुम अपनी प्रेरणा से उसे कार्यान्वित भी करा देते हो। देव ! मेरे जीवन को भी यज्ञमय बना दो, दिघ्यता में परिणत कर दो। मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, पर नहीं कर पाता। मार्ग में अनेक विष्णु आकर खड़े हो जाते हैं और मेरे यड़े हुए हाथों को रोक देते हैं। देव मुझे इन विष्णों से मुक्त कर दो। तुम इस उक्ति की विधि से परिचित हो। तुमने उसी के बल पर प्रकाश प्राप्त किया है। इस विधान में, यठ में, प्रसाद में, प्रत का भी प्रत विद्यमान है, यठों का यठ, प्रसादों का भी प्रकाश विराजमान है। दिघ्यता के इस खोत की ओर मेरे सर्वांग को मोड़ कर तुम मुझे भी निर्वापि कर दो, यज्ञ करने में समर्थ पना दो। देवाधिदेव यज्ञ है, सर्वदुत् यज्ञ है, उन्होंने जीवों के लिये अपना सर्वस्व उन्मुक्त कर दिया है। अभागे तो दम है, जो उन्हें पहिचान नहीं पाते। देव ! तुमने तो उन्हें पहिचान लिया है, यज्ञों के भी यजत्र के साथ तुम दिनरात संयाद करते हो। दम भी उससे संयाद कर सके, उसकी संगति में रह सके, उसके कहला सके। यह सो तुम्हारी कृपा

से ही संभव है। जब तक हम तुम्हारा वरण नहीं करते, सारिक प्रकाश में नहीं पहुँचते, तब तक उनका सामीप्य कहां, उनका वरद हस्त कहां?

ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजन्मा अमृताः ऋतज्ञाः ।  
ते नो रासन्तामुखगायनद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥  
(ऋ० ७-३५-१५ अथर्व १०-११-५)

देवो ! तुम्हारे अन्दर पैसे भी देव हैं जो यज्ञिय देवों में भी यज्ञिय हैं, पूज्यों में भी पूज्य हैं, जो सृष्टि के आसम में मनु के यजत्र बने थे<sup>१</sup>, जो अनुत हैं और ऋतज्ञ हैं, प्रभु के इस सृष्टि-यज्ञ के विज्ञान में जिनका अनुपम भाग-दान है और इसी हेतु जिन्हें 'ब्रह्मगः पुर एतारः' (यत्पु० १०-१४) इस ब्रह्माण्ड को आगे ले जाने वाले भी कहा जाता है, वे पूज्य देव आज हमें विस्तृत यश तथा प्राण-शक्ति प्रदान करें। देव ! तुम सब अपनी कल्याण कारिणी शक्तियों के द्वारा हमारी सदैव रक्षा करो।

स्वस्ति देवों के पास है; विशाल प्राणवत्ता तथा यश उन्हीं के हाथों में है। देव प्राण शक्ति का साक्षात् स्वरूप हैं। देवायिदेव परमेश्वर तो इन सभी शक्तियों के भाण्डार हैं। जो साधना, तपश्चर्या द्वारा ज्ञान-निर्भूत-कलमण बने, वे देव अपनी शक्ति परमेश्वर से ही प्राप्त कर सके थे। वे भी ऋत का ज्ञान प्राप्त करके, ऋत को चीरकर, अमृत बने थे। उनकी कीर्ति महान है, यश विशाल है। उनके मरणसंग से, उनके पदों, पद्मतियों का अनुसरण करने से उनके यश का कुछ भाग हम भी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी स्वस्ति से हमें भी स्वस्ति मिल सकता है। देवो ! कृपा करो। हमें यश दो, कल्याण दो, हमारा जीवन मंगल से पूर्ण हो।

१ [ मनु के ऋतज्ञ अमृत यजत्र ऋ० १०-३५-१४ के द्वितीय चरण में भी आये हैं। इसके आगे मंत्र १५ के तथा १०-६६-१५ के तृतीय तथा चतुर्थ चरण ज्यों के ख्यों ऊपर उद्धृत मंत्र ७-३५-१५ के तृतीय तथा चतुर्थ चरणों से मिलते हैं। ]

ननु के यज्ञिय देवों का उल्लेन्न श्वरवेद ८-३० की निपादित ग्रन्थाओं में भी हुआ है :—

न हि चो अस्त्यर्भको देवासो न कुमारकः ।

विश्वे सतो मदान्त इत् ॥ १ ॥

इति स्तुतासो अस्या रिशादसो ये स्यव्रयश्च विशाश्च ।

ननोद्देवा यद्विद्यासः ॥ २ ॥

ननु के यज्ञिय देव तेरीस हैं । इन ही स्तुति की जानी है । ये पाप, हिता, वध आदि को नष्ट करनेवाले हैं । इन देवों की धरत्या न तो अर्भक, वर्षों को सो होनी है और न कुमारों के समान । ये सब तरुण बने रहते हैं, सबके सब नहान होते हैं ।

ते नस्त्राद्यं तेऽयत त उ नो अविश्वोचत ।

मा नः पथः पित्र्यान्मानवादधि दूरं नैष परावतः ॥ ३ ॥

ये देवास इह स्थन विश्वे वैश्वानरा उत ।

अस्मभ्यं शर्न सप्तधो गवे अश्वाय यच्छ्रुत ॥ ४ ॥

ये देव हमारा त्राण करें, हमारी रक्षा करें, हमने कोलें । वे हमें मानव तथा पित्र्य पथ से दूर न करें । हम संस्कृत तथा परोपकारी बनें । जो देव तथा समस्त वैश्वानर, मानव हितकारी नेता यहाँ हैं, वे हमारे लिये, गाय तथा अश्व के लिये विस्तृत नुख प्रदान करें ।

२ [ ये विश्वति वयस्तरो देवासो वर्हिरासदन् । श० ८-५८-१ तथा धृष्टवं १०-३-१२, २३, २७ में भी तेरीम देवों का वर्णन है । श० १-१२९-११ में यी, पृथिवी तथा अप स्थानीय ग्यारह ग्यारह देवों का उल्लेख है जो संषया में ३३ हो जाते हैं । श० ३-१५०-११ तथा १०-६५०-९ में भी देवों की दिव्य, पार्थिय तथा अन्य सीन विभागों में विभक्त किया गया है । ]

यतु० २०-२१ इन्हें 'वया देवा पूर्वादश व्रदस्त्रिशाः नुरापसः' कहता है ।

'वृद्धस्पतिपुरांदिताः' ।

वृहस्पति इन देवों का पुरोहित है। अर्थवं १९-२७-११, १२, १३ में चौ, अन्तरिक्ष तथा पृथिवी पर स्थित भ्यारह-भ्यारह अर्थात् ३३ देवों द्वारा हवि-सेवन की प्रार्थना है।

यज्ञस्य चक्षुः प्रभृति मूर्खं च याचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ।  
इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥  
( अथ० २३५; १९५८ )

देवो ! विश्वकर्मा प्रभु ने इस सृष्टि को यज्ञ के रूप में उत्पन्न किया था और हम सबको आज्ञा दी थी कि हम इस यज्ञ के सूत्र को पकड़े रहें। इसे विच्छिन्न न होने वें, वयोंकि यज्ञ ही कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हम यज्ञ से चिपटे रहेंगे, तो दिव्यता भी हमारे साथ बनी रहेगी। देव प्रसन्न होकर हमें कल्याण का मार्ग प्रदर्शित करते रहेंगे और उस पर आरुद भी कर देंगे।

देवो ! मैंने यज्ञिय जीवन व्यतीत किया है। मेरा समस्त शरीर, मेरा अङ्ग-अङ्ग, यज्ञ की पुनीत आराधना में, अनुष्ठान में संलग्न है। मेरा मुख, मेरे नेत्र यज्ञ का भरण-पोषण कर रहे हैं। यज्ञ के लिपु वे साधन बन गये हैं। इनका साध्य यज्ञ ही है। जो कुछ मैं खाता हूँ, जो कुछ मैं देखता हूँ, सब यज्ञ के लिये है, यज्ञ के ही अर्पण है। अपनी वाणी, श्रोत्र तथा मन सब से जैसे हवन ही कर रहा हूँ। इनकी क्रियाओं को हवि रूप देकर यज्ञ में ही आहुत कर रहा हूँ। जो कुछ बोलता हूँ, सुनता हूँ, मनन एवं संकल्पन करता हूँ, वह केवल यज्ञार्थ, पवित्र भावना से, परहित को दृष्टि में रखकर। मैं अपनी जान में, अपनी समझ के अनुसार, किसी का अहित नहीं करता। तो देव ! फिर भी तुम क्यों कृपा नहीं करते ? क्यों रुठ रहे हो ? कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ ? कब से तुम्हारे पान के लिये यह अलंकृत, मधुर सोम रखा है ! कितनी साध से मैंने इसे प्रस्तुत किया है ! देवो ! आओ, सुमनस्यमान, प्रसन्नमुद्गा, आहाद पूर्ण हृदय लेफर आओ। आकर मेरे इस यज्ञ को सफल बनाओ, मुझे कृतकृत्य करो !

इसकी समस्त ग्रन्थियाँ तुम्हें ज्ञात हैं । कृत पाप अकृत, आने आने वाले पाप से कैसे श्रित है, उस गाँठ को कैसे खोला जा सकता है—यह सब तुम्हारा जाना हुआ है । तो देव, कृपा करो । मेरी ग्रन्थियाँ को भी सुलक्षणा दो, खोल दो मुझे आज ही कृत पूर्ण अकृत पाप से परिपूर्णतया मुक्त कर दो, पार लगा दो । स्वस्ति के लिये, कल्याण के लिये मुझे निष्पाप यना दो ।

**देवानां भद्रा सुमति र्क्षज्यतां देवानां रातिरभिनो निवर्त्तताम् ।**

**देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥**

( छ० १-८९-२ यत्तु ० २५-१५ )

देवो । तुम ज्ञान हो, आर्जव में ही तुम्हारी रुचि है, सरलता से ही तुम्हारा स्नेह है, और इसी हेतु कल्याणी सुमति तुम्हें सदैव प्राप्त है । सुमति, भद्रा सुमति, श्रेय की ओर ले जाने वाली सुश्रद्र उद्दित तुम्हारे साथ रहती है । इस सुमति का कुछ अंश मुझे भी दे दो । तुम्हारा मंगलमय दान मेरे लम्बुख वर्तमान हो जाय, निःशेष रूप से, सब ओर से वह मुझे प्राप्त होने लगे । यह इतना सहज हो जाय कि मुझे तुम्हारे सर्वय का अनुभव होने लगे, निकटता से मुझे तुम्हारी मैत्री की अनुभूति हो और मैं उसे पा जाऊँ । तुम्हारे सर्वय में तुम्हारे दान में, तुम्हारी भद्र सुमति में, तुम्हारे आर्जव में निवास करने से आयु लम्बी हो जाती है, जीवन की अवधि बड़ जाती है, मृत्यु की मारकता दूर खड़ी रहती है । इस जीवन के लिए मेरी आयु को, देव ! लम्बा कर दो । जीवन-प्राप्ति के लिये मृत्यु को टाल दो, मेरी आयु को बढ़ा दो । जीवन, जीवन—मुझे मेरा प्राण प्राप्त हो ।

**त आदित्या आ गता सर्वतातये भूत देवा वृत्रतूयेषु शंभुवः ।**

**रथं न दुर्गाद् च सवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अहंसोनिष्पिपर्तन ।**

( छ० १-१०६-२ )

अपनी संकीर्णता, संकुचित अवस्था, मेरा-तेरा पन, लघुदर्शिता, स्वल्पता आज मुझे युरी तरह खल रही है । मुझे भूमा, व्यापकता, उदारता, विशालता,

सर्वताति, सम्पूर्ण विस्तार चाहिये । संकोच अथवा कार्पण्य करते करते मैं इस पिण्ड, इस शरीर के अन्दर ही समा गया हूँ । मेरा अपना आकाश जैसा उन्मुक्त रूप पिण्ड की सीमा में आवद्ध हो गया है । कारागार जैसी इस कोठरी में पूर्ण प्रकाश न मिलने से दम घुट रहा है । यह तो वृत्र है, वारक है, मेरे व्यापक रूप का आच्छादक है, विरोधी है । वृत्र के तोड़ने में, वृत्र के साथ बुद्ध करते हुए उसे नष्ट करने में देव ! तुम्हीं मुझे कल्याण कारी सिद्ध हुए हो । तो देव ! आओ । मेरे बंधनों को तोड़कर मुझे मुक्त करो, संकीर्णता से निकाल-कर मुझे मेरा समग्र विस्तार दो । देवो ! आदित्यो ! तुम सुन्दर दानी हो । तुम वसु हो, उजड़े को बसाने वाले हो । तुमने बहुतों के रथ को कटिनाइयों से पार किया है । आज मुझे भी समस्त पापों से पार लगा दो । पाप दुर्ग है, सीमा में आवद्ध करने वाला है । इसके पाशों से, आवरणों से पार होकर ही पुण्य का प्रशस्त, विस्तृत चेत्र प्राप्त होता है जहाँ सबकी ताति है, समृद्धि है, व्यापक भूमा की मंगलमयी अवस्था है ।

यूयं नः पुत्रा अदितेरदद्या अभिक्षमध्वं युज्याय देवाः । (ऋ० २-२८-३)

दे देवो ! हे अदिति के पुत्रो ! हे अखण्ड प्रकाश में निवास करने वालो । माता पृथिव के अमृत दुर्घ का पान करने वालो ! हे अनागस स्थिति का अनुभव करने वालो ! मुझे अपना सायुज्य दो, अपनी मैत्री, अपनी संगति प्रदान करो । मुझे ज्ञान करो, पापों को मिटाकर मेरा उद्धार करो ।

## पुरुष सूक्त

धमर कोप ने पुरुष का अर्थ ज्ञेयज्ञ आत्मा किया है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही अर्थों में इसका प्रयोग प्राचीन वाक्यमें उपलब्ध होता है। गीता ने तीन पुरुषों की कल्पना की हैः चर, अचर तथा पुरुषोत्तम। सांख्य ने प्रकृति तथा पुरुष दो मूल तत्वों की कल्पना में पुरुष को प्रकृति से पुथक कर दिया है, परन्तु गीता ने प्रकृति-विनिमित ब्रह्माण्ड को चर पुरुष की संज्ञा दी है। अद्वैत वाद का आधार लेरा ऐसा किया गया है जिसमें पुरुषोत्तम ही भवनी परा तथा अपरा द्विविध प्रकृति में प्रविष्ट हुआ अचर तथा चर रूप में भासित होता है। उसकी एक प्रकृति अष्टधा है और दूसरी जीव रूपा है। अष्टधा प्रकृति में पाँच तत्त्व तथा मन, त्रुटि एवं अहंकार सम्मिलित हैं।

त्रृहदारण्यक उपनिषद के निश्चाक्षित शब्द भी पुरुष की व्याख्या करनेवाले हैंः—स यत्पूर्वोऽस्माद् सर्वस्मान् मर्वान् पाप्मनः जीपद् तस्मात् पुरुषः। ओपति ह वै स तं योऽस्माद् पूर्वो दुभूयति य एवं वेद ॥ ३-४-१ ॥ पुरुष का अर्थ है पूर्व या प्रथम तथा जीपद का अर्थ है जलाया। क्योंकि आत्मा ने इस सब से पूर्व समस्त पापों को जलाया, अतः वह पुरुष कहलाता है। इस आत्मा से जो प्रथम या पूर्व होना चाहता है, उसको भी यह आत्मा जला देता है।

यहाँ आत्मा की अपूर्वता प्रकट की गई है। आत्मा से पूर्व या प्रथम या अष्ट कोई अन्य नहीं है। आत्म-ज्ञान ही पापों को जलाने वाला है। इस रूप में पुरुष का अर्थ हुआ 'जिसने सर्व प्रथम पापों को जलाया।'

निहक्त ने 'पुरि शरीरे देते'—पुर रूप शरीर में शयन या निवास करने के कारण आत्मा को पुरुष कहा है। इस अर्थ में गीता के तीन पुरुषों का भाव भी स्पष्ट हो जाता है। ब्रह्माण्ड रूपी शरीर में निवास करने वाला पुरुष एक है। विभिन्न योनियों की एक-एक हकाई रूप शरीर में निवास करने वाला पुरुष

दूसरा है और इन दोनों से श्रेष्ठ, परन्तु दोनों का ही प्रेरक एवं धारक पुरुष तीसरा है—

प्रकृतिः धरमित्युक्तं पुरुषोऽक्षर उच्यते ।  
ताविमौ प्रेरयत्यन्यः स परः परमेश्वरः ॥

( निवपुराणं, वायु 'संहिता पूर्वं भाग ४-१६ )

पुरुष का एक अर्थ जौश हो सकता है : पुरुष अर्थात् समूह वा वहुत्व में शब्दन करने वाला<sup>१</sup> अथवा समूह का विभाजन करने वाला । 'पृ पूर्णे धाप्यायने वा' धातु से भी इस शब्द की सिद्धि हो सकती है । जो साधकों को पूर्ण या धाप्यायित करने वाला है, तृप्ति एवं शान्ति देने वाला है, वह परमात्मा पुरुष है । जीवात्मा मन तथा इन्द्रियों को पूर्णता लभा प्रसन्नता देने के कारण पुरुष है । पुरुष का अर्थ अग्रगमन भी है । आत्मा स्वयं आगे चढ़ता लभा दूसरों को भी आगे बढ़ाता है ।

पुरुष सूक्त में जिस पुरुष का वर्णन है, उस पर सभी अर्थ घट सकते हैं । परमात्मा के विश्व रूपी यथा का वर्णन करते हुए अध्यात्म रामायण कार कहता है :—

सूक्ष्मं ते रूपमव्यक्तं देहद्यविलक्षणम् ।  
हर्मरुपमितरत्सर्वं दृश्यं जड़मनात्मकम् ॥  
तत्कथं त्वां विज्ञानीयाद् व्यतिरिक्तमतः प्रभो !  
हिरण्यगर्भस्ते सूक्ष्मं देहं स्थूलं विराट् स्मृतम् ॥  
भावना विपयो राम सूक्ष्मं तेष्यात् मङ्गलम् ।  
भूतं भव्यं भविष्यच्च यवेदं दृश्यते जगत् ॥ ( ११३१-३४ )

<sup>१</sup> नारायण का अर्थ है :—नरो के समूह नार को जिसने अपना अवन (घर) या निवास स्थान बनाया है । सृष्टि के कारण रूप बापः ( जलो ) को भी नार की संज्ञा प्राप्त है ।

यह जो इतर सब दृश्यात्मक जद जगत् चतुओं का विषय बना हुआ है, वह अनात्मक है। इसके भी स्थूल तथा सूचम दो रूप हैं; परन्तु आप का अव्यक्त सूचम रूप तो स्थूल तथा सूचम दोनों शरीरों से विलक्षण है। किर मेरा यह मन नन से व्यतिरिक्त आप के रूप को कैसे जाने? इसी हेतु विश्ववत्पु के रूप में आप की कल्पना की गई है। और जैसे एक सूचम तथा दूसरा स्थूल शरीर होता है, वैसे ही द्विष्ण्यगर्भ (महत्त्व की दशा) आपका सूचम शरीर है और विराट (निमित ब्रह्माण्ड की दशा जिसका प्रतीक विराट अर्थात् सूर्य है) आप का स्थूल शरीर है।

यह सब भावना का विषय है और ध्यान करने वालों के लिये कल्याण-कारी है, अन्यथा कहाँ आपका स्वरूप और कहाँ यह सूचम तथा स्थूल देहों की निष्ठा कल्पना! आप तो वस्तुतः अज्ञानीरी हैं। यह कोल से कल्यित, भूत-चर्तमान-भविष्य रूपी जगत् आप के ही अन्दर भौत्य पाता और दृष्टि गोचर होता है। आप इसके अन्दर हैं, ऐसा क्यों तो व्यापु के अपरिमित तप्त सर्वांश्चय रूप को परिमित तथा आधित बना देगा? आप अपरिमित सूर्य हैं—यह कथन ही उचित है। इस सब से तो आप न जाने किनने विश्वालं हैं?

अध्यात्मरामायणकार की फिरनी भव्य एवं उदात्त कल्पना है। पुरुषसूक्त इसी हेतु इस सब को प्रभु का एक पात—चतुर्थांश मात्र—कहता है। यह सब भी कितना है, इसे भी हम नहीं जान पाते, तो उस पुरुष का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? उसकी कोई इच्छा नहीं, कोई माप नहीं। वह तुविभान्न है, अतः अविज्ञेय है—यही कहा जा सकता है।

तो उस अविज्ञेय को कैसे समझें? जीवन की एकांत घटिकायें उसका कुछ भाभास तो देती ही हैं। भले ही हम उसे उसके समग्र रूप में न समझ सकें, पर उसका कुछ ज्ञान तो हमारी स्वेष्यशक्ति द्वारा हो ही सकता है। यह जो लोक है और इसके अन्दर पीछे लोक है—वह स्थूल तथा सूचम रूप का ही तो है। दोनों रूपों में विचोभ है, चांचल्य है—वैसा ही जैसा इस साड़े तीन हाव

के शारीर तथा इसके छिपे, पर, नाना क्रियाओं में अभिव्यक्त मन के अन्दर है। इन दोनों से पृथक् एक चोभ-रहित, अकम्प, अविचल अवस्था हो सकती है जिसे अचल या स्कङ्ख या निर्वात अवस्था कह लीजिये। जागरण तथा स्वप्न अवस्थाओं में जो विच्छुब्ध अवस्था रहती है, वह सुपुसि में लुप्त हो जाती है। जब चाँचल्य के अभाव का अनुभव यहाँ हो सकता है, तो लोक पूर्व अलोक से परे भी उसका अनुभव किया जा सकता है। ऋषि इसे अध्यय अवस्था कहते रहे हैं। पुरुष सूक्त इसी को त्रिपात् ऊर्ध्वं अवस्था का नाम देता है।

पुरुष सूक्त है तो चारों बेदों में, परन्तु मंत्रसंख्या, मंत्रकम तथा मंत्रपद सर्वत्र समान नहीं हैं। ऋग्वेद में १६ मंत्र हैं। यह दशम मण्डल का १० वाँ सूक्त है। यजुर्वेद में २२ मंत्र हैं। यह ३। वाँ अध्याय है। ऋग्वेद के १६ मंत्र यजुर्वेद के इस अध्याय के प्रथम सोलह मंत्र हैं, परन्तु मंत्रकम में ही नहीं, मंत्रगत शब्दों में भी छः स्थानों पर अन्तर है। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र के तृतीय चरण में 'विश्वतोवृत्वा' है तो यजुर्वेद में 'सर्वतः स्पृत्वा' है। ऋग्वेद के द्वितीय मंत्र में 'भव्यं' है तो यजुर्वेद में 'भाव्यम्' है। पौँचवें मंत्र के प्रारम्भ में 'तस्मात्' के स्थान पर यजुर्वेद में 'ततः' है। ऋग्वेद का ग्यारहवाँ मंत्र यजुर्वेद का दशवाँ है जिसके तृतीय चरण में 'आसीत्' किया नहीं है, तृतीय चरण में 'किम्' के स्थान पर 'की' तथा चतुर्थ चरण में 'किम्' के स्थान पर 'का' है। ऋग्वेद मंत्र १३ ( यजु १२ ) के द्वितीयार्थ में भी पदान्तर है। ऋग्वेद में ( अधर्वं में भी ) 'मुखादिन्दशचाम्निश प्राणादवायुरजायत्' है तो यजुर्वेद में 'श्रोत्राद्वायुरुच प्राणश्च मुखादम्निरजायत्' है। यजु में सुख से अग्नि तो ऋक् में अग्नि के साथ इन्द्र ( विद्युत ) भी उत्पन्न होता है। यजु में धोत्र से वायु तथा प्राण तो ऋक् में प्राण से वायु उत्पन्न होती है। ऋक् मंत्र ८ में 'आर-प्यान्' है तो यजु मंत्र ६ में 'आरण्याः' है और यही अधर्वं में भी है। पौँचवें मंत्र के पश्चात् कम भिन्न हो गया है। ऋग्वेद का छठा तथा सातवाँ मंत्र यजुर्वेद का क्रमशः १४ वाँ तथा नवाँ मंत्र है। इसी प्रकार ऋग्वेद के ८ से १० तक के मंत्र यजुर्वेद में ६ से ८ तक हैं तथा ११ से १४ तक मंत्र १० से

१३ तक के मंत्र हैं। पञ्चवर्षीय तथा सोलहवर्षीय मंत्र ज्यों का रूप है—न कम में अन्तर है न पदों में। यजुर्वेद में १६ वें मंत्र के पश्चात् ६ मंत्र अधिक हैं।

सामवेद में संख्या ३१७ से ३२१ तक केवल पांच मंत्र हैं जिसमें पांचवर्षीय मंत्र कम तथा पद दोनों में, यजुर्वेद से मिलता है। प्रथम मंत्र के तृतीय चरण में 'सर्वतः' यजुर्वेद से तो 'वृद्धा' ऋग्वेद से लिया गया है। द्वितीय मंत्र ऋक्-यजु का चतुर्थ मंत्र है, परन्तु तृतीय चरण में 'ततः' के स्थान पर 'तथा' और चतुर्थचरण के 'साशनानशने' के स्थान पर 'अशनानशने' है। सामवेद के नृतीय मंत्र का प्रथमार्थ ऋग्यजु के द्वितीय मंत्र का प्रथमार्थ है, परन्तु उत्तरार्थ उनके तृतीय मंत्र से लिया गया है जिसमें 'विश्वा' के स्थान पर 'सर्वा' शब्द रखा गया है। सामवेद के चतुर्थ मंत्र का प्रथमार्थ ऋक्-यजु के तृतीय मंत्र का प्रथमार्थ है। अन्तर है प्रारम्भ में ही 'एतावान्' के स्थान पर 'तावान्' रखना, परन्तु उसका द्वितीयार्थ उनके द्वितीय मंत्र का द्वितीयार्थ है।

अथर्ववेद, काण्ड १९, सूक्त ६ के पुरुषसूक्त में १६ मंत्र हैं जिनके कम तथा पद दोनों में ऋक् तथा यजु से अन्तर है। प्रथम मंत्र ऋग्वेद के समान है, केवल 'सहस्रशीर्पा' के स्थान पर 'सहस्रवाहुः' पद का अन्तर है। ऋग्यजु का द्वितीय मंत्र अथर्ववेद का चतुर्थ मंत्र है, किन्तु 'उतामृतच्यस्य' के पश्चात् उसमें निष्ठांकित शब्द रखे गये हैं:—ईश्वरो यदन्येनाभवत् सह। ऋक्-यजु के शब्द हैं—ईशानो यदन्येनातिरोहति। तृतीय मंत्र में 'एतावान्' के स्थान पर 'तावन्तः' तथा भहिमा के स्थान पर 'भहिमानः' है। शेष मंत्र ज्यों का रूप है। अथर्व का ५ वाँ मंत्र यजुर्वेद का दसवर्षीय तथा ऋग्वेद का ११ वाँ मंत्र है। पदों में यजुर्वेद से मेल खाता है, केवल तृतीय चरण में 'आसीत्' क्रिया का अभाव है। मंत्र ६ के द्वितीय चरण के अन्त में कृतः के स्थान पर 'अभवत्' और तृतीय चरण के प्रारम्भ में 'उह' के स्थान पर 'भव्यं' शब्द है। मंत्र संख्या ७ ऋक् के मंत्र संख्या १३ के समान है। अथर्व का नवम मंत्र ऋक्-यजु का पांचवर्षीय मंत्र है, परन्तु उसके प्रथम चरण में 'विराङ्ग्मे समभवत्' है जो ऋक्-यजु से भिन्न है। मंत्र संख्या ८, १०, १२, १४, और १५ क्रमशः ऋक् के

मंत्र संख्या १४, ६, १०, ८ और १५ से उयों के त्वयों मिलते हैं। यजुर्वेद में भी ये मंत्र इसी रूप में हैं, केवल मंत्र १४ में 'आरण्या:' शब्द यजु के समान है, ऋग्वेद में 'आरण्यान्' शब्द है। अथर्व मंत्र संख्या १२ के द्वितीय चरण में 'ये च' के पद का 'च' अधिक है जो ऋक् यजु में नहीं है। १५ वें मंत्र को छोड़ कर मंत्रों के क्रम में भी अन्तर है। अथर्व का १६ वाँ मंत्र ऋक् या यजु किसी से नहीं मिलता। अथर्व का द्वितीय मंत्र केवल द्वितीयार्थ में सामवेद के द्वितीय मंत्र के समान है, केवल प्रारम्भिक पदों का क्रम पलट गया है और अन्त में 'अभि' के स्थान पर अथर्व में 'अनु' है। अथर्व मंत्र ११ ऋग्वेद का ७ वाँ तथा यजु का ९ वाँ मंत्र है, अन्तर है प्रथम चरण में 'वर्हिपि' के स्थान पर 'प्राणूपा', द्वितीय चरण में 'अग्रतः' के स्थान पर 'अग्रशः' तथा चतुर्थ चरण में 'ऋषयः' के स्थान पर 'चसवः' शब्दों का प्रयोग। इसी प्रकार मंत्र संख्या १३ में 'छन्दांसि' के स्थान पर तृतीय चरण के प्रारम्भ में 'छन्दोह' रखा गया है।

कम तथा पद दोनों प्रकार के अन्तरों ने अर्थ पर भी कहीं-कहीं प्रभाव ढाला है। यथा ऋक्-यजु के द्वितीय मंत्र के चतुर्थ चरण का अर्थ है—जो अन्त के द्वारा बहुत बढ़ता है। यही शब्दावलि सामवेद के चतुर्थ मंत्र के अन्त में भी है। परन्तु अथर्व के चतुर्थ मंत्र में शब्द अन्य हैं जिनका अर्थ है : जो अन्य के साथ अस्तित्व रखता था। ऋग्वेद के १३ वें तथा अथर्व के ७ वें मंत्र में प्राण से वायु की उत्पत्ति है, तो यजुर्वेद के १२ वें मंत्र में थ्रोत्र से वायु तथा प्राण दोनों उत्पन्न होते हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा सामवेद के प्रथम मंत्र में शब्द है—'सहस्रशीर्षा' जिसका अर्थ है 'सहस्रों दिशों वाला' परन्तु अथर्व वेद के प्रथम मंत्र में शब्द है—'सहस्रवाहुः' जिसका अर्थ है 'सहस्रों भुजाओं वाला'। ऋग्वेद के सप्तम तथा यजुर्वेद के नवम मंत्र में शब्द 'वर्हिपि' है जिसका अर्थ है वेदी या कुश पर, परन्तु इसके स्थान पर अथर्ववेद मंत्र ११ में शब्द है—'प्राणूपा' जिसका अर्थ है 'वर्षा ऋतु द्वारा'। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में स्तोल्घनां संस्कृत है : 'स्तोल्घन गङ्गामध्यन्तं हेत्वाः' आदि। यह मंत्र ऋग्वेद में

नहीं है। इसके स्थान पर मंत्र है :—“मूर्खों देवस्य कृहतो अंशवः सप्त सप्ततीः। राज्ञः सोमस्या जायन्त जातस्य पुरुगादधि ।” दोनों मंत्रों के भाव पृथक्-पृथक् हैं। एक का आशय है :—देवों ने यज्ञ के द्वारा ही यजनीय देव का यजन किया। वे प्रथम धर्म थे। ऐसा करके नहिमा सम्पन्न देवों ने उस नाक लोक को प्राप्त किया जहाँ पूर्व के साम्यदेव रहते हैं। अथर्व वेदीय मंत्र कहता है :—‘विराट पुरुष के उत्पन्न होने पर राजा सोमदेव के विशाल मूर्धा से सात सत्तर छिरणें उत्पन्न हुईं।’ सात सत्तर का योग सतत्तर तथा गुणा चार सौ नववै होता है। योतिष्य या चमोल के विद्वान् हो बता सकेंगे कि सतत्तर या चार सौ नववै अंकों में कौन सा रहस्य छिपा पड़ा है।

अथर्व वेद सोमवेद कहलाता है। इसे अथर्वाङ्गिरस या भृगवाहिरस वेद भी कहते हैं। गोपथ ब्राह्मण ने इसे सुवेद भी कहा है। सोम ब्राह्मणों का राजा कहलाता है। अथर्ववेदी ब्रह्मा यज्ञों में सभी ऋत्विकों का नियंत्रण करता है। अतः वह अपनी दीसि के कारण राजा ही है। रचना में विराट या सूर्य के पदचार सोम की उत्पत्ति होती है। यह सोम या चम्द्र भी नज़्बों का राजा है। यह चन्द्र आपोमय है—

चन्द्रमा अप्सुअन्तरा सुपर्णों धावते दिवि । ऋ० ११३०५११, साम० ४१७;  
अथर्व० १८२५२ तथा चन० ३२-९० ।

इसके अतिरिक्त एक सोम या आपोमण्डल और भी है जो स्वः से लेकर जनः लोक तक फैला हुआ है जिसका सोम निरन्तर सूर्यांगिन में आहुस होता रहता है और जिसके कारण सूर्यांगिन निरन्तर प्रश्वलित होती रहती है। यज्ञ की यह प्रक्रिया यदि सृष्टि में सक्रिय न होती तो सूर्य जो ब्रह्माण्ड को ताप, प्रकाश तथा प्राणशक्ति प्रतिपाद देता रहता है, लगातार व्यय करने के कारण कभी का समाप्त हो गया होता। इस प्रकार दोनों सोम या आपोमण्डल सात लोकों की स्थिति में सहायता का कार्य कर रहे हैं। यही इनके सात अंश हैं। तैत्तिरीय उपनिषद् के पंचम अनुवाक में—‘महः इति चन्द्रमाः। चन्द्रमसावाव

सर्वाणि ज्योतीषि महीयन्ते ।' इन शब्दों में दूसरे चन्द्रमण्डल का स्पष्ट उल्लेख हुआ है क्योंकि मह: लोक स्वः लोक से भी ऊपर है ।

जिन सात अंशुओं का वर्णन ऊपर किया गया है, उन्हीं के दशविंश देव-प्राणों के<sup>१</sup> भेद से सत्तर रूप हो जाते हैं । और इन सत्तर के भी शारीरी या ब्रह्माण्डीय सात धातुओं<sup>२</sup> के कारण या सूर्य के सात पुत्रों के कारण ( अ० १५६५, अथर्व १६ ) सात गुणित रूप चार सौ नववे हो जाते हैं । इस प्रकार सोमराजा के विशाल दिव्य शीर्ष से सोममयी अजग्र प्राणधारा फैल कर इस सृष्टि रूपी यज्ञ के संचालन में सहयोग दे रही है । ऋग्वेद और यजुर्वेद यज्ञ से प्राप्त देव-फल की स्तुति करते हैं, तो अथर्वेद सृष्टि संचालन में यज्ञ के साधन भूतप्राणों की महिमा का वर्णन करता है ।

मंत्रक्रम में जो अन्तर है, उसके कारण ऋग्वेद में विश्व की उत्पत्ति के पश्चात् ही काल यज्ञ का वर्णन आ जाता है । सृष्टि में आकाश की उत्पत्ति के साथ ही काल का आविर्भाव है । काल के तीन विभाग दिन में प्रातः, मध्याह्न तथा सायं और वर्ष में वसन्त, ग्रीष्म तथा शरद हैं । वैसे ये तीन विभाग प्रत्येक पदार्थ पर लागू किये जा सकते हैं । पदार्थ का प्रारम्भ, पदार्थ की प्रीइता तथा पदार्थ का अन्तकाल वैसा ही है जैसा दिन या वर्ष का विभाग अथवा किसी प्राणी का बाल, घौवन एवं वार्धक्य का समय । काल यज्ञ के पश्चात् सर्वहुत यज्ञपुरुष का वर्णन चल पड़ता है । यजुर्वेद में काल यज्ञ का वर्णन सर्वहुत यज्ञपुरुष के विभागों के वर्णन के पश्चात् आता है । काल यज्ञ के

<sup>१</sup> दश साकम जायन्त देवा देवेन्यः पुरा ॥

येत आसन् दश जाता देवा देवेन्यः पुरा । पुत्रेभ्यो लोकं दत्ता कस्मिन्स्ते लोक आसते ॥ अथर्व ११-८-३, १० । प्राण ही उक्षा है, सिंचक है । अतः आगे मंत्र १३ में देवों को ससिचः नाम दिया है ।

<sup>२</sup> श्रीमद्भागवत ८-३-२८ में ( छन्दासि साधात्तव सप्तधातवः ) वैदिक ७ छंदों को सात धातु कहा है ।

पश्चात् ही वहाँ सात परिधियों तथा इनकीस समिधाओं का वर्णन है। ऋग्वेद में यह आधिदैविक यज्ञ के पश्चात् आया है। सृष्टिरूपी यज्ञ में सर्वप्रथम देव ही श्रद्धिक के रूप में इष्टिगोचर होते हैं। मानव होताओं का यज्ञ देवयज्ञ के पश्चात् हुआ—ऐसा स्पष्ट कथन यजुर्वेद के मंत्र संख्या १७ में प्राप्त होता है। यजुर्वेद में ऋग्वेद के १६ मंत्रों से अतिरिक्त जो मंत्र आते हैं उनमें दर्शन तथा नीति सम्बन्धी कथन भी आ गये हैं। आगे इन सब पर प्रकाश पड़ेगा।

अब हम पुरुष सूक्त के मंत्रों पर विचार करते हैं। इसके लिए हम यजुर्वेद के पुल्हरसूक्त को ही अपने विचार का आधार बनावेंगे क्योंकि इसमें २२ मंत्र हैं जिनमें ऋग्वेद के सम्पूर्ण सोलह मंत्र भी आ गये हैं। कम में अन्तर अवरम्भ है, पदों में भी है, पर वह केवल छः स्थानों पर है और उनमें भी एक ही स्थान का पदभेद अर्थ में अन्तर ढालता है, अन्य स्थानों के अन्तर गौण हैं।

पुरुष सूक्त का दर्शन नारायण ऋषि ने किया था। इसका देवता अर्थात् प्रतिपाद्य विषय पुरुष है। सूक्त के प्रथम मंत्र में कहा गया है कि यह पुरुष सहस्रों शिरों, आँखों और पैरों वाला है। सहस्र का अर्थ वहाँ अनेक है। अद्वैत तथा द्वैत दृष्टि से अर्थ में अन्तर पड़ेगा। अद्वैत दृष्टि से अधिदैवत जगत के सहस्रों ब्रह्माण्डों के सहस्रों द्यौशिर होंगे, सहस्रों सूर्य-चन्द्र नेत्र होंगे और सहस्रों भूमियाँ पैर होंगे। आधिभौतिक जगत के सहस्रों प्राणियों के सहस्रों शिर मानों उस एक अद्वैत पुरुष के ही सहस्रों शिर हैं। अनन्त नेत्र और पैर मानों उसी के अनन्त नेत्र और पैर हैं। द्वैत दृष्टि से वाच्य नहीं, लक्ष्यार्थ लगाना होगा। सहस्रों शिरों का अर्थ लक्षण से अनन्त ज्ञान करना पड़ेगा। इसी प्रकार सहस्रों आँखों का अर्थ होगा सर्वदीर्घिता और सहस्रों पैरों का अर्थ होगा अनन्त गतिशीलता तथा सर्व व्यापकता या सर्वप्राप्तता। इस रूप में परमेश्वर पुरुष है जिसके ज्ञान, दर्शन तथा प्राप्ति की कोई दृश्यता या सीमा नहीं है। ब्रह्माण्डों के अनेक द्यौरूपी शिर, भूमि रूपी पैर, सूर्य रूपी नेत्र तथा अनन्त प्राणियों के अनन्त शिर, पैर तथा नेत्र जिसके अन्तर्गत हैं, ऐसा वह सहस्रशीर्षा, सहस्रांश

सथा सहस्रपात् पुरुष है, यह अर्थ भी हो सकता है। यह पुरुष भूमि को सब धौर से, बाहर तथा भीतर से, पूर रहा है; फिर भी इससे दश अङ्गुल धरने स्थित हैं अथवा इस दशाङ्गुल (अथवा पञ्चनूतात्मक तथा पञ्च प्राजात्मक परिमित परिमाणवाली) भूमि को भी अतिक्रान्त करके स्थित है।<sup>१</sup> भूमि ने तात्पर्य यहाँ पृथ्वी ही नहीं, पृक श्वसाण्ड भी नहीं, श्वाण्डों की सनाइ से है।<sup>२</sup> परमात्मा इस श्वसाण्ड-सनाइ में व्याप्त है और इसके परे भी है। जहाँ तक विनिंत जगत है, वह भी हमारी इर्ष्ण तथा परिग्रन्थ शक्ति की सामग्री ने नहीं आ पाता। फिर परमात्मा तो इससे भी परे है, उसका हृदयङ्गन करना तो असम्भव ही है।

द्वितीय मंत्र में कहा गया है कि यह सब जो है, जो या और जो होगा, पुरुष ही है। अद्वैत की दृष्टि से सब पुरुष ही है। शुद्धद्वैतदादी कनक-कुण्ठल

<sup>१</sup> सहस्रोर्पा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । स भूमिं सर्वंतः सृत्वाश्वर्तिष्ठद-  
शाङ्गुलम् । ऋग्वेद में 'सर्वतः सृत्वा' के स्थान पर विश्वतोवृत्वा है।

<sup>२</sup> कथन में उपलक्षण प्रणाली का भी प्रयोग होता है। इति प्रणाली द्वारा एक से उसकी सहवर्गीय अन्य सब वस्तुओं का ज्ञान करा दिया जाता है। यथा पञ्च भूतों में से प्रारम्भिक आकाश अथवा अन्तिम भूमि के बर्पन द्वारा सभी भूतों अथवा उनसे बने जगत का बर्पन अभिषेत होता है। आकाश का गुण शब्द है। अतः वाक् द्वारा आकाश ही नहीं, समस्त यंत्र भूतों का ज्ञान, अनेक स्पानों पर ब्राह्मणों रथा उपनिषदों की उत्किञ्चि में उपलब्ध होता है। इसी प्रकार यहाँ भूमि से तात्पर्य निखिल सृष्टि या सृष्टियों से भी हो सकता है। ऋग्वेद १-१०८-१ तथा १० में तो पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा यो तीनों को ही बबम, मध्यम तथा परम पृथ्वी कहा गया है। ऋ० १०-१४-१६ में तिस्रो द्यावः तथा तिस्रो भूमीः को मिलाकर पद्मर्त्ती संज्ञा भी दी गई है। उर्ध्वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। सामपाचार्य ने अर्थव० ७-२६-१ के भाष्य में "पार्यिवानि इत्यत्र पृथिवी शब्देन पृथिव्यन्तरित घुलोका उच्चन्ते" द्वारा इसी मत का समर्पन किया है।

न्याय का प्रयोग करके कहते हैं कि दैसे स्वर्ण से कुण्डल, अंगूठी, हार आदि अनेक प्रकार के आभूषण बन जाते हैं और फिर स्वर्ण में परिणत हो जाते हैं, वैसे ही पुरुष से सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति, पृथ्वी, मनुष्य, पशु आदि बनते रहते हैं और अन्त में पुनः पुरुष में परिणत हो जाते हैं। अतः जो कुछ है, पुरुष ही है। द्वैतवादी कहते हैं कि पुरुष सर्व व्यापक है। उससे व्यतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ जो कुछ जात है और जात के चारों ओर भी जो कुछ है, वह सब पुरुष से परिपूर्ण है। जो उत्पन्न हुआ है तथा होगा, वह सब मर्य है, विनश्वर है, परन्तु इस सब पर वह परम पुरुष शासन करने वाला है। वह इस सध में व्याप है, अविनाशी भाव से स्थित है, इसी हेतु अन्तर्यामी बना हुआ अन्दर से ही सबका नियमन कर रहा है, सबकी सत्ता का हेतु बना हुआ है। वह है, इसी हेतु यह सब है। वह न होता, तो वह सब कुछ भी न होता। इसकी सत्ता उसी की सत्ता के कारण है। और इस जात अर्थात् मर्य के अतिरिक्त जो अमर्त्य है, अमृतत्व है वा भोक्ता है, उसका भी शासक, इशान, नियमक वही है। अमृतत्व का एक विशेषण मंत्र में दिया है कि यह अन्न अर्थात् भोग में सब से बढ़कर है। अतः अमृत्य का अर्थ यहाँ भोक्ता लोक है। यह सर्वोक्तुष्ट तृतीय धार्म भी कहलाता है। 'यत्र देवा अमृतमानशानाः'—इस भोक्तव्यमें देव अमरता का उपभोग करते हैं। यह भोग है तो वृहत् एवं दीर्घ पर सावधि है। मुण्डक ३-२-६ में इस अवधि को परान्तकाल कहा गया है जो ३६ हजार वार सूणि की उत्पत्ति और प्रलय का समय है। इतने समय तक जीव भोक्ता के आनन्द को भोगता है। मर्य लोक कर्म तथा भोग लोक दोनों है। मानव योनि में ये दोनों ही लोक दिखाई देते हैं। हम कर्म या प्रयत्न भी करते हैं और किये हुए कर्मों का फल भी भोगते हैं। मानव से नीचे की पशु आदि योनियाँ केवल पाप कर्मों के भोग के लिये हैं और निरय कहलाती हैं। मानव योनि से ऊपर की योनियाँ भी भोग योनियाँ हैं जो स्वर्ग लोक से सद्य लोक तक वसी हुई हैं। इन्हें उक्तुष्ट भोक्ता-सुख-भोग की देवसाम्य-योनियाँ

कहते हैं। इनका भी नियामक वही पुरुष है ।<sup>१</sup> मोक्ष आनन्द की एक विशिष्ट स्थिति है। जीवात्मा इसमें स्वतन्त्र होकर विचरण करता है। एक ब्रह्माण्ड के स्वः से लेकर सत्य लोकों की प्रलयावस्था में यह दूसरे ब्रह्माण्ड के इनहीं लोकों में पड़े च जाता है। आनन्द रूप प्रभु के अधिकार में इसकी गति अवाध रहती है। सुक्तात्मा किसी एक ब्रह्माण्ड की पृथ्वी के शिखर अर्थात् स्वः अथवा ची में वैध कर रहे गे, ऐसा नियम नहीं है। ‘न ते दिवो न पृथिव्या अधिस्तुपु’— यहाँ या वहाँ नहीं, वे कहीं भी जा सकते हैं। ३६ दृजार वार सृष्टि और प्रलय की अवधि एक ब्रह्माण्ड को लेकर है। श्री मद्भागवत के तृतीय स्कन्ध के ग्यारहवें अध्याय में एक कल्प के पश्चात भूः, सुवः तथा स्वः तीन लोकों की ही प्रलय मानी गई है। इस प्रलय में महः, जनः, तपः तथा सत्य लोक बने रहते हैं, और मुक्तात्मा इनमें ब्रह्मा की परमायु (परान्तकाल या दो परार्थ) तक रहकर मोक्षानन्द का भोग करते हैं। इस मरके अनुसार उन्हें कल्प के पश्चात् होनेवाली नैमित्तिक प्रलय में अन्य ब्रह्माण्डों के ब्रह्मलोकों में जाने की आवश्यकता नहीं रहती।

तीसरे मंत्र में कहा गया है कि इतना जो मर्थ और अमर्थ, अवम तथा परम अथवा अवर भोग, कर्म-भोग-मिश्र तथा उल्कृष्ट भोग लोक है अथवा वृजन, कर्मवान् और स्वर्वान् है, या अध, मध्य तथा ऊर्ध्वं धाम और उनमें रहने वाले प्राणी हैं—यह सब उसकी महिमा है, उसके महत्व के अभियंजक हैं। इस जगत् और जीवन द्वारा पुरुष की ही महिमा प्रकट दो रही है। इस महिमा से, महत्व के अभियंजक सूत्रों से, पुरुष और भी चढ़ा है, उपेष्ठ है, श्रेष्ठतर है। गुण ही नहीं, भावा की दृष्टि से देखें तो यह सब जो सत्त्वावान् है, भूत है, पुरुष के एक पाद, एक भाग के चराचर है। उसके तीन पाद (अर्थात् भूत या जातमात्र से कई गुना = विपाद) ची में अमृत रूप हैं। मर्थ भाग

<sup>१</sup> पुरुष एवं दं सर्वं यद्भूतं यज्ञं भाव्यम् ।

उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनाति रोहति ॥

जितना है, उससे विगुना अमर्त्य भाग है। पुरुष को हिरण्य गर्भ या महत्त्व तक सीमित करने वालों के लिए कोप यदि चतुष्पाद है तो लोक उसका एक पाद मात्र है। महत्त्व में से लोक लोकान्तर बन भी गये और फिर भी वह तीन भाग अवशिष्ट रहा। वर्तमान वैज्ञानिकों की परिभाषा में प्रत्यक्ष उप्पन गैस समूह का एक स्फुरिंग ही तो विराट या सूर्य था जो एक ब्रह्माण्ड का निर्माता बना। ऐसे अनेक ब्रह्माण्ड उससे बने होंगे, बन रहे हैं और बनते रहेंगे, पर उस मूल कोप रूपी सामग्री का सम्पूर्ण व्यय नहीं हो सकेगा। पुरुष-सूक्त इस मूल तत्त्व को पुरुष कहता है जिसके एक पाद से सब ऊँच निर्मित होता रहता है, फिर भी उसका तीन चौथाई भाग अमृत बना रहता है। अमृत भाग मर्त्य से कई गुना बड़ा है, यही कथन यहाँ अभिप्रेत है।<sup>1</sup>

अथर्ववेद १०-७-१० में 'यत्र लोकांश्चकोपांश्च' कह कर लोक तथा कोप दोनों को पृथक कर दिया है। एक-एक ब्रह्माण्ड में भू से सत्य तरु सात-सात लोक हैं जिनमें विराट से उत्पत्ति-क्रम चला है। विराट से भी पहले हिरण्यगर्भ पुरुष है जिसके स्फुरिंगों से अनेक विराट तथा उनसे अनेक संतुत लोकी ब्रह्माण्डों की रचना हुई है। इस द्वितीय गर्भ से भी पहले स्कन्द है। यही वस्तुतः ऊर्ध्व और त्रिपाद है। कहने के लिए द्वितीय हिरण्यगर्भ को भी ब्रह्माण्डों की अपेक्षा त्रिपाद कहा जा सकता है, क्योंकि लोक-सीमा से वह भी परे है और लोकों के लिये कोप है, पर उससे भी ऊपर स्कन्द है, जो सबका आधार है। लोक मिट्टकर कोप में समा जाते हैं और कोप से फिर लोक-निर्माण होता है। यह चक्र निरन्तर चलता रहता है। मूलकोप प्रहृति है। इसमें से जितने कोप से हिरण्यगर्भ पुरुष और उससे विराट तथा लोक-लोकान्तर बनाये जाते हैं, वह स्कन्द की मूल शक्ति प्रकृति का अंश मात्र है। जिसे हम अमृत कहते हैं, वह भी दो प्रकार का है। एक स्वः से लेकर सत्य तक देव-साध्यों का मोक्ष लोक है

<sup>1</sup> एता वानस्य महिमा अतो ज्यामारच पूरुषः ।

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।

जिसके पांच विभाग हैं। ऋग्वेद ९-११३ में इन्हीं पांच लोकों को वस्त्र का विषय, कान-निकाम-तुष्टि से परिपूर्ण आनन्द-मोद-सुद-प्रभुद से भरे हुए, च्योतिष्मन्त्र, स्वर्हित तथा अमृत लोकों की संज्ञा दी गई है। ये देव-साध्यों के भोग-लोक हैं, मोक्ष-धार्म हैं। इन पांच मोक्ष-लोकों का वर्णन छान्दोग्य ३—खण्ड ६ से १० तक में दिया गया है। ११ वें खण्ड में मूल अमृत पुरुष का उल्लेख है जहाँ लोकों का उदय-अस्त छुछ नहीं होता। यह मोक्ष से निच्छ दूसरा अमृत है। 'त्रिपादस्यामृतं दिवि' में आये अमृत शब्द का तात्पर्य यही नोक्ष से भी ऊपर अमृत है। मोक्ष भोग लोक है और अनित्य है, यह नहीं। यह तो विशुद्ध नित्य अमृत है।

पुरुष के एक पाद को मर्त्य और त्रिपाद को जो अमृत कहा गया है, वह जगत और जीव की हाइ से है। जगत वार-वार जन्म लेता और प्रलय में लीन हुआ करता है। जीव भी कर्मणेन्द्रिया विविध प्रकार की योनियों में आता जाता रहता है। इन दोनों की अपेक्षा से ही पुरुष को कर्ता तथा कर्म फल प्रदाता के रूप में, एक पाद से सम्बद्ध, उपस्थित किया गया है। पुरुष का अपना रूप तो मोक्ष लोकों से भी ऊपर शिव है। हम जीवात्मा भी मल, विषेष तथा आवरण से शून्य होकर शिवरूप बन जाते हैं। परं प्रभु तो सदैव शिव स्वरूप है। हम शिव रूप बन सकते हैं, इमलिये उसे शिवतर भी बेद ने कह दिया है। उससे बढ़कर शिव या आनन्द रूप तो यहाँ कोई अन्य ही नहीं। अद्वैतवाद के शब्दों में यदि एक पाद को दुखी-सुखी और त्रिपाद को अमृत मानें तो कथन में व्याधात दोष आ जायगा। अतः द्वैतवादी हाइ ही मान्य है। पुरुष आनन्दरूप है, परन्तु जीव कर्म-विपाक से बलेश में पड़ता है और प्रभु को प्राप्त करके आनन्दमय बनता है।

चतुर्थ मंत्र में कहा है कि अथः अर्पात् इस स्थिति में पुरुष का एक पाद है, उसका त्रिपाद तो ऊर्ध्व अर्धात् इस स्थिति के ऊपर प्रकाशित हो रहा है। उसके एक पाद में ही जगत तथा जीवन का आवागमन है, त्रिपाद में नहीं। यहाँ जो स—अशन तथा अनशन अर्पात जीव और अजीव स्थिति दियाई देती

है, उसी से चारों ओर फैली है ।<sup>१</sup> जो अनशन है अर्थात् भोजन नहीं करती वही सज्जीवों का भोजन बनती है । मिठ्ठो अजीव है, जल उसे खा जाता है । इसलिये जल को जीवन कह देते हैं, परन्तु जल को अग्नि, अग्नि को वायु और वायु को आकाश खा जाता है, अतः सापेक्ष दृष्टि से एक अनशन और दूसरा साशन बनता जाता है । यह तो प्राकृतिक जगत की वात हुई । जीव की दृष्टि से वृद्धों का भोजन मिठ्ठे, जल, वायु, अग्नि आदि सभी हैं । इन सबको खाकर वृद्ध थड़ता, फूलता तथा फलता है । यह आहार उसे न मिले तो वृद्ध मर जायगा । वृद्ध के पत्ते पशुओं का आहार बनते हैं । उसके फल पशु, पक्षी तथा मानव सभी के द्वारा खाये जाते हैं । पशु-पक्षियों को भी मनुष्य खा जाता है । पशुओं का दूध पीकर तो अनेक मनुष्य जीवन यापन करते हैं । पशुओं में व्याधादि मनुष्यों तक को खा जाते हैं । इसी आधार पर 'जीवो जीवस्य जीवनम्' की कहावत चल पड़ी है । अतः जीव और अजीव शब्दों की अपेक्षा स-अशन और अनशन कहना ही अधिक युक्ति संगत है । वेद में इन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ है ।

यहाँ जो स-अशन तथा अनशन प्रमेय सम्नुख दिखाई देते हैं, उसी पुरुष से चारों ओर फैले हैं । सूष्टि की प्रारम्भिक अवस्था में ज्वर या प्राण को स-अशन और सत्य या रथि को अनशन नाम देंगे ।

पांचवें मंत्र में विराट की उत्पत्ति का वर्णन है । विराट भी उसी पुरुष से उत्पन्न हुआ है । पुरुष विराट के ऊपर है, विराट पर भी शासन करने वाला है । विराट विशेष रूप से प्रदीप को कहते हैं । हनारे ब्रह्माण्ड का सूर्य विराट है । यही वह इकाई है जो दिरप्य गर्भे<sup>२</sup> में से पूट कर याहर निकली जैसे

<sup>१</sup> त्रिपादौर्व उदैत् पुरुषः पादोस्येहाभवत्पुनः । ततो विष्वद् व्यक्तामत साशनानशने अग्निः ।

<sup>२</sup> ऐतरेय उपनिषद कार ने आपः में से समुदृत करके जिस पुरुष को मूर्छित किया है और उससे लोकपालों की उत्पत्ति का वर्णन किया है वह

प्रज्ञविलित पावक में से एक चिनगारी निकलती है। मंत्र कहता है कि यह इकाई उत्पन्न होते ही व्यतिरिक्त हो गई—अपना संसार अलग बनाने लगी—आकाश में धूमने लगी। यह जो भूमि और इस पर नगर या शरीर दिखाई देते हैं, इसके पश्चात् वने ।<sup>१</sup> पुर का अर्थ नगर या शरीर दोनों है। जैसे नगर में प्राणी वसते हैं, वैसे ही शरीर में आरम्भ।

प्रत्येक उत्पत्ति में माना और पिता की आवश्यकता होती है। सृष्टि के प्रारम्भ में ज्ञात पिता और सत्य माता है। निमांकित मंत्र में ज्ञात को स्पष्ट रूप से पिता कहा गया है :—

अहमिद्धि पितुः परिमेधामृतस्य जग्रभ । अहं सूर्य इधाजनि ।

( ऋ० ८५३ साम० १५२, १५०० अर्धवं २०१६ )

यहाँ ज्ञात पिता है और सूर्य पुत्र है।

सूर्य का एक नाम इन्द्र भी है। निमांकित मंत्र में इन्द्र अर्पात् सूर्य को सत्य का सूनु कहा गया है :—

अभिग्र गोपतिं गिरा इन्द्रमर्चयथाविदे । सूनुं सत्यस्य सत्पतिम् ।

( ऋ० ८५३ ला० १६८, १४४९ अर्धवं २०१६ )

ज्ञात उच पिता है तो सत्य भी माता निरिष्वत है। सत्य का पुत्र ही सत्य का पालक है क्योंकि पुत्र ही आगे चल कर रक्षक बनता है। पति का अर्थ पालक और रक्षक है। यह शब्द सूनु के साथ ही रखा है।

उपर्युक्त दोनों मंत्रों से सूर्य के पिता ज्ञात और माता सत्य सिद्ध होते हैं।

यही हिरण्यगम्भ जान पड़ता है। मनु ने इसी को हैमाण कहा है। इसी से एक-एक ब्रह्माण्ड के निर्माता एक-एक विराट पुरुष की उत्पत्ति होती है। विराट से फिर भूमि आदि अन्य ग्रह-पिण्डों का जन्म होता है।

—ज्ञातचन्द्रग्रहाः सर्वे विज्ञेयाः सूर्यसंभवाः ॥ ( वानु पुराण )

‘ ततो विराटजायत विराजोऽप्रथिपूरुषः । स जातोऽत्यरिक्त पश्चाद् भूमि भयो पुरः ।

विराट सूर्य है। ऋत के शुक और सत्य के शोणित से इसकी रचना हुई है। जैसे शरीर का केन्द्र जीवात्मा है, वैसे ही निखिल ब्रह्माण्ड-समष्टि का केन्द्र प्रजापति परमात्मा है। सूर्य भी अपने ब्रह्माण्ड का केन्द्र है। यज्ञ करने के लिए केन्द्रस्थ होना आवश्यक है। यज्ञ में वेदी या कुण्ड केन्द्र में रखा जाता है जिसमें अग्नि का भाष्यान किया जाता है। फिर उस अग्नि पर आहुतियाँ पड़ती हैं। विराट या सूर्य ही ब्रह्माण्ड के केन्द्र में स्थित धधकता हुआ अग्नि कुण्ड है जिस पर सोम या आपो मण्डल की आहुतियाँ पड़ रही हैं। विराट को उत्पत्ति इसी यज्ञ की सूचना दे रही है। पुरुष सूक्त में इसी हेतु आगे के मंत्र सर्वदुत यज्ञ की महिमा का वर्णन करते हैं।

छठे मन्त्र में इस यज्ञ को सर्वदुत नाम दिया गया है। यह नामकरण या विशेषण अतीव सार्थक है। विराट देव जन्म लेते ही व्यतिरिक्त हो गये, अपने पृथक अस्तित्व को सार्थक करने में लग गये, सबसे अलग होकर अपनी ढाई चावल की खिचड़ी पकाने लगे। पृथक परिवार का निर्माण, सबसे झलग अपनी नई दुनियाँ बसाना हँसी-भेड़ नहीं है। इसके लिये अपने पूर्ण अस्तित्व की बाजी लगा देनी पड़ती है। जब कोई व्यक्ति परिवार से पृथक होकर अपना स्वतंत्र घर बनाता है, तब उसे समस्त सामग्री नये सिरे से जुटानी पड़ती है—घर, चारपाई, बिछुना, क्षपड़ा, दाल, आटा, चूलहा, झूंधन, परात, तवा, धाली, चमच—नान। प्रकार की सामग्री एकत्र करनी पड़ती है। इस कार्य में उसे अपने सर्वद्व की आहुति देनी पड़ती है। अपनी कल्पना, ज्ञान, कर्तृव्यक्ति सबसे काम लेकर इस अभिनव संभार को संभालना पड़ता है। विराट देव को भी सर्वदुत यज्ञ करना पड़ा। इसी यज्ञ द्वारा उन्होंने पृथदाय को एकत्र किया। आज्य का अर्थ है—सामग्री, धी आदि। पृथद् का अर्थ है—नानावर्ण-मयी। संभृत का अर्थ है—इकट्ठी की गई, सम्यक प्रकार से भरण की गई। सामग्री ही व्यों, सर्वदुत यज्ञ में वायवी, आरण्य तथा ग्राम्य पश्च = दर्शनशक्ति भी चाहिये। वायवी पशुध्वन कल्पनाशक्ति में निहित है। आरण्य तो ज्ञान है।

ही। ग्रान्य से तात्पर्य च्यावहारिक उद्दि तथा उपयोगी कर्मशक्ति है। आत्र भी दर्शन में इन्हीं तीन शक्तियों की प्रधानता नानी जाती है।

विराट के अस्तित्व को सार्वभूता देने के लिये अयवा उसे पूर्णता तक पहुँचाने के लिये सर्वबुद्ध यज्ञ द्वारा इन व्यापोवन में चार प्रकार की यज्ञ सामग्री प्रस्तुत की गईः—नानावर्णनय धात्र्य, वायवी, भारग्य तथा ग्रान्य पशु<sup>१</sup>। यह चार प्रकार का विभाग मूलतः दो का ही उपचूंहण है। नूल में तो श्वत तथा सत्य ही हैं। अघमर्णगसूक्त ने अर्नाद तप से सर्वप्रथम यही दो प्रकट होते हैं। इन्हीं को हम पिता-नाता भी कह सकते हैं। उपनिषदों में यही दो प्राण तथा रथि और ब्राह्मण ग्रन्थों ने अग्नि तथा मोन नाम से प्रस्यात हैं। निस्मन्देह ये युग्म भी एक स्तर की कथा नहीं कहते। एक ही नूल युग्म का विस्तार सूचनतम्, सूचनतर, सूचन तथा स्थूल स्तरों में होता रहता है। यो माता-पिता स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, वे भी सूचन रूप में रज और शुक्त ने विद्यमान हैं। रज और शुक्त भी नूलतः पृथ्वी और यावा के सूचनतम् अंश हैं। पृथ्वी और यावा स्वयं रथि तथा प्राण अयवा सत्य एवं श्वत जैसे सूचन तत्वों से निर्मित हुए हैं। अतः छठे मंत्र के चार विभागों में पृष्ठदात्र्य सत्य या रथि है और तीन प्रकार के पशु श्वत या प्राणतरव के अन्तर्गत हैं। यही दो विभाग शान और कर्म का रूप धारण करके आगे फिर चार विभागों में दिखाई देंगे जिसे अस्तित्व का विभावन कहा जा सकता है।

सूष्टि रूपी निर्मित सामग्री में इकाईंतथा इकाइयों के समुदाय हैं। इकाइयों भी अनेक हैं। वृत्त तथा वृद्धों के समुदाय सो ही है, वृत्त स्वयं कई प्रकार के हैं: धाम, धमरूद, जामुन, शहदतू, पीपल, बट, आदि। इनके अपने-अपने समुदाय हैं। अतः समुदाय कई प्रकार के हैं। यही अवस्था ननुप्यों की है। एक मनुप्य है और नानव—समाज है। ननुप्य कई प्रकार के हैं, परन्तु उन्हें प्रमुख रूप से चार भागों में विभाजित किया जाता है। इन चार विभागों से

<sup>१</sup> तस्माद्यज्ञात् चर्वंहुतः समृद्धपृष्ठदात्र्यम् !

पशुं स्वादधके वाम्ब्यानारभ्याप्राप्याप्यादच ये ।

ही चार वर्णों के समुदाय बनते हैं। वर्णविभाग में सामाजिक विरास परिलक्षित होता है, पर एक इकाई, एक द्वयकि, एक मानव का विरास एक नहीं कहे जान्मों में हो पाता है।

च्यन्तित्व का विरास आधमों द्वारा होता है। आध्रम चार हैं। ब्रह्मचर्य गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास। मत्र से जिन आउय तथा पशुत्व का वर्णन है, उसमें पृथिव्य ब्रह्मचर्य है, ग्राम्य पशु गृहस्थियों का घोतक है, जो विवाह के खूटे में वांधे जाते हैं, आरण्य पशु वानप्रस्थ है तथा वायव्य पशु सन्यासी है, परिवाजक है। आरण्य तथा वायव्य पशु खूटे से नहीं वांधे जाते। वे बन तथा ज्योम में स्वच्छन्दता से धूनते हैं। जब मनुज्य उन्हें खूटे से यांधता या पिंजड़ों में चम्द करके रखता है, तब वे भी गृहस्थ की नरह पालनू हो जाते हैं और अपनी विशेषता जो बैठते हैं। वानप्रस्थी या सन्यासी भी गृहस्थ होते हुए देखे गये हैं। यह वैयक्तिक विरास का पनम है। जो गृहस्थ कौटि से उर्द्धर्द्ध गया, उसे ऊपर ही स्थित रहना चाहिये। त्रिद्युन् की शोभा इसी में है।

वर्णों में शूद्रवृत्ति से वैद्य, वैद्य से लौर्मिड़ीज़ीर लौत्रिय से वाही वृत्ति का, सम्पादन भी कई जन्मों में हो पाता है। आधमों में गृहिकृत्यमधन समीक्षणों के लिये है। वानप्रस्थ में लौत्रिय तथा वाही वृत्ति यात्रा होन्या पाते हैं। सन्यास में केवल वाही वृत्ति वाला ही जा पाना है और वही उसमें स्थिर भी रह सकता है। जिनकी वृत्ति में वाहगत्व नहीं होता, वे ही सन्यास से पतित होते हैं।

छड़े मन्त्र में विराट देव को सामझो मिठ गद्द और पशु अर्थात् दर्शन-शक्ति भी प्राप्त हो गई। मात्र ये मन्त्र में वाणी का विभाजन है। यह वाणी भी चार प्रकार की है और छड़े मन्त्र में वर्णित चार प्रकार के पदार्थों से भी सम्बन्ध रखती है। यह भी सर्वहुत यज्ञ से ही प्रदट हुई। विना खाद्य हुए, विना रथाग या वलिदान के, नहीं इच्छ प्राप्त भी होता है? विराट की विराटता इसी सर्वहुत यज्ञ के कारण है। लागे मन्त्र संस्था २० में विराट के जिस वाह्नरुच का दर्शन है, ब्रह्मकान्ति के प्राप्त करने का उल्लेख है, वह भी उसके तपश्चरण

तथा वाहुत होने का ही फल है। सातवें मंत्र के अनुसार उस सर्वहुत यज्ञ से श्राचार्यें, साम ( श्राचार्यों पर निर्भित गान ), छन्द ( अथर्व ) तथा यजु ग्रन्थ हुए।<sup>१</sup> यह चार प्रकार की वाणी भी वस्तुतः दो प्रकार हैं—यही छात पूर्व सत्य का मूल युग्म जो सृष्टि के कण-कण में, अङ्ग-अङ्ग में नाना प्रभार से व्याप्त है। इन दो प्रकारों में गद्यात्मकता ( सत्य ) तथा पद्यात्मकता ( ऋत ) की प्रमुखता है। ऋक् पद्यमय है, यजु गद्यमय। साम भी पद्यमय है, पर उसका पद्य पृथक् न होकर ऋक्-मय है। अन्तर है केवल एवं दा गीतिका में बैधकर फैलना। ऋक् यदि केन्द्र है तो साम उसका परिधि है। अथर्व में पद्य कुछ अपना है तो अधिकांश ऋक् का। श्राक्-ज्ञान-प्रधान है तो अथर्व-ज्ञान-प्रधान। यजु गद्यमय है; उसका पद्यभाग ( संपूर्ण यजु का लगभग चतुर्थांश ) ऋक् से लिया गया है। यहाँ हम उपलब्ध चार संहिताओं को दृष्टि में राग कर लिख रहे हैं। वस्तुतः ऋक्, यजु, साम तथा छन्द या अथर्व रूप में वाणी का विभाजन सूचम है और वह प्रत्येक प्रकार के लोक तथा रचना के साथ सम्बद्ध है। छठे मन्त्र की सामग्री को ही लीजिये। उसमें पृष्ठदात्य अथर्व है, वायव्य पशु साम है, आरण्य पशु यजु है और ग्राम्य पशु ऋक् है। ऋक् में जो ज्ञानकाण्ड की श्राचार्यें हैं वही साम में संगीत का रूप धारण कर वायु में उड़ती हैं, फैलती हैं। अथर्व ओषधियों का ज्ञान देता है तथा उवर-यद्यम-राष्ट्रस आदि के नियारण का प्रयत्न करता है। यजु यज्ञ के कर्मकाण्ड का विधायक है। इनको भी जा हम सामग्री और वाक् का नाम देते हैं वह भी सरय या रथि तत्व की प्रधानता के कारण, क्योंकि जिस सर्वहुत यज्ञ से ये उत्पन्न हुए यह प्राण-प्रधान है। सामान्य रूप से दोनों तत्त्व रचना में मिले-जुले चलते हैं, केवल प्रधानता और अप्रधानता के कारण तत्त्व नाम से अभिहित किये जाते हैं। हाँ, ये यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं, अतः स्वयं भी यज्ञरूप ही हैं। समग्र सृष्टि यज्ञरूप है। प्रगा यज्ञ की सहचारिणी है—ऐसा वेद-ग्राहणादि से लेकर गीता तथा भागम दास्त्रों

<sup>१</sup> तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जन्मिरे ।

छन्दाद्वि जन्मिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्यजायत ॥

तक का मान्य मत रहा है। प्रथेष नवीन यज्ञ से नवीन प्रजा या वस्तु को रचना होती रहती है, यह भी इनिहाम-सम्मत है।

सामग्री-विभाजन तथा वाणी-विभाजन के उपरान्त आठवें भन्न में मनुष्यो-पयोगी पशुओं का विभाजन वर्णित हुआ है। इस विभाजन में दोनों ओर दांत वाले अध्यों के साथ गो, अज तथा अवि ना उल्लेख है।<sup>३</sup> विशाट पुरुष की मर्व-हुत यज्ञ से उत्पन्न पशुओं के ये चार नाम पूर्वोक्त विभाजन के ही समानान्तर हैं। इनमें भी आप ऋक्-यजु-साम-अथर्व तथा पृष्ठदात्य-वायवी-आरप्य-ग्रान्त विभाजन को देख सकते हैं। यही विभाजन आगे चढ़ कर नानव समाज के चानुवर्ण्य तथा अधिदेव समाज में भी दिखाई पड़ेगा। अध्यात्म में तो दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि संगृण सूक्त में पुरुष के यज्ञ ना ही वर्णन है और पुरुष के अङ्ग-शिर बाहु, उदर तथा पैर ही तो सृष्टि में इधर उधर मर्वत्र आहुत होने हुए तथा नवीन पशाधों की रचना करते हुए दिखाये गये हैं। इस यज्ञ से रचना ही नहीं, रक्षण का कार्य भी चल रहा है।

गीता ने यज्ञ को प्रवर्तित चक्र कहा है। पुरुषसूक्त के आठवें भन्न में ऋक् ज्ञान है। इस ज्ञान से यजुर्लपी कर्मसांगड उक्कान्त होता है। ज्ञान ही प्रवणायित होकर साम का उपायनाकाण्ड बनता है। ज्ञान पर भक्ति ऊँड हो जाती है। ज्ञान भक्ति को शिर पर उठाकर ले जाता है। यहाँ भक्ति पुनः कर्मठना को जन्म देने वाली बन जाती है। इस प्रकार कर्म-ज्ञान-भक्ति का चक्र चलता रहता है। यजु ऋक् द्वारा संस्कृत होकर साम के सोम में परिणत होता है और पुनः वही बन जाता है। अधिदेव में जल वाप्यादिन में, वाप्याद्विन मेघ में और मेघ पुनः जल में परिणत होता रहता है। हम जो द्रव्यमय यज्ञ करते हैं, उसमें भी चक्र का यही प्रवर्तन है। जिस धी की धाहुति दी जाती है, वह वायु तथा आकाश में सूजन होकर फैलता है। किर वनस्पति आदि में चर्पा के साथ आकर पुनः धी-दुर्गादि में परिणत हो जाता है। वेदन्त्रयी की भी

<sup>३</sup> तस्मादश्वाऽ अजायन्त येके चोभयादतः।

गावो ह जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजाययः ॥

चही दजा है और इसी हेतु वेद एक है। वह चार भागों में विभक्त दिखाई देता है। मूलतः एकत्व है। एक ही दो और फिर दो ही चार हो जाता है और अन्त में चार पुनः एक हो जाता है।

चारों वेदों में सात प्रकार के छन्द तथा सात प्रकार के स्वर हैं। ये स्वर या छन्द मनरूपी भाषाश में उड़ते हैं। इन्हें सम्प्रेमा अर्थात् सातपदी भी कहा जाता है। वेदों का सम्बन्ध स्वर तथा छन्दों के साथ प्रारम्भ से ही चला जाता है। सप्त व्याहृतियाँ, सात लोड, सात धातुओं आदि का भी कोई संबंध सात स्वरों तथा छन्दों के साथ होना चाहिए।

निम्नाङ्कित मंत्र में अग्नि की सात जिह्वाओं, समिधारों आदि का सम्बन्ध है—

सत ते अग्ने समिधः सतजिह्वाः सतकरपयः सत धाम प्रियाणि ।

सतहोत्राः सतधात्वा यजन्ति सतयोनीरापृणस्य धृतेन । यजु १.६१.९

उपर्युक्त तीन मन्त्रों ने पूज कर और दृष्टिगोचर होता है। यह क्रम सामग्री, चेतना तथा जाहृतियों से सम्बन्ध रखता है। मंत्र छः में सामग्री का, मंत्र सात में ज्ञान या चेतना का और मंत्र आठ में जाहृतियों का उल्लेख है। सामग्री में विस्तार होता है, चेतना उसमें प्रविष्ट होकर अनेक प्रकार की जाहृतियों को जन्म देती है।

नवम मंत्र में इस सबसे पूर्ण उत्पन्न यज्ञपुरुष के वेदी की कुशा पर अभिदिव्यवत का वर्णन है और लिरा है कि देय, साध्य तथा शायियों ने इसी अभिदिव्यित पुरुष द्वारा यज्ञ का सम्पादन किया।<sup>1</sup> वधर्व वेद ने वर्दिवि के स्थान पर प्राचुर्या शब्द है जिसका अर्थ है वर्षांन्तु द्वारा।

सूर्य की पूर्वायस्था वेनयुग की अवस्था है जिसमें प्रागतात्य की प्रगता है। मिराठ पुरुष तप रहा है, यमलीन है। इसी तप से, प्राण के धन से, जाप या स्वेद प्रकट हुआ। यह लाप या स्वेद वर्षा के रूप में परिवर्तित हुआ। इसी से विराट पुरुष का अभियेक सम्पन्न हुआ। यज्ञ-प्रक्रिया में वेदी पर दुना

<sup>1</sup> तं यज्ञं वर्दिवि प्रौधान् पुरुषं जातमग्रतः ।

तेन देवा अद्यजन्त साध्या प्रह्यवश्च ये ।

विद्वाई जानी है। उस कुशा पर यजमान बैठता है और कुशों से ही उसके ऊपर ऊँठ का अभिषिन्बन किया जाता है। कुश परिव्र माने गये हैं। प्रावृद्ध या दर्पा ज्ञान में ही कुश उत्पन्न होते हैं। अतः यजु एव अथर्व के शब्दों में सामंजस्य है। इस प्रकार जिस यज्ञ का प्रारम्भ हुआ, उसमें पुरुष की ही प्रवानता है।

देव, साध्य तथा ऋषि कौन है? वे भी प्रागतर्क के ही विविध रूप हैं। इन्हें पार्थिव सारीरधारों नहीं कहा जा सकता। 'पैम्यो मात्रानु मतिष्ठ्यते पयः पीयूरं शोरदितिरदिवहा' नव्य में देवों की मानः ची है जो अद्विति है—अग्रण्ड प्रकाश की स्थिति। देव इसी स्थिति में जन्म लेते और इसी में (दिवि उत्तम) निराम करते हैं। भूमि की तथा न तगड़ि भी उत्पत्ति य द में होती है। भूमि और जल भी देव कहलाते हैं, पर इसमें दिव्य अंश बहुत कम है। दिव्यता तेजम अथवा आग्नेय तत्त्व से प्रारम्भ होती है क्योंकि उत्तम, ऊपर उत्तमा, ऊर्ध्व दिशा को बोर चलना अग्नि का हो कार्य है, जहाँ या भूमि का नहीं। जल निम्नगा प्रवृत्ति रखता है। इसके पाय जाई वस्तु इसी में टीन हो जायगी, ऊपर की ओर नहीं उठ सकेगी। भूमि नो अपने 'गाढपेट' के छिये ग्रल्यात है ही। जो इसमें समा गया, फिर निरुल नहीं पाया। यह अस्ति तत्त्व ही है जो जल को भी ऊपर ले जाता है और दुर्खाके के गर्भ में पड़े हुए दीबादि को अंतुरिन करता हुआ ऊपर लाता है। अतः ऊर्ध्वकिरण जटिन के साथ ही प्रारम्भ होता है। इसी हेतु दिव्यता, जायेतना एवं साध्य-ना आग्नेयता पर अवशिष्ट है। दिव्यता में नौम्य अग्नेयता तथा प्रागवदता है। आर्येयता में प्रसाश है, वर्णन है। साध्यता में त्रोमयी उपजना है। प्राक्काशन सूचन यह इन्हीं सूचन तत्त्वों से निष्कृत होता है। इस यज्ञ की प्रतुष दिव्येतना है दानादान, लेकर अपने पाय न रखना, नयन रुप हुँचा देना, आशन को सबना प्राप्त बना देना। भूमि और जल की भौमि अग्नि किनी भी पदार्थ को अपने पास नहीं रखता। उसे सूचन रूप देवर बायु द्वारा जागाश भर में फैला देना है, सब के लिये ग्राह्य बना देता है।

दशबों तथा भ्यारहर्वें मन्त्रों में प्रश्नोत्तररूप में पुरुष के उन अङ्गों का वर्णन है जो उसकी परा प्रकृति में प्रादुर्भूत हुए। अपरा प्रकृति का वर्णन आगे के मन्त्रों में है—गीता ने अपरा प्रकृति को अष्टधा तथा पराप्रकृति को चीत्र की संज्ञा दी है। प्रश्न किया गया है कि जब पुरुष का विशेषरूप से आधान किया गया, तब कितने विभागों में उसकी कल्पना या रचना की गई? उसमा मुख क्या था, भुजायें क्या थीं, उरु या जंघा क्या थे और पैर क्या थे? उत्तर दिया गया है कि ब्राह्मण इमका मुख, उत्त्रिय बाहु तथा वैश्य जंघा थे और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए<sup>१-३</sup>।

मंत्र ६ में जो पृष्ठदात्य है, वही शूद्र है। इसलिए उसे पैर नहीं, पैरों से या पैरों के लिए उत्पन्न कहा है। साधारण सामग्री कच्चा माल है जिसमें से विशिष्ट पदार्थों की निर्मिति होती है। शूद्र तो इम सब हैं ही, इस शूदूत्व में से जिस वैरयत्व, उत्त्रियत्व या ब्राह्मणत्व का निर्माण होता है, वह अपनी-अपनी अलग विशेषता रखता है। यह विशेषता आन्तरिक होती है, परन्तु बाह्य क्रिया-कलाप में अभिव्यक्ति भी पाती है। इन विशेषताओं को मंत्र ६ में वायव्य, आरण्य तथा ग्राम्य और मंत्र ७ में साम, यजु तथा श्वक् कहा गया है। साम ब्राह्मण है, यजु उत्त्रिय है, श्वक् वैश्य है और धर्मवर्ण शूद्र है।<sup>३</sup> जो शूद्ररूप सामग्री है, वह भी शिखपकला द्वारा संशारी जा सकती है। वैदिक संस्कृति ने कच्चे माल को भी परिमार्जित कर उभकाने का प्रयत्न किया है

<sup>१</sup> यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यक्त्पयन् ।

मुखं किमस्यासीद् कि बाहू किमूरु पादा उच्चेते ।

<sup>२</sup> ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः इतः ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्म्यां शूद्रोऽश्रवायत् ॥

<sup>३</sup> तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार—क्षग्म्यो जातं वैश्यं वर्णमाहुः ।

यजुवर्दं उत्त्रियस्याहुयोनिम् । सामवेदो ब्राह्मणानां प्रवृत्तिः ।

पूर्वे पूर्वम्यो वज्र एवद्वचुः ॥ ३-१२-९

जिससे मानव समाज में उसका भी मूल्यांकन हो सके। ऊरर के तीन वर्गों में तो विशेषता दृष्टिगोचर होने ही लगती है। अर्थव्व में विज्ञान, शिल्पकला, रोगनिवारण आदि के तत्त्व भरे पड़े हैं। शिविपर्यों की संज्ञा वेद में कारु है।

पीछे हमने वायव्य को साम तथा आरम्भ को बनु कहा है, चानुर्वर्ण्य में हम वायव्य को ब्राह्मण तथा आरम्भ को इत्रिय मानेंगे और आम्य या पालतू पशु को दुरध्यप्रद होने के कारण समाज के पालक वैश्य का नाम देंगे। यह केवल दृष्टि-भेद है। एक अन्य दृष्टि से जिसमें उत्क्रमण से अवतरण होता है, ब्राह्मण को पृष्ठदात्य सामग्री कहा जायगा। व्यास के अनुमार 'न विशेषे स्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत्'। प्रारम्भ में सब ब्राह्मण हो थे। किया-भेद की आवश्यकता ने एक से चार वर्ण कर दिये। ब्राह्मण हो त्रिय, वैश्य तथा शूद्र में परिगत हो गया। इसी हेतु ननु ने अनुलोमज विवाह-विधि को मान्यता दी। ब्राह्मण का शूद्र तक अवतरण हुआ है। अतः वह चारों वर्गों की कन्याओं से विवाह कर सकता है। इत्रिय तीन वर्गों, वैश्य दो वर्णों तथा शूद्र अपने ही वर्ण की कन्या से विवाह करे। अवतरण से उत्क्रमण के लिये तपश्चर्या करनी पड़ती है। तब शूद्रत्व सामग्री का रूप धारण करता है जिसका संस्कार क्रमशः वैश्य, इत्रिय तथा ब्राह्मण में होता है।

यह संस्कार प्रथम-प्रसूत होने के कारण मानव योनि तक ही सीमित हैं। अन्य योनियां भोग योनियां हैं। वहाँ प्रयत्न कर्म नहीं, सहज स्वाभाविक गतियां हैं पर वृत्ति-भेद सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है जो ब्राह्मण, इत्रिय आदि विभाजन का आधार है। यह विभाजन पशु-पशियों तक में व्याप्त है। गो ब्राह्मण है, अश्व इत्रिय है, अजा वैश्य है तथा अवि शूद्र है। हूंम ब्राह्मण है, श्येन इत्रिय है, वया वैश्य है तथा काक शूद्र है। यह तात्त्विक व्यापकता वर्णमर्यादा को भी वैज्ञानिक रूप दे देती है। आधार सार्पक है, उसका स्थिरोहन नहीं किया जा सकता। पर यह परमेश्वर की कृति के लिये कहा जा रहा है, मानवकृति के लिये नहीं। मानवकृत वर्णव्यवस्था तो आज अत्यन्त विकृत रूप धारण कर गई है। परम्परालि के काल में भी (विक्रम से २ शतक

पूर्व ) माटरि तथा कौण्डिन्य जैसे वाह्यण वाह्यणपर्कि से पृथक् समझे जाते थे । वाह्यण चत्रिय बन रहे थे । बुद्ध तथा महावीर जैसे चत्रियं पूर्व से ही वाह्यण कार्य कर रहे थे । सांकर्य फैल चुका था । आज तो अवस्था और भी अधिक गिर गई है । पर इससे वैदिक वर्गव्यवस्था की वैज्ञानिकता पर अंत नहीं आती । यह शुक्र की प्रधानता पर अवलम्बित है ।

मंत्र में वाह्यणादि को पुरुष के विभिन्न अवयवों के रूप में उपस्थित किया गया है । ये समस्त अवयव यज्ञ-ऋता देवों के हो रूप में हैं । यज्ञक्रिया को निरन्तर अग्रसर करते रहना ही इनका उद्देश्य है । वेद वाच्यार्थिन ज्ञान-यज्ञ करते हैं, तो वाह्यणादि वर्ग सामाजिक यज्ञ की साधना करते हैं । पशु तथा पक्षियों का कार्य भी अनज्ञान में ही इस यज्ञ का सहायक यना हुआ है । पुक मानव शरीर ही यज्ञ का मुन्द्र चेत्र है जिसके सब अङ्ग एवं स्पर्शिक पूरुता के सूक्ष्म में वंधे हुए यज्ञ का पुनीत सम्बादन कर रहे हैं । इन्द्रियों पृथक्-पृथक् रूप से जो कुछ ग्रहण करती हैं, उसे मन को सौंप देती हैं । मन उस स्वरूप समैक्य करता हुआ समग्र शरीर तथा चेतना की सेवा में लगा हुआ है ।

मंत्र १० में पुरुष के अन्नविभाग का उल्लेख है । इस विभाग में पृथक् तात्त्विक मिद्दान्त कार्य कर रहा है । पृथक् में यज्ञ की क्रिया सम्पादित नहीं हो सकती । पृथक् तो उसका उद्देश्य है । यहुत्य की सत्ता ही पृथक् की ओर प्रयाण करती है । धतः यज्ञ करने के लिये विभाग अवशिष्ट है । शरीर यज्ञ में इन्द्रियों के तथा अंगों के विभाग हैं । सूष्टि ने देव-विभाग तथा सामग्री-विभाग है । यज्ञ में भी ऋतिक, हेता, अधर्यु, उदगाता, वाहा आदि वा देव-विभाग तथा समिधा, नाय, दक्ष आदि का सामग्री-विभाग है । विभाग होकर सब यज्ञ की साधना में लगते हैं, अपना-अपना कार्य-भाग व्यवाधित करते हैं, और यज्ञ वी परिपूर्णता में योग-दान देते हैं । सूष्टि यज्ञ है । इसमें पुरुष ही आहुत हुआ है । देव याजक हैं जो उसी के अङ्ग हैं । यज्ञकार्य से ही सूष्टि का संचालन होता है । विभागन के सभी अङ्ग एक दूसरे के पूरक हैं । ये मिलकर कार्य करते हैं । उनके नमिनित कार्य की परिपति ही यज्ञ है । सूष्टिहपी यज्ञ करके प्रछय में सर अङ्ग विधान करते हैं । सूष्टि होते ही पुनः

यज्ञ चल पड़ता है। प्रलय में एकत्व है, सृष्टि में विभाजन है, बहुत्व है। एकत्व का कोई लिंग नहीं, पहिचान नहीं। सृष्टि के बहुत्व पूर्व नानात्म में लिङ्ग हैं, चिह्न हैं। वे पहिचाने जाते हैं। प्रलय के विद्वान् में अप्रकेतस्त्व है। वहाँ कोई किसी को नहीं पहिचानता।

मंत्र ११ में ब्राह्मणादि वर्ण सामाजिक यज्ञ करते हुए संपूर्ण समाज के विकास में संलग्न हैं। उनके समिलित कार्य से समाज का उन्नयन होता है, तो एक-एक का विभक्त कार्य चेतना का भी विकास कर रहा है। शूद्रत्व वैश्यत्व में, वैश्यत्व चतुर्वित्व में, चतुर्वित्व ब्राह्मणत्व में और ब्राह्मणत्व सर्वहुत यज्ञपुरुष में विकसित हो रहा है।

चेतना के चेत्र में पुरुष के सर्वहुत यज्ञ का वर्णन करके नारायण ऋषि ब्रह्माण्डीय यज्ञ की ओर दृष्टिपात रहते हैं। वारहवें तथा तेरहवें मन्त्रों में पुरुष के अवयव ब्रह्माण्ड पर घटाये गये हैं। ध्यान देने की बात है कि यह आरोप मानव समाज तथा ब्रह्माण्डीय घटकों पर तो किया गया है, परन्तु पशु-पक्षियों पर नहीं। एक बात और ध्यान आरूपित करती है कि जैसे ब्राह्मण, चतुर्वित्व तथा वैश्य को पुरुष के अद्भुत माना गया है, वैसे शूद्र तथा ब्रह्माण्डीय देवताओं अथवा ग्रहादि को नहीं। इन्हें पुरुष के अद्भुतों से उद्भूत कहा गया है। ऐतरेय उपनिषद् के अधिकैव प्रकरण में भी ऐसा ही है, वर्तपि अध्यात्म प्रकरण में वैपरीत्य है। लघुर्व के उपेष ब्रह्मसूक्त में ऐसा नहीं है। वहाँ ब्रह्माण्ड के अवयव पुरुष के अवयव हा है। पुरुषमूर्त वहता है—चन्द्रमा पुरुष के मन में उत्पन्न हुआ। चतु ने सूर्य, श्रोत्र में बायु तथा प्राण और सुग्र से अस्तिदेव उत्पन्न हुए। नाभि से बन्तरिष्ठ, शिर से थौं, परों से भूमि, श्रोत्र से दिग्जान्तों तथा लोकों की रचना की गई<sup>१,२</sup>।

<sup>१</sup> चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोऽसूर्योऽजायत ।

श्रोत्रादायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ।

<sup>२</sup> नाभ्या आसोदन्तरिष्ठ शीण्णो द्योऽसमवर्तत ।

पद्मना भूमिदिशः श्रोत्रात् तथा लोका २ अकल्पयन् ॥

अधर्ववेदीय ज्येष्ठ ब्रह्मसूक्त ( १०-३-३२, ३३, ३४ तथा १०-८-१ ) में निम्नोंकित मंत्र आते हैं :—यस्यभूमिः प्रमा, अन्तरिष्मुतोदरम् । दिवं यश्चके मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः । यस्य सूर्यक्षेषुः चन्द्रमाश्च पुनर्णवः । अस्मि यश्चक आस्य तस्मै । यस्य वातः प्राणापानी चकुरंगिरसोऽभवन् । दिशो यश्चके प्रज्ञानीः तस्मै० । यो भूतब्धं भव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठति । सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।

इन मंत्रों में भूमि ही जिसका पैर है, अन्तरिष्म उदर है, दी शिर है, सूर्य और पुनः नवीन बनने वाला चन्द्रमा चकु है, अग्नि मुख है, वात प्राणापान है, चकु या विशुत अङ्गिरस या अङ्गों का रम है, दिशायें ज्ञान कराने वाले थोक्ष हैं और जो भूत पृथं भव्य का अधिष्ठाता होकर केवल आनन्दरूप है, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को हमारा प्रणाम हो । यह कथन ‘चकु से सूर्य उत्पन्न हुआ’—के समान नहीं है ।

ऐतरेय उपनिषद् के प्रारम्भ में ही पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए अपि कहते हैं :—इस सब के पहले एक आरमा ही था । उसने ईषण किया कि लोकों की रचना करूँ । उसने इन लोकों को रचा : अम्भ, मरीची, मर, आप । दी से परे वह अम्भ है, उसमें धीः प्रतिष्ठित है । अन्तरिष्म मरीची है । पुरुषिवी मर है । जो नीचे है वे आप हैं । उसने ईषण किया, ये तो लोक हैं, लोकपालों को रचूँ । उसने जलों में से ही पुरुष को उठाकर मूर्धित कर दिया । वह अभितप्त और अभितप्त होता रहा । तब उसमें मुख पूढ़ा—जैसे अपना पूटता है—मुख से वाणी निरुली और वाणी से अग्नि । नासिका से दो रंभे पूटे और उनसे प्राण तथा प्राण से वायु । दो आंखें निरुली । आंगों से चकु ( देखने की शक्ति ) वीर चकु से आदित्य । इसी प्रकार दो शान—मुनने की शक्ति—दिशायें । एक—लोम-जोषधि-यनस्पति । छद्य-मन-चन्द्रमा । नाभि-भपान-मृत्यु । दिशन-रेतः—आपः प्रकट हो-गये । अधिदेव की ये देवतायें उत्पन्न हो गईं । उन्हें भूत-प्यास टगी । आरमा से योली, हमें आयतनदो जिसमें प्रतिष्ठित होकर हम अन्न भस्तु बरें । उनके सामने गाय, फिर अभ ढाया गया, पर

देवताओं को वे पर्याप्त ( अलम् ) प्रतीत नहीं हुए । जब पुरुष लाया गया, तो वे बोलीं, हाँ यह सुहृत है—अच्छा बनाया गया है । पुरुष ही निश्चित रूप से सुहृत है । आत्मा ने कहा—इसमें प्रवेश कर जाओ । अस्तित्वेवता ने बाणी होकर सुख में प्रवेश किया । बायु ने प्राण घन कर नासिकाओं में, आदित्य ने चबु होकर बाखों में, दिशाओं ने श्रोत्र होकर कानों में, ऋषि घनस्पतियों ने लोम बनकर खचा में, चन्द्रमा ने मन होकर हृदय में, मृत्यु ने अपान होकर नाभि में, जलों ने रेत घन कर शिरन में प्रवेश किया ।

ऐतरेय उपनिषद के इस वक्तव्य में ‘चबु से सूर्य निकला’ वैदिक शैली की ही अनुकूलिति है । परन्तु आगे जब पुरुष में प्रवेश करने का प्रकरण आता है, तब अस्तित्व ही बाणी तथा आदित्य ही चबु बनते हैं । एक से दूसरा उत्पन्न नहीं होता । यह कथन मुख्य ही ब्राह्मण है—इस कथन से नेतृ खाता है । अतः उपनिषद तो दोनों देवों ने वेद का ही अनुसरण करती है । अर्थात् का उपर्युक्त ब्रह्मसूक्त ब्रह्माण्ड के देवता में पुरुष के अङ्गों का आरोप वैसे ही करता है जैसे पुरुषसूक्त पुरुष के अवयवों का समनव समाज के विशिष्ट अंशों पर । पुरुषसूक्त की शैली विश्लेषणयी होने के कारण महत्वपूर्ण है ।

यजुर्वेदीय पुरुषसूक्त में श्रोत्र से वायु तथा प्राण दो देव उत्पन्न होते हैं, परन्तु यागवेदीय तथा अर्थवेदीय पुरुषसूक्तों में श्रोत्र से नहीं, प्राण से वायु उत्पन्न होता है । दो देवों की पृति इन दोनों पुरुषसूक्तों में मुख से इन्द्र और अस्ति की उत्पत्ति लिखकर की गई है क्योंकि यजुर्वेद में मुख से केवल अस्ति की उत्पत्ति का ही वर्णन मिलता है । इससे यजुर्वेद यथा अर्थवेद में श्रोत्रममवन्धी वह पुनरक्ति नहीं हुई जो यजुर्वेद में पायी जाती है । यजुर्वेद में एक वार श्रोत्र से वायु तथा प्राण दो देवों की उत्पत्ति कहकर ( नंत्र १२ ) पुनः द्वितीय वार नंत्र १३ में श्रोत्र से दिशाओं की तथा लोकों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है ।

ऐतरेय तथा वेद दोनों में पुरुष का उल्लेख है । अन्तर इतना ही है कि उपनिषद में पुरुष की रचना आत्मा द्वारा होती है और यह पुरुष एक और

अधिदेव तथा दूसरी ओर अध्यात्म में प्रकट होता है। इनमें पृथ्वी गीता का चर उरुप है तथा दूसरा अचर पुरुष है। आग्ना (जो इन दोनों का जनक है) दोनों का मूल तथा अव्यय है—गीता के शब्दों ने पुरुषोत्तम है। येद में इन प्रकार का कथन नहीं है। वहाँ आविदैविक चरणत के ग्रहाण्डीय देवताओं तथा मानव समाज का वर्णन है। अध्यात्म का वर्णन भी लाइगिक रूप में आ जाता है।

पुरुप के अद्वैतों का जो आरोप मानव समाज तथा ग्रहाण्डीय अवयवों पर किया गया है, उसमें क्या संगति है? आह्वान पुरुष का मुख वयों है? विचार करने पर संगति दैठ जाती है। जो हुँड इस देष्टते और सुनते हैं, उसे मुख द्वारा ही तो उच्चारित करते हैं। द्वनारा समस्त दर्शन और अवधेष मन में पच कर मुख की वाणी द्वारा अभिष्यक्त होता है। आह्वान का तुरुप कार्य समाज के ज्ञान देना है जो वाणी के व्यावार रूप विना सकल नहीं हो सकता। वाणी के लिखित तथा उच्चारित दो रूप हैं। दोनों ही स्पष्ट ज्ञान-द्वान के लिये उत्तम साधन हैं। मानव का पुरातन युगीन ज्ञान वाणी के लिखित रूप में सुरक्षित है। तुरुप से बोलकर मैं हुँड दूर तक बैठे हुए व्यक्तियों को ही धपती दात नुना यकता है, पर लिखित रूप ने मेरी वाणी दूर-दूर देशों के निवासियों तक पहुँच जाती है। अतः मुख की वाणी का जो कार्य पुरुष के अन्दर है, वहा कार्य समाज में प्राह्लाद का है। यही वात अन्य अद्वैतों के सम्बन्ध में भी यही जा सकती है। बाहु शरीर की रक्षा करते हैं तो इतिव समाज को। ऊरु तथा नध्य भाग शरीर को पोषण देते हैं तो वैद्य शृदिन्द्यातार आदि द्वारा समर्पण उत्पन्न करके समाज का पोषण करता है। ऐसों पर शरीर का भार है तो नूडों पर समाज की सेवा का भार है।

ग्रहाण्डीय अवयवों के सम्बन्ध में भी संगति इस है। घन्दना और विद्यों का पति है और नन का। निर्माण और विद्यों के सारहृष्ट ने हाता है। चतु और मूर्य का सम्बन्ध तो प्रत्यात है। येद में मूर्य को कई रथनों पर चतु रक्षा नया है। दोनों ने दर्शन शक्ति हैं। मुख में यांगों हैं क्षीर वाणी भ्रगिन

के तैयास अंशों से निर्मित होती है।<sup>१</sup> अतः मुख से अग्नि उत्पन्न हुई, यह कथन भी संगत है। वायु से प्राण का सम्बन्ध तो स्पष्ट है, परन्तु श्रोत्र से उनका क्या सम्बन्ध है? श्रोत्र द्वारा जो स्वर अन्दर जाते हैं वे वायु तथा प्राण की महायता से ही तो जाते हैं। आकाश में भरे हुए शब्द वायु की लहरों पर बैठ कर जब मेरे कानों में प्रवेश करते हैं, तभी वे मेरे लिये अवणीय चन पाते हैं। नाभि दैसे शरीर का केन्द्र या मध्य भाग है, दैसे ही अन्तरिक्ष ब्रह्माण्ड का मध्य भाग है। शिर शरीर का ऊर्ध्व भाग और प्रकाश का स्थान है, तो यौ ब्रह्माण्ड का ऊर्ध्व पूर्व प्रकाशपूर्ण भाग है। इसी प्रकार पृथ्वी ब्रह्माण्ड में पैर और दिशायें तथा लोक ध्रोत्र के समान हैं। दिशाओं में लोक हैं, लोकों में प्रजा है। और मामने देखती हैं, कान दाहूँ-वाहूँ सभी दिशाओं से सुनते हैं और लोक द्वारा लोक की चाहें सुनते हैं। जो अलोक की चाहें हैं, वे भी लोक द्वारा ही सुनी जाती हैं।

पुरुषसूक्त में पुरुष का सर्वहुत यज्ञ चल रहा है। ब्रह्माण्डीय देवता भी उत्पन्न होकर इस यज्ञ ने अपना-अपना भाग दान दे रहे हैं। सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, वायु, अग्नि आदि सब सर्वहुत यज्ञ कर रहे हैं। इनका अपने लिए कुछ भी नहीं, जो कुछ है, समर्पित ब्रह्माण्ड के लिये। सूर्य क्या अपने लिये तपता है? चन्द्र की उपोत्सना क्या चन्द्र को आलहादित करती है? वायु क्या अपने लिये चलता है? अग्नि की उपजाता क्या अग्नि के लिये है? पृथ्वी का आधार, उसका धारक रूप तथा उस पर विकसित अन्न, फल, कूल आदि क्या पृथ्वी के काम आते हैं? नहीं, सब सर्वहुत यज्ञ करके एक दूसरे के सहायक बने हुए उस परम होता की इष्टि-साधना में लीन है। अपने लिए कोई कुछ नहीं चाहता, किर भी सबका अस्तित्व इस यज्ञ द्वारा सुरचित है। अध्यात्म में भी यही हो रहा है। जो देवता हम शरीर में निवास करने आगे है, वे भी यज्ञ कर रहे हैं और समर्पित शरीर के हित-साधन में संलग्न हैं। हाथ लिख रहे

<sup>१</sup> छान्दोग्य अध्याय ६, खण्ड ६-४, ५

हैं तो चेतना के प्रकाश के लिये, कुछ अन्नादि ग्रहण करते हैं तो मुख तक पहुँचा देने के लिये। मुख भी अन्न को चबा कर दाढ़ी में बांध नहीं रपता, उन्हे आमाशय में पहुँचा देता है। आमाशय उसे रस घना कर रक्त में परिणत करता है और रक्तवाहिनी नाइयों उसे व्यान प्राण की सहायता से शरीर भर में पहुँचा देती है। एक द्वारा गृहीत आहार शरीर भर का आहार घन जाता है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मनिदेय तथा दशविध प्राण सब अपना कार्य निःस्वार्थ भासना से करते हुए पुरुष के सर्वदुत यज्ञ को पूर्णतया सम्पादित करने में तल्लीम हैं। प्राण इन सब में प्रसुन्न माना गया है जैसे यज्ञ में सर्व-प्रसुन्न वद्धा।

मानव समाज को भी सर्वदुत यज्ञ का यह आदर्श ग्रहण करना चाहिए। पुरुषमूर्ख ने मानव समाज के विविध अङ्गों को पुरुष के ही विविध अङ्ग रखा है। ग्रहाण्ड का दौ और पुरुष का शिर मानव समाज दा ज्ञानीरग्य या ग्राहण-समुदाय है। ग्रहाण्ड की भूमि और पुरुष के पैर ही मानव समाज के धर्मदीर्घी शूद्र हैं। ग्रहाण्ड का अन्तरिक्ष और पुरुष को नाभि मानव समाज का यैश्य या व्यापारी समुदाय है। और ग्रहाण्ड में व्याप्त भूत तथा पुरुष के प्राण और याहु ही मानव समाज के लक्ष्य हैं। फिर मानवसमाज इस सर्वदुत यज्ञ से क्यों हटता रहता है? उसके ये सभी अङ्ग परस्पर मिलकर कार्य क्यों नहीं करते? छीना-झपटी और आपाधारी में पदकर एक अङ्ग दूसरे के लिये ग्राम का कारण क्यों घन रहा है? क्या मानव समाज सदकारिता की भावना से वंचित है? अपरिचित है? यदि नहीं, तो इम एक दूसरे के मुख का ग्रास क्यों कर दस्यु-वृत्ति को क्यों अपना रहे हैं? ज्ञानी, शूरवीर, पनी तथा धर्मी सर मिलकर मानवता को वरेण्यपद क्यों प्रदान नहीं करते? मानवता आज रिद्धिन है, अपमानित है, पीड़ित है—क्यैवल मानव के कारण। सुद की विभाविमा एवं रक्षणात ने उसके विवाद की घड़ियों उपस्थित कर दी हैं। ज्ञान विवाद में ही नहीं, रक्त पिपासुओं के द्वाधों को घलगान घनाने में लगा है। यत्रियाँ तो

दीन के संत्राण के लिये उद्यत रहता था, आज अहमहमिका का स्वयं आखेट बनकर दीनजन-पीड़िन में आहुत हो रहा है। धनियों का धन दान में चहों, मद-संवर्धन में व्यय होता है और वेचारा श्रमजीवी ? वह अवशेष अनजान में ही पावन सामाजिक यज्ञ में चुपचाप भाग लेना रहा था, पर अब उसका अहं भी जोर मार रहा है और अपने धन का वह अपने लिए पूरा भुगतान चाहता है। सृष्टि तथा अध्यात्म के देव अपने नियत कार्य का निर्वाह किये चले जा रहे हैं, परन्तु सर्वहुत यज्ञ के अदर्शन यदि कहों होते हैं, तो मानव-समाज में, राष्ट्र में, राष्ट्र-समूहों में। मनुष्यों के वर्ग के वर्ग नीति-विधारिक-प्रणालियों का परित्याग धड़हले के साथ कर रहे हैं और अपने विनाश का विज्ञान भी रख रहे हैं। क्या हम पुरुषसूक्त के पुनीत संदेश को सुनने में अशर्क हैं ? मन्त्र संख्या १५ का धनुशीलन इस प्रश्न का समाधान करेगा ।

निम्नांकित मंत्र भी इस सम्बन्ध में प्रेरणा-भूदृष्टिकृत संकलन है—

संगच्छध्वं संवदध्वं सं घोमनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वं संज्ञानानाड पासते ॥

समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सद्विचित्तमेपाम् ।

समानं मंत्रमभिमंत्रये वः समानेन घो हृविपा ज्ञुहोमि ॥

समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु घो मनो यथा वः सुसद्वासति ॥

अधर्व ६-६४-१२,२ न० ३०-१५३-२,३,४

हे मनुष्यो ! यदि तुम कद्याणकामी हो, तो मिलकर चलो, एक साथ बैठकर संवाद करो, तुम्हारे मन विरोधरहित होकर ज्ञान प्राप्त करें, वैसे ही जैसे पूर्व के संज्ञानी देव अपने-अपने निहित भाग को उपासना किया करते थे, सर्व मिलकर अपना-अपना कर्त्तव्य पालन करते हुए समष्टि का हित-साधन किया करते थे ।

इन सबके मंत्र, समिति, मन तथा चित्त समान हों, सहकारभावना से

संयुक्त होते हैं। इसी समान मंत्र से मैं तुम सबको अभिमंगित करता हूँ, समानता का यही मन्त्र मैं तुम सबको देता हूँ और समान हृषि के द्वारा तुम सबको यज्ञ करने के लिये प्रेरित करता हूँ। तुम्हारे संकल्प और भाव समान हों। तुम्हारे मन समान हों। जिससे तुम अच्छी तरह स धू-साध रह सको।

मन्त्रों में निहित मानवकल्याण की कामना स्वार्थ के कालुभ्य को दूर करके स्वरक्षण्य का पालन करते हुए सूष्टि के हित में, सर्वहुत यज्ञ करने से ही सफल हो सकती है।

मन्त्र ५४ कहता है कि जब पुरुष ने सूष्टि-यज्ञ में अपने को आहुत कर दिया, तो देवों ने उस देवयुग में यज्ञ का विस्तार किया। हमके लिये सानन्दी प्राप्ति में उन्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। कालचक्र का प्रवर्तन हो चुका था। यातुर्ये क्रमशः अपनी-अपनी वारी से जाने जाने लगे थे। जिनमें से वसन्त आज्य का, ग्रीष्म हृष्णव का और शरद हृषि का काम दें रही थी।<sup>9</sup>

सूष्टि के साथ दिक या देश यज्ञ की येदी थन चुके थे। काल ने भी उस यज्ञ ने सहयोग प्रदान किया। पृथ्वी के परिभ्रमण में उसका खितना भाग सूर्य के नामने आता रहता है, उतने में दिन और शेष भाग में रात्रि रहती है। दिन के पश्चात् रात्रि और रात्रि के पश्चात् दिन के जायागमन का एक चक्र सा चलने लगता है। चन्द्र का पृथ्वी के चतुर्दिक परिभ्रमण रात्रि के अन्धकार को कभी पूर्णतया और कभी अंशिक रूप से दूर करता रहता है। चन्द्र किरणों के संपर्क से ही ओपधि तथा बनस्पति विरुद्धित होते हैं। सूर्य की किरणों के साथ ग्राण शक्ति पृथ्वीमंडल पर ध्वतरित होकर जीवन, प्रकाश तथा उप्पता का संचार करती रहती है। सूर्य की किरणों से पृथ्वी तपती है, तो चन्द्र की किरणों से शीतल होती है। संताप जहाँ ग्रीष्म को जन्म देता है, वहाँ जल को

<sup>9</sup> यत्पुष्पेष हृषिया देवा मज्जमतन्वत् ।

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्महृष्मः शरद्विः ।

बाप्प के रूप में ऊपर ले जाकर और नेघ के रूप में परिणत करके वर्षा जल्तु के आगमन की पीठिका भी प्रस्तुत कर देता है। दोनों से शस्य की उत्तरति होती है जो शारद के आगमन के समय फट्टीभूत हो जाती है। प्राणियों को जहां ऊर्मा, शैश्व, पवन आदि की आश्रयकता है, वहां शस्य, जल आदि की भी, क्योंकि उत्पन्न होते ही अशन। जो उनके साथ लग गई है। उसकी तृप्ति के साधन भी तो उपलब्ध होने चाहिये। भूख की तृप्ति यज्ञ द्वारा ही होती है और काल इस यज्ञ का सबसे बड़ा साधन है। काल चक्र का जल्तुकम नाना प्रकार के धनधार्य, कन्द, मूल, फल उत्पन्न करता रहता है। दैव जगत का यह यज्ञ जल से आरम्भ हुआ, तब से आज तक अवाध गति से चल रहा है। चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, चृहस्पति, शनैश्चर सबके सब इस यज्ञ में समान रूप से भाग ले रहे हैं। सूर्य नवका अप्रज होने के कारण सबके समज आदर्श उपस्थित कर रहा है। फिर उसके अनुज उत्तरा अनुकरण क्यों न करें ?

मंत्र में वसन्त को धारय कहा है। यज्ञ प्रकरण में आज्य का अर्थ यही है। धृत भी आज्य अर्थात् सामग्री है परन्तु चिकित्सा। वसन्त का वातावरण ही धृतमय, स्नेहित, रागमय, सचिवरुग होता है। फल, फूल, मंजरी, दाने, कोकिलस्वर सभी इसमय होते हैं। इस जल्तु में चर-अचर सम्पूर्ण जगत इस-स्त्रिमय हो उठता है। धृत पढ़ने से जैये अग्नि प्रदीप्त हो उठती है, वसन्त के आगमन से वैये ही जड़-चेतन का अन्तस्थल लिल उठता है। होली का रसीला पर्व इसी जल्तु में पड़ता है। अतः वसन्त को आज्य या धृत कहना सर्वथा संगत है। ग्रीष्म इधम या हृष्ण है। इधन सूखा होना चाहिये। शुष्क समिधा शीघ्र अग्नि पकड़ती है। वर्षा की गीलो, आर्द्र लकड़ी जलदी नहीं जलती। ग्रीष्म का कार्य ही है सुखाना। इस जल्तु में सूर्य की किरणें धूच-बनहस्पति, सर-सरित-सिंधु सभी से इस खींच दर ऊपर ले जाती हैं। शुष्कता ही शुष्कता चतुर्दिन् दृष्टिगोचर होने लगती है। सभी दिशाओं का उत्ताप शुष्कता को बढ़ाता है और अग्नि के लिए आगु प्रदीपनीय सामग्री को प्रस्तुत

के उन्मूलन का एक ही उपाय है—अपने पशुत्व को बांधना, उसकी आहुति देना, सर्वहुत यज्ञ के लिये सर्वप्रथम उसकी बलि चढ़ा देना। जब तक मानव अपने अन्दर द्विये इस पशुत्व का बंधन नहीं करता, तब तक वह कल्याण का साधन नहीं कर सकेगा। नीति या सदाचार का यह तत्व मानवता का उन्नायक है।

देवत्व की सुरक्षा के लिये पशुत्व का बंधन आवश्यक है। पशुत्व में पश्यन् भी है जो बुद्धि का कार्य है। बुद्धि का पश्यन् द्विविध है: पुण्यवान् तथा पापीयान्। वेद कहता है: 'अन्यत्र पापीरपवेशायाधियः' पापीयसी बुद्धि को दूर करो जिससे बुद्धि शुभ कार्यों की ओर ही निरन्तर प्रेरित होती रहे। बुद्धि के इस अंश को भी नियंत्रण में रखने की भावश्यकता है। बुद्धि का प्रकाश हमें स्वार्थ से हटाकर परमार्थ में संलग्न करे, तभी उसकी सार्थकता है।

अपने पशुत्व को भारकर खा जाओ, उसे सडांद पैदा करने के लिये मत छोड़ो। जो लोभ दूसरों को खाने दौड़ता है, उसे खा डालो। क्रोध को पीसकर पी जाओ। काम का उन्नयन कर दो, उसकी धूपगामिनी प्रवृत्ति को कुचल डालो। काम से मोह, क्रोध से ह्रेप या मत्सर और लोभ से मद या अहंकार उत्पन्न होता है। जनरु बन्धन में पड़ गये, तो संतति आवेगी ही कहाँ से? पिता ही भार डाला गया, तो संतति का उत्स ही समाप्त हो गया। चोरों को अंधकार का बल रहता है, तो धारा को अपने खोत का। अतः मत् सहायकों को छोड़ो और न लोतों को। अपने बल का विनाश देखकर पाप स्वयं नष्ट हो जायगा।

सात परिधियाँ और इनकीस समिधायें क्या हैं। विद्वानों ने इनकी भगवा अपनी-अपनी मति के अनुसार की है। मेरी समझ में भू से लेकर साथ तक जो सात लोक या धाम हैं, वे ही यज्ञ की सात परिधियाँ हैं। इनकीस समिधाएँ जिनकी आहुति इस यज्ञ में पड़ रही हैं, महत्त्व से लेकर पञ्च-तन्मात्राओं तक सात प्रकृति-विकृतियों के सत्-रज्-तम तीन-तीन भेदों से २१ भेद हैं।

पशुत्व को बांधने का एक अर्थ और है। पशु दर्शन है, ज्ञान है। यज्ञ में ज्ञान आबद्ध किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि यज्ञ में कर्म-काण्ड की प्रभुत्वता है। यज्ञ प्रयोगात्मक ज्ञान है। ज्ञान को आहुत करने का अर्थ है उसे यज्ञ-कर्म में परिणत करना, आचार के सांचे में ढालना, समाजोपयोगी रूप देना। जब तक ज्ञान बांधा नहीं जायगा और आचरण का रूप धारण नहीं करेगा, तब तक उसका प्रयोजन व्यक्ति पूर्व<sup>1</sup> समाज के लिये कुछ नहीं है। यज्ञ-कर्म-रहित ज्ञान कोरी जल्प है। ज्ञान की शोभा तदनुकूल आचरण करने में ही निहित है।

महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सात परिधियों को सात आवरण कहा है जिनमें समुद्र, त्रसरेणु, भेघमण्डल, वृष्टिजल, उसके ऊपर का वायु, धनञ्जय नामक सूचम वायु तथा सर्वत्र व्याप्त सूत्रात्मा की गणना है। श्रीमद्भागवत, तृतीय स्फट्ख के अध्याय ११ के अन्त में लिखा है कि प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार और पञ्चतन्मात्र नाम की आठ प्रकृतियोंके साथ, दशाइन्द्रियों, मन, और पञ्चभूत इन सोलह विकारों से मिलकर बना हुआ। यह ब्रह्माण्ड-कोण भीतर से पचास करोड़ योजन विस्तार वाला है। इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर दश-दश गुने सात आवरण हैं।

मंत्र १६ में यज्ञ का फल दिखाया गया है। देवों ने यज्ञ से ही यज्ञ किया, पर वे प्रथम धर्म थे। देवयुग में ही ऐसे यज्ञ सम्पादित हुए थे। आधिदैविक तथा आध्यात्मिक जगत में जाज भी देवयुग चल रहा है। वे देव महिमासम्पन्न थे। उनमें दिव्यता थी। वे उत्तरशुभ थे। उनका बल निम्नगा प्रवृत्ति से पृथक रहा—वह ऊपर ही उठा—यौ लोक की ओर ही चला। अदिति, जखं-हनीय समरक्षता के वे नित्यसंपर्क में रहे। अतः यज्ञ द्वारा वे उस नारु लोक को प्राप्त कर गये जहाँ पहले साथ देव विराजमान थे।<sup>2</sup>

<sup>1</sup> यज्ञेन यज्ञमयज्ञत देवास्तानि धर्माण्यप्रथमान्यासान्।

तेह नाके महिमानः चनन्त, यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥

मन्त्र में दो प्रकार के देवों की चर्चा है : एक वे देव जो नाक लोक में पहले से ही विराजमान थे, दूसरे वे देव जिन्होंने यज्ञ के द्वारा यज्ञ करके नाक लोक को प्राप्त किया । नीचे लिखे मन्त्रों में भी दो प्रकार के देवों का वर्णन हुआ है :—

ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजन्मा अमृता ऋतशः ।

तेनो रासन्तामुरुगायमद्य यूर्यंपात स्वस्तिभिः सदा नः ॥

अथव १९-११-५ तथा श० ७—३५-१५

येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्त  
होतुभिः ।

त आदित्या अभयं शर्मं यच्छत सुगा नः कर्तुं सुपथा स्वस्तये ॥

श० १०-६३-७

( १ ) जो देव यज्ञियों में भी यज्ञिय हैं, पूज्यों में भी पूज्य हैं, जो मनु के यजन्म या याजक बने, जो अमृत हैं ( सृष्टि के प्रारम्भ में ही जन्म लेकर जो मोह प्राप्त कर गये । अमैथुनी सृष्टि में ही जात होने के जिनके कर्म-विपाक थे ) अर्थात् जो मैथुनी सृष्टि के जन्म-मृत्यु-चक्र में नहीं पड़े, जो ऋत के ज्ञाता हैं, वे हमें आज ही विस्तृत यश प्रदान करें और अपनी कल्याणकारिणी शक्तियों द्वारा सदैव हमारी रक्षा करते रहें ।

इस मन्त्र में मनु के प्रत्यक्ष एवं याजक देवों का वर्णन है ।

( २ ) समिद्धाग्नि मनु ने मन से सात होताओं अर्थात् याजकों के द्वारा जिन देवों के लिये प्रथम होत्र सम्पादित किया, वे आदित्य देव हमें अभय तथा सुख-शान्ति प्रदान करें और कल्याण के लिये हमारे सुपथ को सुगम कर दें । यहाँ मनसा शब्द स्पष्ट रूप से मानसिक यज्ञ की ओर संकेत कर रहा है । इस मन्त्र में आदित्य देव वे हैं जिनके लिये मनु ने अपने सात देवयाजकों द्वारा अग्निहोत्र किया ।

निम्नांकित मन्त्र में ऐसे देवों का उल्लेख है जिन्होंने देवों के मध्य में भी देवत्व प्राप्त किया अर्थात् जो देवों के भी देव हैं :—

ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन् ये ब्रह्मणः पुर पतारो अस्य ।

येभ्यो न ऋते पवते धाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधि

स्तुपु । यजु १.११५

जिन देवों ने देवों के अन्दर भी देवत्व को प्राप्त किया, जो इस ब्रह्माण्ड को आगे ले जा रहे हैं, जिनके विना कोई धाम एविन नहीं होता, वे अन्य देवों की भाँति न तो घौ लोक में मिलेंगे और न पृथ्वी के गिरि-शिखरों के ऊपर ।

ये देव जनकल्याण के लिये कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं । जब पृथ्वी या अन्य किसी वसु में जीवार्थमालों के पापों के कारण विष्वसन्मयी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब ऐसे देव ही उसका संत्राण किया करते हैं । ज्ञान का सूत्र भी जब छिन्न-भिन्न होने लगता है, तब ये ही आकर उसे जोड़ जाते हैं । विश्व की पवमानकारिणी शक्तियों में भी इनका हाथ देखा जा सकता है । साधकों ने इनके दर्शन किये हैं । अपनी दिव्यशक्ति के बल पर ये पछ भर में ही अपनी पावन शक्ति का प्राकटय कर सकते हैं ।

यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ करना यजुर्वेद के ‘यज्ञोयज्ञेन कल्पतो’ का स्मरण करा देता है । द्रव्य नय यज्ञ करने वाले हम यज्ञ की इस ऊर्ध्व स्थिति को कष्टाचित् न समझ सकें । मानसिक यज्ञ का संकेत तो ऊपर एक मन्त्र में हो ही चुका है । गीता ज्ञानयज्ञ को द्रव्यमय यज्ञ से ध्रेयस्त्र कहती है । पर यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ करना सर्वोच्च यज्ञ का स्वरूप है । पुरुषसूक्त इसे देवयुग के साथ ही सम्बद्ध करता है क्योंकि इसे वह प्रथमधर्मों में परिगणित करता है । मानव युग में प्रणालियां परिवर्तित हो जाती हैं । जिन मनुष्यों के पास धन है वे दीर्घकालाध्यापी अर्धन्यज्ञ कर सकते हैं । जिनके पास ज्ञान है, वे ज्ञानयज्ञ कर सकते हैं । अर्थ की आकांक्षा न रखते हुए ज्ञानदान देना ज्ञानयज्ञ ही है । जिनके पास बल है ये किसी अत्याचारी से पांडित दीन-हीन जन की रक्षा

करके यज्ञ-साधन कर सकते हैं। निस्वार्थ भावना की अपेक्षा यज्ञ में सर्वंत्र है। अमदान भी उस समय यज्ञ का रूप धारण कर लेगा जब फलाकांता या प्रतिमूल्य की भावना उसका संपर्क न कर सके। पर जिसके पास ऐसी कोई भी वस्तु न हो, क्या वह यज्ञ से वंचित रह जायगा? नहीं, जिसके पास कुछ नहीं, उसके पास अपना भाषा तो है ही। जिसने अपने आप को दूसरे के लिये आहुत कर दिया, वह यज्ञ से ही तो यज्ञ कर रहा है, क्योंकि आत्मा यज्ञरूप ही है। द्रव्यमय यज्ञ करने वाला अथवा किसी अन्य ज्ञानादि की यज्ञ करने वाला, संभव है, इस प्रकार के यज्ञ को कर ही न सके। धन का त्याग कर देना सरल हो सकता है, पर अपने आपको ही आहुत कर देना विरल, अत्यन्त विरल व्यक्तियों का कार्य है। देव विरल हो तो होते हैं। उनका पथ सबसे निराला होता है। वे ऐसे यज्ञिय कार्य करते हैं जो अन्यों के लिये दुष्कर होते हैं। यज्ञ द्वारा यज्ञ करना ऐसा ही असीब दुष्कर कार्य है। तभी तो देव बृहत् अमृत के भागी बतते हैं। चणिक अमृत तो सुपुत्रि अथवा समाधि लगा कर सामान्य मानव या साधक योगी भी प्राप्त कर सकता है।

देवयुग में तो यज्ञ के द्वारा हो यज्ञ होता था, पर मानवयुग में और विशेषतः इस वैवस्वत मन्त्रभृत के ब्रेता युग में भी बड़े बड़े यज्ञ संपादित हो चुके हैं। आज मानव मानवस्तर से पतित हो चुका है। वह पशु ही नहीं, जंगली पाशवस्तर पर उतर आया है। पशु-पर्वी जानते ही नहीं कि यज्ञ क्या होता है। उन्हें पूजा, परोपकार या त्याग भाव की समझ ही नहीं है। शेर या बृक दूसरों के मरण पर पलते हैं। विना दूसरे का विनाश किये उनका पेट ही नहीं भरता। जर्मनी के विद्वान् नीट्शे ने अपने दर्शन का आधार ही इस जंगली नियम को बनाया था। हड्डप और गड्डप गीता का पाठ उसने जर्मनी को सिखाया। इससे न जर्मनी का लाभ हुआ, न अन्य किसी का। इस दर्शन की पृष्ठभूमि पर अब तक संसार दो भयानक युद्ध देख चुका है। अब तीसरे युद्ध की तैयारी हो रही है। यज्ञ के पूजा, संगतिकरण तथा दान तीनों अङ्ग विस्मृत होते जाते हैं। पूज्यों की पूजा नहीं हो रही, अपूज्य सम्मान पा रहे हैं, एक

साथ मिल कर बैठने, पूकर्ख को अनुभव करने के स्थान पर वर्गसंघर्ष पनप रहा है, दान-स्याम-आहुति-बलिदान के स्थान पर हाऊहप्य या छीनासपटी का बाजार गर्म है। मानवता के इस पतन को देखकर सुधीजन भविष्य के सम्बन्ध में शंकालु होने लगे हैं। पर, जैसा हम पीछे संकेत कर चुके हैं, यज्ञ की वास्तविक भावना अभी आधिदैविक एवं आध्यात्मिक लेव्र में सक्रिय है। वहाँ वह अपने सहजस्वाभाविक रूप में विद्यमान है। इन लेव्रों के देवों ने देवयुग को सुरक्षित रखा है। यज्ञकार्य इनके लिये मानव का भाँति ध्रमसाध्य एवं प्रयत्नप्रसूत नहीं है। वह अनायास होता रहता है।

सूर्य से कोई कहने जाता है कि तू तप ! आपोमय मण्डल से किसी को कहना पड़ता है कि तू अपने सोम को सूर्य के अग्निकुण्ड में आहुत कर ! पृथ्वी से कोई कहता है कि तू फल-कूल-स्वर्ण-रक्ष आदि उत्पन्न कर ! वह सब उस सर्वदुत् यज्ञपुरुष के अधीक्षण में हो रहा है और प्रलयपर्यन्त होता रहेगा। अध्यात्म यज्ञ को ही लीजिये। जंगली विधान के शिरोधार्य करने वालों को पलक मारते ही लेने के देने पढ़ जायें यदि उनके शारीरिक अवयव सर्वदुत् यज्ञ करना छोड़ दें। पर सब कुछ देखकर भी पतित मानव देखना नहीं चाहता। स्वार्थ ने उसकी आखों पर पही बांध दी है। यज्ञ से यज्ञ करना क्या होता है, अपने आपको होम देना कैसा होता है, यह उसकी समझ में प्रवेश ही नहीं कर पाता।

मन्त्र में आये हुए नाक शब्द का क्या अर्थ है ? क का अर्थ सुख है। अ+क का अर्थ हुआ दुख और न+भ+क का अर्थ हुआ—जहाँ दुख नहीं है। येद में नाक पृक लोक है जो सूर्य के ऊपर है, परन्तु स्वः से नीचे है। 'येन चौहप्ता' मन्त्र में नाक और स्वर्ग दोनों लोकों का नाम आया है। त्रिलोकी के कारण तीन नाकों का भी वर्णन उपलब्ध होता है—त्रिनाके त्रिप्रतिष्ठिते। पर 'नाकस्य पृष्ठात् दिवसुत्पतिष्ठन्' तथा 'स्वर्गः पन्था सुकृते देवयानः' पढ़ो से स्वर्ग तथा थी दोनों से ही नीचे नाक लोक सिद्ध होता है। देव सर्व प्रथम इसी लोक में अधिरोहण करते हैं, जहाँ पहले से ही मुक्तात्मा विद्यमान हैं।

नाक लोक से फिर वे धीरे-धीरे चौ लोक तक पहुंच जाते हैं। देव लोक अमृत लोक और मानव लोक मर्त्य लोक कहलाता है। मर्त्य लोक के प्राणी जन्म-मरण के चक्र में पड़े हुए बार-बार एक योनि से दूसरी योनि में जाते हुए नाना प्रकार से बलेश-भाजन बनते हैं। देव लोक के निवासियों को इस प्रकार के आवागमन से मुक्ति भिल जाती है। वे अमृत का उपभोग करते हैं।

मन्त्र से एक खनि और निकल रही है कि पूर्वरूपर में जिन जीवों ने साधना द्वारा देवत्व प्राप्त कर लिया था, वे प्रभु की प्रेरणा से नवीन कल्प में दिव्य सृष्टि में उत्पन्न होनेर आगेय युग तक यज्ञ करते रहे और उसके पश्चात् नाक या स्वर्गलोक के अधिकारी बने। साध्यदेव यहाँ पूर्व से ही विचमान थे और सोक के अनृतानन्द का उपभोग कर रहे थे।

यहाँ ऋग्वेद का पुरुषसूक्त समाप्त हो जाता है। आगे जिन मन्त्रों की व्याख्या की जायगी, वे केवल यजुर्वेद में हैं।

मन्त्र संख्या १७ देवयुग पर प्रकाश ढालता है और मर्त्य तथा अमर्त्य का भी भेद करता है। मर्त्य भोजन है, तो अमर्त्य सापेहा दृष्टि से भोजक है—ऐसा हम पीछे लिख चुके हैं। मर्त्य भोजन बन कर यल का साधक बनता है, यह बलवत्ता भोजक के साथ रहती है। पापिंव तत्त्वों में भूमि और जल मर्त्य हैं, भोजन है, अग्नि भोजक है। भूमि और जल भी खाते हैं, पर स्वतः नहीं, अग्नि और बायु की सहायता से और देर में भी, तल्काल नहीं। अग्नि में जो ढालो, तल्काल भस्म हो जाता है। भूमि पर या जल में पड़ी हुई वस्तु देर तक टिकी रह सकती है, परन्तु अग्नि में पड़ने पर उसका अस्तित्व शोध समाप्त हो जाता है।

अग्नि मर्त्य को खाकर बलवान बनता है। यह बल अच्छा और दुरा दोनों प्रकार का हो सकता है। बल का कुल्यित प्रयोग बलेशकारक है, भन; आसुरी है। उसका सत्प्रयोग सुखप्रद एवं कल्याण कारक है, अतः दैवी है। आगेयता देव तथा असुर दोनों में होती है। हमें दैवी आगेयता की शरण-ग्रहण करना चाहिये। उसी का वरण हमारा उत्थान करेगा। आसुरी

आग्नेयता निर्मात्री नहीं, प्रहर्त्री है। उससे उत्थान नहीं, पतन होता है। शूरदेव के प्रथम मन्त्र में इसी हेतु दैवी अग्नि की स्तुति है। यह अग्नि यज्ञ का होता तथा विश्व का हितकारी है। यह मानवों में देवत्व का आधान करने वाला है। राष्ट्र के अधिपति तभी देव संज्ञा से विभूषित होते हैं जब वे प्रजा के अम-धन आदि को लेकर उसी के उन्नयन में लगा दें, प्रजा का हित-साधन करें। अन्यथा प्रजा के भक्षक बन कर वे रात्रज्ञ संज्ञा से अभिहित होंगे।

मन्त्र में कहा गया है कि भूमि और जल की सृष्टि विशुद्ध मर्त्य चेत्र है। इस मर्त्य चेत्र से पूर्व के देवत्व को मैं जानता हूँ।<sup>१</sup> जलों द्वारा भरण-पोषण पाकर जब पृथ्वी की मूर्ति बाहर आई, तो इस पृथ्वी की मूर्ति सथा विश्वकर्मा रस से पूर्व देवत्व वर्तमान था। त्वष्टा परमात्मा ने ही उस देवत्य का रूप-विधान किया और उसे आगे बढ़ाया।<sup>२</sup>

मन्त्र में रस या जल को विश्वकर्मा कहा गया है। श्रीमद्भागवत ४-६-३३ यथा ऐतरेय उपनिषद में अम्भ या आप (जल) को रेत या वीर्य कहा गया है—(अम्भस्तु यद्देव उदार वीर्य) (आपो रेतो भूत्वा)। वीर्य ही पराक्रम है। समस्त कर्म इसी के आधार पर होते हैं। पिंडरूप मूर्ति का निर्माण वीर्य और रज का ही परिणाम है तथा आगे गति, क्रिया आदि में भी रस रूप वीर्य की ही प्रधानता है। वीर्यहीन व्यक्ति निपिक्त हो जाता है। इसी हेतु रस को विश्वरूपा कहा गया है। वर्तमान युग में सिरमांड क्रायड ने काम को मानव की सब क्रियाओं का मूल कहा है, उसका भी यही अभिप्राय है। मातव के अन्दर निहित रस ही उसे सब कार्यों में प्रवृत्त करता है।

जल और मिठी से मिल कर मूर्ति बनती है, पर यह मूर्ति टिकाऊ नहीं

<sup>१</sup> देवाना पूर्वे युगे तथा देवाना प्रथमे युगे असतः सदज्ञायत ।

ऋ०-१०-७२-३ में भी देवो के पूर्व तथा प्रथम युग का उल्लेख है।

<sup>२</sup> अदृश्यः संभूतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्त्ताये ।

तस्य त्वष्टा विद्वद्वूपमेति तन्मत्येस्य देवत्य माजानमग्रे ॥

होती। जरा सी वर्षा का बेग सहते ही गल ऊँठती है। इसे देर तक स्थिर रखने के लिए अग्नि में तपाना पड़ता है। खटा यही करता है। 'शंनस्त्वष्टा-  
भनाभिरिहशृणोतु' मंत्र-पद में खटा का सम्बन्ध अग्नि से स्थापित किया गया है। खटा ने पृथ्वी के गर्भ में अग्नि स्थापित कर दी है जो पृथ्वी की मूर्ति को स्थिरता दे रही है। रचना में भी पृथ्वी से पूर्व जल और जल से पूर्व अग्नि तत्त्व है। देवयुग अग्नि तत्त्व तक ही रहता है। उसके पश्चात् मानव का मर्त्ययुग प्रारम्भ हो जाता है। छान्दोग्य उपनिषद् ( अध्याय ३ खण्ड ६-१० ) में इसीलिए कहा गया है कि देवों की आकृति निर्दृष्टि से वर्णी आकृति नहीं है। बसुदेव अग्नि रूपी मुख से, रुद्र देव इन्द्र ( विद्युत ) रूपी मुख से, आदित्य देव वरुण रूपी मुख से, मरुत देव सोम रूपी मुख से और साध्य देव यज्ञ रूपी मुख से अपना प्राप्य अमृत प्रहण करके जीवित रहते हैं।<sup>१</sup>

देव हम मानवों की भाँति न खाते हैं और न पीते हैं। अमृत को देख कर ही दृप हो जाते हैं। वे जल और भिट्ठी के बने रूप से ( उच्चन्ति ) ऊपर चले जाते हैं। सहृदिवा हैव अस्मै भवति ( खण्ड ११ ) देवों के लिए सदैव दिन ही रहता है। हम मानवों के समान उनके लिए दिन और रात्रि का उदयास्त नहीं होता। पर यह बात दिव्य देवों के सम्बन्ध में कही जा रही है, अप्य ( अन्तरिक्षीय ) तथा पार्थिव देवों के सम्बन्ध में नहीं।

<sup>१</sup> शृ० १०-१५१-४ 'श्रद्धा देवायजमाना वायुगोवा उपासते' में देवों का विशेषण वायु-गोपा है। देव इन्द्रियों का पालन वायु अर्थात् प्राण द्वारा होता है। सामान्य जन ब्रह्म और जल द्वारा अपनी इन्द्रियों की रक्षा करते हैं, देव प्राण द्वारा। सूर्य की किरणों में प्राण भरा पड़ा है। देव इसी प्राण को पीकर तृप्त हो जाते हैं। देवयुग इसी कारण आगेय सृष्टि तक सीमित है। उसके पश्चात् जल-  
मृष्टि के ताथ मर्त्य अथवा मानव युग प्रारम्भ हो जाता है।

शक्ति प्रजापति है जिसका विस्तार वृक्ष रूप में दिखाई देता है। शरीरों में जिस शुक-रज का विस्तार होता है वह भी उनमें निहित जीवात्मा रूप प्रजापति के कारण।—ऐतरेय उपनिषद् में लिखा है :—**पुरुषेवावभयम् आदितोगर्भो भवति । जीवात्मा अन्न आदि के सूक्ष्म रूप शुक्र के साथ सर्वप्रथम पुरुष के ही गर्भ में आता है । तदुपरान्त वह माता के गर्भांशय में पहुँचता है । गर्भांशय में ही पिण्ड, पिण्ड का शिर तथा अन्य अवयव बन जाते हैं और जब वह गर्भ से बाहर आता है तब वासना तथा संस्कार के अनुरूप ही उसकी आकृति होती है । वासनायें विविध-रूपा हैं । अतः आकृतियां भी विविध रूपा हैं । आकृतियां तो हृषिगोचर होती हैं, परन्तु जीवात्मा नहीं दिखाई पड़ता । मन्त्र में इसी हेतु कहा गया है :—**

**'प्रजापति जीवात्मा गर्भ के अन्दर विवरण करता है । वह अजन्मा है, फिर भी विविध प्रकार के शरीरों को धारण करके प्रकट होता है । धीर पुरुष ही उसकी योनि या मूलस्वरूप को भली भांति जान सकते हैं । समस्त भुवन (जहाँ-जहाँ जीवात्मा अमण करता रहा है) <sup>अन्दर</sup> सी में स्थित है ।'**

जो बात एक जीवात्मा रूपी केन्द्रस्थ प्रजापति के लिये कही गई है, वह सब जीवात्माओं पर लागू होती है। प्रजापाद्यों का भी प्रजापति परमात्मा अजन्मा है, परन्तु वह सर्वन्त्र व्याप्त होने के कारण विश्व की वस्तु-वस्तु में प्रतिरूप बना हुआ जायमान रूप से भासित हो रहा है। प्रथेक पदार्थ, प्रभु की व्याप्ति के कारण, मानों प्रभु की प्रतिमा है। प्रजापति परमात्मदेव से भिन्न या व्यतिरिक्त यहाँ कुछ है हो नहीं। पर धीर पुरुष ही उसे भी जान पाते हैं। उसी में सब भुवन स्थित हैं।

पीछे हम आधिदैविक जगत का उल्लेख कर चुके हैं। इस जगत का केन्द्र सर्व है। ग्रहों-नक्षत्रों में सर्व प्रथम यही प्रकट हुआ। सबका अग्रज होने के

<sup>१</sup> प्रजापतिश्चर्ति गमे अन्तरजायमानो बहुधा विजापते ।

तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरात्मस्मिन् हतस्तुभूयनानि विश्वा ।

कारण इसी को अपना परिवार बनाने तथा उसका संरचन करने के लिये तप करना पड़ा। इसी शास्त्रत, निरन्तर तप रखने का फल यह हुआ कि इसको ग्रहों को कान्ति प्राप्त हो गई। इसीलिए इसे ब्राह्मरूप कहते हैं। जितने ग्रह पृथ्वी, चन्द्र, मंगल आदि उत्पन्न हुए, वे सब इसके पश्चात्। सूर्य को केन्द्र में रखकर वे सभी ग्रह इसके चतुर्दिक्क धूमते हैं और प्रत्येक ग्रह के निकट अनुभव करते हैं कि सूर्य उन्हीं के लिये है क्योंकि यह सबके पुरोहितः = रक्षा है, उपस्थित है। यह ग्रहरूपी देवों का पुरोहित है। कहता है :—

शक्ति प्रजापति है जिसका विस्तार बृह रूप में दिखाई देता है। शरीरों में जिस शुक्ररज का विस्तार होता है वह भी उनमें निहित जीवात्मा रूप प्रजापति के कारण। ऐतरेय उपनिषद में लिखा है :—पुरुषेवावभयम् आदितोगर्भो भवति । जीवात्मा अन्न आदि के सूक्ष्म रूप शुक्र के साथ सर्वप्रथम पुरुष के ही गर्भ में आता है। तदुपरान्त वह माता के गर्भाशय में पहुंचता है। गर्भाशय में ही पिण्ड, पिण्ड का शिर तथा अन्य अवयव थन जाते हैं और जब वह गर्भ से बाहर आता है तब वासना तथा संस्कार के अनुरूप ही उससी आकृति होती है। वासनायें विविध-रूप हैं। अतः आकृतियाँ भी विविध रूप हैं। आकृतियाँ तो हृषियोचर होती हैं, परन्तु जीवात्मा नहीं दिखाई पड़ता। मन्त्र में इसी हेतु कहा गया है :—

‘प्रजापति जीवात्मा गर्भ के अन्दर विवरण करता है। वह अजन्मा है, फिर भी विविध प्रकार के शरीरों को धारण करके प्रकट होता है। धीर पुरुष ही उसकी योनि या मूलस्वरूप को भली भांति जान सकते हैं। समस्त भुवन (जहाँ-जहाँ जीवात्मा भ्रमण करता रहा है) उसी में स्थित हैं।’

जो बात एक जीवात्मा रूपी केन्द्रस्थूर प्रजापति के लिये कही गई है, वह सब जीवात्माओं पर लागू होती है। प्रजापात्मों का भी प्रजापति परमात्मा अजन्मा है, परन्तु वह सर्वत्र व्याप्त होने के कारण विश्व की वस्तु-वस्तु में प्रतिरूप बना हुआ जायमान रूप से भासित हो रहा है। प्रतेक पदार्थ, प्रभु की व्याप्ति के कारण, मानों प्रभु की प्रतिमा है। प्रजापति परमात्मदेव से भिन्न या व्यतिरिक्त यहाँ कुछ ही नहीं। पर धीर पुरुष ही उसे भी जान पाते हैं। उसी में सब भुवन स्थित हैं।

पीछे हम आधिदैविक जगत का उल्लेख कर चुके हैं। इस जगत का केन्द्र सूर्य है। ग्रहों-नक्षत्रों में सर्व प्रथम यही प्रकट हुआ। सबका अग्रज होने के

<sup>१</sup> प्रजापतिश्वरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।

तद्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्तुर्भवनानि विश्वा ।

सदस्य भी वैसे ही बनेंगे और परिणामतः परिचार, समाज या राष्ट्र चौपट हो जायगा। देवों को वश में करने की बात इसलिये कही गई है कि दिव्यता ही व्यक्ति या राष्ट्र का उच्छयन करती है। रात्संसों की स्वार्थ-पितृता, भौतिकता, शारीर-सर्वस्वता विघ्वंस की ओर ले जाने वाली है। स्वार्थी व्यक्ति आवस में ही लड़कर मर जाते हैं, परन्तु त्यागी पुक दूसरे की सहायता करते हुए फलते और फूलते हैं। जो तप करेगा, त्याग करेगा, समझि के लिये अपनी बलि देगा, उसका कल्पण निश्चित है। पुरुष सूक्त के सर्वहुत यज्ञ का यही पवित्र संदेश है।

अन्तिम २२ वें मन्त्र में प्रभु से प्रार्थना है :—हे विराट पुरुष ! श्री और लक्ष्मी दो भाष की पत्रियाँ हैं। दिन और रात्रि वगलें हैं। नचन्त्र रूप हैं। दो भूशिवन खुले हुए मुखोंके अधर हैं। भाषको सब कुछ प्राप्त है, इच्छा करते हुए स्वेच्छा से मुक्ते भी वह प्राप्त कराइये। उस मोक्ष पद की भाष मेरे लिये इच्छा कीजिये। मेरे लिये सब लोकोंकी, स्वारात्यकी इच्छा कीजिये। हे सर्व शक्तिमान, पूर्ण परमेश्वर ! भाष मेरे लिये सब सुखोंकी इच्छा कीजिये। मुक्ते समस्त सद्गुण प्राप्त कराइये। मेरा अभीष्ट सिद्ध हो। मैं भाषको प्राप्त करूँ ।<sup>1</sup>

श्री मूल शक्ति है जो ब्रह्म के साथ सतत संयुक्त रहती है। लक्ष्मी रथि या सम्पदा है जो जगत के साथ उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक श्री तथा भौतिक सम्पदा दोनों ही रक्षा करने वाली हैं। एक से यह लोक सुगम बनता है तो दूसरी से परलोक। लक्ष्मी यदि स्विष्टि में उग गई, दुरिष्टि से बच गई, तो इस स्विष्टियज्ञ द्वारा श्री की कृपा स्वयमेव प्राप्त हो जायगी। दिन और रात्रि में, नघुचों तथा प्राणों या अन्तरिक्षों में, चावा-पृथिवी में प्रभु की विभूति के, रूप सुपमा के दर्शन करते हुए, उसी की प्राप्ति की कामना जागृत रखनी चाहिये। प्रभु की प्राप्ति में सब लोकोंकी प्राप्ति है, भास्मोपलचिष्ठि है, भारमतुर्सि है, आत्मानन्द है। सर्वहुत यज्ञ की भावना मुक्ते इसी की ओर ले चले। ऊं शम् ।

<sup>1</sup> श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पादवें नक्षत्रापि रूप यश्विनौव्यात्तम् ।

इप्यनिषिद्धाण बमुं मइषाण सर्वलोकं म इषाण ॥

## सृष्टि प्रकारण

जागरण, स्वप्न तथा सुषुप्ति का अनुभव तो हमें प्रतिदिन हुआ करता है, क्या इस सृष्टि के जागरण, स्वप्न तथा सुषुप्ति का भी कुछ पता हमें चलता है? सृष्टि के अवयवों को तो, जिनमें हमारा शरीर भी पूक है, हम दूटते और घनते देखते हैं—ये इ की पतियाँ सूखकर लड़ती हैं, फिर नई निकलती हैं, गेहूँ, जौ, चावल आदि के पौदे फल देकर नष्ट हो जाते हैं और उन्हों फलों के प्राकृतिक या कृत्रिम वपन द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। एक बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और अनेक बीज देकर अनेक वृक्षों का उत्पादक बनता रहता है। नदियों के मार्ग बनते और बिगड़ते हैं। मह का स्थान सिन्धु तथा सिन्धु का स्थान मरु ले लेता है, ऐसा पुरातत्ववेच्छा कहते हैं। जिन्हें हम अचल पर्वत कहते हैं, वे भी अचल नहीं रह पाते। जब सृष्टि के अवयवों की यह दशा है, तो समग्र सृष्टि भी कभी न कभी जागरण में जाई ही होगी और उस जागरण से पूर्व उसकी प्रसुप्त अवस्था रही हो होगी, ऐसा अनुमान तुदि लगा सकती है। अच्छा, आइये, सर्व प्रथम अपने मूल पूर्वज मनु से पूछें, उनकी तुदि सृष्टि के सम्बन्ध में क्या कहती है।

मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के प्रारम्भ में ही सृष्टि का प्रकरण आया है। वहाँ लिखा है<sup>१</sup> कि प्रलय की अवस्था में केवल तम ही तम था—अंधकार, शून्यता—एक प्रसुप्तावस्था जो अज्ञात और अविज्ञेय—जिसे कोई जानता नहीं और जो स्वयं भी न जानने योग्य, अलज्जग—जिसे कोई लिहित न कर सके, जिसका कोई लक्षण, गुण अधिका परिभाषा न हो सके, अप्रतर्क्य—जिसके सम्बन्ध में कोई तर्क या मीमांसा न कर सके—ऐसी थी प्रलय। ऋग्वेद के नासदीय

<sup>१</sup> आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यम् विज्ञेयं प्रसुप्तमिवसर्वतः ॥ ५ ॥

सूक्त से ही मनु ने ये शब्द लिये हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रलय में तम था, जो तम से ही आच्छादित था और जो अप्रकेत था—जिसका कोई ज्ञान नहीं हो सकता। मनुस्मृति में आगे लिखा है<sup>१</sup> कि प्रलय के अन्त में स्वयम्भू भगवान् जो स्वयं अव्यक्त हैं, पर जो प्रकृति के प्रेरक, अप्रतिहत सामर्थ्य वाले तथा तम के विवरणक हैं, इस महाभूतादिमयी सृष्टि को व्यक्षित करते हुए प्रकट हुए। जो इन्द्रियों से अग्राह्य, सूक्ष्म, अव्यक्त ( अवश्य रहित ), स्नातन अचिन्त्य और सर्वभूतमय हैं, वे ही स्वयं प्रादुर्भूत हुए।

विविध प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से, ध्यान करके उन्होंने अपने शरीर से, पहले, अप ( जल ) ही की रचना की और उसमें शक्ति रूप बीज का आरोपण किया। यहाँ जल महत्त्व है, योनि है, मातृशक्ति है। बीज-प्रद तो स्वयम्भू परमेश्वर हैं ही। यह बीज उनका ईश्वर है। यह बीज अप या जल से मिलकर हैम अण्ड बन गया, जिसकी प्रथा सूर्य के समान थी। उस हैम अण्ड में समस्त लोकों के पितामह, स्वयं ब्रह्म उत्पन्न हुए। अथवा १०-१-३१ में ( यदवः प्रथमं सर्वभूव—प्रस्मान्नान्यत् परमस्ति भूतम् । ) अज को प्रथम प्रकट हुआ कहा है। इसके पहले ऊँच भूत अर्थात् बना हुआ, न था। अज का अर्थ ब्रह्म लोक में प्रसिद्ध है।

ब्रह्म से पूर्व जो आपः थे, वे नार कहलाते थे। नार नर की संतति है। ये आपः या नाराः जिसका अयन थे, वह प्रभु नारायण नाम से स्मरण किया जाता है। ये नारायण ही सद्मदात्मक जगत के नित्य और अव्यक्त कारण हैं। उन्हीं से उत्पन्न हुआ वह पुरुष ब्रह्म नाम से प्रख्यात हुआ।

भगवान् ब्रह्म ने उस हैम अण्ड में संवासरभर रह कर स्वयं अपने ध्यान से उस अण्डे के दो खण्ड कर दिये। एक खण्ड से उसने दो लोक तथा दूसरे खण्ड से भूमि का निर्माण किया। इन दोनों के बीच में उसने व्योम,

<sup>१</sup> ततः स्वयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयतिदम् ।

महाभूतादि वृत्तौजा प्रादुरासीतमोनुदः ॥ ६ ॥

ऋग्वेद १०-१२१ में 'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्यजातः परिरेक आसीत्' द्वारा हिरण्यगर्भ को सबसे पहले अर्थात् सूष्टि के आदि में वर्तमान लिखा था । अर्थात् की ऊपर उद्दृत ऋचा कहती है कि हिरण्यगर्भ को ही परम और अनतिकान्त न समझा जाय । इससे पहले स्कम्भ है । उसी ने लोक के अन्दर हिरण्य का सिद्धन किया था । हिरण्य प्राण, योति अथवा बीज है । यह बीज जिसके गर्भ में है, वह हिरण्यगर्भ है । मनु और मीता दोनों ने महदाख्य तत्त्व को योनि कहा है जिसमें [बीज का आधान किया जाता है । यही हैम अण्ड है जिससे ब्रह्म का जन्म होता है । ब्रह्म ही विविध रूप सूष्टि का कारण है । विराट रूपी शरीर के अभिमानी देव को भी ब्रह्म कहा जाता है ।

मनु ने जिसे श्यापः या नारा कहा है, वह भी महत् ही है । इसी में गर्भ को स्थापना की जाती है । अघमर्ण के ऋत को वीर्य, सत्य को शोणित और रात्रि को गर्भ समझिये । ऋत और सत्य ही रात्रि के गर्भ में पिण्ड घनकर सूष्टि रूपी बच्चे के रूप में बाहर आते हैं । गर्भ की अवस्था अन्यकार मरी है । इसलिये इसे रात्रि नाम दिया गया है । आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषा में हम इसे 'कलेक्टिव अनकॉन्सेस' कह सकते हैं ।

वेद ने दोनों और कोपों का नाम लिया है । कोपों में से ही लोकों का जन्म होता रहता है । रात्रि या हिरण्यगर्भ या कलैक्टिव अनकॉन्सेस ही कोप है जिससे लोक जना, सूष्टि का आविर्भाव होता है । रात्रि में से जैसे दिन निकलता है, उन्हें पश्चात् जैसे जागरण आता है, वैसे ही इस गर्भ या कोप से सूष्टि प्राप्त होती है ।

ऋग्वेद की निम्न केत ऋचा में सूष्टि के चार स्तर वर्णित हुए हैं—

शन्मो अज पक् द्वेवोऽस्तु शन्मोऽहिर्वृन्धः शं समुद्रः ।

शन्मो अपान्नपात् उरस्तु शन्मः पृथिनर्भवतु देवगोपा ॥

अथवा १०-११ में भी यह कहा आती है। जैसे पृथिन शुकुदर्णा है, वैसे ही अज, ब्रह्मा, सरस्वती, महादेव, आकाशगंगा आदि को भी पौराणिक परम्परा में श्वेत कहा गया है।

रचना से पूर्व मूल प्रकृति सामरस्यमयी है, पृथिन है, शुकुल है, इसीलिये उसे प्रकृति कहते हैं, विकृति नहीं। प्रकृति इस पृथिन-रूप में देवगोपा है। सामरस्य रूपी दिव्यता ही देवों का गोपन अधबा रक्षण करती है। विकृति में दिव्यता नहीं रहती। साधक इसीलिये विहृत से प्रकृति की ओर चलता है। प्रकृति प्रभु की है। वह प्रभु के साथ एक है। प्रकृति अथवा प्रकृत दशा को पकड़ कर जीव भी हृश्वर के साथ एक होता है। तांत्रिकों ने इस प्रकृति को प्रभु की शक्ति कहा है। वेद इसे देवगोपा कहता है। प्रभु की शक्ति, प्रभु देव में सुरक्षित रहकर ही तो दिव्यता का रक्षण करती है। वह देव द्वारा सुरक्षिता तथा देवों की सुरक्षिका है। इस अवस्था में दिव्यता पर कोई आघात नहीं कर सकता। वह आनन्दमयी अवस्था है। विकृति में तो दिव्यता पर दानवता चराचर आघात किया करती है और बलेशों को जन्म देती है। पृथिन अदिति है। यह देवमाता है, अदि-वर्हा है, अखण्ड है और देवों को मधुमय पीयूष पय, दुखामृत पिलाने वाली है। अतः वास्तविक अर्थों में यह देवगोपा है।

जब सृष्टि का संकल्प जागृत होता है, रचना की ओर प्रभु उन्मुख होते हैं, तब विशुद्ध सत्त्व से महाकारण शारीर प्रकाशित होता है। ऊपर उद्गृत कहा में इसे अपाच्चपात् वेद की अवस्था कहा गया है। यही सृष्टि की प्रारम्भिक, विकृति की ओर आनेवाली अवस्था है। तांत्रिक इसी को महामाया या योगमाया कहते हैं। यह विशुद्ध सत्त्व है, अतः यहीं अपां-धाराओं, गतियों, इलचलों, विचोभों का पात नहीं है। रममाण अवस्था है। ये वह है जो पीति, रक्षण या पूरण से भरा हुआ हो, रज का चांचल्य जिसे विचलित न कर सके, जल जैसे निश्चगा आवेग जिसे विचुद्ध न कर सकें। सुपुष्टि की अवस्था इसके समकक्ष है। इसे महत्त्व, महाचिति, व्यापक सत्त्व आदि के नाम भी दिये जा सकते हैं।

अपांनपात्‌येह के उपरान्त अहिरुञ्ज्य समुद्र की अवस्था आती है। वैष्णवों की पांचरात्र शाखा में एक अहिरुञ्ज्य संहिता भी है। पौराणिक शैली में अहि सर्प को और तुञ्ज्य पेंदी, आधार या शरीर को कहते हैं। यही वैष्णवों की शेषनाग शैया है जिस पर चीरसागर में विष्णु शयन करते हैं। विष्णु का ज्ञागरण ही सत्त्व का प्रपञ्चोन्मुख होता है। वैदिक शैली में अहि का अर्थ है—अ—नहीं, हि—हीनता या त्त्व। तुञ्ज्य का अर्थ है सूर्य या आधार या वृथ् ज्ञाने प्रकाश से ज्ञान या प्रकाश। अहिरुञ्ज्य का अर्थ हुआ अनुय आधार वाला या नित्य उयोतिष्मान। समुद्र का अर्थ है जहाँ से सबका द्रवण हो। अथवा जिसकी और सब का द्रवण हो। प्रपञ्च, रचना या सृष्टि की यही उत्तमभवावस्था है। यहाँ से रचना के अकार का प्रारम्भ समझिये।

ऋचा में चतुर्थ अवस्था अजएकपात् की है। अज का अर्थ है ब्रह्म। पौराणिक कहते हैं कि शेषनाग की शैया पर विष्णु शयन कर रहे थे। जब जगे तो उनकी नाभि से कमल तथा कमल से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। यह मूल तत्त्व को समझाने की पौराणिक शैली है। ऋचा में अज को एकपात् कहा गया है। उरुपसूक्त में सृष्टि को पुरुष का एक पाद माना है। ब्रह्म से ही सृष्टि का सूत्र पात हुआ, अतः उसे अज कहकर एकपात् नाम दिया गया।

धोकार के चारपाद मानकर कहना चाहें, तो अकार—एकमात्रा, एकपाद, अज या ब्रह्म; उकार—द्वितीयमात्रा, द्वितीयपाद, अहिरुञ्ज्य विष्णु; मकार—तृतीय मात्रा, तृतीय पाद, पेरु या रुद्र; चतुर्थ या तुरीय पाद प्रचञ्च से पे, अद्वैत अवस्था है जो अपने उपादान में वृश्टिन तथा निमित्त में परम पुरुष है और दोनों ही शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में परस्पर अनुस्यूत हैं, एक हैं, अद्वैत हैं।

आधुनिक विज्ञान की भाषा में येह की अवस्था प्रशान्त सरोबर में भरे हुए जल के समान है। इसमें अभी कोई केन्द्र या अभिमान या अहंकारी गति उत्पन्न नहीं हुई। जब ऐसी इकाई उत्पन्न होती है तब वही अहिरुञ्ज्य

बन जाती है। इस इकाई से अब एक पात या विश्व की रचना होती है, जिसमें अनेकत्व की प्रधानता है।

अभी तक वैज्ञानिक गैसिक (वायवीय तथा तैजस), लिकिड (जलीय) तथा सौलिड (पार्थिव) तीन अवस्थायें रचना के सम्बन्ध में मानते रहे हैं। हमारे यहाँ जो भूतों का क्रम दिया हुआ है, उससे इन अवस्थाओं की संगति चैठ जाती है। भूतों में पृथ्वी अनितम है जो ठोस है, दृढ़ है। पृथ्वी से पहले जल है जो तरल है और जल से पहले अग्नि तथा वायु हैं जिन्हें गैसिक कहा जा सकता है। अच्छा में जिन पेरु, अहिरुद्ध्य तथा अजपृकपात स्तरों का उदलेख है, वे इनसे मेल नहीं खाते। सांख्य पद्धति की प्रथमावस्थाओं से उनका मेल है। अब जो इधर वैज्ञानिक प्रगति हुई है, वह सांख्य पद्धति की परवर्ती अवस्थाओं से भी संगत हो जाती है।

पारचात्य विज्ञान अणुवाद (एटोमिक धियरी), विकासवाद (इवोल्यूशनिज्म), शक्तिवाद (एनर्जी) धन-ज्ञानवाद (धियरी आव धर्मोदीप्तायन-मिष्टि) आदि कहे सिद्धान्त रचना के सम्बन्ध में प्रस्तुत करता रहा है। अणुवाद को तो अणुवम के आविष्कार ने खण्डित कर दिया। जब अणु का विश्लेषण हो सकता है तो वह सृष्टि का उपादान कारण नहीं बन सकता। शक्तिवाद अणुवाद के साथ चलता रहा है। अणु को मैटर का पर्यायवाची समझिये। कुछ दिनों तक वैज्ञानिकों का ऐसा विचार रहा कि मैटर में एनर्जी भरी पड़ी है। वही इस प्रपञ्च के सारे खेल खेल रही है। किर उन्होंने देखा कि ये दोनों भिन्न भिन्न पद्धार्थ हैं। अब उनका कथन है कि मैटर एनर्जी में तथा एनर्जी मैटर में परिणत की जा सकती है। इसी के साथ धन—ज्ञानवाद भी चला जिसके अनुसार एनर्जी खर्च होती रहती है और जहाँ कम होती है, वहाँ दूसरे स्थान से आती रहती है। व्यवहारे स्थान को ऋग और देने वाले स्थान को धन कहते हैं। परन्तु ये सब सिद्धान्त सृष्टि की निर्मित अवस्था से सम्बन्ध रखते हैं। निर्माण कैसे हुआ, इस विषय पर विकासवाद ही कुछ प्रकाश दाल सका है।

## वेदाधं-चन्द्रिका

सर जेम्स जीनस अपने ग्रन्थ 'दी यूनीवर्स प्रारुपण अस' के पृष्ठ ८ पर लिखते हैं :—“मनुष्य अपने को तभी समझ सकता है जब वह प्रथम इस ब्रह्माण्ड का ज्ञान प्राप्त करे जिससे उसे अपने सभी इन्द्रिय-गोचर उपलब्ध होते हैं।” वह पुनः पृष्ठ १२ पर लिखता है :—“पृथ्वी पर जीवन का प्रारम्भ कब हुआ, इसका ज्ञान लेना सरल नहीं है। संभव है दो भृत्य वर्ष इस दिशा में व्यतीत हो गये हों, कम से कम ३० करोड़ वर्ष तो समाप्त हो ही चुके हैं। जीवन सर्वप्रथम जलचरों के रूप में ही दृष्टिगोचर हुआ होगा और शनैः शनैः मस्त्य, मकर, दूध पिलाने वाले पशु आदि में विकास होते होते अन्त में मानव का प्रादुर्भाव हुआ होगा।” विकास की यह पद्धति पुरुषसूक्ष्म में वर्णित जीवन क्रम से भिन्न नहीं है।

उक्त ग्रन्थ के पृष्ठ ११ पर लेखक ने शक्तिवाद पर प्रकाश डाला है। उनके मत में शक्ति कई रूपों में विद्यमान रह सकती है। इसका विनाश कभी नहीं होता, पर यह एक रूप से दूसरे रूप में निरन्तर परिवर्तित होतो रहती है। पृष्ठ १०१, १०४, तथा १०८ पर शक्ति का रूप मौलीकयूलस के रूप में इस प्रकार वर्णित हुआ है :—“जब हम कच्छ की वायु को उठान करते हैं, तब हम वस्तुतः उसके मौलीकयूलस ( molecules ) को तीव्र एवं द्रुत गति प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार अग्नि की समग्रता उन मौलीकयूलस की शक्ति की समग्रता होती है। एक मौलीकयूल अनेक अणुओं से मिलकर बनता है। ये अणु अब तोड़े जा सकते हैं और तोड़े जाने पर अपार शक्ति के भण्डार सिद्ध हो चुके हैं। इनकी बनावट सौर जगत के सहशा है जिसमें न्यूक्लीयस ( Nucleus ) सूर्य है और उसके चतुर्दिक् एक सैकेन्ड में शतशः मील की गति से चलने वाले प्लेक्ट्रोन्स ग्रहों की भाँति हैं।

पृष्ठ १२७, १२८ पर लेखक लिखता है कि हमें इस शक्ति को केवल मात्रा के रूप में ही नहीं, अपितु गुण के रूप में भी समझना चाहिये। शक्ति की मात्रा सदैव समान रहती है। यह थमॉडाइनैमिक्स धन-ऋणवाद या पूर्तिवाद का प्रथम नियम है।

शक्ति का गुण परिवर्तित होता है—उसकी प्रवृत्ति ही यह है—और वह एक ही दिशा में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखता है। मनुष्य इधर-उधर कूद़ फांद सकता है, परन्तु प्रकृति पेसा नहीं करती। वह नियम में आवद्ध है, उसका अतिक्रमण नहीं कर सकती। शक्ति का गुण भी अपनी निश्चित गति से चलता है जैसे जल प्रवण-भूमि पर। यह थमोंडाहनैमिवस का दूसरा नियम है।

सर आर्थर एडिंग्टन अपने ग्रन्थ 'दी पुक्सपैन्डिग यूनीवर्स' के पृष्ठ ४९ पर लिखता है कि ब्रह्माण्ड में हमें ( मैटर ऐप्ट भोशन ) सत्य और ऋतु दोनों ही दिखाई देते हैं। अधर्मर्धण सूक्त भी सृष्टि के मूल में इन दो ही तत्वों को स्वीकार करता है। वायु पुराण १०२।१०७ में प्रकृति सत्यामित्याहुः विकारोऽनृत मुच्यते—प्रकृति को सत्य कहता है। तब ऋतु उन गतिशील नियमों को कहेंगे जिनके शासन में प्रकृति विकृति की ओर तथा विकृति प्रकृति की ओर चलती है।

सर जेम्स जीन्स अपने ग्रन्थ 'दी मिसटीरियस यूनीवर्स' के पृष्ठ १६-१७ पर कार्यिक रेडियेशन की किरणों को द्या या ऋत का रूप देता है। मैटर को वह विशाल मात्रा में विष्वंस होता अनुभव करता है। इसी को वायु पुराण ने अनृत कहा या। शतपथ ३-१-१ तृहदाऽ १३ तथा छान्दोग्य ३-१९-१ में इसी को असत या मृत्यु कहा गया है। जेम्स जोन्स के अनुसार मैटर पृक्दम नष्ट नहीं हो जाता, प्रत्युत वह रेडियेशन में रूपान्तरित हो जाता है। प्रकृति की मूलावस्था को इसीलिये देवगोपा पृश्न नाम दिया गया है। और उसकी द्वितीय अवस्था पेह—व्यापक सूर्य कही गई है। प्रकृति का मास या भार या मात्रा नहीं, अपितु मैटर परिवर्तित होता है। महाभूतों की अवस्था बदलती है। वे अपने गुणों, पञ्चतन्मात्राओं में, पञ्चतन्मात्रा अहंकार में, अहंकार महत्त्व या रेडियेशन में और महत्त्व मूल प्रकृति में, सत्य के अनुसार लीन होते रहते हैं। विकृति में आने पर कम पछट जाता है।

सर जेम्स जीन्स के कथन का अभिप्राय यह जान पड़ता है कि मैटर और से पार्थिवता और पार्थिवता से ची में परिणत होता रहता है। ची में सत्त्व की प्रधानता है जिससे गति विद्युत की सी है, परन्तु पृथ्वी तत्त्व में तम प्रधान है जिसकी गति बहुत मन्द है। गुणों में साम्य तथा वैपर्य आता है। गुणों का साम्य प्रलय की ओर तथा वैपर्य सृष्टि या विकृति की ओर ले जाता है। विकृति को हम ची से पार्थिवता की ओर आता यदि कह सकें तो प्रलय को पार्थिवता से ची की ओर चलना कहा जायगा। जरथुस्ट्र के मतानुसार सृष्टि में सत्त्व एवं असत्त्व, देव तथा असुर अथवा यात्रा और पृथ्वी के बोच संघर्ष चल रहा है। सत्त्व या दिव्यता की पूर्ण विवरण के साथ यह संघर्ष समाप्त हो जायगा। सृष्टि को आवश्यकता नहीं रहेगी—प्रलय हो जायगी। प्रलय में प्रकृति अपनी मूलावस्था में लोन हो जाती है। वेद भी पृथिव को इस मूलावस्था में देवगोपा कहकर इस सिद्धान्त का समर्थन करता है, निषेध नहीं।

‘थिवरीज जाव दो यूनीवर्स’ (एडिटेड वाई मिल्टन के० मूनिटून) में एक लेख जार्ज गैमो का छपा है जिसमें ब्रह्मण्ड के विकास पर प्रकाश डाला दया है। लेखक के मतानुसार प्रारम्भ में उष्ण गैस थी जो धर्मे धर्मे नदीयों या तारिकाओं में, तारिकायें तारिका समूहों (गैलेक्सीज) में और तारिकासमूह ठोस द्रव्य (मैटर) में परिणत हुए। ठोस द्रव्य के प्रतिनिधि हैं प्रोटीन्स, म्यूट्रॉन्स तथा ऐलैक्ट्रॉन रैडियेशन, जो प्रथम उष्ण गैस में और फिर तारिकाओं में परिवर्तित हुआ, का प्रतिनिधित्व प्रकाश करता है। उष्ण गैस में प्रोटीन्स या प्रकाशाणु थे जो लघु रवेत्वृत्तों, दीर्घ रवेत् वृत्तों तथा कृत्तियों में क्रमशः परिणत हुए। इन अणुओं से एकवीकरण द्वारा बड़े बड़े अणु बने। एक प्रोटीन (धनाणु) तथा एक म्यूट्रॉन (शून्याणु) से द्यूट्रियम (Deuterium) एक म्यूक, बना। दो-दो से मिलकर एक हेलियम बना। उगमग २५० मिलियन वर्षों के पश्चात वह प्रारम्भक गैस खण्ड-खण्ड होकर विशाल प्रकाश-पिण्डों में (प्रोटोगैलेक्सीज) में परिवर्तित हो गई। उन पिण्डों से स्फुर्तियों की भौति दृढ़कर नष्ट तथा प्रह बने। पृथ्वी की स्थिति जिसमें प्रकाश

का अभाव है, सघके पश्चात् बनी। प्रारम्भ में तेज की ही मात्रा अधिक थी, पार्थिवता बहु थी। पार्थिवता में अवतरण हुआ है, उत्कृष्ण नहीं।

उपर्युक्त कथन उन गैसिक ( विरल ) लिनिदड ( तरल ) तथा सौलिड ( सघन ) तीन दशाओं से सम्बन्ध रखता है जिनका उल्लेख हम इसके पूर्व कर चुके हैं। उपर गैस, फिर दानव जैसे गैस के बाल, गैस का द्रवित होना और अन्त में इह होना—यह सृष्टि-क्रम है। इसी से मिठानी जुलती अदरथा सांख्य दर्शन में वर्णित हुई है और ऋग्वेद का जो मन्त्र हमने उद्घाट किया है उसके साथ भी उसकी संगति बैठ जाती है, पर जो सूचनेहिका सृष्टि के विकास में उसके सूचम क्रमिक भेदों के साथ हमारे शृणियों की गम्भीर मीमांसा में परिलिङ्गित होती है, उसका पाश्चात्य वैज्ञानिकों में अभाव सा है।

आकर्षण का सिद्धान्त बहुत प्राचीन है। शक्ति या गुणों का सिद्धान्त भी नवीन नहीं है। बृहत् आकाश में जो अनेक सौर जगत् हैं और जो आकाश में द्वीपों के समान जान पढ़ते हैं, उनका उल्लेख भी नवीन दौली के अतिरिक्त अधिक महत्व नहीं रखता। नेबुला या नीहारिकावाद का पूर्ण उद्घाटन अभी पाश्चात्य वैज्ञानिक नहीं कर सके। सृष्टि फैलती जाती है—यह सिद्धान्त भी सभी वैज्ञानिकों को मान्य नहीं है। नेबुला के चारों ओर जो गैस और ढट है और जो तारकाओं के प्रकाश को हम तक आने से रोकती है, वया है ? अभी ऐसे अनेक तथ्य प्रश्नवाचक चिह्न से चुंकित हैं और समाधानकी आकांक्षा रखते हैं।

जोहू है नरिच है भवार्ट के जो विचार इस प्रन्थ के पृष्ठ २६३ पर अंकित हैं, बहुत सुलझे हुये प्रतीत होते हैं। वे कहते हैं :—

“दी ला आव ड्रैविटेशन एवसटेन्ड्स यूनीवर्सली जोवर आल मैटर। दी फिवर्स्ड स्टार्स ओवेंग सेन्ट्रल फ्लैटेंज मूव इन आरविट्स। दी फिवकी वे काम्प्री-हेन्ड्स से वेरल सिस्टम्स आव फिवर्स्ड रसार्स :— दोज दैट प्रिदियर आउट आव दी ट्रैक्ट आव दी मिवकी वे फार्म चट चन सिस्टम हिच इज खयर ओन—इच सिस्टम हैज इद्स सेन्टर एण्ड से वेरल सिस्टम्स टेकेन दुगैदर हैव ए कानन

सेन्टर।—इन फाहन देयर इज पूयूनीवर्सेल सेन्टर फार दी होल वर्ल्ड राउन्ड हिंच आल धिंस रिवाल्व।”

आकर्षण का नियम विश्व भर में व्याप्त है। स्थिर प्रतीत होते हुए तो ऐक्सियर शक्तियों के आदेश में अपने अपने कजाकृदों में घूम रहे हैं। दुरुध्यय (ऐरावत हाथी की गेल) में स्थिर तारों के अनेक समूह हैं। इससे बाहर जो तारे हैं, उनकी भी एक श्रेणी है। प्रत्येक श्रेणी का एक एक केन्द्र है और यदि सभी श्रेणियों को लिया जाय तो उन सब का एक साक्षा केन्द्र है। संतोर में समग्र ब्रह्माण्ड का भी एक सार्व भौम केन्द्र है जिसके चारों ओर सब चक्रकर कट रहे हैं।

केन्द्रों के भी इस केन्द्र को हमारे यहाँ पुरुष या प्रजापति नाम दिया गया है। सूर्य सौर जगत का केन्द्र है तो हिरण्यगर्भ समस्त ब्रह्माण्ड का केन्द्र है और स्कम्भ उसके भी पूर्व है। अणु से लेकर ब्रह्माण्ड तक अनेक केन्द्र हैं, परन्तु सब केन्द्रों का भी एक केन्द्र है जिसके चतुर्दिक सब नृत्य करते हुए उसी तक पहुंचना भी चाहते हैं। जब तक नृत्य है, सब तक जगती में जगत है। प्रलय में सब उसी एक केन्द्र में लीन हो जाते हैं। मोष में मुक्तात्मा उस केन्द्र के साथ जानन्द का भोग करते हैं।

ग्रन्थ के पृष्ठ ८६ पर जो विचार प्लेटो के अंकित किये गये हैं, वे भारतीय दर्शन के ही अनुकूल हैं। प्लेटो कहते हैं :—

“वि भस्ट एथ्री दैट देयर इज़, फर्स्ट, दी अनचेन्जिंग फार्म, अनजेनेरेटेड ऐण्ड इनडेस्ट्रिक्टिविल, हिंच नाइकर रिसीव्ज एनीथिंग पूलस इन्टू इटसेलफ फार्म पूलसहेयर, नार इटसेलफ एन्टर्स इन्टू एनीथिंग पूलस एनीहेयर, इनविज्ञोविल ऐण्ड अद्रवाइज इमपर्सेन्टिविल।”

प्लेटो का यह परिवर्तन-रहित, अनुत्पन्न तथा अविनाशी तत्व ही प्रजापति रूपी केन्द्र है जो अजायमान है तथा अव्यय है। इवेताश्वतर उपनिषद ने इसके समकक्ष या इससे अधिक किसी को भी नहीं माना। यह न लेता है न किसी का उपादान कारण बनता है। “न तस्य कार्यं कर्यं च विद्यते” “न

तस्य करिचत् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगम्” “एको देवः सर्वं भूतेषु गृहः” आदि पद्म प्लेटो के शब्दों से अद्भुत साम्य रखते हैं। प्लेटो स्पेस या आकाश को नियतत्व मानता था और वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी को विश्व के निर्माण में प्राथमिक तत्व स्वीकार करता था। हमारे यहाँ आकाश को भी एक तत्व माना गया है जिसका गुण शब्द है और जो सब तत्वों का मूल है। अन्य तत्व उसी में से और उसके पश्चात् प्रकट होते हैं।

वैज्ञानिक जिन्हें रैडियेशन और अर्ध ( ( earth ) का नाम देते हैं, उन्हें हम सौराग्नि और पार्थिव अग्नि कह सकते हैं। अवश्यग सूक्त के अनुसार यही ऋत् और सत्य हैं। सौराग्नि के बाह्य परत पर तप्त इवाला समूह है, परन्तु पृथ्वी के गर्भ में अग्नि है। यही दोनों अवस्थायें अग्नि और सोम अध्यवा ग्राण और रथि भी कही जाती हैं। पार्थिव तत्व अपने सबातीय तत्व को ही आकर्षित करता है। सौर तत्व सबको आकर्षित करता है। सूर्य की किरणें समस्त सौर परिवार के ग्रहों, पिण्डों तथा उनके निवासियों को लाभ पहुँचाती हैं। सौर जगत की परिधि इतनो विस्तृत है कि हम अपने सामान्य ज्ञान में उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार के न जाने कितने सौर परिवारों का पता वैज्ञानिक लगा चुके हैं।

पार्थिव तत्व में यौ तत्व कैसे छिपा पड़ा है, इसका किंचित् आभास हमें उन चक्रमते हुए हीरों, रक्षों तथा सुवर्णादि से हो सकता है जो पृथ्वी से हो उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिक सुवर्ण से पहले को अवस्था लोहा, लोहा से पहले पथर, पथर से पहले शर्करा या मोटा मोरिंग, मोरिंग से पहले बालू या सिफ्ता, सिफ्ता से पहले मुठायम मिही आदि का क्रम चतलाते हैं जो हमारे यहाँ के ( शतपथ ६-१-१-१३ ) क्रम के अनुकूल ही है।

विश्व के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद के पुरुषसूक्त तथा नासदीय सूक्त सृष्टि विद्या के लिये ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। पुरुष सूक्त पर हम विगत प्रकरण में अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट कर चुके हैं। यहाँ पर नासदीय सूक्त की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है जो ऋग्वेद के दृश्यम मण्डळ का १२९ वां सूक्त है।

नासदासीघो सदासीत् तदानीम्, नासीद्रजोनो व्योमा परोयत् ।  
किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्, अम्भः किमासीद् गहनं  
गभीरम् ॥ १ ॥

उस समय ( सृष्टि से पूर्व ) न असत् था, न सत् था । असत् उसे इसलिये नहीं कह सकते क्योंकि सृष्टि का निर्माता तथा उपादान दोनों विद्यमान थे । पर वे हम सब के लिए अप्रकट थे, अतः उसे सत् भी नहीं कह सकते । उस समय कोई रजः अर्थात् लोक नहीं था और लोकों से भी परे जो व्योम दिखलाई देता है, वह भी उस समय नहीं था, क्योंकि पर व्योम की स्थिति लोक की अपेक्षा रखती है । जब लोक ही नहीं है, तो उसके परे की घात कैसे की जा सकती है ? किसने आच्छादित किया था, कहाँ और किसके आधय में— कुछ कहते नहीं बनता । क्या उस समय गहन गम्भीर ( अम्भः ) जल था ? ऐतरेय उपनिषद के प्रारम्भ ( १-१-१ ) में चार लोकों का वर्णन है :—

स इमान् लोकान् असूजत् अम्भो मरीचिर्मर आपः ।  
अदोऽम्भः परेण दिवंद्यौ प्रतिष्ठा । अन्तरिक्षं मरीचयः पृथिवीमरः  
या अधस्तात् ताभापः ॥ १ ॥

यहाँ अम्भ को द्यौ में प्रतिष्ठित, सूर्य लोक से भी ऊपर यताया है । यह अम्भ जल की मूलावस्था है जो महः जनः तपः तथा सत्यम् लोकों में व्याप्त है । अन्तरिक्ष का वाणीय जल मरीचि है । पृथिवी का जल मर है और जो नीचे है अथवा पृथिवी को खोद कर निकाला जाता है उसे आपः कहते हैं । शूक ७-४९-२ तथा अथर्व ४-८-५ में भी जल के इन विविध रूपों का वर्णन है ।

न मृत्यु रासीदमृतं न तदिं न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः ।  
आनीद्वातं स्वधयातदेकं तस्मात् ह अन्यत् न किञ्चनास ॥ २ ॥

उस समय न मृत्यु थी, न अमरता थी क्योंकि ये दोनों सृष्टि में जीव-सापेच हैं । जब जीवों की योनियाँ ही नहीं हैं, तो मृत्यु अर्थात् एक योनि से

दूसरी योनि में जाने तथा अमृत अर्थात् निर्वाण की बात कैसे की जा सकती है ? उस समय रात्रि अधवा दिन का इपक भी कोई चिह्न नहीं था । हाँ उस समय एक तत्त्व अवश्य था जो अपनी स्वयं धारणात्मक शक्ति से विना बात या प्राण के ही प्राणवान था, जीवित था । उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था ।

तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमाइदम् ।

तुच्छ्येनाम्बपिहितं यदासीत् तपस्त्वत्नमद्विनाऽजायतैकम् ॥३॥

तम से आच्छादित उस समय तम ही था । यह सब जो इस समय सृष्टि में दृष्टिगोचर हो रहा है, अविज्ञेय अथवा चिह्नरहित सलिल के रूप में था । वह एक आमु ( चारों ओर सज्जा के रूप में प्रकट होने वाला प्राकृत संख्य ) जो तुच्छ्य अर्थात् शून्य के द्वारा अपिहित था, तप की महिमा से उत्पन्न हुआ । यहाँ तुच्छ्य, परम शून्य, सबके तिरोहित ही जाने पर भी सज्जा रूप में अवशिष्ट, अव्यय, परात्पर परमेश्वर के लिये प्रयुक्त हुआ है और आमु-एक से बहुत हो जाने वाली प्रकृति के लिये । तप की महिमा से ही प्रकृति ज्ञन और सत्य को दलों में फूटकर अनेक रूप धारण करती है, ऐसा अघमर्थण सूक्ष्म में भी कहा गया है । सलिल शब्द भी प्रकृति के ही लिये आया है ।

कामस्तदग्रेसमवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् ।

सतोघन्युमसतिनिरविन्दन् हृदि प्रतीप्याकवयोमनीपा ॥ ४ ॥

तप से भी पूर्व काम वर्तमान था । उपनिषद् भी सृष्टि के मूल में काम अथवा ईच्छण का ही बर्णन करती है । यथा 'सर्वज्ञत...तमभ्यतपुस्य !' ऐतरेय १-३ 'सोऽकामयत, स तपो अतप्यत' । बृहदारण्यक १३२ । यह काम मन का प्रथम बीज था । कवियों ने हुद्दि द्वारा हृदय में खोज की तो उन्हें सत ( प्रकट सृष्टि ) का बन्धु ( सूत्र ) असत ( अप्रकट प्रकृति ) में ही पाप्त हो गया ।

तिरश्चीनो विततो रश्मिरेपाम् अधः स्विदासीत् उपरि स्विदासीत् रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वयाभवस्तात्प्रयतिः परस्तात् ॥५॥

तप के पश्चात् जब प्रथम प्रकाशपिण्ड आविर्भूत हुआ तो उसकी किरणें विरही पड़ती थीं। वे तिरछे रूप में फैर्डीं। क्या नीचे और क्या ऊपर—सब और महत्त्व का प्रकाश होने लगा। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने इसी स्थिति को विशाल गैस पिण्ड का नाम दिया है। महत्त्व को ही अपने यहाँ ज्येष्ठ या हिरण्यगर्भ कहा गया है। उसमें रेतोधा—वीर्यधारण करने वाले जीव भी पे जो आगे चलकर मैथुनो सृष्टि का प्रसार करेंगे और महिमान-मुक्तात्मा अथवा देव भी ये अथवा ऐसे पुण्यात्मा महात्मा भी ये जो सृष्टि के आदि में एक बार अमैथुनी ईश्वरीय प्रणाली से उत्पन्न होकर फिर मैथुनी सृष्टि में जन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। उस समय स्वधा-प्रकृति नीचे थी और प्रयत्नि परे अर्धात् ऊपर थी। स्वधा को हम सत, धारक खो तत्त्व और प्रयत्नि को श्रव अर्धात् पुंस्तत्त्व भी कह सकते हैं। एक में पार्थिवता है तो दूसरे में द्विष्टता। एक में स्थिरता है तो दूसरे में गतिशील प्रयत्न।

**इयं विसृष्टिर्यतावभूव, यदि वा दधे यदि वा न ।**

**योऽस्याध्यक्षः परमेव्योमन् सो अंग वेद यदि वा न वेद ॥ ६ ॥**

जिससे यह विविध रूपा सृष्टि प्रकट हुई, उसी ने हमें धारण किया या नहीं? परम व्योम में जो इसका अध्यक्ष है, वही सब कुछ जानता है अथवा संभव है, वह भी नहीं जानता। इस कथन का आशय यही है कि जैसा हम लोगों का ज्ञान है, वैसा उसका नहीं है। वह सर्वज्ञ है, पर प्रपञ्च से भी सर्वथा पृथक है। ज्ञान और अज्ञान हमारी अवेद्या से है—वह तो दोनों से ही परे है—परात्पर है—जानने या न जानने का प्रश्न उसके सम्बन्ध में उठता ही नहीं। जब सब कुछ उसके अन्दर है तो वह त्रिपादूर्धे एक पाद का अध्यक्ष ही है। यह सब उसकी महिमा है। अपनी महिमा को जानना या न जानना कैसा?

नासदीय सूक्त भाववृत्त सूक्त भी कहलाता है। भाववृत्त ही इसका देवता है। भावमयी सृष्टि के लय और उद्भव की कथा इस सूक्त में उपनिवद की गई है।

अभी तक सृष्टि प्रकरण से सम्बद्ध पौरस्य तथा पाश्चात्य साहित्यों से जो विवरण प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें सामंजस्य की किञ्चित् छलक भी प्राप्त हो जाती है। लेख के प्रारम्भ में जिस जागरण की चर्चा है, वह बहुत्वमयी, नानात्मक प्रपञ्च-लीला है। इसमें विमेद ही विमेद है। आधुनिक वैज्ञानिक द्या साधारण विद्वान् भी इसका प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। पर इस विमेद को एकता के सूत्र में भी किसी ने बांधा है। यह एक सूत्रकार अज है। जिन्हें हम पञ्चतन्मात्रा कहते हैं, वे वस्तुतः गुण हैं। आप हन्हें आधुनिक विज्ञान की ऐनर्जी का नाम भी दे सकते हैं। जैसे ऐनर्जी का परिणमन मैटर में हुआ है, वैसे ही पंचतन्मात्राओं का पंचभूतों में।

जागरण के प्रथम स्वप्नावस्था होती है। इसे अहिरुंच्य समझिये, विष्णु की शेषशैया, जिसमें मन और अहंकार मिलकर ब्रह्मारूपी शक्ति, सृष्टि या जागरण की प्रजनन-शक्ति—को उत्पन्न करते हैं। पुराणों में ब्रह्मा विष्णु की नाभि से उद्भूत कमल से ही उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिकों के नीहारिकावाद का समावेश इस स्वप्नावस्था में किया जा सकता है।

स्वप्न के पूर्व सुषुप्ति होती है। यह अपांनपात् पेरु तथा महानात्मा की अवस्था है। इसे हमने मनोविज्ञानियों की बलेविट्य अनकान्सस कहा है। भौतिकी में जो रैडियेशन माना जाता है या फोटोन्स का विकिरण कहा जाता है, वह इसके समकक्ष है। जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति को जो बृहन्मात्रा सृष्टि और प्रलय काल में दिखाई देती है, उसकी स्वत्प मात्रा सृष्टि के जागरण-काल में भी उसी प्रकार अनुभूत होती रहती है जैसे हम प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते रहते हैं। एक मन्त्रन्तर से दूसरे मन्त्रन्तर तक आने में और एक चतुर्युगी से दूसरी चतुर्युगी तक प्रवेश करने में या एक युग से दूसरे युग में प्रवेश करने पर दिन और रात्रि और दिन अथवा जागरण और स्वप्न और जागरण का स्वयंपकालिक अनुभव होता रहता है।

सृष्टि का प्रारम्भ अज एकपात् से होता है। उसके पूर्व अहिरुंच्य और

अहिर्बुद्ध्य से पूर्व पेह की अवस्थायें हैं। अज ब्रह्मा है, अहिर्बुद्ध्य विष्णु है और पेह हिरण्यगर्भ या रुद्र या सूर्य है। इन्हें हमने पंचभूत, पंचतन्मात्रा और महत्तत्व भी कहा है। जब सुषिट चन गई तो क्रम विपरीत हो जाता है। अज की कृति सृष्टि है, अहिर्बुद्ध्य की कृति स्थिति या रक्षण है और पेह की कृति प्रलयोन्सुखता है। ब्रह्माण्ड के सप्त लोकों में अज या ब्रह्मा की स्थिति चनः, तपः तथा सत्यम् लोकों में है, अहिर्बुद्ध्य या विष्णु की स्थिति स्वः, महः तथा जनः लोकों में है और पेह या सूर्य की स्थिति भूः, सुवः तथा स्वः लोकों में है। पंचतत्वों की दृष्टि से भूः में पार्थिव तत्व, सुवः या अन्तरिक्षीय चन्द्रमा में जलीय तत्व, स्वः या सूर्य में आमनेय तत्व, महः और जनः में वायवी (सोमीय तथा आपोमय) तत्व और तपः तथा सत्य में आकाशीय तत्व है। ऋत-सत्य, काल-दिक्<sup>१</sup> अथवा अग्नि-सोम की दृष्टि से भी लोकों का विभाजन किया जा सकता है। यह जागरण से सुषुप्ति या सुषुप्ति से जागरण तक की व्याख्या हुई।

सुषुप्ति से पूर्व तुरीयावस्था है जो वर्णनातीत है। यहाँ प्रकृति पुरुष में लीन है। यह अमेद की अवस्था है। पेह या महानारामा से भेद प्रारम्भ हो जाता है तथा अहिर्बुद्ध्य या विष्णु की दशा में उसकी इकाई स्पष्ट बनने लगती

<sup>१</sup> हमारे यहाँ काल और दिक को भी द्रव्य माना गया है। काल सब को गतिशील रखता है। इसमें विद्या वा अपर तथा पररूप लक्षित होता है। दिक में पदार्थ स्थिर रहते हैं। ऋत और सत्य की सूक्ष्मता इन दोनों द्रव्यों में भी दिलाई देती है। अन्तर इतना ही है कि जहाँ ऋत गत्यात्मक नियमों को कहते हैं, वहाँ काल वह दृक्षित है जिसमें पदार्थ गतिशील होते हैं। सत्य सत्ता या स्थिरता लाने वाला है तो दिक में पदार्थ स्थित होते हैं। काल में घटनायें पठित होती हैं, दिक में वस्तुर्यं ठहरती हैं। काल में आगे—पीछे क्रम का नैरन्तर्यं है, दिक सपाठ है। काल के कोई दो भाग एक साथ नहीं रह सकते, दिक के सभी भाग एक साथ रहते हैं।

है। इकाई का भारम्भ सात्त्विक अहंकार से होता है। इसी को यज्ञ कहते हैं। शतपथ ने यज्ञो वै विष्णुः कह कर इसका समर्थन किया है। प्रपञ्च के विभेद में फैल कर अभेदत्व नानात्म एवं बहुत्व में प्रख्यात होता है। विज्ञान इस अभेद की अवस्था को अपने अध्ययन का विषय बना ही नहीं सकता। विभेद में अभेद, अनेक में एक का आलोचन दर्शन का विषय रहा है। गीता ने इसी को ज्ञान कहा है। विज्ञान तो अनेकत्व या बहुत्व से सम्बन्ध रखता है। निष्कल नहीं, सकल की व्याख्या करना उसका लेन्द्र है।

आयुर्विज्ञान आज अपने लेन्द्र को व्यापक बनाने की ओर भी प्रवृत्त है। फिजिव्स अब मेटाफिजिव्स की बरतें भी करने लगी है, जिसका आभास सर जेम्स जीन्स, आर्थर ऐडिंगटन, आइन्स्टाइन आदि के ग्रन्थों से प्राप्त हो रहा है। यदि विज्ञान इसी प्रकार प्रगति करता गया तो वह ज्ञान या दर्शन से मिल जायगा।

## प्रलय प्रकरण

**स्कम्भेनेमे विष्टभितेद्यौश्चभूमिश्विष्टुतः ।  
स्कम्भे इदं सर्वमात्मन्वद्यत्प्राणन्निमिष्ट्ययत् ॥ २ ॥**  
( अथवा १०-८-२ )

स्कम्भ के द्वारा धारित ये आवा और पृथ्वी ठहरे हुए हैं। यहाँ जो कुछ सजीव तथा अजीव है वह सब स्कम्भ में ही आमन्वयत् आत्मसात अर्थात् छीन हो जाता है।

**यदेज्ञति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणन्निमिष्ट्यद्युभुवत् ।  
तद्वायार पृथिवीं विश्वरूपं तत्संभूय भवत्येकमेव ॥ ११ ॥**

जो चलता है, गिरता है, ठहरा है, प्राणवान है, अप्राणवान है, जड़ या सोया हुआ है, आविर्भाव में आ रहा है—उन समस्त रूपों वाली पृथ्वी को स्कम्भ ही धारण कर रहा है। अन्त में इकट्ठा होकर यह सब उसी स्कम्भ के साथ एक हो जाता है।

**यतः सूर्युददेत्यस्तं यत्र च पच्छति ।  
तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तदु नात्येति किंचन ॥ १६ ॥**

यह सूर्य जिसके कारण उदय होता है और जिसमें अस्त को प्राप्त होता है, उसी को मैं उपेष्ठ मानता हूँ। उसको कोई अतिक्रान्त नहीं करता है।

**सनातनमेनमाहुः उताद्य स्यात् पुनर्णवः ।  
अहोरात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥ २३ ॥**

जिस आज को हम अभिनव रूप में देखते हैं, वह सनातन है, सदैव से ऐसा ही नया होता आया है। १८ का दिन ऐसा ही नया था और जो आने वाला है वह भी ऐसा ही नया होगा। दिन के पश्चात रात्रि और रात्रि के पश्चात दिन, दिन के उपरान्त अस्त क्षेत्र अस्त के उपरान्त उदय, तस्म के

बाद प्रकाश और प्रकाश के बाद तम न जाने कब से चले आते हैं और एक दूसरे के रूप के समान हैं।

**कालादापः समभवन्कालादृग्वहतपो दिशः ।**

**कालेनोदेति सूर्यः काले निविशते पुनः ॥ अर्थात् १११५६॥**

कालरूप परमेश्वर से ही आपः ( नासदीय सूक्त का अप्रकेत सलिल तथा अघमर्ण सूक्त की रात्रि ) प्रकट हुए। काल से ही वह ( हिरण्यगर्भ ), तप तथा दिशायें आविभूत हुईं। सूर्य काल द्वारा ही उदय करता है और काल में ही पुनः सञ्चिति अर्थात् लीन हो जाता है।

**तम आसीचमसागृद्गमयेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।**

**तुच्छ्येनाम्बपिहितं यदासीत् तपसस्तम्भमहिता जायतैकम् ॥**

ऋ० १०-१२९-३

सृष्टि के पूर्व तम से आच्छान्न तम ही था। यह सब चिह्नरहित सलिल था। आमु ( चारों ओर सृष्टि में विविध रूपों में प्रकट होने वाला प्रकृति का रूप ) तुच्छ्य, शून्य, शोष द्वारा आच्छादित था। वह एक तप की महिमा से प्रकट हुआ।

**सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् ।**

**दिवश्च पृथिवीञ्चान्तरिक्ष मध्यो स्वः ॥ ऋ० १०-११०-३**

सृष्टि के पूर्व कल्प की भाँति इस कल्प में भी धाता ने सूर्य और चन्द्रमा की रचना की। पूर्व रूप में ही दौ, पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग की भी रचना हुई।

ऊपर जो मंत्र उद्धृत किये गये हैं, उनसे सिद्ध होता है कि सृष्टि और प्रलय का चक्र समातन है। उसका उदय और अस्त, आविर्भाव एवं तिरोभाव दिन और रात्रि के समान निरन्तर होता रहता है। अभिनवता तथा समानता अथवा एकरूपता भी समातन है। इस आविर्भाव एवं तिरोभाव का, सृष्टि एवं प्रलय का अधिष्ठाता और निभित्तकारण परमतत्व है। उत्तर मीमांसा

अथवा वेदान्त इसी को जन्म, स्थिति और प्रलय का कारण कहता है। तैसिरीय उपनिषद् इसी को ब्रह्म नाम देती है :—

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन ज्ञातानि जीवन्ति ।

यत्प्रयन्त्यभि संविशन्तितद्विज्ञासस्व तद् ब्रह्म ॥ भृगुश्च, अनु ० १

इस ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। इसी से ये सब भूत उत्थव होते हैं, उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं और अन्त में इसी में समा जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं।

प्रलय का अर्थ है लीन हो जाना, छिप जाना, तिरोहित या अस्त हो जाना। जैसा हम पीछे लिख चुके हैं, ब्रह्माण्ड और उससे सम्बन्धित विषयों को समझने के लिये पिण्ड का परिज्ञान पर्याप्त है। शरीर दिनभर के कार्य के उपरान्त विश्राम की आवश्यकता अनुभव करता है। निद्रा में यह विश्राम उसे प्राप्त हो जाता है। ब्रह्माण्ड में जागरण रचना है और स्थिति किंपा का काल है। ब्रह्माण्ड की प्रलय ही निद्रा है। सृष्टि प्रकरण में रचना के जो स्तर वर्गित हुए हैं, यदि उनके क्रम को पलट दें तो प्रलय के स्तर समुद्र वा जायँगे। जिस क्रम से रचना का विकास होता है, उसके विपरीत क्रम से प्रलय होती है।

रचना में पूरिन या प्रकृति या अदिति के परचात् पेर, पेर के परचात् अहिरुंभ्य और अहिरुंच्य के परचात् अज पूकपात् की अवस्था आती है। पुरुष सूक्ष्म ने जो हुआ, जो है और जो होगा, उसे पुरुष का एक पाद कहा है। अज ब्रह्म है। ब्रह्म से विराट और विराट से मनु आदिद्वारा सृष्टि का विस्तार होता जाता है। यह सूचम से स्थूल को ओर गमन है। प्रथागमन या प्रलय में क्रम उलट जाता है। जहाँ से सब चले थे, वहाँ पहुँच जाते हैं। पूरिन से चलकर अज तक पहुँचे थे, अब अज से चल कर पूरिन तक पहुँचते हैं।

अधमर्ण सूक्ष्म में अर्णवान् समुद्र की चर्चा है। समुद्र का अर्थ है जहाँ से सब बाहर की ओर दौड़ लगावें तथा जिसकी ओर सब सब ओर से दौड़ लगावें। निरह, नैगमकाण्ड, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में समुद्र की

निरुक्ति देते हुए यास्काचार्य लिखते हैं :—समुद्रः कस्मात् समुद्रवन्ति अस्मात् आपः, समभिद्रवन्ति पूजम् आपः वा । जल समुद्र से निकलता है और उसी में समा जाता है । इसी प्रकार प्रकृति से खटि निकलती है और उसी में लीन हो जाती है ।

जिस आकाश में सत्त्-रज-तम की साम्यावस्था वाले परमाणु प्रलय में ठहरते हैं, वे प्रभु के अधीच्छण में परस्पर आकर्षण में जब बद्ध होते हैं, तथ सर्वप्रथम उस आकाश का ही आविर्भाव होता है । उससे वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी पकड़ होती है । प्रलय ने पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाता है । महत्त्व की इष्टि से विचार करें तो पञ्चमहाभूत पञ्चतन्मात्राओं में, पञ्चतन्मात्रायें तामस अहंकार में, इन्द्रियगण राजस अहंकार में, मन आदि सात्त्विक अहंकार में, अहंकार महत्त्व में और महत्त्व प्रकृति में लीन होता है । सूचम से स्थूल की ओर परिधि है, विस्तार है, तो स्थूल से सूचम की ओर संकोच है, केन्द्रस्थिता है ।

प्रलय चार प्रकार की मानी जाती है :—नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और आत्मनितक । नित्य प्रलय का रूप जगत की चृण-चण की चयिष्णु अवस्था है । यहाँ पल-पल में परिवर्तन हो रहा है । जीवन के घटक विस रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, अन्न खाया जा रहा है, आपोमय मण्डल का सोम सूर्य मण्डल में आदुत हो रहा है, सरित-सरोवर-समुद्र का जल वाष्प बनकर अन्तिरिक्ष में जा रहा है, संसार दिनभर की धरान के पश्चात निद्रामग्न हो रहा है—यह सब नित्य प्रलय का रूप है ।

नैमित्तिक प्रलय में आंशिक या खण्ड प्रलय होती है । इस प्रलय के कारण जहाँ समुद्र था वहाँ रेगिस्तान हो जाता है, समुद्र अपना स्थान बदल देता है । जहाँ स्थल था, वहाँ समुद्र हो जाता है, कभी कभी स्थल के ऊंचे भाग समुद्र में टीले या द्वीप के समान दिखाई देने लगते हैं । भानव इतिहास में सुरचित विगत जलप्लावन में समुद्र का जल बढ़ता हुआ हिमालय तक आ

गया था । पुरातत्व के अन्वेषक हिमालय पर कहीं-कहीं जो समुद्री जलचरों की हड्डियां आज भी प्राप्त कर लेते हैं, वह उसी जल-प्लावन की दैन का अवशिष्ट भाग है । मंगोलिया की महभूमि में भी इसी प्रकार के अंश कभी-कभी उपलब्ध हो जाते हैं । भूगोल के विद्वान अक्षरीका के परिचमी और अमरीका के पूर्वी भाग की सामुद्रिक सीमाओं के पास जो आकृति देखते हैं, उससे दोनों महाद्वीप कभी एक थे, ऐसा अनुमान करने लगते हैं । किसी खण्ड प्रलय ने दोनों महाद्वीपों को एक से दो कर दिया और बीच में समुद्र बहने लगा । पृथ्वी के सभी परिवर्तन इसी प्रकार की खण्ड या अंशिक प्रलय के कारण हुए हैं । यह प्रलय युग के अन्त में हो या मध्यन्तर के अन्त में, या विधि-विधान से बीच में भी, तो भौगोलिक स्थिति में अन्तर पढ़ ही जायगा । यही कारण है कि हमारे प्राचीन साहित्य में पृथ्वी, द्वीप, वर्ष, पर्वत, सरिताओं आदि का जो वर्णन उपलब्ध होता है, वह आज की स्थिति से भिन्न है ।

नैमित्तिक प्रलय में कभी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, कभी जल भी तेज में मग्न हो जाता है । अतः जहाँ से प्रलय होगी वहीं से सृष्टि का प्रारम्भ होगा । आग्नेय प्रलय के पश्चात् सृष्टि अग्नि तत्त्व, विद्युत या तेज से प्रारम्भ होगी । जल प्रलय के पश्चात् जल से प्रारम्भ होगी, परन्तु प्राकृत प्रलय या महाप्रलय में समस्त ब्रह्मण्ड अपने मूल अर्थात् प्रकृति में लीन हो जाता है । अतः नवीन सर्त का आरम्भ आकाश से होता है । भू, भुवः तथा स्वः द्वोकों तक की प्रलय नैमित्तिक प्रलय में आती है, परन्तु भूः से सत्यलोक तक की प्रलय महाप्रलय या प्राकृत प्रलय कहलाती है । इसमें न पंचमहाभूत और न उनसे बने हुए ग्रह-पिंड रहते हैं और न इनके सूक्ष्म रूप पंचतन्मात्रा, अहंकार और महत्त्व ही । सब मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं । इस प्रलय का समय ब्रह्मा की पूर्णायु, दो परार्ध या पराम्बकाल है । प्रभु की दृष्टि में यह उणवत् भी नहीं है ।

ब्रह्मण्ड का अर्थ है—ब्रह्म अण्डा या ब्रह्मा का शरीर । जयतक ब्रह्मा की आयु है, तब तक उसका शरीर भी रहेगा । इस विचार के अनुसार ची से

पृथ्वी पर्यन्त समस्त ब्रह्माण्ड पराम्भकाल तक बना रह सकता है। रात्रि में जैसे हम सो जाते हैं, वैसे ही एक कल्प या १४ मन्त्रतरों रूपी ब्रह्मा के एक दिन के पश्चात जो प्रलयरूपी रात्रि आती है, उसमें केवल चैतन्यांश सुस-या तिरोहित होता है, प्राकृत ब्रह्माण्ड शरीर की भाँति ज्यों का त्यों बना इहता है। शारीरिक परिवर्तनों की भाँति उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, पूर्ण विनाश नहीं। Cosmic rays या ब्रह्माण्डीय किरणों के आधार पर इस विचार की स्थापना की जा सकती है। चर्तमान सृष्टि की जो आयु हम एक अरब सदानन्दे करोड़ वर्षों के लगभग दैनिक अनुष्ठान में पटित संकल्प से निकालते हैं, वह पार्थिव सृष्टि की नहीं, चर्तमान मानव सृष्टि की आयु है। किंतु पर्यावरणिक हमारी लगभग दो अरब वाली कल्पना या गणना का समर्पन करने लगे थे, पर अब वे पार्थिव सृष्टि की आयु को अनेक अरब वर्षों की बतलाने लगे हैं।

ऊपर जिन प्रलयों का वर्णन किया गया है, उनका सम्बन्ध भौतिक जगत से है। एक प्रलय ऐसा भी है जिसका अभौतिक अर्थात् चेतन प्राणियों से—विशेषतः मानव योनि से सम्बन्ध है। इस प्रलय का नाम आत्यन्तिक प्रलय है। इसका कोई निश्चित समय नहीं है। यह जीव की मुक्ति या मोक्ष से सम्बन्धित है। इसमें जीवात्मा साधना से सम्पन्न हो स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीरों से मुक्त हो जाता है। ये तीनों शरीर प्राकृत हैं और क्रमशः तम, रज तथा तत्व गुणों वाले हैं। तीनों ही आत्मा के ऊपर पढ़े हुए आवरण हैं। इन आवरणों से पृथक होना, इन अधम, मध्यम तथा उच्चम पाशों से मुक्ति पाना आत्यन्तिक प्रलय कहलाता है। इसमें जीवात्मा वधनों से छूटता तथा परमात्मा को प्राप्त करता है। पाशों ने उसे संस्कीर्णता दी थी, मुक्ति उसे ब्रह्मत्व प्रदान करती है। जीव की यही परमगति है। इस अवस्था में उसके लिये प्रकृति की आत्यन्तिक प्रलय हो जाती है। त्रिविध दुःखों—आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक—की आत्यन्त निवृत्ति हो जाती है। वह ब्रह्म के साथ बानन्दामृत का उपभोग करता है। आप साहित्य में इस अवस्था का वर्णन बादुल्य से हुआ है।

स्वरों का मूल अ भाविभाव, उत्पत्ति, जन्म या जागरण का सूचक है। उस्वर स्थिति का ज्ञापक है और व्यञ्जन म से उपशम, तिरोभाव, निद्रा, निरोध, प्रलय की अभिव्यञ्जना होती है। कण्ठ से लेकर ओष्ठ तक का देश स्वर-व्यञ्जनमयी च्वनियों का क्लोडास्यल है। कण्ठ से प्रारम्भ, कण्ठ से ओष्ठ तक मध्य स्थिति और ओष्ठों के बन्द होने पर अन्त हो जाता है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय की भी यही दशा है। चारों प्रकार की प्रलय निरोध है, उपशम है, प्रपञ्च का समाप्त हो जाना है। यह प्रपञ्च कव से चल रहा है, कोई नहीं जानता। सृष्टि के पश्चात् प्रलय और पलय के पश्चात् सृष्टि होती ही रहती है। हम मध्य में पवे हुए जीव इस द्वी मध्य स्थिति को ही देख पाते हैं और उसे भी स्वरूप मात्रा में। सृष्टि धोर प्रलय का दर्शन तो परमदेव परमात्मा ही करते हैं या मुक्तात्मा जीव परमदेव सूत्रधार हैं, नायकों के भी नायक हैं, नरों में नृतम हैं। मुक्तात्मा भी नायक हैं। प्रारम्भ में वे ही यज्ञ पुरुष का अभिषेक करते हैं और यज्ञ से यज्ञ का यज्ञन चल पड़ता है। यज्ञ की पूर्णाहुति एवं समाप्ति इस लीढ़ा का संवरण है। यही प्रलय है।



## वेदों का आविर्भाव

वाणी चार प्रकार को हैः परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। परा एकदम सूक है। सामान्य जन ही नहीं, साधकों के लिए भी अध्रवणीय, अननुमेय, अप्रत्यक्ष तथा अदृश्य। यह वाणी का मूलरूप है जो अपने मूल भास्मा के साथ एक रूप है। मूल के पश्चात जब सृष्टि का आविर्भाव होता है तब एक और महत्त्व खौर दूसरी ओर पश्यन्ती वाणीकी युगपद् अभिव्यक्ति होती है। इसी को देवों का युग भी कहते हैं। यह अवस्था निरन्तर प्रकाश की अवस्था है। मन्त्र दर्शन इसी अवस्था में होता है। ऋषि मन्त्रों का दर्शन करते हैं<sup>१</sup>, अवण नहीं। अचण की प्रक्रिया परकालवर्ती है, जिसमें मन्त्रों की संज्ञा श्रुति बनती है। देवों की बृहत अमृतमयी अवस्था<sup>२</sup> भी यही है। अद्यप-कालीन अमृत का आस्वाद तो साधारण साधक को भी प्राप्त होता रहता है और किसी-किसी मन्त्र की झलक भी घाती रहती है, पर जिसे बृहत् अमृत कहा गया है तथा साक्षात् मन्त्र दर्शन कहा गया है, वह पश्यन्ती की उपस्थिति में ही होता है। मन्त्रों के अर्थों को भी देव अधिधान दिया गया है।<sup>३</sup> इन मंत्रार्थ रूप देवों का दर्शन भी पश्यन्ती वाणी का जेत्र है। व्याकरण के आधार पर पद—पदार्थ कर लेना एक बात है, पर मंत्रार्थ अर्थात् मन्त्र के देवता का दर्शन कर लेना एकदम दूसरी चस्तु है। महर्षि दयानन्द जब मंत्रार्थ करने में अटक जाते थे, तब समाधिस्थ होकर ही अर्थरूप देव को पकड़ पाते थे।

<sup>१</sup> ऋष्यो मन्त्रद्रष्टारः । साक्षात्बृहत्वर्माणः ऋष्यः । निष्ठत

<sup>२</sup> बृहत्देवासो अमृतत्वमानशुः । ऋ० १०-६३-४

<sup>३</sup> ऋचो ब्रक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्ये निषेदुः । अथर्व ११०

निम्नांकित मन्त्रों में वाणी के चार प्रकारों का उल्लेख हुआ है :—

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।  
त्रीणि पदानिहिता नेह्नयन्ति, तुरीयं वाचो मनुभ्यावदन्ति ॥

( श १-१६४-४५ अथर्व १०-१०-२७ )

तिस्रो वाचो निहितारन्तरसिमन् तासामेका विपपातानुधोषम् ॥

( अथर्व ७-४३-१ )

वाणी के चार प्रकारों को मनीषी व्याख्या ही जानते हैं । इसके तीन पद निहित हैं, अन्दर छिपे पड़े हैं, इंगित या संकेतित नहीं होते । हम मानते जिस वाणी को बोलते हैं, वह उसका चतुर्थ रूप है ।

तीन वाणियां हमारे अन्दर रहती हैं । उनमें से एक चतुर्थ वाणी हमारे बोय के साथ विशेष रूप से बाहर गिरती रहती है ।

ऋषियों ने अपने दर्शन के आधार पर इन चार प्रकार को वाणियों का नामकरण किया है । इनमें से वैखरी वाणी हम सब के लिये अवगत होती है । अवगतीयता भी कई प्रभाव रखती है । कुछ वैखरी वाणी निश्चेत्र पूर्व निष्प्रभ होती है । किसी वाणी को सुनकर थोता भाव-विभोर हो उठते हैं । एक ऐसी भी वाणी होती है जिसे सुनते ही आप कर्मचेत्र में कृद पढ़ते हैं और एक ऐसी भी वाणी होती है जो आपको चिन्तन पूर्व मनव के लिये वाप्त कर देती है । वैखरी वाणी के ये प्रभाव हम सब के लिये अनुभव-गम्भीर हैं । चैट्टिक मन्त्रों के उच्चारण में भी ये प्रभाव गम्भिर हैं । ‘शेदि, अभीहि, एष्णुहि’ ‘उदीर्व जोवो असुनं भागात्’ आदि पदों को सुनते हो आप कर्म करने के लिये कठिनश्व हो जाते हैं । ‘सुपगोऽसि गङ्गमान्’ ‘शुस्त्रोऽसि, भ्राजोऽसि’, ‘उद्यानं ते नावयानं’ आदि वाक्य जब कान में पड़ते हैं तो हम धारवस्त हो जाते हैं, अपने सामर्थ्य का अनुभव करने लगते हैं । ‘काते उपेतिर्मनसो वराय’, ‘कदा-नुअन्तर्वर्षस्ये भुवानि’, ‘न दक्षिणा विचिकिते’ आदि मंत्र-पदों का उच्चारण करते ही हम व्याकुळ तथा भावापन्न हो उठते हैं । ‘ईजानरिचतमारुचद्विनिं’,

‘शक्तो अज एक पाददेवो अस्तु’ मन्त्र पद हमें चिन्तन तथा मनन के द्वेष में ले जाते हैं। समागत मंत्रार्थ पर मनन तथा अपने अन्दर उसके संस्कार की विद्यमानता के कारण चिन्तन जागरित होता है। प्राकृत जन्मों की कर्मसिद्धि के कारण मंत्रार्थ का प्रकाश भी हुआ करता है। यह स्वरूप समय के छिपे ऋषि-दशा में पहुँच जाना है। इससे आप ऋषि नहीं कहला सकते क्योंकि प्रकाश स्थायी नहीं होता। यह अधिक से अधिक बैसा ही है जैसा किसी सभा के सभापति बनकर थोड़ी देर के लिये शासनभार संभाल लेना।

बैखरी वाणी का सामाजिक उपयोग है। साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि की अनुभूति और विवेचन इसी वाणी के कारण स्थायी बनते हैं और देश तथा काल के बंधनों का अतिक्रमण करके विभिन्न देशों में और कालों में रहने वाले प्राणियों का उपकार करते हैं। आज यदि हम याङ्गवल्क्य, व्यास, वाल्मीकि, होमर, प्लेटो, मिलटन आदि के विचारों और भावों से परिचित होकर लाभ उठा रहे हैं तो इसी वाणी के कारण। बैखरी वाणी विविधरूपा है। उसके रूपों का ज्ञान यदि नहीं हुआ, तो ‘मैंस के आगे बीन वाज़, मैंस खड़ी पगुराय’ वाली कहावत सिद्ध होने लगेगी।

चारों ओर इसी बैखरी वाणी में उपलब्ध है। उनमें छन्द हैं, गद्य भाग है तथा गीत हैं। छन्दों में आवद् बैखरी वाणी नियत पद, मात्रा वाली है। गद्य भाग प्रकीर्ण अर्थात् फैला हुआ है और गीत में छन्द ही संतानित होकर लय तथा स्वर का विस्तार करता है। इन सब के उच्चारण में हमें कण्ठ, तालु, मूर्ख, जिह्वा, भोष्ट आदि का प्रयोग करना पड़ता है जिससे हमारा उच्चार हमीं तक सीमित न रह कर दूसरों तक भी पहुँचता है। उच्चार की एक उपांशु अवस्था भी है जिसे कुसफुसाहट कह सकते हैं। उसमें उच्चरित शब्दों को हमीं सुनते हैं, दूसरे नहीं। पर उच्चारण किसी प्रकार का हो, उसकी लहरें अन्तरिक्ष में फैलती ही हैं, अन्तर केवल सभीपता या दूरी का होता है।

बैखरी वाणी जो बाह्य अन्तरिक्ष में फैलती है, अपने आसन्न पूर्व उत्स में

आन्तरिक अन्तरिच्छ में निवास करती है जिसे अन्तःकरण कहते हैं। मन इसी अन्तःकरण का एक प्रमुख भाग है। जब हम सुप रहते हैं, तब भी इसी मन में शब्द-वाक्य रूप भाषा अपने सभी रूपों के साथ विद्यमान रहती है। जैसा वर्ण, शब्द आदि का विभाग बाहर था, वैसा ही मन में भी वहा रहता है। अन्तर केवल इतना ही होता है कि वैखरी वाणी जिन तालु, जिहा आदि का प्रयोग करती थी, वह इस अध्यन्तर वाणी में नहीं होता। मन में निहित इस वाणी को मध्यमा नाम दिया गया है। यह मूल अथवा सूक्ष्मतम और उच्चरित अथवा स्थूल दोनों वाणियों के बीच में है। एक ओर इसमें वैखरी वाणी का वर्ण—विभाग विद्यमान है, तो दूसरी ओर सूक्ष्मतम वाणी का अनुच्चरित सूक्ष्म रूप भी।

वैखरी वाणी मन से पूत होकर जब उच्चरित होती है, तो कल्याण-कारिणी होती है, पर जब दूषित होकर निकलती है तो संपर्क में आनेवालों को ही नहीं, अपने को भी दूषित कर देती है। मन में निहित वाणी के पूत अथवा अपूत होने का साज्जात् प्रभाव लहित नहीं होता। अप्रत्यक्ष रूप से तो उसका प्रभाव अन्तरिच्छ में पड़ ही रहा है।

मन में निहित मध्यमा वाणी कम से कम ऐसी केतु अवश्य है जो उसके सूक्ष्मतम रूप का आभास दे सकती है। हम जनुमान लगाने लगते हैं कि जब मेरी वैखरी वाणी अन्यों द्वारा अज्ञात रूप में मन में उपस्थित है, तो इस मन की वाणी का स्रोत भी कहीं अन्दर अवश्य होना चाहिये। वाणी में निहित अर्थ उसकी प्रकाशिका शक्ति को प्रकट करता है। यह प्रकाश उसके साथ जैसे ही लगा है जैसे अग्नि के साथ दाह। इसी हेतु वाणी का मूल उस प्रकाशमय है। अपने परा रूप में वाणी आत्मा की शक्ति है जो सर्वधेष्ठ योति कहलाती है। मन में निहित मध्यमा वाणी इस स्रोतस्वरूपा योति का केतन करने लगती है।

गायत्री वेदमाता है, ज्ञान की जननी है। ज्ञान स्वर्थं प्रकाश-स्वरूप है।

प्रकाशों के भी प्रकाश परम प्रभु को इसी हेतु जातवेद कहते हैं। वेद उसी से प्रकट होते हैं। ज्ञान, कर्तृत्व तथा भाव का प्रकाश उसी के द्वारा होता है। इस मूल उत्स का आभास भी मन की मध्यमा वाणी देने लगती है। पार्थिव अग्नि वैखरी वाणीको सतेज करती है, तो मानसिक अग्नि मध्यमावाणी को प्रखर बनाती है। बाहर जो प्राण-शक्ति का अमृतकुण्ड भरा हुआ है, उसमें द्वूत कर पतनशील इन्द्रियाँ अमृत का कुछ न कुछ भाग मन तक पहुंचा रही हैं। मन की समेकन शक्ति अमृत के इन छीटों को विभक्त नहीं रहने देती, एकत्र में परिणत कर लेती है। वे केन्द्रस्थ होकर एक इकाई का ज्ञान बन जाते हैं। ज्ञान की ये रश्मियाँ मानव मन में लगातार आती रहती हैं। मानसिक अग्नि को समिद्ध करने के लिये ये इधर (इंधन) का काम करती हैं। मध्यमा वाणी इस प्रज्वलन से समृद्ध ही नहीं, तेजस्विनी भी बनती है।

इन्द्रियों का सम्पर्क जिन गोचर दृश्यों से होता है, मन के ब्रह्मल उभके विम्बों को ग्रहण करता है। ये विम्ब कालान्तर में सूक्ष्म चित्रों के रूप में रह जाते हैं। विस्मरण तथा स्मरण की प्रक्रिया में कुछ विस्मृत भी हो जाते हैं, पर अनुकूल परिस्थिति पाकर विस्मृत भी उद्भुद्ध हो उठते हैं। दृश्यों तथा सूक्ष्म चित्रों के ऊपर भी क्या कोई अवस्था है? क्या ऐसी भी कोई ऊर्जा स्थिति है जिसमें न इन्द्रियों के गोचर हों और न मन के विम्ब या चित्र? काण्ठ ने ऐसी स्थिति को अनुभव किया था, जहां दर्शन तो है, पर रूप नहीं, रूप के विभाग नहीं; ज्ञान तो है, पर ज्ञान का विषय नहीं जो नानात्मक है। हमारे यहां इसे निदिघ्यासन 'कहा गया है जो अवण तथा मनन दोनों से भिज्ज है। मनन तक बहुरूपता तथा विभाग रहते हैं। निदिघ्यासन में काण्ठ के दर्शन की भाँति विभाग नहीं रहता। यही वाणी की तीसरी स्थिति है जिसे पश्यन्ति कहते हैं। प्रज्ञा के साथ इसका धनिष्ठ सम्बन्ध है। यह परयन् ही परयन् है, दर्शन ही दर्शन है, शब्द-वर्ण-अर्थ आदि का विभाजन नहीं। यहो शब्दार्थ का ऐवय है। मन्त्र और देवता पृथक्-पृथक् न रहकर एकता के सूत्र में निवृद्ध हैं।

पर्यन्ती वाणी का सम्बन्ध विज्ञानमयकोष तथा आदित्य के साथ है। अथर्ववेद की निम्नांकित शृंचा में वेद का सम्बन्ध भी आदित्य के साथ संयुक्त किया गया है :—

ये अर्चाङ् मध्य उत वा पुराणं  
वेदं चिद्रासमभितो वदन्ति ।  
आदित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे  
अग्निं द्वितीयं चित्रृतं च हंसम् ॥ (१०-८-१३)

जो नीचे (पृष्ठो पर) अथवा मध्य (बन्तरिक्ष में) अथवा इधर को वैखरी वाणी और चीच की मध्यमा वाणी द्वारा पुराण वेद विज्ञाता का प्रथम सा वर्णन करते हैं, वे सब आदित्य का हो वर्णन करते हैं। यह आदित्य हंस है, चित्रृत है, वेदत्रयी से आदृत है और द्वितीय अग्नि है। प्रथम अग्नि अवतरण के समय महत्त्व है, उपेष्ठ ब्रह्म है। उससे उत्पन्न होने के कारण आदित्य द्वितीय अग्नि है। आगे मन्त्र संख्या १८ में कहा गया है कि सब देवता इसी आदित्य रूप हंस के उर में चिराजमान हैं। इसके पूर्व १६वें मन्त्र में आदित्य के पिता, उदय कर्ता उपेष्ठ ब्रह्म अथवा महद् ब्रह्म का वर्णन है। संरूप सूक्त का नाम ही उपेष्ठ ब्रह्म सूक्त है। मन्त्र संख्या २० में महद् ब्रह्म शब्द भी आया है। मन्त्र संख्या ३३ के अनुसार समस्त चोली जाने वाली वाणियाँ इसी महद् ब्रह्म को प्राप्त होती हैं। उपेष्ठ ब्रह्म या महत्त्व से जब आदित्य पृथक् होता है तब उसकी संज्ञा व्रात्य प्रजापति होती है। व्रात्य वह है जो भा का भंग करे। आदित्य प्रजापति तो है, परन्तु यह अपने प्रजापति, उपेष्ठ ब्रह्म से पृथक् होने तथा अपना नया घर, परिवार, ब्रह्माण्ड बनाने के कारण व्रात्य कहलाता है। इसी व्रात्य का अनुसरण चार वेद भी करते हैं, यथा— तंमृचरच सामानि च यजूःपि च प्रद्वा चानुव्यच्छन्। अथवे १५०-६-८। यजूःपि च वै स सामानि च यजूःपि च ब्रह्मग्रच प्रियं धाम भवति य पूर्वं वेद । १५०-६-९।

प्रात्य प्रजापति आदित्य के पीछे ही ऋक्, यजुः साम तथा ब्रह्म ( अर्थव॑ )<sup>१</sup> चल पड़े । पश्यन्ती वाणी का ही यह चेत्र है जिसमें ऊपरि वेदों का दर्शन करते हैं । सृष्टि या ब्रह्माण्ड-रचना के साथ ही यज्ञ तथा काल का आविर्भाव भी माना जाता है । आदित्य ही काल है । आदित्य ही यज्ञ है । आदित्य ही विष्णु है । इसलिये वेदों में यज्ञ तथा काल से भी वेदोत्पत्ति का वर्णन मिलता है । यथा—तस्माद्यज्ञाव् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । ( ऋक्, यजुः तथा अर्थव॑ का पुरुष सूक्त ) कालाद्यचः समभवन् यजुः कालाद्यायत । अर्थव॑ १३-५४-३ । आदित्य हो सुपर्ण गरुदमान है । यजुर्वेद १२-४ में स्तोम अर्थात् ऋग्वेद को इसका आत्मा, छन्दों अर्थात् अर्थव॑ को अङ्ग, यजुः को नाम तथा साम को तन् माना गया है ।

यह वेदों के आविर्भाव का क्रम है । वैसे काल, यज्ञ, विष्णु, स्कन्द, प्रजापति आदि नाम परमात्मा के भी हैं । वही सबका आदि स्रोत है । पर जब रचना-क्रम पर विचार करते हैं, तब ये नाम रचना-काल की विभिन्न स्थितियों का ओतन भी करने लगते हैं । प्रजापति परमात्मा है, किन्तु हिरण्यगर्भ, उपेष्ठ ब्रह्म या महत्त्व भी प्रजापति है वयोंकि उसी से छिटक कर अनेक सूर्यों का आविर्भाव हुआ और उनमें से एक एक सूर्य या आदित्य भी प्रजापति है वयोंकि वह एक समस्त ब्रह्माण्ड के ग्रह रूपी प्रजा का जनक पूर्व पालक है ।

रचना में आधिदैविक जगत् के अंग ही अध्यात्म में एकत्र हुए हैं । वहाँ का सूर्य ही अध्यात्म में उद्दित है । विज्ञानमय कोष का इसी के साथ सम्बन्ध है । और पश्यन्ती वाणी भी इसी चेत्र की है । गायत्री मंत्र की सर्वत्रिष्ठता

<sup>१</sup> अर्थव॑ के निम्नाङ्कित मंत्र में अर्थवेद के लिये ब्रह्म का पर्यावाची महो शब्द आया है । ब्रह्म और मही दोनों का अर्थ है महान्, वडः—

यत्र ऋषयः प्रथमेजा ऋचः साम यजुर्मही ।

एकपिः यत्तिमन्नार्पितः स्कन्दे तं ब्रूहि कतमः स्त्वदेवसः । १०-७-१४

सविता या आदित्य के कारण है जो बुद्धि का प्रेरक है। अंशी अपने संज्ञ को प्रेरित तथा गतिशील रखता ही है।

यदि हम इस परयन्ती वाणी तक पहुँच सकें, तो देवदशंन, मंग्राथ का साचात् हमको भी हो सकता है। सृष्टि के प्रासम्भ में ऋषियों को यह परयन्ती, वाणी प्राप्त थी। वे हसी में निवास करते थे। हसी हेतु उन्हें साचात् ज्ञान प्राप्त होता था। ऋषियों में भी जो परम ज्ञान है, जिनका जन्म केवल वेदों के भाविभाव के ही लिये होता है, उन्हीं पर वेद प्रकट होते हैं। शतपथ तथा मनुस्मृति के अनुसार इन ऋषियों के नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा हैं।

परयन्ती वाणी और महत्त्व की अवस्था समानान्तर है। वेदों का सूक्ष्मतम रूप, शब्द-विभाग से शून्य, ज्ञानमय-इसी अवस्था में आदिभूत होता है। जैसे ओ३३३ अव्यय है और एक है, वैसे ही वेद एक है, पर जैसे ओ३३३ एक होता हुआ भी त्रिमात्रिक है, वैसे ही वेद भी त्रिकाण्डात्मक है। ओ३३३ और वेद अखण्ड रूप से परस्पर सम्बद्ध हैं।<sup>१</sup> अकार ज्ञान है, अवेद है। उकार कर्म है, यजुर्वेद है। मकार उपासना है, सामवेद है। इसीलिए वेद को वेदव्रयी भी कहा जाता है। त्रिकाण्डात्मक होते हुए भी वेद चार हैं। अथवं-वेद में तीनों काण्ड तो सम्मिलित हैं ही, साथ ही व्रह्मविद्या की गृह रहस्य-मयी वातें भी भरी पड़ी हैं।

चारों वेदों का उदलेख स्वयं वेदों के मन्त्रों में पाया जाता है। यजुर्वेद के पुरुषसूक्त में ऋक्, यजु, साम के साथ अथर्व को छन्दोसि का नाम दिया गया है। यजु ३४-५ में ऋक्, यजु तथा साम नाम आते हैं। ऋगवेद के पुरुष सूक्त में भी यही नाम पाये जाते हैं। सामवेद में पुरुष सूक्त सम्बन्धी केवल पाच मंत्र ( संख्या ६१६-६२१ ) हैं जिनमें नामोवाला मंत्र नहीं है। अन्यत्र मंत्र संख्या ३६९, १८२६ और १८२७ में ऋगवेद और सामवेद के ही नाम आये

<sup>१</sup> एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः। भागवत १-१४-४९

है। साम ४७१ ( ८६९ ) तथा ५२५ ( ८५९ ) में तिथः वाचः पद वेद-ग्रन्थी  
के लिए प्रयुक्त हुआ है।

सामवेद ३६, १५४४ ( श्ल० ८-६०-९ तथा यजु २७।४३ ) में पाहि नो  
अग्न एकया आदि शब्दों में चार प्रकार की गोः अर्धाद्वाणी कही गयी है।

अथर्व के पुरुष सूक्त ( १९-६ ) में भी वही प्रक्, यजु पुरुषसूक्त का मन्त्र  
तथा वही नाम है, केवल छन्दांसि ( बहुवचन ) के स्थान पर उसमें छन्दः  
( एक वचन ) का प्रयोग हुआ है। अथर्व १०-७-२० में छन्दः के स्थान पर  
स्पृहतः अथर्वागिरस शब्द आया है।

पुरुष सूक्त के अनुसार स्फृटि एक पञ्च है। इंरवर भी पञ्चस्त्रूप है। देखें वे  
यज्ञ के द्वारा ही पञ्च करके यज्ञरूप प्रभु को प्राप्त किया। पञ्च के विधान में होता,  
अर्थात् उद्घाता और प्रद्वा नाम के चार अविकृहोते हैं। इनमें होता प्रारम्भी,  
अर्थात् चतुर्वेदी, उद्घाता सामवेदी और प्रद्वा अपर्वेदी होता है। अद्वेद  
में सभी छाप्टों का सम्मिश्रण है, अतः पर्वेदी प्रद्वा चारों येदों का याता  
होता है। निम्नांकित मन्त्रों में पञ्च के इस विधान को स्पृह किया गया है:—

श्वां स्वः पोषमास्ते पुपुम्बान् गायत्रं त्वो गायति शास्त्ररीपु  
प्रद्वात्वो वदति जातविद्यां यडस्य मात्रां विमिमीत चत्वः ।

( श्ल० १०-०१-११ )

गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽचंत्यक्षमफिणः

प्रद्वाणस्त्वा शतकत उद्दंशादिव येमिरे ॥

( श्ल० १-१०-१ साम १४२, १५४ )

प्रथम मंत्र में श्रव्या से श्रावेद और होता, गायत्र से सामवेद और उद्घाता,  
गणा से दध्यवेद और प्रद्वा तथा पञ्च से पठ्डरेद और अर्थात् का अभिप्राय  
है। पञ्च की देवी आदि का निर्माण तथा स्वामा कार्य और दारों समिधा, दुषि,  
शास्त्र से सम्बन्धित कार्य अर्थात् का ही है।

दूसरे मन्त्र में गायत्रिः से उद्गाता और सामवेद, अर्दिनः से होता

तथा ऋग्वेद और ब्रह्मणः से ब्रह्मा तथा अर्थवैद का वोध होता है। यहाँ यजुर्वेद का नाम नहीं लिया गया है। उपासना का विषय होने के कारण कर्म काण्ड को छोड़ दिया गया है, पेसा जान पड़ता है। जैसे ब्राह्मण किसी चंश की प्रशंसा करता हुआ उसे ऊँचा उठा देता है, वैसे ही उद्गाता, होता तथा ब्रह्मा प्रभु के यश को ऊँचा उठा देते हैं।

ऋग्वेद के मन्त्र यजुर्वेद में कर्म हैं, वयोंकि वह अधिकतर ग्राह्यमक है। सामवेद तथा अर्थवैद में ऋग्वेद के सूक्त के सूक्त ज्यों के स्थों उदृत हैं। अतः ऋक्, साम तथा अर्थवैदीनों को कभी कभी ऋक् या ज्ञान तथा यजुर्वेद को कर्म भी कह देते हैं। साम में तो ऋक् या ज्ञान ही तनकर, फैलकर, संतानित होकर संगीत का रूप धारण कर लेता है।

जब हम एक वेद तथा वेदव्रयी की बात कहते हैं, तब उससे पश्चन्ती वाणी, महत्त्व का चतुर्दिंक प्रसृत प्रकाश, उयोतियों में भी श्रेष्ठ उयोति, सत्त्व की सर्वोत्तम उदात्त अवस्था, विराट या सूर्य का उद्भव, ओतप्रोत प्राणवत्ता, दृष्ट्वा अनभीव दीर्घायु आदि तथ्य अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। रचना में विराट से पूर्व प्रजापति हैं। विराट के पश्चात् रचना में विभाग होने लगता है। प्रजापति के साथ वाणी एक है। शतपथ ५-१-३-११ में प्रजापते: पश्चस्ति वाक् पेसा कहा गया है। यह वाक् वेदमयी है पेसा उल्लेख भी 'अनादि' निधना नित्या वागुस्था स्वयंभुवा। आदी वेदमयी नित्या यतः सर्वाः प्रयृत्यः इस श्लोक में ( महा० ज्ञानित पर्व २३१-२४ ) मिलता है। सुष्टुप् २-१-४ में भी 'वाग्विष्टारच वेदा:' इन शब्दों द्वारा वेदों को प्रभु की वाणी ही माना गया है। वेदमयी वाणी विभक्त रूप में कैसे समुख आती है, इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण काण्ड १४ में मिलता है :—

यथा प्रदीपात् पावकात् विस्फुलिंगाः ब्युच्चरन्ति, पर्वं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् पतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः साम-वेदोऽथर्वागिरस् इति ।

बृहदारण्यक उपनिषद् २-४-१०-तथा ४-५-११ में भी ये शब्द कुछ अन्तर के साथ आये हैं। याज्ञवल्य कहते हैं कि जैसे प्रदीप अग्नि से चिनगारियां निकलती हैं, वैसे ही परमेश्वर के निःश्वास रूप में ऋष्वेदः, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद प्रादुर्भूत होते हैं। वेदव्रयी, लोकव्रयी, देवदत्ती, वाक्‌प्राणमन की व्रयी आदि विभाग, फिर इनके उपविभाग होते चले जाते हैं। एक में छीन तीन, फिर तीन में छीन तीन आदि प्रकट होते चलते हैं। विविधत्व, बहुत्व, नानात्व प्रपञ्च का स्वरूप ही है। प्रपञ्च की यह विविधता परस्पर, पृथक् नहीं, बनुस्यूत है। वेद की चतुविधता भी इसी प्रकार परस्पर एक सूत्रात्मक है। ऋक् की पिण्डता या मूर्तिमत्ता, यजु की गति या क्रिया और साम का तेज़ सब के सब संबद्ध होकर एक दृष्टि की प्रतिष्ठा करते हैं। जिसने इस वृद्धि को, इस एकत्र को जान लिया, वही ज्ञानी है।

द्वान्द्वोग्य उपनिषद् कहती है : 'ऋचिलभूठं साम' ऋग्वेद के ऊपर साम आएत है। दूसरे द्वान्द्वों में भक्ति या उपासना ज्ञान पर आधित है। भक्ति भावना में श्रद्धा अनिवार्यतः अपेक्षित है। श्रद्धाश्रव् या सत्य को धारण करने वाली है। ज्ञान और सत्य पर्याय वाची हैं। इस रूप में श्रद्धा या भक्ति ज्ञान पर दहरी है—ऐसा कहा जा सकता है। जीवन के उत्कर्ष-क्रम में कर्म, फिर ज्ञान और तदनन्तर भक्ति आती है। अतः शतपथ ( काण्ड १० अ० ३ ग्रा० ५ कण्ठिका २ ) ऋक् अर्थात् ज्ञान और साम अर्थात् भक्ति दोनों को यजु अर्थात् कर्म का बाहन कहता है। यजुः ऋक्‌सामयोः प्रतिष्ठितम्—ये ज्ञान यजु अर्थात् कर्म की महत्ता घोषित करते हैं। वस्तुतः ज्ञान और भक्ति स्वाचार में ही प्रतिष्ठित हैं। सबकी दृष्टि आचरण पर ही जाती है। कोरा ज्ञानी बकवादी हो सकता है। भक्ति दम्भ, पाखण्ड या दिखावे के लिये भी की जा सकती है। अतः आचरण महत्त्वपूर्ण है, इसे सभी स्वीकार करते हैं। पर केवल आचरण या कर्म भी अधूरा है। जो कर्म भक्ति भाव सहित ज्ञान के दर्शन में किया जाता है, वही श्रेयस्कर है। लौकिक उत्थान के ही लिये नहीं, साधना की सफलता के लिये भी ज्ञान, कर्म एवं भक्ति का सम्बन्ध आवश्यक है।

श्रकृ और साम छन्दोवद हैं। यजुः गथमय है। उसमें जो पथभाग है, वह श्रकृ से लिया गया है। साम का अधिङ्ठान भी श्वर्वेद पर ही आधिन है, पर दोनों में गेयता का अन्तर है। श्रकृ की श्रवा जब गाई जाती है, गान में आवद् की जाती है, तब वह धन्धती नहीं, फैलती है। उसका वितान या विस्तार होता है। गथ, पथ तथा गान तीनों ही गति रूप हैं। धतः वेदव्ययी अग्निरूपा है—ऐसा भी कहा जाता है। अग्नि केन्द्र से ऊपर उठता है, बाहर जाता है। अग्नि रूप कर्म ज्ञानाग्नि द्वारा उत्थान्त होता है, परन्तु अद्वाग्नि द्वारा पुनः कर्म में परिणत होता है। यह यज्ञ का रूप है। गोपय याद्वाण पूर्व भाग, प्रयाठक १, याद्वाण १-२ में इस यज्ञ रूप कर्म चक्र से स्वेद या आपः की उत्पत्ति वर्णित हुई है। आपः की निहकि देते हुए ऋषि इसी स्थल पर कहते हैं :—‘आप्नोति ह वै सर्वान् कामान्, यान् कामयते इति।’ यह जो आपः ( स्वेद ) उत्पन्न हुआ, वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सोम आपेमय है। स्वेद को सुवेद तथा अथर्व वेद कहकर इसीलिये अथर्व को सोम प्रधान माना गया है। अग्नि केन्द्र से बाहर जाता है तो सोम बाहर से केन्द्र की ओर आता है। अथर्व वेद सोम वेद है, सुवेद है, यज्ञवेद है। वह केन्द्रस्थ करने वाला है। केन्द्रस्थ होना अविचल होना है। अथर्व का अर्थ ही है— भवं रहित अवस्था, अविचलता, चोभ-राहित्य, प्रशान्तभूमावस्था। श्रकृ-यजु-साम रूपी अग्नि से अथर्वरूपी सोम मिलकर ही जीवन-यज्ञ को पूर्णता तक पहुँचाता है।

श्रकृ-यजु-साम की त्रयी अग्नि रूपा होने के कारण यदि याद्वाण है, तो अथर्व सोम-प्रधान होने के कारण उसका राजा है। ‘सोमोऽस्माकं याद्वाणां राजा’—यह उक्ति वैदिकों में विष्यात है। अथर्व वेदी इसोऽलिप् यज्ञ में यज्ञा बनाया जाता है जिसका कार्य है सभी यज्ञों के कार्य का अधीक्षण। श्रत और सरथ—

श्रत और सरथ दो मूल रिप्तियों पर विचार करें तो सरथ में वेदव्ययी तथा श्रवत में अथर्व का परिगणन होगा। और ये दोनों ही सृष्टि रूपों यज्ञ के

माता-पिता अर्थात् जनक हैं। अत भीर सत्य के मूल में अभीष्ट तप है, वेद वाणी के मूल में भी वही है। सृष्टि का उद्भव उसी से होता है।

वेद के तिरोभाव के सम्बन्ध में जो कथन पाये जाते हैं, उन पर भी विचार कर लेना चाहिये। निश्च में महर्षि यास्क कहते हैं :—

साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो वमूदुः। ते अवरेभ्यो साक्षात्कृतधर्मम्ब्यः  
उपदेशेन मंत्रान् संप्राप्तुः। उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विष्मग्रहणाय इमं  
प्रनथं समाप्नासिषुः वेदं च वेदांगानि च ॥

ऋषि साक्षात्कृतधर्मा थे। उन्हें क्या करना चाहिये, यह स्पष्ट था। वे कर्तव्य का साक्षात् दर्शन करने वाले थे, सच्चे अर्थों में भाव्य ऋषि थे। उनसे जो अवर, याद में पैदा हुए या निकृष्ट कोटि के व्यक्ति थे, जिनको धर्म या कर्तव्य का स्पष्ट ज्ञान नहीं था, उनको ऋषियों ने उपदेश के द्वारा मन्त्र दिये। फिर उनसे भी अवर कोटि के व्यक्तियों के लिये, जो उपदेश द्वारा भी मन्त्र को, मन्त्रों में निहित धर्म या कर्तव्य को नहीं समझते थे, अथवा उपदेश में जिनकी अद्दा नहीं थी, जो उपदेश से ग्लानि करते थे, विष्मग्रहणहेतु, भेद या ताव को दृढ़यंगम लगाने के हेतु, ऋषियों ने इस प्रनथ का वेद और वेदांगों का निर्माण किया।

इस रूपन में अर्थ की दो दिशाओं समाविष्ट हैं : एक तो अर्थ साक्षात् का और और सोप हो जाना अथवा बुद्धि-गतहास भीर द्वितीय वेद सम्बन्धी अर्थ—निर्देशक, तत्त्व-निरूपक वेद-वेदांगों का निर्माण। बुद्धिगत इस ऋषियों के समय में ही विद्यमान अन्य व्यक्तियों का हो सकता है और याद में आसे वालों का भी। ऋषियों के साथ कुछ ऐसे भी व्यक्ति पैदा हो ही सकते हैं जो वेद को साक्षात् देखने की शक्ति रखते हों, अतएव जिन्हें उपदेश देकर ऋषि समझाने का प्रयत्न करें और जो उपदेश से भी न समझें, उन्हें मन्त्रों का चारन्वार अन्यास करावें। जो व्यक्ति मैथुनी दुषि में उत्पन्न होते, उनका तो बुद्धिगत हास संशद दी है। तिरुल, ग्राद्यन, भारप्यक, व्याकरण, व्योतिप आदि के प्रन्य पद्धत दी थे वेदांग द्वारा समझने दे अधिकारी बनते हैं। अर्थ के असाक्षात्

अथवा लोप के साथ वेद-वाच्य का भी तिरोभाव होता रहता है। प्रलय के समय तो वेद क्या जगत ही तिरोहित हो जाता है, अपने मूल में मिल जाता है, पर बीच-बीच में दो मन्वन्तरों के बीच में भी खण्ड प्रलय की सी दशा उपस्थित हो जाती है, कभी कभी युग-परिवर्तन पर भी ऐसी ही दशा का वर्णन इतिहास में मिलता है, उस समय भी वेद तिरोहित हो सकते हैं, ज्ञान-विज्ञान विस्मृत हो सकता है और हुआ भी है। नीचे लिखे श्लोक पर विचार कीजिये :—

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्येयः ।  
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा ॥

युग के अन्त में जब वेद अन्तर्हित हो गये तो स्वयम्भू ब्रह्मा की आज्ञा पाकर ऋषियों ने अपने तप से उन्हें इतिहास-सहित प्राप्त किया। इस श्लोक में इतिहास शब्द ध्यान देने योग्य है। इतिहास प्रलय के पश्चात् बनता है। अतः युगान्त का अर्थ यहाँ प्रलय नहीं, प्रत्युत एक मन्वन्तर या युग या चतुर्युगी का अन्त है। वर्तमान सृष्टि में छः मन्वन्तर बीत चुके हैं। सातवां वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा है। इतिहास में हम पढ़ चुके हैं कि इसके २४ में द्वाष्पर के अन्त में जो महाभारत हुआ उसमें विद्वान तथा शूरवीर नष्ट हो गये और व्यास जी ने जैसे-तैसे पुराण, वेद-संहिता आदि की रक्षा अपने शिष्यों-प्रशिष्यों द्वारा की। इसी प्रकार प्रथेक मन्वन्तर के पश्चात् उसके ज्ञान विज्ञान तथा इतिहास की रक्षा ऋषि करते रहे हैं। प्रथेक मन्वन्तर का अपना मनु है, ब्रह्मा है तथा ऋषि हैं। जैसे गत द्वाष्पर के अन्त में व्यास जी ब्रह्मा ये और उनकी आज्ञा से वैशम्पायन, सुमन्तु, पैठ, याज्ञवल्क्य, रोमहर्षण आदि ने संहिताओं तथा इतिहास को सुरचित किया, जैसे ही एक एक मन्वन्तर के पश्चात् भी होता रहा है। व्यासण ग्रन्थों तथा पुराणों में इसकी चर्चा उपलब्ध होती है। अतः वेदों के तिरोभाव के साथ जब इतिहास का भी उद्देश धार्य, तो वहाँ प्रलय नहीं, अपितु खण्डप्रलय या दो मन्वन्तरों की संघि या दो युगों-

वेद ही वर्यों, समस्त ज्ञान-विज्ञान आस्था की अपेक्षा रखता है। यदि आपको किसी विषय में आस्था नहीं है, तो आप उस विषय के पारंगत विद्वान् भन ही नहीं सकते। हमारा देश जो आस्था, अदा तथा निष्ठा के लिए प्रस्थात रहा है, आज इन दैवी भावों से विहीन हो रहा है। जहाँ दैवी भावना की अनुभ्वता थी, वहाँ उपलब्धियों के विरचास ने आस्था उत्पन्न कर दी है। आस्थावान् देश ज्ञान-विज्ञान में बढ़ रहे हैं और हमारे दायों में हमारे ही पूर्णजों का ज्ञान-विज्ञान निस्तेज होता जा रहा है। क्या अपने पूर्वजों के नाम पर हम मुनः आस्थावान् चर्नेंगे।

## बेद और परतत्व

ऋचाओं में अपर तत्व, जगत और जीव के साथ, परतत्व का बर्णन भी उपलब्ध होता है। यह तत्व एक है, दोन्सीन-चार नहीं, ऐसा निरावरण शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। स एक पूर्व, एक वृदेक पूर्व, भूतस्य जातः पर्तिरेक आसीत्, एको विभूरतियज्जनानाम्, एक ईशान ओजसा, एको ज्ञे देवोऽप्यतिष्ठत् एकं सन्तं बहुधा क्लेपयन्ति, एकं तु रवा सत्पति, एकरादस्त्र भुवनस्य राजसि, य एक इत्तमुष्टुष्टि, य एक इत् इच्छा; य एक इत् विदयते, ए एको अस्ति दंसना, एकं सत् विश्वा बहुधा बदन्ति, घावाभूमी जनयन् देव एकः भाद्रि पदों द्वारा उसे एक ही कहा गया है। इस एक के, जगत और जीव की इच्छि से, अनेक नाम हैं और विविध भाषाओं में हैं। वही ओरम है, इन्द्र, मित्र, वरुण, अरिन और यम है, वही प्रभु है, विष्णु है, महेश है, महा है, सुदा है, अहलाह है, लौहं है, गौढ है। बेद उस एक को जगत का जनक तथा जीव का सयुजा और सखा कहता है। वह सत है, वह चित्त है, वह आनन्द है।

पर तत्व अकायम्, अशारीरी तथा निराकार है और इसी हेतु अप्तज्ज, रनायुरहित एवं अपापविद् है। वह शुक है, शुद्ध है, कवि है, मनोषी है, स्वयमभू है। वह सर्वं च्यापक है, सर्वान्तर्यामी है और सब के बाहर भी है अर्थात् परिभू है—सबको अतिक्रान्त करके भी विद्यमान है।<sup>१</sup> वह अन्यों के लिये प्रेरक तथा निमित्तकारण है, उसका न कोई प्रेरक है, न जनक है। वह स्वदान् है, सर्वं धेष्ठ है। उसकी सत्ता अन्य किसी सत्ता पर अवलम्बित नहीं है। वह वसुओं का वसु, चत्रों का चत्र और देवों का देव है। वह यज्ञियों में भी यज्ञिय, दलवानों में भी दलवान, आश्रयों का भी आश्रय, ज्ञान का श्रोत, शक्ति का भण्डार तथा भाव का आधार है।

<sup>१</sup> स पर्यंगाच्छुकमकायम् । तदन्तरस्य सर्वंस्य तदु सर्वंस्यास्य बाह्यतः ।

वह शक है, सर्वं समर्थ है, पवित्रों का पोषक, अपवित्र किन्तु धपते के अद्युत समझने वालों का धयवन—गिराने वाला और भक्तों की अभिषापाओं को पूण् करने वाला है। वह पवि है, पुरुष्टुतं है, दानवान् है, उतिवान् है और अपूर्व प्रशस्तिवाला है। वह वरणीय, आश्रयगीय, दर्शनीय, कमनीय, दीक्षिमान, व्योतिष्मान और परम धाम है। वह अक्षविदों में कवि, अप्रचेतों में प्रचेत, अर्थों में अमर्त्य, हीनों में अहीन और अपूर्णों में पूर्ण है।

वह है, पर प्रत्यक्षवादी कहते हैं, कहाँ है ? नास्तिक कहते हैं, वह नहीं है। प्रत्यक्षवादियों के लिये वेद कदता है कि यह सबकी भाँतियों के सामने है, आंख उसी की शक्ति से देख रही है। 'नास्तिकों से वेद कहता है कि जिसका आप निषेध करते हैं, वह सो आपके निषेध में ही विद्यमान है :—

यं स्मा पृच्छन्ति कुद्रु सेति धोरम्  
उतेमाहुँनेपोऽस्तीत्येनम् ।

सोऽर्थः पुष्टीविंज इव आमिनाति

अदस्मै धत्त स जनास इन्द्रः ॥

( अ० २-१२-५ अथर्व २०-३४-५ )

तुम पूछते हो कि यह कदा है ? तुम कहते हो कि वह नहीं है। ऐसो, वह सर्वव्र है। शरीर के रूप में देखना चाहो, तो यह निकिल वज्ञाण द्वारा उसका शरीर है। यह थी उसका शिर है, अन्तरिष्ठ उदर है और इच्छा पैर है। सूर्य-चन्द्र उसके नेत्र हैं, अग्नि मुख है और पात्र प्राणापान है। दिशायें उसके शोत्र हैं, विद्युत अक्षिरस है और स्वः, केवल स्वः, अमित्र स्वः उसका स्वरूप है।<sup>१</sup> यदि यह वज्ञाण उसका प्रत्यक्ष आपको नहीं करता, तो अपने को ही देखो। यह आरम्भ ही उस परम आरम्भ को दिखा देगा; देख देगा। आरम्भ को एक योनि से बूसती योनि में कौत से जाता है ? एल भर में राजाओं को रंक और रंकों को राजा कीन बना देगा है ? एक दिव-

<sup>१</sup> अथर्व १०-७-३२, १३, ३४ ।

‘भैमवशाली प्रासाद’ गगनचुम्बन करते थे, आज उनके खण्डहर पड़े हैं और जो चीरान प्रदेश थे भाज हरे-भरे दिलाई देते हैं—यह परिवर्त कौन कर रहा है ? संशयालु ! अपने संशय को दूर करो, उस परम तत्त्व में अद्वा रखो । तास्तिक ! वह देव तो तुम्हारे शब्द-शब्द में बोल रहा है । किर तुम किसका प्रत्याह्यान कर रहे हो ? ज्ञान की एक-एक रशि, शुभ का एक-एक प्रश्यय, भावना का एक-एक विशुलिंग उस परमतत्व की ओर संकेन कर रहा है । वह छिपा है, पर प्रकट भी है ।

सदा व इन्द्रश्चर्क्षयत् आ उपोनु स सर्पयन् ।

न देवो वृतः द्यूर इन्द्रः ॥ ( सामवेद १५१ )

और वह छिपा भी नहीं, ढका भी नहीं, आवृत भी नहीं, सबको प्रकट है, अत्यन्त है । देखो न, वह सबको सदैव अपनी ओर सींच रहा है ।

क्या कोई दुख की कामना करता है ? सब आनन्द के अभिलाषी हैं—उसकी ओर खिचे चले जा रहे हैं । आनन्द सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है । आनन्द ही तो उस देव का स्वरूप है । जो आनन्द की आकांक्षा का अनुभव करता है, वह मानो उस पर-तत्त्व का ही प्रत्यक्ष कर रहा है । और देखो न, वह कैसा अत्यन्त निकट से सबकी सेवा कर रहा है । जैसे ही हम पाप-पय की ओर पैर बढ़ाते हैं, वह लज्जा, झानि, भय, आशंका आदि का रूप खदा करके हमें उधर बढ़ने से रोक देता है और पवित्रता के पथ पर प्रशाण करते ही आहाद, उत्साह, निर्भयता आदि भावों का संचार करके हमें बड़ावा-दे रहा है । इतने निकट से क्या अन्य कोई और भी आपकी परिचर्षा करता है ? किर कैसे कहते हो कि वह नहीं है ।

पर तत्त्व में प्रकृति के गुण नहीं, पर उसमें अपने गुण तो हैं ही । इन गुणों का विन्तन, मत्तन, ध्यान साधक को पर तत्त्व के निकट ले जाता है । यह सामीप्य, यह सालोक्य उसे प्रभु का सम्मुख भी बना देता है । यह सायुज्य सख्ता-भाव का घोतक है । क्या कोई सखा ‘अपने सखा के’ अस्तित्व को भी

अस्वीकार कर सकता है ! बाहर वाले दो सखाओं को एक कहें तो भारतवर्ष नहीं है, पर सखा तो अपने सखा को पढ़िचानता ही है । आत्मा का, अपना, युज्य सखा, परमात्मा ही है ।<sup>१</sup>

प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों के सम्बन्ध में निम्नांकित मंत्र विचार-  
शीय है :—

वालादेकमणीयस्कं उतैकं नेव दृश्यते ।

ततः परित्पञ्जीयसी देवता सा मम प्रिया ॥ (अथवा १०८-२५) ।

यहाँ मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त मेरे समानधर्मी भी अनेक हैं, पर मेरे और उनके अतिरिक्त एष्वी, सूर्य, चंद्रादि भी हैं । वैज्ञानिक कहते हैं, इन सबका निर्माण सूक्ष्म साखिक तेजस या राजस और तामस परमाणुओं के सम्मिश्रण से हुआ है । वेद कहता है, ये परमाणु बाल से भी अणीयस्क हैं । बाल के यदि दुरुप्रे-  
क्षिये जाय तो अन्त में जो अविभाज्य अंश बचेगा, वह अशु है और उससे भी सूक्ष्म परमाणु है । समस्त ब्रह्माण्ड ऐसे ही अनन्त परमाणुओं से यना है । इन परमाणुओं का सूक्ष्म समन्वित रूप प्रकृति कहलाता है । मैं क्या हूँ ? ब्रह्माण्ड को देखने वाला और आस्वाद लेने वाला । मैं भी सूक्ष्म हूँ, पर प्रकृति के परमाणुओं की भाँति नहीं । मैं हूँ, पर न जैसा, क्योंकि मुझे तो अपनी अनुभूति होती है, अन्यों को नहीं । अन्य व्यक्ति ब्रह्माण्ड की तरह मुझे देख नहीं पाते । मेरे शरीर के अन्दर विश्लेषक विज्ञानी और ऊहाधर्यी दार्शनिक प्रविष्ट भी हो सकें तो वे हाइ, मास, नस आदि को भले देख लें, मुझे नहीं देख सकेंगे । हाँ, यूँ कृता भौंर है । यह देवता है, दिव्य तत्व है जो मुझे अनंदर, बाहर सब और से आलिंगित किए हुए है । इसकी इटि से न मैं झोशाल हूँ, न प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु । यही मेरी प्यारी देवता है । इसी देवता को परताव या परमात्मा कहते हैं । मेरे लिये यही भक्ति-भाजन है, यही प्रेमारपद है । मेरां अनुराग

<sup>१</sup> इन्द्रस्य मुञ्यः सखा । श० १-२२-११ ।

इसी देवता में होना चाहिये । मेरी बाणी, मेरे कर्म, मेरा ज्ञान, मेरी अद्वा, मेरा प्रेम इसी देवता के प्रति समर्पित होने चाहिये ।

तच्चशुद्धेवहितं पुरस्ताच्छुकमुच्चरत् । यतु ३६-२४ पर तत्व चक्षु है, दृष्टा है, देवहितकारी तथा दिव्यता में निहित है, शुक्र है, निर्मल है, उज्ज्वल है और सबके सम्मुख उपस्थित है । उसकी हाइ, मुख, बाहु, पैर सब ओर हैं और सदैव हैं । देश और काल उसके बन्धन में हैं, वह इनके बन्धन या शासन में नहीं है । सूर्य उसकी आज्ञा से तपता है, उसके प्रकाश से प्रकाशित है । वात की गति उसके कारण है । अग्नि को उत्थाना उससे प्राप्त हुई है । याणी उसके कारण बोलती है, श्रोत उसके कारण सुनते हैं, आँखें उसके कारण देखती हैं, पर वह याणी की वर्णन शक्ति से परे है, अवश और दर्शन की सीमा से बाहर है । वह सबका कारण है । उसका कारण कोई भी नहीं है ।

विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धाताविद्याता परमोत संदक् ।

तेपामिष्ठानि समिपामदन्ति यत्रा सप्त ऋषीन् परपक्माहुः ॥

(यतु० १७-२६)

ईश्वर विश्वकर्मा है, विश्व भर का उत्पादक है । वह विमना, विविध विज्ञान बाला है । वह आद्विहाया = आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त, निर्विकार, द्वोभरहित तथा सर्वाधिकरण है । वही सब जगत का धाता, धारण करने वाला और विधाता, विविध एवं विचित्र जगत की रचना करने वाला है । वह परम अर्थात् सर्वोत्कृष्ट और संदेह अर्थात् सबके पाप पुण्यों को देखने वाला है । विश्वासी भक्त उसी की उपासना द्वारा अपना इष्ट साधन करते हैं और परमानन्द में रहते हैं । दैवी भोग उन्हीं की आग्न्यसम्पदा बनते हैं । पंच प्राण, सूत्रात्मा और धनंजय नाम के सप्त ऋषि उसी परम में एक होकर रहते हैं । वह सबका निधान तथा कोप है ।

वह गणों का गणपति, विद्यों का विद्यपति और निधियों का निधिपति है । वह सब का वसु है, धारण और योषण दरने वाला है । वह शम्भव और

मयोभव है, शंकर है और मयस्कर है, वह शिव है और शिवतर है। उसमे बढ़कर कल्याण रूप तथा कल्याण-कारी अन्य कोई भी नहीं है। वह तेज है, वीर्य है, बल है, ओज है, मन्त्र है और सहनस्वरूप है।

न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्च न शबसो अन्तमापुः ।  
स प्रतिक्वात्वश्च साक्ष्मो दिवश्च मरुत्वान्तो भवत्विन्द्र ऊती ॥

(श० १-१००-१५।)

वह विभु है, विभावसु है, अनन्त है। ज्ञानी देव तथा कर्मपरायण मर्य उसके बल का अन्त नहीं पा सकते। वह प्रकृष्ट एवं सबसे अतिरिक्त है। अपनी कारणिक्री शक्ति से वह आवा एवं पृथ्वी का निर्माता है, पर सबसे गृहक भी है। उसकी प्राणवत्ता ही सबकी ऊति एवं स्थिति का कारण है।

स वज्रभृद्दस्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताशतनीय ऋभ्या ।

चम्प्रीपो न शबसा पात्वजन्यो मरुत्वान्तो भवत्विन्द्र ऊती ॥

(श० १-१००-१२।)

जैसे शरीर में प्राण रक्षण का कार्य बरता है, अन्त को पचाता और विज्ञातीय द्रव्य को दूर करता रहता है—प्राणन तथा अपनयन उसके प्रमुख कार्य हैं, वैसे ही प्रभु के पास वज्र रूप प्राण हैं जिनके द्वारा ये स्वयं लाल्हेद घने हुए हुए के द्वेदक, अन्याय के विनाशक तथा शिष्टों के हितकारक हैं। ये दस्युहा हैं, पापियों का हनन करने वाले हैं। जो पुण्यपथ का परियाग करते हैं, हिसक एवं अस्याचारी वज्रते हैं, उनके लिये प्रभु भीम हैं, भयंकर हैं, उग्र है, तीव्र एवं तीव्र दण्डधारी हैं। ये सहस्रचेता हैं, महावलशाली हैं, प्रकाश-स्वरूप हैं, अपने भक्तों को असंख्यात पश्चार्थों की प्राप्ति कराने याले हैं। ये किसी की सेना या घल के वशीभूत नहीं होते। अपने घल से ये पात्वजन्य और मरुवान होकर भक्तों की रक्षा करते हैं और हुए को वशीभूत करते हैं, छुकाते हैं।

पात्वजन्य पञ्चजन्म सम्बन्धी है। पांच-पांच प्रकार के प्राणी जो यहाँ निवास

करते हैं, वे सब प्रभु के ही आधित हैं, उसी के कारण जीवित हैं। वही इन सबके अन्दर कियाशील पंच प्राणों का भी जनक है। वह इन सबका है। उसका आत्मज्य, शत्रु कोई नहीं है, जो उसके भाग में भाग लेने का दावा करे। सब उसके अधीन हैं। जब कोई समान ही नहीं, तो अधिक का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। वह सब का नियन्ता है। उसका नियन्ता कोई भी नहीं है। उसका कोई अपना नहीं, किर भी सब उसी के हैं। ऐसा वह सनातन से, स्वभाव से ही है। वह अपना बनता है, पर वह संघर्ष के द्वारा, अनवरत प्रकृति-पाणी से युद्ध करने सौर विजय प्राप्त करने के बाद। जब तक प्रकृति के आवरण अपने प्रतीत होते हैं, तब तक वह परमदेव अपना नहीं बन पाता। अपना अन्य और सखा तो वह तभी बनता है जब युद्ध करते हुए हम प्रकृति के चंगुल से निकल जाते हैं, पराधीनता से मुक्त हो जाते हैं<sup>१</sup>।

अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भूः रसेन तुसो न कुतश्चनोनः ।  
तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योः आत्मानं धीरमजरं युवानम् ॥

( धर्म ३०-८-४४ )

जैसे हमें कामनायें सब ओर से देरे रहती हैं, उलझन में ढालती हैं, चिन्तित और विचलित करती हैं, जिनके द्वारा जीवन का सारा स्वाद किरकिरा हो जाता है, हमें अपने अन्दर न्यूनता ही न्यूनता का अनुभव होने लगता है, असमय में ही चिन्ताओं पूर्व भभावों के कारण बुढ़ापा भा दबाता है, युवावस्था में भी शरीर जीर्णशीर्ण होने लगता है और मृत्यु पल-पल में भयभीन करती रहती है, वैसे परमदेव परमात्मा नहीं है। वे अकाम हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है। उनके पास किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं है। वे धीर हैं। उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता। वे अमृत-स्वरूप हैं, रम-तृप्त हैं। उनके पास किसी प्रकार की भी न्यूनता नहीं है। वे सतत युवा हैं। जारा

<sup>१</sup> अन्नातृष्यो अनात्मं अनापिः इन्द्र जनुपा सनादति । युवेशा पित्वमिच्छसे ।

उनके पास फटक भी नहीं पाती। सदैव अज्ञर, तरुण, धीर, प्रशान्त बने रहना उनका स्वभाव है। जिसने इन्हें जान लिया, उसने अपने को जान लिया, वह मृत्यु से पार हो गया। जिसने उसे नहीं जाना, उसे मृत्यु चार-वार निश्चिति में, कृच्छापत्ति में, धोर कष्ट में, भयावनी काल-दंडाओं में ढालती रहेगी। बलेश-जाल से उदार पाने का एक ही उपाय है—उस परमदेव को जान लेना, पर तत्त्व से मैत्री स्थापित करना, उस स्वयम्भू के साथ एक हो जाना।

सब धार्म पुरुषों का यही अनुभव है, अपियों ने इसका साशाद् दर्शन किया है, मुनियों का मनन इसी दिशा की ओर हँगित करता है, देरों का प्रकाश यही दिखलाता है, ये यही कहता है कि उस निखिल भूताधिष्ठिति, समस्त-लोकाध्यय, तुविदेष्ण-महादानी, तुविश्वमिं-अनन्त पराक्रमसम्बन्ध, तुर्वामध्य-अपारधनी, तुविमात्र-भसीम, अनन्त, अतपा, अभिज्ञ प्रभु को जाने विना कल्याण नहीं है। सब कहते हैं, फिर भी इम नहीं जुग पाते, उधर नहीं चल पाते, धारा को उलट नहीं पाते।

को नानामवचसासोम्याय मनायुर्वाभवतिवस्तु उम्माः।

कः इन्द्रस्य युज्यं कः सखायं भाव्रंवष्टिकवये क उत्ती ॥

( अ० ४-२५-२ )

कौन है वहां जो उमके 'समीप चलने की आकौदा करता है ? गद्यादवानी में उस सोम्य के लिये अपना सोम, अपनी प्रगति अपना भक्षिभाव, अपित्र करना चाहता है ? जो उमको समझने की इच्छा करता है, उसकी ज्ञान-किरणों से अपने को आच्छादित करना चाहता है ? कौन है जो उसकी संगति में, मैत्री में आत्मभाव में रहने के लिये लालायित है ? उस कवि के लिये, सर्वज्ञ परम देव के लिये किसकी प्रीति, किसकी भक्ति उमड़ रही है, उठ रही है, इतनी अदम्य उमंग के साथ कि जो अपने आवेश में ही उसका स्पन्दन करने लगे ?

समेतविश्वेषचसापति दिवः एको विभूरतिधिर्जनानाम् ।

स पूर्व्योनूतनमायिवासत् तं घर्तनिः अनुयायृत एकमित् पुरु ॥

( अथवं ०-२१-१ )

दैवी सम्पदा के प्रेमियो ! भक्ति-भाव के धनी महानुभावो ! आओ, अपनी समवेत वाणियों से, भक्ति-भरित वचनों से उस अमृतानन्दी भगवान का यशः कीर्तन करें । वह दी का पति है, एक है, सर्वव्यापर है, हम सबका अतिथि है । अतिथि की सेवा, परिचर्या, सम्मान सर्वोपरि है । यह अतिथि आज का नहीं, पूर्व का है, पहले का है, पुरातन है, पर यह जो नितनूतन, त्वण-षण में अभिनवरूप धारण करने वाला जगत है, आणविक परिवर्तन, योनि-संक्रमण, प्राणि-प्राणि, ऋतु-रासगीथकता, उपा, संध्या, किसलय, पुष्प, फल आदि का नव-नव आगमन इस विविधरूपा नूतनता में वह प्रजापति बनकर समाया हुआ है, अजायमान होकर भी नाना रूपों में प्रतिविनियत, प्रतिमान हो रहा है । वह एक है, केन्द्र है, पर हमारी, परिधि में कैले हुए नाना रेखा-विन्दुओं की स्थिति के कारण अनेक मार्गों द्वारा प्राप्तव्य है । चर्तनि, वाट, पद्धति, प्रगाली, प्रणीति एक नहीं, बहुत हैं और वे सब अन्त में जाकर उसी एक केन्द्र में समा जाती हैं ।

स दर्शतश्चोरतिथिर्गृहे गृहे बने बने शिश्रिये तत्क्वीरित्व ।

जनं जनं जन्यो नातिमन्यते विशाभाक्षेति विश्यो विशम् ॥

( कठ० १०-११-२ )

आओ, अतिथि देव ! तुम कैसे दर्शनीय हो । तुम्हारी श्रीमा, तुम्हारी सुन्दरता अनुपम है । ऐसी कान्ति अन्य किसके पास है ? पर तुम कैसे अन्तर्गृद हो । जैसे चौर बन-बन का आश्रय लेता है, अग्नि अरणी में, काष्ठ में छिपी बेटी रहती है, जैसे ही तुम पिण्ड-पिण्ड में, गृह-गृह में व्याप्त हो रहे हो । तुम जन्य हो—जनजन के हितकारी हो । जन की सत्ता, विद्यमानता, एकमात्र तुम्हारे कारण है । तुम भूः हो, स्वयं सत्तावान हो और अन्य सत्ताओं के हेतु हो । तुम विश्य हो, जनसमूहों के हितसाधक हो, एक-एक विश, प्रजासमूह, जनसमुदाय के अन्दर निवास कर रहे हो । तुम किसी का तिरस्कार नहीं करते । इमारी अवहेलना करने तथा कराने वाले हमारे पाप हैं ।

अतिथि देव ! जब तुम विराजमान हो, तो तुग्हारी सन्मिति में अगुचि, मल, पाप अपनी स्थिति कैसे रख सकता है ?

विशम् विशम् मधवा पर्यशायत जनानां धेना अवचाकशद्वृपा ।  
यस्याद् शकः सवनेषु रण्यति स तीव्रैः सोमैः सहते पृतन्यतः ॥

( शा० १०-४३-६ )

भगवान् ऐश्वर्य के भाण्डार हैं, भक्तों ही अभिलाप्याओं को पूर्ण करने वाले हैं और भनोक्षामनाओं के अभिवर्पक हैं । वे मधु के अन्दर परिष्प्राप्त होकर जन-जन की तुदियों को चमका रहे हैं । हम जो सवन करते हैं, यक्ष या पुण्य कर्म करते हैं, उनमें यदि भर्वसमर्थं परमेश्वर रमण करने लगे, आनन्द लेने लगे, उन्हें हमारे सवन प्रिय प्रतीनि होने लगे, तो उनके ग्रीतिपात्र बतकर हम अपने तीव्र सोमों से, उरकट भस्ति-भावों से, समस्त प्रतिरोधकों, पृतन्याओं, दामु-सेनाओं के बार सह सकेंगे । उनके कारण हम विचलित न होंगे । हमारी सहनशक्ति इन्हीं प्रबल हो जायगी कि हम नहीं, हमारा दामुदल टृट जायगा और विजयश्री हमारा चरण-चुम्बन करेगी । प्रभु के रमण में ही उनसा वरण भी दिखा हुआ है ।

प्र वो महे मन्दमानाय अन्यसी अर्चा विश्यानराय विश्वामुदे ।

इन्द्रस्य यस्य सुमखं सहो महि थवां नृमणं च रोदसी सपर्यतः ॥

( शा० १०-५०-१ )

प्रभु महान हैं, मन्दमान हैं, आनन्द के धाम हैं । निश्यानन्द ही उनका स्वरूप है । विश्व में जहाँ कहीं अन्धस है, सोन है, क्षन्न और भोग है भीर उम भोग से उत्पन्न सुग है, वह सब उसके आनन्द रूप वीं ही विरण-मात्र है । प्रभु विश्वानर है । समस्त नरत्व, नायकरथ उसी से संमृत हुआ है । यहाँ जितने नर हैं, सब उसी में आधित हैं । वह विश्वामुव है, विश्व का अग्निवद में लाने वाला, रियति का कारण तथा विश्व व्याप्त है । हम सबको उसी की अर्चना करनी चाहिये । परमैश्वर्यनिधान देवाधिदेव भगवान का सहः

महान है, पूर्य है, उनका भख, यज्ञविधान सुन्दर है, उनका यज्ञ और बल वन्दनीय है। ये चावा और पृथ्वी उन्हीं का पूजन कर रहे हैं। उन्हीं के गुण-गान में लीन हैं।

सुदशो दध्यः क्रतुनासि सुक्रतुः अग्ने कविः काष्ठ्येना सि विश्ववित् ।  
वसुर्वसूनां क्षयसि त्यमेक इत् चावा च यानि पृथिवी च पुष्यतः ॥  
(ऋ०-१०-११-३)

विश्व में कर्म या ध्रम शक्ति, वसु या धन शक्ति, इत्या या बल शक्ति और काश्य धर्थात् ज्ञान-भक्ति वी समन्वित शक्ति—यही चार शक्तियाँ प्रधान हैं। इन्हीं के आधार पर मानव-जाति के चार भाग किंवदं गये हैं। अम तथा धन भी कभी-कभी पुरु भी ही सम्मिलित करके विद्वा नाम दे दिया जाता है। यजुर्वेद ३८-१४ के प्रारम्भ में इप, ऊर्ज, ब्रह्म तथा अन्त में ब्रह्म, चत्र और विद्वा के पोषण तथा धारण का ही आदेश दिया गया है। विद्वा प्रजा है, मानव का सामान्य रूप है, प्रसुतता ब्रह्म तथा चत्र की ही है। समाज के पथ-प्रदर्शन तथा रक्षण का भार क्रमशः इन्हीं दो पर है। हमारी चातुर्वर्ण-स्वयवस्था में चारों वर्णों को महत्व प्राप्त है। ब्रह्म तथा चत्र की प्रधानता का कुछ भी अर्थ नहीं होगा, यदि विद्वा-प्रजा के दो रूप वैश्य तथा शूद्र न हों। ब्रह्म और चत्र इन दोनों के अभाव में जीवित भी नहीं रह सकते। अतः चारों वर्ण आवश्यक हैं। ऊपर उद्दृष्टि मन्त्र में दक्ष या बल चत्रिय का शोतक है, कवि चाह्वाण है, क्रतु या कर्म शूद्र है और वसु वैश्य है। चावा से लेकर पृथ्वी पर्यन्त यह चार प्रकार की विद्वता-रूप सम्पदा भरी पड़ी है। चावा और पृथ्वी इनका पोषण करते हैं, पर एक सत्ता ऐसी भी है जो अकेली ही इन समरत धनों को अपने अन्दर बसाये हुये है। यह सत्ता पर तत्त्व है, प्रभु है, ईश्वर है, भगवान है। वही वस्तुतः भगवान है, ऐश्वर्य और शक्ति रखता है। अन्यों के पास उसी का दिया हुआ ऐश्वर्य और उसी की दी हुई शक्ति है। वह दोभन बल वाला है, शोभनकर्मा है, विश्ववित् कवि है, ज्ञानी है, सर्वज्ञ है।

और वसुओं का वसु है। उस जैसा न हुआ, न है और न होगा। ये जात, पैदा हुए और जायमान, पैदा होने वाले उसको पूर्णतया हृदयंगम नहीं कर सकते। उसके कर्म, उसका ऐश्वर्य, उसका बल और उसका ज्ञान अप्राप्त, अज्ञेय तथा अवर्ण्य हैं।

बृहदारण्यक उपनिषद, प्रथम अध्याय के चतुर्थ आषाढ़ में सामाजिक सेव के चार वर्णों की समानता आधिदैविक द्वेष के देवताओं से की गई है। इस संदर्भ में प्रथम एक व्रहा का वर्णन है। वह खड़ेला था, अतः वैभव-सम्पद नहीं था। अपने को विभवयुक्त करने की इच्छा से उसने उत्तराधि की रचना की। देवताओं में इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु और ईशानादि ऋत्रिय रूप हैं। ये उत्तराधि हुए। ऋत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है। राजसूय यज्ञ में ऋत्रिय सिंहासन पर तथा आषाढ़ उसके नीचे बैठता है। इस समय आषाढ़ मानो अपने यश को ऋत्रिय में स्थापित करता है। आषाढ़ ऋत्रिय की योनि है। अतः उत्कृष्टता को प्राप्त ऋत्रिय अन्त में अपनी योनि आषाढ़ का ही आधय स्तुता है। जो ऋत्रिय आषाढ़ की हिंसा करता है, वह अपनी योनि का ही विनाश करता है। श्रेष्ठ की हिंसा करना पाप है।

ऋत्रिय की उत्थपत्ति से भी व्रहा का विभव पूर्ण न हुआ, तो उसने वैश्य की रचना की। देवगणों में जो वसु, आदित्य, विश्वेदेव और मरुत आदि हैं वे वैश्य रूप हैं। वे उत्पत्ति हुए। फिर भी विभव अपूर्ण रहा। अतः उसने शूद्र वर्ण यों ने उत्पत्ति किया। पूरा शूद्रवर्ग है। यह पृथ्वी ही पूरा है, वर्योंकि यहाँ जो शुद्र हैं, सबका यही योग्य करती है।

मन्त्र में {जस रावा का } उक्लेव है, वही आषाढ़ है, विश्वतित फवि है। आधिदैविक जगत में {उपिति तृष्ण ही} आषाढ़ है। मंत्रोक्त उपिति शूद्र है। इन दोनों के बीच में आने थे/हो इन्द्र (धूर्य), वरुण (विषुव) आदि ऋत्रिय तथा अन्तरिक्षस्थ मरुत, विश्वेदेव आदि वैश्य हैं। मंत्र में इन सभ के आधय-

दाता परमतत्व की मूर्धन्यता अथवा भूलता पर प्रकाश ढाला गया है। मूक तत्व ही हम सब का उपास्य है। वेद के शब्दों में :—

माचिदन्यद् विशंसत सद्यायो मा रिपण्यत ।

इन्द्रमित्स्तोता तृपणं सदा सुते मुहुरुकथ्या च शंसत ॥

( छ० ८-१-१ )

मित्रो ! एक इसी परमदेव की प्रशंसा करो, इसी के स्मृति-गान गाओ, यज्ञ में एकत्र होकर अपनी चाणी द्वारा बार-बार इसी का कीर्तन करो। यही तृपण है, चलवान है, अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाला है। अन्य की प्रशंसा तो विनाश करने वाली है। प्राकृत जन का गुणगान वामदेवी सरस्वती का अपमान है। अतः एक प्रमु की ही उपासना करनी चाहिये ।

— २५४ —

## हमारा वायुमण्डल

हमारी पृथ्वी सौर जगत का एक महत्वपूर्ण भूमि है। न भी हो, तो भी, इस पर हमारे निवास ने इसे महत्व दे रखा है। 'हमारे' शब्द में मानव ही नहीं, चर-अचर सभी सम्मिलित हैं। मानवों के चिर साथी, गो, घृण्ड, महिला, अज, अवि, मृग, अश, गज आदि के साथ चायल, ज़ी, गेहूं, चना, याजरा, मक्का आदि औषधि तथा धान्र, जामुन, बट, अश्वत्थ, नीबू, अमरुद, सेव, चंगूर आदि वनस्पति दो छैन विस्मृत कर सकता है। पर्यावरण, मिन्थु, मरोवर सरितायें, वाषी, कूप आदि प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पदार्थ भी इस पृथ्वी के चिर सही हैं। इनके अतिरिक्त एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर पुढ़कते हुए कपोत, गिलहरी, वानर, मयूर तथा आकाश में मंडराते हुये गृध्र, ईयेन, काँ, गरुड़, कंक आदि न जाने कब से हमारे वातावरण के खंग बने हुए हैं।

सूर्य से हमारा अस्तित्व ही है। वह न होता, तो यहाँ कुछ न होता। उसी की ऊप्पा, प्रकाश एवं प्राण-शक्ति पृथ्वी-मण्डल को भी उसके निषामियों को सत्ता प्रदान करती है। सूर्य की किरणों के साथ जो जीवनधारा प्रवाहित होती हुई आती है, उससे हम सभी प्राणवान बनते हैं। वृक्षों में जो हरीनिमा की आशाभरित उत्ति है, उसके मूल में सूर्य की किरणें हैं। पृथ्वी का मिट्टी भाग तथा जल जहाँ द्वारा वृक्ष का भोजन बनता है, यायु में जो पोषक अंश हैं उन्हें वृक्ष की पत्तियाँ रींच लेती हैं, पर यह सब होता सूर्य की प्राणशक्ति के कारण ही है। सूर्य की किरणें पृथ्वी के गर्भ में प्रवेश कर जाती हैं। सूर्य का एक रूप अग्नि वहाँ पहुँचे से भी विद्यमान है, यद्यपि उसका प्रदीपन सूर्य-किरणों के सतत समर्थन से ही होता है। सूर्य और अग्नि की यह जम्मा ही पृथ्वी के गर्भ में पहुँचे कोटि-कोटि पीजों को औषधि पूर्व यनस्पतियों के रूप में उपर ले जाती है। मिट्टी के काले रंग तथा सूर्य-किरणों के पीले रंग के सम्मिश्रण से वृक्ष-वनस्पति-लता आदि के पत्तों में हरा रङ्ग उत्पन्न होता रहता

है। जब पत्ते जल-मिट्टी आदि के आहार को प्राप्त करना बन्द कर देते हैं, तो सूर्य की किरणों के प्रभाव में पीले पड़ जाते हैं; और परिणामतः सड़ कर गिर जाते हैं।

सूर्य के पश्चात अन्तरिक्ष की विद्युत भी चिरकाल से हमारा साथ दे रही है। अन्तरिक्ष में वाष्पमंडलों की पारस्परिक रगड़ से वादलों की गडगडाहट के समय तो इसकी कौंध, लपलपाहट, चत्राकार, भयावह रूप और विघ्नम-कारों तापदब नृत्य दिखाई दे ही जाता है, भूमि पर भी जहाँ-जहाँ जल-समृद्ध परस्पर संघर्ष में आते हैं, वहाँ भी इसका गजेन-तजेन सुनाई पड़ने लगता है। वैज्ञानिकों के आविष्कारों तथा सज्जनामर मस्तिष्क ने ऐसे भयंकर विनाश-कारी तत्व को पालतू बना दिया है और अब प्रलय के स्थान पर यह निर्मांग-कारी कार्यों में सहयोग दे रही है। विद्युत से चक्षी चलती है, पंखा चलता है प्रकाश होता है, भोजन बनता है तथा अपने रोगों का इलाज होता है। विद्युत प्राकृतिक तो थी ही, अब मानव की कृति भी कहलाने लगी है और उसकी वशवर्तिनी भी। यह युग ही विद्युत का युग है, 'जहाँ देखो, वहीं विद्युत प्रयोग में लायी जाती है। मानव-हाथों में इसने बड़ी भारी शक्ति दे दी है, जो निर्मांग तथा संहार दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है। किसी पहाड़ को उड़ाकर, तोड़कर मार्ग बनाना है तो विद्युत आपकी सहायता करती है, आकाश में उड़ना है तो विद्युत आपकी सेविका है, स्थल पर रेलें चलानी हैं तो विद्युत सेवा में हाथ बंधे खड़ी है। मानव के सभी कार्य आज विद्युत की सहायता से हो रहे हैं।

जो विद्युत बाहर है, वह मानव के अन्दर भी है। जैसे बाहर से विद्युत की करेंट मारती है वैसे ही अन्दर से भी। यह मन की विद्युत है। कोई विचार या भाव मन से निकल कर आपको क्षक्षोर देता है और आप अपने आपे से वैसे ही बाहर हो जाते हैं, जैसा बाहर की विजली लगने पर अनुभव करते हैं। विचार या भाव का तनाव कभी-कभी इतना अधिक बढ़ जाता है कि सारा शरीर सुख पड़ जाता है। इसे 'काठ सा मार गया' कहा जाता है। काठ सूखी

लकड़ी है। जैसे वह रस-रहित है, दिलती-दुलती नहीं, वैमा ही शरीर हो जाता है। जिस पदार्थ या शरीर-अवयव पर विजली पड़ती है, उसकी भी हालत सूखे काढ की सी हो जाती है।

भन्तरिच में पृथ्वी का मार्थी चन्द्रमा है। इसका काम ही है, सेवन के ममान अपनी स्वामिनी पृथ्वी के घारों ओर चक्कर काटना और निरन्तर उसकी सेवा में लगे रहना। भूमिस्थ ऋषियों में इस चन्द्र के कारण ही उत्पन्न होता है। इसी हेतु इसका नाम ऋषिपति पद गया है। अपने शान्त, सरस पूर्व आप्यायक स्वभाव के कारण इसे सोम भी बहते हैं। चन्द्र का अर्थ भी आहारक है। इसके चतुर्दिक खांपेमण्डल रहता है। वही इसकी सरक्षा का प्रमुख हेतु है। दिन की उष्णता के परचात विशेषतः ग्रीष्म एवं शरद के दिनों में, चन्द्र की ज्योत्स्ना अर्णव सुखद प्रतीत होती है। विषुव से तो अनेक द्वार्य साधे गये हैं, पर चन्द्र की किरणों का प्रयोग अभी तक उसी पैमाने पर नहीं किया गया। ग्राचीन काल में चन्द्रकान्तर्मणि द्वारा अनेक कार्यों की मिदि की जाती थी। भोग-विलासी उमसे उपभोग के उपकरण सैयार करते थे, तो वैद विविध रसायनों के निर्माण में लगते थे। कलाकारों तथा शिल्पियों के लिये तो चन्द्र कल्पना-मौकियों का उर्वर आकर ही रहा है। यंदि के निर्माणित मन्त्र में इमारे इस वातावरण की विशेषताओं का वर्णन किया गया है :—

शम्न इन्द्राग्नीभवतामवोभिः शस्त्र इन्द्रा वह्ना रातहस्या ।

शमिन्द्रा सोमा सुविताय शंयोः शम्न इन्द्राप्यणा धाजसाती ॥

(ऋ० ८-३५-१, अथर्व १९-१०-१, यतु० ३६-११)

मन्त्र में इन्द्र इन्द्र का प्रयोग, अग्नि, वह्न, सोम तथा पूर्ण चार शक्तियों के साथ किया गया है। इन शक्तियों का उद्देश्य-क्रम भी स्थान देने योग्य है। इन्द्र शम्न का प्रयोग चारों के साथ है, अतः उसकी महत्ता भी निःमन्देह स्पष्ट है। इन शक्तियों में से एक-एक पर प्रिचार करें। इन्द्र का अर्थ इस मन्त्र में सूर्य है। यह सूर्य अग्नि के रूप में पृथ्वी पर विशेष रूप से

सक्रिय दिखाई देता है। निरुक्तकार यास्क ने अरिन, विद्युत तथा सूर्य तीन ज्योतियों को एक ही ज्योति के तीन रूप कहा है जो तीन भिन्न-भिन्न स्थानों में कार्य करते हैं। पृथ्वी पर अग्नि द्वारा कार्य लिया जाता है। अग्नि पृथ्वी-स्थानीय देव है। मानव अपने रक्षोपयोगी सभी कार्य अग्नि द्वारा मिद करता है। सृष्टि के प्रारम्भिक युगों में जब आणवशक्ति का ज्ञान न था, विद्युत के प्रयोग का भी पता न था, तब मानव ने वन की दावानल को दो बांसों के संघर्ष से उत्पन्न होते देख कर और शमी वृक्ष की अग्नि-गर्भना का अनुभव करके दो अरणियों में अग्नि उत्पन्न की होगी। अरणी शमी या अश्वत्थ वृक्ष की बनायी जाती है। दोनों में ही आगनेय अंशों की प्रसुखता है। अग्नि का ज्ञान हो गया तो वह कभी बुझने न पावे, यह ज्ञान होना तो सहज ही था। अब तो चारों ओर नियुत का प्रयोग होने लगा है, पर वह विशेषतः नगरों तट सीमित है और नगरों में भी दियासलाई का प्रयोग कम नहीं हुआ है। ग्रामों तक विजली अभी नहीं पहुँची, दियासलाई बहुत दिनों से चल रही है। जब दियासलाई न थी, तब घर-घर में अग्नि प्रज्वलित रहती थी। आर्यों के वंशाधर ईरानी भी अग्नि को सतत प्रज्वलित रखते हैं। भौतिक तथा मानसिक दोनों रूपों में अग्नि प्रदीप्त रहनी चाहिए, यह कार्य ही वर्णों, मानव मात्र के लिये आवश्यक था, है और रहेगा।

भौतिक रूप में देर, व्याघ्र, वृक्ष आदि से सुरहित रहने के लिये अग्नि सहायर थी। मानव के पास प्रज्वलित अग्नि को देख कर हिंस्त्र पशु भी भयभीत रहते थे और आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकते थे। अग्नि की सुरक्षा-शक्ति को देख कर चक्रवाच, मशाल आदि का निर्माण हुआ। आगनेयार्थों के विविध रूप आर्यों की वैज्ञानिक उत्पादिका शक्ति का भी परिचय देते हैं। दवाइयों को कूँक कर भस्म या रसायन बनाने में भी अग्नि का प्रयोग करना पड़ता था। भोजन बनाने में तो अग्नि का माम आती ही थी। अग्नि की भेदक शक्ति को अनुभव करके आर्यों ने अग्निहोत्र द्वारा अनेक रोगों के शमन की की विधि निकाली थी। रोगों का शमन ही वर्यों, अग्निहोत्र द्वारा दरीर में

तो सूर्य है ही; बहुग को जल का देवता कहा जाता है। यह जल पृथ्वी पर भी है, पर इसका अधिकांश भाग सूर्य की उपग किरणों द्वारा वाष्प बन कर ग्रीष्म ऋतु में ऊपर चला जाता है। यही भाष मेघ का रूप धारण करती है। वर्षा ऋतु में आकाश से जो मूसलाधार वर्षा होती है, और संतस पृथ्वी की व्यास को सुस कर देती है, वह यही वाष्प-जनित मेघ का बरतना है। इससे सूखे काठ हरिया जाते हैं। धान, कपास, चालरा, मक्का, जुड़ी, मूंग, माप, मौठ आदि हृष्य जिसे पाकर अग्निदेव को बुझुना शान्त होती है, इसी इनद्रा-बहुगी कृपा का फल है। सूर्य और बहुग दोनों ही मिलकर इस धान्य या हृष्य को उत्पन्न करते हैं। हृष्य की देन में इन्हीं दोनों का प्रमुख हाथ है।

बहुन्धरा के गर्भ में अनेक वीज निहित हैं। ये प्रकृति के यज्ञ-चक्र के कारण उगते, अज्ञ पैदा करते और पुनः वीज बनकर गर्भ में पहुंचते रहते हैं। इस ग्राहकिक हृष्योत्पत्ति के अतिरिक्त मानव ने अज्ञोत्पादन की विधि में संस्कार करके कृषि कर्म द्वारा अधिक से अधिक और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हृष्य या धान्य को उत्पन्न करने का मार्ग निकाला है। जो स्थल, कृषि रूपी यज्ञ को करने के अयोग्य था, उसे भी योग्य बना लिया है और वैज्ञानिक आविष्कारों का सहारा लेकर ये साधन भी प्रस्तुत कर लिये हैं जो कृषि के लिये उपयोगी हैं। काश्मीर में नदियों तथा नहरों के ऊपर घर बने हैं, चौरस तहतों पर मिट्टी के टूहों में धान लहरा रहे हैं। पहाड़ काटकर समतल भूमि बना ली गई है और वहाँ खेनी होने लगी है, पर यह सब सूर्य और बहुग देव के आश्रय पर फलती और फूलती है। ये दो न हों, तो हृष्य-प्रदात्री कृषि का कर्म सफल नहीं हो सकता। प्रत्येक पौधे को पानी और प्रकाश की आवश्यकता रहती है। अकेला पानी नहीं, पानी और उष्णता दोनों ही फपल को तैयार करते हैं। उष्णता के अभाव में केवल पानी पीकर पेह छिद्र जाते हैं और केवल उष्णता में पानी न मिलने पर ये मुरझा जाते हैं। अतः दोनों तर्थों के सहयोग की अपेक्षा रहती है। वायु तो दोनों के साथ रहता ही है। यही दोनों तर्थों को मिलाने वाला और दोनों का वाहक है।

निम्नांकित ऋचा में वर्षा के मूल कारण का वर्णन मिलता है:—

तमिन्द्रं वाजयामसि मदे वृत्राय दृन्तवे ।

स वृपा वृषभो भुवत् ( कृ० ८१३।७ अथवे २०।४७।१,

२०।१३।७।१२ साम ११९-१२२ )

ईश्वर ने इन्द्र या सूर्य को उस वाज या चल से संयुक्त किया है जिससे वह महान् वृत्र या मेघ को खंड-खंड करता है। वही चलवान् सूर्य दृष्टि, सिंचक या वर्षा का कारण बनता है। निरुक्तकार यास्क ने इसी अर्थ का समर्थन करते हुए लिखा है:—

तत्र को वृत्रः ? मेघ इति नैरुक्ताः । अपाञ्च ज्योतिषश्च मिथीभाव कर्मणो वर्ष कर्म जायते । ( २-५-१६-२ )

मेघानां विकर्तनेन मेघानामुदकं जायते । ( २-६-२२-५ )

वृत्र मेघ है। मेघ के विकर्तन, खण्ड-खण्ड करने से मेघों का जल वरसता है, नीचे पृथ्वी पर आता है। जल और ज्योति, वरुण और सूर्य दोनों के मिथी-भाव कर्म से वर्षा होती है।

रक्षण और हृष्य के अतिरिक्त मनुष्य को सुवित, शोभन परिस्थिति, चाहिये। सौन्दर्य, कला, लालित्य, सौभाग्य मन को रमाने के अचूक साधन हैं। शरीर के साथ मन को भी रक्षण और हृष्य की क्षवरशयकता है। मन की रक्षा और मन का आहार सुवित पर, सौन्दर्य-प्रसाधन पर क्षवलस्त्रित है। हृष्य और सोम मिलकर हस लालित्य को जन्म देते हैं, हस सुवित की, शोभन संपदा की सृष्टि करते हैं।

सौन्दर्य भाव-जगत का तत्व है। सोम का सम्बन्ध भी भाव से है। सोम तत्व जहाँ-जहाँ है, वही आवेश, शीघ्र भमक उठना, प्रज्वलित हो जाना भी प्राप्त होगा। कर्षर, कपास, तुलसी, देवदारु, चन्दन आदि में सोम तत्व है, अतः वे शीघ्र प्रज्वलित हो जाते हैं। भृगु तत्व भी सोम-प्रधान है। भृगुवंशी परशुराम का सहज भावापन्न हो जाना सभी इतिहासवेत्ताओं को स्वीकार

है। भाव का सम्बन्ध हृदय से भी जोड़ा गया है और मन, यजु० ३४०६ के अनुसार, हृत्प्रतिष्ठ है।

सोम आपः सत्य का सूचमतम् रूप है। जिस चन्द्रमा को सोम संज्ञा प्राप्त है, वह आपोमय मण्डल से घिरा हुआ है। यह मण्डल सूर्य से नीचे और हमारी पृथ्वी के समीय है। चन्द्र इस आपोमण्डल के साथ हमारी पृथ्वी की परिवर्त्तना करता है और पृथ्वी के साथ सूर्य की भी। चन्द्र में जो चांदनी है, शीतल उयोग्ज्ञा है, उसका कारण सूर्य का प्रकाश तथा यह आपोमण्डल है। इस त्योत्तरना में मन को रमाने की अद्भुत शक्ति है। कैसा ही अनमना, उद्भिम एवं शान्त त्यक्ति हो, चन्द्र की इस चांदनी में रनान करके स्वरथ हो जाता है। चन्द्रमा इसे भी परम पुरुष के मन से उत्पन्न हुआ है।<sup>१</sup> सन्तति अपने अनक दो सुखी एवं आनन्दित बरती है—पुज्जाम नरकात् त्रायते इति पुनः—पुन्र चन्द्रमा भी अपने दिता मन को दुरुद परिस्थिति से पार कर सुवित में, शेभन परिस्थिति में, सौःदर्य की गोद में पहुँचा देता है। चन्द्र का अर्थ ही आहूदाद्यकारक है।<sup>२</sup> जो मन को आहूदादित करे, प्रसाद से परिपूर्ण करे, वही चन्द्र है। चन्द्र की किरणों में अमृत है, पीयूष है, अहः उसे सुधाकर या सुधांशु भी कहा जाता है। इस पीयूष या अमृत का स्रोत इन्द्र अर्थात् सूर्य और आपो-मण्डल के अन्तर्गत है। दोनों से सम्बद्ध होकर चन्द्रमा इसे प्राप्त करता है।

एक आपोमय मण्डल सूर्य के ऊपर भी है जो महः तथा जनः लोकों से सम्बन्धित है। जहाँ सूर्य चन्द्र को उयोत्तरना प्रदान करता है, वहाँ आपोमय मण्डल में भरा हुआ सोम सूर्य को प्रभान्दान की शक्ति देता है। यह सोम निरन्तर सूर्य में आहुत होता रहता है और उसके प्रज्वलन को समाप्त नहीं होने देता। सूर्य से निकल दर उप्पता चारों ओर अपने ब्रह्माण्ड की परिधि तक पैलती है। इस निष्कासन से जो उप्पता में कमी आती है, उसकी पूर्ति

<sup>१</sup> चन्द्रमा मनसो जातः ( पूर्ण सूक्त )

<sup>२</sup> चन्द्र शन्द चदि आहूदाने धातु से बनता है।

सोम की निरन्तर पड़ती हुई आदुनियां करती रहती हैं। वेद की निम्नांकित घट्चा में इस भाव को हस प्रकार व्यक्त किया गया है :—

तत्सूर्यस्य देवत्यं तन्महित्वं मध्यारुतोर्वितं संजभार ।  
यदेदयुक्त हस्तिः सघस्था दाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥  
( ज० १११५।४ अर्थ २०।२३।१ यजु० ३३।३ )

सूर्य को यही देवत्य है, यही महृत है कि दो लोकों के मध्य में जो<sup>३</sup> (कत्तृत्व शक्ति से सम्पन्न सोम) फैला हुआ है उसे संहृत या प्रहण करके यह अपना भरण-पोषण करता है और अपनो अपिन्युजता से मध्य भाग का भरण-पोषण किया करता है। दूसरे शब्दों में अपिन योग में और सोम अपिन में परिणत होता रहता है। यही यज्ञ से यज्ञ करना है। जब सामने हमाही हिरण्यं अमुक हो जाती हैं, तो रात्रि सबके विश्राम के लिये अपने बछ बिछा देती है—अपने शरीर रूपी वस्त्र का विस्तार कर देती है। इस रात्रि को रमगोयता चन्द्र द्वारा प्राप्त होती है।

मन्त्र में जिस मध्य शब्द का प्रयोग है, वह सूर्य तथा पृथ्वी के मध्यस्थानीय चन्द्र तथा सूर्य और सूलोक के मध्यस्थानीय चन्द्र दोनों का श्वोतक है। अपने चन्द्र से हम परिचित हैं, पर दूसरे चन्द्र से नहीं। वेद ने 'दिवि सोमो चधिगितः' कह कर इस दूसरे चन्द्र की ओर भी संकेत किया है। हमारा चन्द्र तो पृथिवी स्थानीय है, और स्थानीय नहीं है, पर दूसरा चन्द्र स्वर्लोक से ऊपर महः लोक से सम्बन्ध रखता है और यो स्थानीय है। ऐसेरेह उपनिषद के ग्रासम में ही 'महः हिति चन्द्रमा' इन शब्दों द्वारा हम द्वितीय चन्द्र यो ओर

<sup>३</sup> म्यूनिच ( जर्मनी ) के डा० लुडविग भी ग्रहों एवं नक्षत्रों के मध्य खाली जगह में एलेक्ट्रोन से युक्त तरल पदार्थ भरा रहता है—ऐसा मानते हैं। आपोमय मण्डल का सोम तरल ही तो है। वीयं रूप में यही प्राणी को पुरुषार्थ, कर्तुंत्व शक्ति, से सम्पन्न करता है। पुरुष यूक्त, यजु० ३१-३७ में इसी हेतु रसात् का विद्येषण विश्वरूपेणः दिया हुआ है।

संकेत किया गया है। वेद की निम्नांकित क्रचा भी इसी सत्य पर प्रकाश विकीर्ण करती है :—

तव द्यौरिन्द्र पौस्यं पृथिवी वर्धतिथ्वः ।

त्यामापः पर्वतासश्च हिन्दिरे ।

( ऋ० ८१५८८ अयर्वं २०११०६२ साम १६४६ )

हे चन्द्र ! हे सूर्य ! तुम्हारा पुरुषार्थ या बल द्यो के कारण है। पृथिवी तुम्हारे बल और यश को बढ़ाती है। आपोमण्डल तथा पर्वत तुम्हारा वर्धन करते हैं।

जैसा हम अभी लिख चुके हैं, आपोमण्डल सूर्य के नोचे तथा ऊपर दोनों ओर है और चन्द्र भी दोनों मण्डलों से सम्बन्धित हो है। आप एक को चन्द्र तो दूसरे को सूक्ष्म होने के कारण सोम कह लोजिये। दोनों हो सूर्य को बल देते हैं। द्यौस्थानीय चन्द्र सूर्य के पौस्य का कारण है तो पृथिवी स्थानीय चन्द्र उसके यश को बढ़ाता है। इस प्रकार सूर्य प्रकाश देकर चन्द्र को तथा चन्द्र पौस्य पूर्वं यश देकर सूर्य को उपकृत करते रहते हैं। दोनों का अन्योन्य उपकार करना मानव के लिये सुवित का समादर है, उसकी सुमाना, सौन्दर्य, लालित्य पूर्वं शोभन परिस्थिति का जनक है।

रचना, हृष्य पूर्वं सुवित के साथ मानव को ज्ञान का बल भी चाहिये। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की ओर देखें तो शूद्रव्य को रडग, वैश्यव्य को धन-धान्य रूपी हृष्य, चत्रिय को भावावेश ( शौर्य के साथ शंगार अवश्य संगीत और वीर काव्य ) तथा द्वाष्टग को ज्ञान का बल चाहिये। मन्त्र के चतुर्थे भाग में वाज-साति, ज्ञान रूपी बल की प्राप्ति के लिये प्रार्थना की गई है। इन्द्र के साथ पूर्ण इस ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं।

कठोपनिषद् ने ज्ञान को ज्ञायातप की भाँति सत्य पूर्वं असत्य का विभाजक चताया है। सूर्य भी दोनों का विभाजक है। पूरण का सम्बन्ध अग्नि के साथ है। अग्नि सूर्य का ही स्थानीय है। अतः सूर्य का एक नाम पूरा भी है। प्रेरक शक्ति को सूर्य और पोरण देने वाली शक्ति को पूरा कहा जाता है।

शरीर का पोषण धान्य या हृत्य से होता है, परन्तु बुद्धि का पोषण ज्ञान से होता है। ज्ञान ही शक्ति है। धन्य शक्तियां उसीके आधीन हैं। अतः सर्वोत्तम शक्ति ज्ञान की ही है। ज्ञान का बल तप है। ज्ञान तप से पुष्ट होता है। शरीर अन्न से पुष्ट होता है तो बुद्धि एवं ज्ञान तप से। ब्राह्मण का धन तप एवं संयम है। इनके अभाव में उसकी ज्ञान-मम्पदा-सुरक्षितं नहीं रहती। गृहदत्त्व से लेकर चत्रियत्व तक भी तप चलता है, व्योंगि उसके बिना अस्तित्व ही स्थिर नहीं रह सकता, पर भोगवाद् इनमें प्रधान है। तप की मात्रा नीचे के ऊपर तक घडते-घडते ब्राह्मणत्व में पराकाष्ठा को प्राप्त कर गयी है। 'ब्राह्मण-स्यनु देहोऽयं चुदकामाय नेष्यते। हह कृच्छ्राय तपसे प्रेत्यानन्त फलाय च।' ब्राह्मण का शरीर चुद कामनाओं, भोगों के लिए तो ही नहीं, वह साधारण तप के लिये भी नहीं, कृच्छ्र तपः साधना के लिये है। साधारण तप के बिना तो चत्रिय वैश्यादि भी जीवित नहीं रह सकते, फिर ब्राह्मणत्व कैसे टिक सकता है? अतः उसके लिये सो कठोर तप की आवश्यकता है। वैष्णवानस सम्प्रदाय में अहीव कठोर तपों की योजना दृष्टिगोचर होती है। 'भक्ति का विकास' प्रम्थ में हमने इन तपों का विवरण लिया है। वेद की निर्माणित ऋचा भी तप की महिमा का वर्णन कर रही है:—'तपसा ये अनाधृत्यास्तपसा ये स्वर्ययुः। तपो ये चक्रिरे महः तांश्चिद्देवापि गच्छनात्।'

ऋ० १०।१५।४२ अथर्व १।१।२।१६ तपोबल के कारण जिनका कोई धर्षण नहीं कर सकता, जो अनाधृत्य है, अदृष्य है, तप के कारण जिन्होंने स्वर्ग ल्लोक प्राप्त किया है तथा जिन्होंने महान् से महान् कठोर तप की साधना की है, उन्हीं को मेरा आत्मा प्राप्त करे। मन्त्र में ब्राह्मण वी आकांक्षा अभिव्यक्त हुयी है। वह कठोर से कठोर तप बरते वालों का साथी बनना चाहता है। भोग तो निरय की ओर ले जाने वाले हैं। वह ऊर्जलोंकों का अभिलाषी है जो तप के बिना उपलब्ध नहीं हो सकते। अतः तप ही ब्राह्मण का धन है। वही 'उसे बाज या ज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। विज्ञान विस्तार का विवेचन करता है तो ज्ञान केन्द्र की ओर छे जाता है। ब्राह्मणत्व केन्द्रोन्मुग्ध होता है। केन्द्र ही उसका चरम उद्दय, उसकी अन्तिम' उपलब्धि है। सूर्य की प्रेरणा

शक्ति पूर्व पोषण जैकि दोनों ही उसकी सहायता करती हैं। गायत्री द्विजमात्र की माता है। वह बुद्धि को प्रेरित करने वाली तथा भर्ग या तेज को धारण करने वाली है। उसमें पुक और प्रेरणा है तो दूसरी ओर धारण अर्थात् पोषण भी है। इन्द्रापूर्णगा की द्विविध मांगलिक धारणाएँ उसके साथ हैं। ब्राह्मण वरदायिनी वेद माता की स्तुति करता है, तो वेद की सारभूत गायत्री के जाप द्वारा पोषण तथा प्रेरणा को भी अपने अन्दर जागृत करता है। गायत्री की ये दो सन्तानें उसके रक्षण, हृत्य, सुक्रित, पूर्व ज्ञान सबकी साधिकारें हैं। इन्द्रास्त्र, इन्द्रावहणा, इन्द्रासोमा तथा इन्द्रा पूर्णगा हमारे वायुमण्डल के प्राकृतिक तत्व होते हुए भी उसके लिये मूर्तिमान देव बने हुए हैं। यही उसके शान्ति-सम्पादक हैं। इन्हों की सहायता से मानव अपने उदौदेशयों में सफलता लाभ करते हैं। शान्ति प्रकरण का यह प्रथम मन्त्र हमें सुख पूर्व शान्ति की ओर ले चले। मानव मात्र सुपथ का पधिक बने और दुख से दूर होकर सुख को प्राप्त करे। यही वेदादेश है। यहो भावं मन्देश है। यहो भाष्मा की पुकार है।



## तीन और सात

वैदिक भाषा किसी समय विश्व की भाषा थी, ऐसा अनेक भाषा वैज्ञानिकों का अभिमत है। कठिपय विद्वान् इस भाषा को तो नहीं प्रत्युत् इससे साम्य रखती हुई तथा लैटिन, ग्रीक आदि भाषाओं की ध्वनियों को भी अपने अङ्गल में समाविष्ट करती हुई किसी अज्ञात भाषा को भारोपीय प्रतिवार की मूल भाषा स्वीकार करते हैं। हम किसी अज्ञात भाषा के अभाव में जैन्दावस्था की भाषा से तथा लैटिन और ग्रीक भाषाओं से भी प्राचीनतर वैदिक भाषा को ही मूल भाषा मानकर कुछ ऐसी स्थापनायें प्रस्तुत करना चाहते हैं जो हमें इस भाषा की विशिष्टताओं से सम्बद्ध जान पड़ती हैं। भाषा विज्ञान का प्रत्येक विश्वार्थी इस तथ्य से परिचित है कि वैदिक भाषा में उदाच्च, अनुदाच्च एवं स्वरित, तीन स्वरों के आधार पर शब्दों के उच्चारण एवं अर्थ, दोनों में ही अन्तर पड़ जाता है। संज्ञा शब्द यदि उदाच्च-संवलित है तो अनुदाच्च हो जाने पर वह अर्थ की विपरीत दिशा का चोतन करेगा। अनुदाच्च के उच्चारण में जहाँ गंभीरता होगी वहाँ उदाच्च उच्च स्वर की ओर ले जायगा। यदि कर्मकारक के बहु वचन के उपरान्त कोई स्वर आता है तो उसके अन्त का 'आन्' 'ओं' दो जायगा और एक, दो या तीन का अंक लगाने पर उच्चारण की मन्दता अथवा तीव्रता से भी संयुक्त बनेगा। इसी प्रकार अन्य वेदों में तो नहीं, किन्तु यजुर्वेद में, जिसे कर्मकाण्ड का वेद कहा जाता है, 'अं' के उपरान्त यदि 'श, प, स, र एवं ह आ गये तो उसका उच्चारण ऐं (स्वर) के रूप में होगा। स्वरों की ये विशेषतायें भारतीय ऐतिहास में माल्हण काल तक जीवित रही हैं। ग्रीक भाषा में भी ये स्वर-सम्बन्धी विशेषताएं पाई जाती हैं और जो उच्चारण एवं अर्थ दोनों पर वहाँ भी प्रभाव ढालती हैं। इन स्वरों को acute, grave and circumflex कहा जाता है। Accent या स्वराधात् अंग्रेजी भाषा में भी

पाया जाता है। यदि यह शब्द के प्रारम्भ में है तो शब्द संज्ञा है और यदि अन्त में है तो शब्द किया माना जाता है।

वैदिक भाषा की स्वर तथा व्यञ्जन-सम्पदा सभी भाषाओं से विपुलतर है। उसके शब्द भी उच्चारण की इटि से अपनी व्यनियों के सर्वाधिक निकट हैं। उनके अवयवों में कहीं भी स्खलन, आधिवय अथवा चयुति दोप नहीं है। वे जैसे हैं, वैसे ही उच्चरित होते हैं। स्वर एवं व्यञ्जन दोनों के उच्चारण नियत हैं। यह व्यवस्था अन्य भाषाओं में परिलक्षित नहीं होती। वैदिक भाषा की अर्थ-सम्बन्धी प्रकृत प्रमुख विशेषता प्राचीन आचारों ने प्रपट की है। महाप्राच के शब्दों में यह विशेषता शब्दों की कम से कम तीन अर्थगत दिशाओं से सम्बन्ध रखती है :—आत्मात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक। इन सीन अर्थ-दिशाओं के भी कई अवान्तर विभाग हैं, परं अपने मूल के साथ सभी संसक्ष हैं। उदाहरण के लिए हम यहो 'गो' शब्द पर विचार करते हैं। 'गो' शब्द गाय-पशु, भूमि, सूर्य-किरण तथा इन्द्रिय का वाचक है। इस अनेकार्थता के कारण वेद की भाषा को गणित की भाषा भी कह दिया जाता है। ग्रिहोण-मिति में जैसे 'अ' कई संख्याओं का वाचक है, वैसे ही वेद में गो, अग्नि, इन्द्र, दायु, सौम आदि शब्द कई अर्थों के वाचक हैं। इन अर्थों के बीच भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु उनका दिशायें एवं क्रियाएं घनिष्ठ रूप से एक दूसरे में अनुरूप हैं। सूर्य की विशेष सूर्य से चलकर सभी दिशाओं में फैलती है। इसी प्रकार आत्म-काक्षियां इन्द्रिय-रूपों में समस्त दिशाओं का अवगाहन करती हैं। 'गम' धातु का अर्थ 'गति' दोनों स्थानों पर है। इन्द्रियों विषयों में विचरण करती है, सूर्य की किरण अन्तरिक्ष में, गो-पशु वन में और भूमि अपने कक्षायूत में। आत्मात्मिक बीच में जो इन्द्रिय दर्त्ति है, वही, आधिदैविक बीच में सूर्य की किरण है और आधिभौतिक बीच में भूमि है।

आत्मात्मिक बीच में इन्द्रियों दो प्रकार की हैं—इन्हें करण भी कहा जाता है। करण विद्या का साधन है। अन्तःकरण तथा बाह्यकरण हमारे कर्मों के लिये सहायक साधन हैं। एक से हम बाहर जाकर उपलब्धि करते हैं, दूसरे

से उस उपलब्धि का समेकन तथा आरमान्वयन। एक हमें बाहर की ओर ले जाता है तो दूसरा हमें अन्दर की ओर लौटाता है। एक में प्रगति है तो दूसरे में परागति है। यही तथ्य सूर्य की किरणों के साथ भी वैज्ञानिकों ने अनुभव किया है। सूर्य की किरणें किसी फलक पर प्रसिद्धिप्रद होकर लौट जाती हैं। पृथ्वी भी अपने अङ्ग पर धूमती हुई सूर्य के चतुर्दिक् चक्र लगाती है। जैसी उपलब्धि इन्द्रियों द्वारा दारीर को होती है, जैसी ही भूमि को, जैसी ही गाय को और जैसी ही किरण को।

इन्द्र इन्द्रियों का अधिष्ठित भास्मा है। किरणों के अधिष्ठित के रूप में उसी को सूर्य कहते हैं। प्रजाओं के अधिष्ठित के रूप में वही राजा है और राजाओं के भी राजा के रूप में वही परमेश्वर है।

वाक अस्यात्म में वाणी है, अधिदेव में अग्नि है, समाज में ब्राह्मण (कवि) है। इसी प्रकार वाचस्पति ब्राह्मण है, वृद्धस्पति है, ब्रह्मा है और परमात्मा है। वाणी अपने मूल परा रूप से हटकर पश्यन्ती आदि विविध रूप धारण करती है। कल्याणी वेद वाणी भी शूक्र-यजु-साम की व्रयी बनाती है। वैद्यती वाणी का मूल औकार विमात्रिक है ही और उसकी तीन मात्राओं का सम्बन्ध वेदव्याख्या, विलोकी तथा देवत्रय से प्रलयात है। वैदिक लक्ष्म भी मुख्यतः तीन ही है :—गायत्री, विष्टुप और जगती। प्रकृति के भी तीन गुण हैं : सत्, रज तथा तम्। महाव्याहृतियां भी तीन ही हैं : भूः, सुकः और स्वः। विश्व को निर्मिति में भी परमात्मा, भास्मा तथा प्रकृति तीन ही तत्त्व कारण बनते हैं। परमात्मा विश्व का निर्मित कारण है, प्रकृति उपादान कारण है और जीवात्मा साधारण कारण है। संसार के व्यवहारों को समझने के लिये उसके अनन्त प्रकार के पदार्थों<sup>१</sup> उसर्वतम वर्गीकरण इन विविध विभागों में सुगमता से हो जाता है। वैज्ञानिक ऐतिहासिक भवनों का निर्माण हो सके। ये आधार पर्याप्त और आवश्यक हों, वे रमा हों चाहिये। दर्शन भी कुछ भौतिक नियमों की खोज करता है जो सत्ता के विविध विभागों पर खाग् हो सकें।

ब्रान्दोग्य उपनिषद् के छुटे प्रथाठक के छुटे स्पष्ट में उदालक ने सत्ता के ऐसे ही तीन मौलिक विभागों का वर्णन किया है। ये विभाग हैं तेज़, जल और अङ्ग। मनुष्य के शरीर में इनके सूचमतम भाग वाणी, प्राण और मन हैं। जैसे दही ब्रिलोने पर उसके अन्दर निहित मक्कन के कण ऊपर आ जाते हैं, उसी प्रकार अङ्ग के खाने पर उसके सूचम अंश ऊपर को उठते हैं और मन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जल के सूचम अंशों से प्राग और तेज के सूचम अंशों से वाणी का रूप बनता है।

बृहदारण्यक उपनिषद् के प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण में भी मन, वाणी तथा प्राण की वयों का वर्णन आता है। वहाँ आत्मा को वाद्याय, मनोमय तथा प्राणमय कहा गया है। तीन लोक भी इन्हीं तीनों के साथ सम्बद्ध हैं। वाणी यह लोक है, मन अन्तरिक्षलोक है, प्राण वह ( यी ) लोक है। वैदिक लोक में वाणी ऋग्वेद है, मन यजुर्वेद है, प्राण सामवेद है। योनियों में वाणी देव योगि है, मन पितर है तथा प्राण मनुष्य हैं। संतनिकम में वाणी माता है, मन पिना है और प्राण प्रजा है। ज्ञान के लोक में विज्ञात वाणी का रूप है, विजिज्ञास्य मन का और अविज्ञात प्राण का रूप है। पृथिवी वाणी का शरीर है, ज्योति उसका रूप है और यह अग्नि उसकी आग्नेयता है। जितनी वाणी है, उतनी ही पृथिवी है और उतनी ही यह अग्नि है। मन का यी शरीर है, ज्योति रूप है और वह आदित्य है। जितना मन है, उतना ही यी है और उतना ही आदित्य है। प्राण का आप ( जल ) शरीर है, ज्योतिरूप है और वह चन्द्रमा है। जितना प्राण है, उतना ही जल है और उतना ही वह चन्द्र है।

तीन लोक हैं : मनुष्य लोक, पितॄलोक तथा देवलोक। मनुष्य लोक पुत्र से, पितॄलोक कर्म से और देवलोक विद्या से जीता जाता है। लोकों में नाम, रूप तथा कर्म का वैत है। वाणी से नाम, चक्षु से रूप और आत्मा से कर्म का सम्बन्ध है। वैत का यह विभाजन ही पारस्परिक मिथ्यण द्वारा सात विभागों का रूप धारण कर लेता है। सूर्य किरणों के तीन रंग जैसे इन्द्रधनुषों

सात रंगों में परिणत हो जाते हैं, वैसे ही उपर्युक्त श्रयी सात रूपों में परिणत हो जाती है। वृहदारण्यक के दूसरे स्थल के प्रारम्भ में ही सात अज्ञों का उद्घेष्ट है। एक अज्ञ साधारण है, दो अज्ञ देवों के, तीन आत्मा के और एक पशुओं के लिये है। साधारण अज्ञ वह है जो खाया जाता है। हुत और प्रहुत देवों के अज्ञ हैं। मन, चाणी और प्राण आत्मा के अज्ञ हैं। दूध पशुओं का अज्ञ है। मनुष्य तथा पशु दोनों ही प्रारम्भ में दूध पर जीवित रहते हैं। हुत तथा प्रहुत दर्श एवं पूर्णमास यज्ञ की विशिष्ट आहुतियाँ हैं। जैसे तीन विभागों के मिश्रण द्वारा सात विभाग बनते हैं, वैसे ही चक्र-प्रगताली में सात पुनः तीन भागों में विभक्त हो सकते हैं। लोक तीन ही हैं : भूः, सुवः, तथा स्वः, पर यही सात बन जाते हैं :-भूः, सुवः, स्वः, महः, जनः, तपः तथा सत्यम्। इन्हीं सातों को हम पुनः तीन भागों में विभक्त करते हैं :—भूर्भुवः स्वः, स्वः महः जनः, जनः तपः सत्यम्। वेद इन्हें क्रमशः रोदसी, कन्दसी तथा संयती नाम देता है। वेद के तीन प्रमुख छन्दों गायत्री, त्रिप्तुप तथा जगती भी इसी प्रकार सात छन्दों में परिणत हो जाते हैं। स्वर तीन हैं : उदाच, अनुदात्त एवं स्वरित, परन्तु मिश्रण से वे पद्म, क्षयम, गांधार, मध्यम, पंचम, धैदत एवं निषाद रूप में सात बन जाते हैं। सात छन्दों—गायत्री, उत्तिक्, अनुष्टुप्, वृदती, पंचि, त्रिप्तुप तथा जगती का भी सम्बन्ध क्रमशः इन सात स्वरों के साथ है। इन्हीं से सम्बन्धित सात ऋषिओं और सात देवता भी हैं। ऋषियों में आग्निवेश्य, काश्यप, गौतम, अंगिरस, भार्गव, कीशिक तथा विशिष्ट की गणना है। देवों में अग्नि, सविता, सोम, वृहस्पति, मित्रावरुण, इन्द्र तथा विश्वेश्वर भागते हैं। सात रंगों का सम्बन्ध भी इन्हों एवं स्वरों से जोड़ा जाता है। ये रंग क्रमशः सित, सारंग, पिंडांग, कृष्ण, नील, लोहित और गौर हैं। सात छन्द पुनः सात भागों में विभाजित हैं। इन विभागों के नाम हैं। भार्या, देवी, भासुरी, ग्राजापत्य, याजुपी, सार्वी, भार्ची तथा आह्वी।

\* श्रीपित्तलः दासि क्वयोविषेति रे पुष्टुपं दर्शते विश्वचक्षणम् ।

अद्वयों में स्वर, व्यंजन तथा अर्धस्वरव्यंजन तीन भेद हैं, पर ये स्थान के कारण क्षणिक, तालव्य, मूर्धन्य, दन्तव्य, बोप्यव्य, आनुनासिक तथा ऊप्र नाम के सात वर्गों में विभक्त हो जा जाते हैं। शारीर में सात धातुएँ हैं, पर ये वात, पित्त तथा कफ तीन वर्गों के अन्तर्गत जा जाती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मउजा तथा शुक्र भी तीन-तीन प्रकार के हैं। समाज में आद्वय, इतिहास तथा वैश्य तीन भेद प्रयुक्त हैं। शूद्र तथा वैश्य दोनों का समावेश धर्म-प्रधानता तथा कलाकौशलय के कारण एक विश्वा में ही कर लिया जाता है। प्राचीन यूनान में भी मानवों के यही तीन विभाग थे : Philosophers ( दार्शनिक ), Warriors ( योद्धा ), तथा Artisans ( शिल्पी )। ये तीन आगे चलकर सात जातियों में परिणत हो गये। परमाणु तीन प्रकार के हैं : सत्, रज तथा तम्, पर यही विज्ञास क्रम में महत्त्व, अहंकार तथा पञ्चतन्मात्राओं के रूप में सात रूप धारण कर रहे हैं। महत्त्व में सत् की, अहंकार में रज की तथा पञ्चतन्मात्राओं में तम की प्रधानता है।

काल को तीन भागों—भूत, वर्तमान तथा भविष्य—में विभक्त किया जाता है, परम्परा तीन प्रकार का भूत ( पूर्णभूत, अनश्वतन तथा सामान्य ), तीन प्रकार का भविष्य ( सामान्य, संभाव्य तथा अनश्वतन ) और एक प्रकार का वर्तमान मिटकर वह सात प्रकार का हो जाता है। शब्द तीन प्रकार के हैं :—संज्ञा, अव्यय और क्रिया। इन तीनों के भी सात सात भेद हैं। विभागों में तीन, चार तथा पांच के भेद भी पाये जाते हैं। शब्द के तीन भेदों में नाम संज्ञा है, आव्यात विद्या है, उपसर्ग अव्यय है और नियंत्रण अनियंत्रित शब्द-निर्माण को कहते हैं। इसी प्रकार चार वर्णों के साथ पंचम निपाद वर्ण भी माना जाता है। प्राण पंच प्रकार का है। पञ्चतन्मात्रायें तथा पंचमहाभूत प्रसिद्ध ही हैं।

सामान्यतः तीन और सात के भेद व्यापक हैं। सात पदार्थों के यदि तीन-तीन भेद किये जायें तो इक्कीस भेद हो जाते हैं, पर इनके भी परत्पर

हीन-सम-अधिक मात्रा में सम्मिलिन होने से तथा चार और पाँच के बगों में विभक्त हो जाने से नाना रूप बन जाते हैं।

वायर्थ वेद के निरनीकित प्रथम मंत्र में इन्हीं तीन तथा सात वायवा  $3 \times 7 = 21$  इस प्रकार के बटों को प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है :

ये त्रिपत्ताः परियन्ति विश्वारूपाणि विभ्रतः ।

वाचस्पतिर्वला तेषां तन्वो अद्य दघातु मे ॥

मन्त्र का ऋषि व्यवहारी तथा देवता वाचस्पति है। सूक्त का नाम भेदाजनन है। वाचस्पति से प्रार्थना है कि वह तीन प्रकार के, सात प्रकार के व्यवहार इन्हीं प्रकार के बटों को, जो नाना रूप धारण किये हुए चतुर्दिश अभ्यन्तर कर रहे हैं, मेरे शरीर में स्थापित करे।

तीन प्रकार के बड़े रूप, मध्यम तथा सूक्ष्म हैं जिन्हें शारीरिक, प्राण-सम्बन्धी तथा मानसिक बड़ा बा सकता है। इन्हीं को त्रिमोगुग-प्रधान जाह्य का बड़ा, रजो गुग प्रधान प्राण-क्रिया का बड़ा तथा मनन-चिन्तन-प्रधान ज्ञेतना या विज्ञान का बड़ा भी कह सकते हैं। इन्द्रियों में ज्ञान के प्रतिनिधि सप्तरिंश्यों की प्रतिष्ठा है। दो कानों में गोतम तथा भरद्वाज हैं। दो आंगों में विश्वामित्र और यमद्विति हैं। दो नासिका रन्धों में विभिष्ठ तथा कर्यर हैं। वाणी ही ऋषि ऋषि है।

इन्द्रियों भी अन्तः तथा बाह्य रूप से तीन प्रकार की हैं : कर्मेन्द्रियां ज्ञानेन्द्रियां तथा मन ( अन्तःकरण )। इनके मी सात-सात प्रवाह हैं :

सप्तक्रृपयः प्रतिहिताः शरोरे सप्तरक्षन्ति सद्मन्त्रमाद्भ् ।  
सप्तापः स्वपतोलोकमीयुः तत्र जागृतो अस्वप्नद्वौ सप्तसदी च देवी ॥  
( यतु ० ३४-५५ )

सात ऋषि ज्ञानेन्द्रियों हैं जिनका वर्णन ढार द्वे लुका है। सात कर्मेन्द्रियां दो हाथ, दो पैर, एक शिरन, एक गुदा तथा एक जिहा या वाणी हैं। सात दीर्घायं प्राण भी रुधा का कार्य करते हैं, पर वे सोते नहीं। इन्द्रियों के प्रवाह

जब सुषुप्ति में रुक जाते या विश्राम करते हैं, तब प्राण तथा चैतन्यात्मा दोनों जगते रहते हैं। स्थवा प्राण और अपान दो पहरेदार शरीर के द्वार पर बैठे रहा किया करते हैं।

अथर्व १९-५३-२ में सप्त चक्र तथा सप्त नाभि; २०-४७-२०, १३-२-८, १३-२-२३, ९-९-२ तथा १३-२-१८ ( ऋ० १-१६४-२ तथा १-५०-८ ) में सूर्य-रथ के सप्त हरिताश्व, १५-१५-२ में सप्त प्राण तथा सप्त अपान, ५-१-६ ( ऋ० १०-५-६ ) में कवियों द्वारा निर्मित सप्त मर्यादा, ८-९-१८ में सप्त होम तथा समिधा; १९-६-१५ ( ऋ० १०-९०-१५ तथा यजु० ३१-१५ ) में सप्त परिधि, ९-९-६ में सप्त तंत्र; ऋग्वेद ४-११४-३ में सप्त दिशा, ऋ० १०-१२२-३ में सप्त धाम, १०-७२-९ में अदिति के सप्त पुत्र, ५-५२-१७ में सप्त सामर्थ्य, १०-२७-१५ में सप्तवीर, ९-८६-३६ तथा १०-५-५ में सप्त स्वसा, ८-६०-१६ ( यजु० ३४-४ ) में सप्त होता, ३-४४-५ में सप्त होत्र, १०-१०४-८ में सप्त दिव्य आपः ( जल या प्रवाह ) और ६-६१-१२ में सप्त धातु का उल्लेख आता है। इसी प्रकार त्रिकटुक, त्रिपाद, तीन पदित्र, तीन धाम, तीन मूर्धा, तीन अन्तरिक्ष, तीन अश्वी, तीन देव, तीन इयि, तीन प्रकार के वश्युर; तीन सध या सद, तीन पुर, तीन सर, तीन आयु, तीन अग्वक, तीन अर्यमा आदि का उल्लेख भी वेद में हुआ है। तीन और सात का एक साथ उल्लेख भी कई बार हुआ है। ऋग्वेद १-१९१-१४ में त्रिः सप्त मयूरी, १-७२-६ में त्रिः सप्त गुण पद, १-१९१-१२ में त्रिः सप्त विष्णुलिंगक तथा १०-६४-८ में त्रिः सप्त सप्तस्ता नदियां वर्णित हैं।

अथर्व वेद का जो प्रथम मंत्र हमने पूर्व उद्घृत किया है उसमें दलों का वर्णन है। तीन प्रकार की वाणी और उसके तीन प्रकार के थल सामाजिक, मानसिक तथा आत्मिक हैं। शब्दों में वहा थल होता है। जहां वे अर्थ-सिद्धि करते हैं, वहां अनर्थ के भी जनक हैं। शब्द ही क्यों, सभी प्रकार के थल अपने उचित-अनुचित उपयोग में उद्याण-कारक एवं बलेशकारक बन जाते

है। बल जहाँ पर प्राण करता है, वहाँ पर-पीड़न भी। मानवता बल के उचित प्रयोग में है।

शरीर में प्राण, मन और आत्मा का बल प्रमुख है। सात बलों में महत्त्व या बुद्धि, अहंकार तथा पञ्चभूतों का बल आता है। यदि तीन सात के गुण इतारा इकीस बलों को लिया जाय तो उनमें पांच कर्मनिदियाँ, पांच ज्ञानेनिदियाँ, पांच प्राण, अन्तःकरण चतुष्टय, धदा तथा वीर्य की गणना की जानी चाहिये। जीवात्मा हन्हों २१ प्रकार के बलों द्वारा अपने समस्त व्यवहारों को सिद्ध करता है।

बलों का अनुभंव और उनका प्रयोग सब के बश की बात नहीं है। सामान्य स्तर पर अपनी अनेक शक्तियों की अनुभूति तक मानव को नहीं होती। अनुभूति के अभाव में प्रयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। सामान्य स्तर से ऊपर उठे हुए प्राणी जितना अधिक विकास की ओर उभयुक्त होते जाते हैं, उतना ही अधिक वे शक्तियों से परिचित होकर उनका प्रयोग करने में समर्थ एवं कुशल बन जाते हैं। शक्ति-प्रयोग से पूर्व शक्ति-बोध का हो जाना अनेक दोषों को दूर कर सकता है।

द्वान्द्वोद्य उपनिषद के सप्तम प्रपाठक या अध्याय के प्रारम्भ में नारद और सनकुमार का संवाद आता है जिसमें नाम (शब्दमात्र), वाणी (शब्दार्थज्ञान), मम (मनपूर्वक तात्पर्य ज्ञान), संकहप (इन निश्चय), चित्त (चिन्तन), ध्यान (एकाग्र विवेचन), विज्ञान (स्पष्ट बोध), बल (ज्ञान को कर्म में परिणत करने का सामर्थ्य), बल के पांच स्रोतः अङ्ग, जल, सेज, वायु<sup>१</sup> तथा आकाश, स्मृति (विगत अनुभव-मण्डार), आशा (भावी उपलब्धियों में विश्वास), प्राण (क्रियाशक्ति को अभिनव रूप देने वाला तत्व), मति (समझ, सत्य ज्ञान को प्राप्त करने का साधन), अदा (परसर्वा में पूज्य बुद्धि), निष्ठा (गम्भीर, लक्ष्य या केन्द्र में एकान्तरिष्ठत हो जाना), भूमा (अखलण्डता या समग्रता की अनुभूति) और आमदर्शन का अन्योन्य

<sup>१</sup> उपनिषद में नहीं है, परन्तु होना चाहिये।

अपेक्षा उत्कर्ष वर्गित हुआ है। एक से दूनरा बलवत्तर है या महान है। इनसे मानव महत्ता बढ़ती है। इन महत्तावर्धकों की संख्या भी इक्कीस है। ये भी निश्चित रूप से बल हैं जिनके प्रयोग द्वारा आत्मोत्थान या आत्मो-पलविध जैसी सिद्धियाँ हस्तगत होती हैं।

मन्त्र में इन बलों को धारण करने की जो याचना है, वह मंत्र के क्षणिक अथर्वा की भी विशिष्टता कही जा सकती है। बलवान व्यक्ति ही अथर्वा बन सकता है। निर्बल व्यक्ति तो पद-पद पर कांपता है। निष्कम्प अविचल, निर्मय, त्रोभ-रहित, निर्माह, अशोक अवस्था बलवान व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। सूक्त के प्रारम्भ में मेधाजनन शीर्षक दिया हुआ है। मेधा बुद्धि का वह उच्च स्तर है जो मनन किये हुए को पचा देता है, अपना बना देता है, संगो और साथी कर देता है। यदि बल पच गये, मेरा अंग बन गये, तो वे मेरे हैं, मेरे साथ अभिज्ञ हैं। बलों की यह अभिज्ञता भी अविचलता की सूचक है। जो पराया है, वह भागा-भागा किरता है, मेरे साथ एक नहीं हो पाता। जो मेरा है, वह मेरे साथ है, मुझसे सम्बद्ध है, मेरे साथ एक है। आत्मा की मूलावस्था भी पैकाल्य में ही है। विचलन, थर्वन, कमन मूल स्वरूप से हटने पर उत्पन्न होते हैं। जो केन्द्रस्थ हो गया, मूल में समा गया, आत्मा के साथ एक हो गया, वही बलवान है, वही शक्तिशाली है। बल और बलवान, शक्ति और शक्तिमान, अङ्ग और अङ्गी मूलतः एक हैं। बल जब शरीर में भिन्न गये तो शरीर बन बन गया। इस अवस्था में बलों को भी रचना प्राप्त हुआ और बली को अपना स्वत्व मिल गया।

बल चारों ओर भ्रमग कर रहे हैं। आवश्यकता है उनको आहूत करने, बुलाने की। आहूत की यह योग्यता जहां है, वहीं बल उपस्थित हो जाते हैं। ये बल तीन प्रकार के हैं, सात प्रकार के हैं, इक्कीस प्रकार के हैं और विविध रूप वाले हैं—अनन्त हैं। प्रमु अनन्त हैं। वे अपने अनन्त सामध्यों से हमें भी अनन्त शक्तिशाली बनावें। यही याचना है, यही अभ्यर्थना है।

है, अवरोधक है, अपनेयन करने वाला है। जीवन में भिन्न प्राण है तो वर्णन अपान है। एक शक्ति का आधायक है तो दूसरा दोषों को दूर करने वाला। नित्र और वहग, प्राण और अपान दोनों मिलकर जीवनचर्या को सुखद बनाते हैं। दोनों में से पृक का भी अभाव हो गया, तो जीवन किरकिरा हो जायगा। उसमें भाषकों कोई रुचि न रहेगी। दोष बढ़ते गये, मल इकट्ठा होता गया, तो बड़े से बड़ा प्राणज्ञान व्यक्ति भी सहसा मृत्यु की आखेड़ बन जायगा। वह जीवन की धारधि को लम्बा करने के स्थान पर घटा लेगा। दोष निरुलते रहें, कृदा-करकट छृटता रहे, जीवन के बाधक वारित होते रहें, तो जीवन-अवधि मामान्ध परिस्थितियों में भी दीर्घ बनाई जा सकती है, परिस्थितियाँ पोषक हों, तब तो कहना ही चाहिए है ?

यात्रा की सफलता के लिये मंत्र में जिय तीसरे सम्बल का उल्लेख हुआ है, वह पोषक सामग्री से ही सम्बन्ध रखता है। यह सामग्रो है पथ = पथ के योग्य, रेवति = धन। धन अनेक प्रकार के हैं, पर जो धन पथ या हितकारी हो, जिसके सेवन द्वारा पथ की यात्रा करने में सुविधा पूर्व सुगमता का अनुभव हो, जो शरीर का पोषण करे और यात्रा को सुखद बनावे, वही धन पथ, हितकर तथा रमणीय है। धनों में से हमें ऐसे हो धन को चुनकर अपने साथ रखना और उसका उपयोग करना है। पापीयान् धन पथ से ही च्युत कर देता है। अतः चुनाव तो पवित्र लघमी का ही करना है और लघमी ऐसी भी हो जो निरन्तर प्रयोग में आती रहे। जो धन गोठ में ही चंचा रह जाता है, जिसका उपयोग नहीं हो पाता, वह प्रवाह-हीन जल की भाँति सडांद पैदा करने लगता है। ऐसा धन जहाँ आवश्यक हो, उपयोगी प्रयोग में लगा दिया जाय, तो ध्रेयस्कर होता है। अपनी यात्रा के लिये जो धन उपयोगी पूर्व आवश्यक है, उसी को अपने साथ रखना चाहिये। इस्तिमती सम्पदा पथ है। दोष सब अपथ है। यत्किंव धन ही हमारा कर्षण करता है।

मंत्र में चौथी बात इन्द्र के कदगांगकारी संवर्णर दी है। इन्द्रियाँ इन्द्र की

शक्ति हैं, इन्द्र मन है। फिर वाद्यकरण तथा अन्तःकरण इन्द्र के करण हैं, इन्द्र आत्मा है। यहाँ इन्द्र से तारपर्य जीवन-यात्रा के समर्थ-साधन से है। यात्री तो आत्मा ही है। उसका साधन मन तथा इन्द्रियों ही हैं। ये साधन कहाणोन्मुख हों। मन अपनी प्रज्ञा इन्द्रियों में यज्ञ है, पूजनीय है। वह शिव स्वरूप हुआ, तो इन्द्रियां भी शिवाव की साधिका बन जायेंगी। इसके संकल्प अशिव हुए, तो इन्द्रियां भी विषयगमिनी बनकर आत्मा को लब्ध से भ्रष्ट कर देंगी। कठोपनिषद में रूपक द्वारा आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि की सारथी, मन को प्रप्रह अर्थात् लगाम और और इन्द्रियों को अश माना गया है। आत्मा का लब्ध है अभ्युदय तथा निःश्रेयस का सम्पादन। अभ्युदय का अर्थ है यहाँ विषय-वासना की तमिक्षा से जागरण और निःश्रेयस का अर्थ है परमात्म-प्राप्ति रूपी कहाणाग की उपलब्धि। आत्मा इस यात्रा में सोने या प्रमाद में एडने के लिये नहीं आया है। उसे जागरूक रहना है, नम में अभ्युदय करना है। आत्मा सो गया, तो यात्रा का अन्त कहाँ? 'डर्शवै जीवो' चेद कहता है, 'जीवात्मा उठ'। 'सुपर्गोऽसि' त् सुन्दर पंखो बाला है। उदितं होकर अपने प्राणापान तथा ज्ञानरूप के पंखों द्वारा उड़। त् हंस है। पंखों को फड़फड़ता हुआ अपनी यात्रा पर चल दे। तुम्हे स्वर्ग जाना है। प्रभु से तुम्हे साधन दिये हैं। इन साधनों का सदुपयोग कर। शरीर रूपी रथ में त् बैठा हुआ है। बुद्धि रूपी सारथी तेरे पास है। इस सारथी के हाथ में मन रूपों लगान है जिसमें इन्द्रियां अश के समान न थी। इन्हें विषयों की ओर मन जाने दे। विषय तो पतयालु हैं, तुम्हे उत्थान करना है। सारथी ने यदि लगाम ढोली कर दी, मन स्वतंत्र या उच्छृङ्खल हो गया, तो इन्द्रियों भी गद्दे में गिरेंगी और उनके साथ रथ तथा त् भी। अतः अपने साधनों का उचित उपयोग करना चाहिये। यमुर्वेद के ३४ वें अध्याय में मन की सारथी का ही रूप दिया गया है। मन वस्तुनः माध्यम है जिसके बल पर इन्द्रियों अपने अपने कार्यों में निरत होती हैं। हमारी बुद्धि पाप से पृथक रहे, मन शिव संकल्पदील बने, तो इन्द्रियों सत्पथ पर प्रयाण भवेत् करेंगी। अतः यात्रा

की सफलता इन साधनों की पवित्रता पर ही अबलम्बित है। इन्द्र की शक्ति यदि शुद्ध है, उमस्ती शक्ति परिवर्ता है, तो स्वस्तिमती मिहि भी हाथ चांथे आगे खड़ी रहेगी।

पांचवाँ साधन आग्नेयता अथवा प्राणवत्ता है। अग्नि का अर्थ है अग्नेन-यति-आगे ले जाने वाला तथा। इन्द्रियों में प्राण ही श्रेष्ठ है, ऐसा उपनिषदों में कई वार कहा गया है। प्राण ही अग्नि है। यही आगे ले जाता है। 'प्राणो वा उवयम्' प्राण ही उत्थान करने वाला है। जब सब सो जाते हैं—इन्द्रियों के ५ में तथा ज्ञान-साधन के कार्य बन्द हो जाते हैं, मन तथा चुदि भी सुषुप्ति में निपित्य पड़े रहते हैं, तब प्राण ही अकेला जागता है। वही पहरेदार बना हुआ समस्त शारीर-संभार की देखभाल तथा रक्षा करता है। यह आग्नेयता, यह प्राणवत्ता, यह निःस्वार्थ सेवाभावना जिस यात्री के पास है, वह सौभाग्य-शाटी है। अग्नि या प्राण के रहते सब देव शारीर में रहते हैं, उसके निकटते ही सब निकल जाते हैं। देवों के इम गोष्ठ को कियादीलता प्राण के कारण ही प्राप्त होती है। प्राण ही देवों को उनका आहार देता है। शारीरिक अङ्गों का संचालन प्राण पर ही आधित है। रस-रक्त का संशोधन यही करता है। ऐसा सेवक आत्मा को प्राप्त है। आवश्यकता है, इस सेवक से उचित कार्य लेने की। योगी प्राण के संयम द्वारा ही कुण्डलिनी की साधना करते हैं जो सुषुप्ता नाड़ी द्वारा आज्ञा चक्र को पार करती हुई सहस्रार चक्र तक जाती है और आत्मा के नन्दन बन का उद्घाटन करती है। 'महद्रिमः इन्द्र सश्यं तेऽस्तु'। प्राणों को सखा बना कर आमदेव असुरों का परामर्श बरते हैं तथा दिव्य शक्तियों को विजयिनी घनाकर स्वर्ग की रक्षा करते हैं। वेद इमीलिये कहता है : मेरी अग्नि, मेरा प्राण कहयागकारी हो।

यात्रा की सफलता के लिये अन्तिम शारण है अदिति माता की गोद, प्रज्ञा का प्रकाश, अर्यंद ज्योति का नैरन्तर्य। यदि मेरे मित्र और वरण, प्राण और अपान, मानप्रद और विघ्न-निवारक तथा टीक काम कर रहे हैं, यदि मेरी दित्यकारी सम्पदा मेरे कहयाण में प्रयुक्त हो रही है, यदि मेरे मन और प्राण

की अवस्था स्वस्थ है, शिव-मंकलप, विशद विचार एवं भद्र भाव के साथ मेरी प्राणवत्ता प्रथल है, तो अदिति माता की कक्षागारिणी क्रोड भी प्राप्त हो ही जायगी। इस क्रोड में पहुँचते ही, आश्रय पाते ही, विभक्ति दूर होगी और भक्तिमवानी प्रमद होकर अनंड, अविभाज्य, पिंडोका एवं महुमती भूमिका का प्रसाद वरदान के रूप में प्रदान करेंगी। अदिति की गोद ही पायुपद्मदायिनी है। बहुत में, नानाव में आँमा ने जो रमग लिया था, वह विशक्त था। केन्द्रच्युति ही चिप है और केन्द्रस्थ होना ही अनुत्त है। परिधि की ओर चढ़ने में विभक्ति है, विभाजन है, केन्द्रोन्मुख होने में एकत्र है। विभक्ति में मोह और शोक के पाश हैं, आवरण हैं, केन्द्र के एकत्र में मोह है। प्रहृति की विहृति ही तो जगत है और अपनी स्वरूपता से हटना, अनवस्थित होना ही तो संमार है। जब विहृति प्रहृति में परिणत हो गई, तो दिनि अदिनि दन गई, विभक्ति भक्ति दन गई और अपने स्वरूप में अवस्थित होते ही। विभाजन के यदुत्त प्रवं निरय के नानाव का अन्त हो गया। प्रज्ञा के पट सुलते ही आत्मवत्ता का दर्शन है, अदिति के अनंड प्रकाश के उदय होते ही स्वस्ति एवं शान्ति की रमणीयता है, केन्द्रस्थ होते ही कल्याण है।

मित्र, वरण, पश्यरेवती, इन्द्र, अग्नि और अदिति के छः सोपान जीवनयात्रा के छव्य की सिद्धि कराने वाले हैं। जिसे ये प्राप्त हो गये, उसे मानो सब कुछ प्राप्त हो गया। वैसे सीढ़ियों पर चढ़ कर हम द्यूत पर या अपने उद्देश कक्ष में पहुँच जाते हैं, वैसे ही इन छः सोपानों को पार करके हम आत्मोपलक्षित करते हैं। प्रभु आत्मदा हैं, बलदा हैं। वे ही शक्ति देते हैं और वे ही आत्मज्ञान करते हैं और वे ही मृत्यु से हटा कर अमरत्व में प्रतिष्ठित करते हैं। देव उनकी आज्ञा के अनुदत्ती हैं। हम भी उनकी आज्ञा का पालन करें जिससे उनकी द्युत्रियाया में जीवन व्यतीत करते हुए उन्हीं के सालोक्य, सामीप्य एवं सायुज्य को प्राप्त कर सकें और अनुभव कर सकें 'त्वम् अस्माकं तवस्मसि।'

## स्वस्ति पन्था

मार्ग तो यहां बहुत हैं : कुछ सीधे हैं, कुछ टेढ़े, कुछ नीचे हैं, कुछ ऊचे । कुछ मार्ग ऐसे हैं जो शरीर में ही स्थित करने वाले हैं, भौतिकता में ही रमाने वाले हैं, कुछ गृहस्थी से बाहर छाँकने नहीं देते, कुछ प्राणवता या बल वा सम्पादन कराने वाले हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो ज्ञान-विज्ञान की ओर ले जाते हैं । इनमें स्वस्तिपन्था, कल्याणकारी मार्ग कौन सा है ? कौन सा पथ है वह जिस पर चलकर हम स्वरित = सु अस्ति = शोभन सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं ?

निम्नांकित ऋचा में स्वस्थिपथ के पधिक की अन्तःभावना अभिव्यक्त हुई है :—

**स्वस्तिपन्था मनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव ।**

**पुनर्ददताऽच्नता जानतासंगमेमद्वि ॥**

(ऋ० ५-५१-१५)

प्रभो ! हम स्वस्ति पथ पर चलें, जैसे सूर्य और चन्द्रमा चलते हैं । हम पुनः दानी, अहिंसक तथा ज्ञानी की संगति में रहें । यहां पुनः शम्द ख्यान देने योग्य है । यह सूचित करता है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति से पूर्व दानी, अहिंसक तथा ज्ञानी की संगति में रह चुके हैं । यह संगति हमें पुनः प्राप्त हो, वयोंकि भाज हम इसे यो बैठे हैं ।

दान, अहिंसा तथा ज्ञान में प्रभु से घटकर तो यहां अन्य कोई भी नहीं है । प्रत्येक जीवात्मा अपनी मूल दशा में प्रभु की ही संगति में रहने वाला है । प्रभु से वियुक्त होकर ही वह कृपणों, हिंसकों तथा अज्ञानियों का सद्वास प्राप्त करता है । संसार में अधिक संख्या ऐसे ही अपत्तियों की है । इन्हीं की संगति जीवात्मा को दुर्दिन दिखाती है और अपने निकटस्थ, नेदिष्ट प्रभु को वह विरमृत कर बैठता है । प्रभु के अतिरिक्त यहां ऐसे प्राशी भी हैं जो प्रभु

की संगति करने वाले हैं, उसके सामीप्य के अभिलाप्य हैं तथा उसी की ओर चले भी जा रहे हैं। प्रभु का संपर्क इन्हें भी दानी, अहिंसक तथा ज्ञानी बना देता है। ‘जैसा होवे साथ, वैसा आवे हाथ’—वी उक्ति सदांशतः सत्य है।

प्रभु की दिया हुआ तो यहाँ सब ही ही, पर इस दान से धनी बनकर जो यहाँ धन का सदुपयोग करता है, दक्षिणा देता है, अपने को पुष्ट करने के साथ ही जो दीनों को भी तुष्ट करता है, अपने को हष्ट करने के साथ ही जो विषण्णों को भी प्रसाद की विशिष्टता देता है, जिसकी ओर नेष्ट भी आकृष्ट होते हैं और समीप आते ही अष्ट भी उत्तिष्ठ हो जाते हैं, वह निस्संदेह मंहिष्ठ है, पूजनीय है। वेद कहता है :— दक्षिणावतामित् हमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि सूर्यादः । दक्षिणावन्तः अमृतं भजन्ते, दक्षिणावन्तः प्रतिरन्त धायुः । (ऋ० १-१२५-६ )

दान देने वालों के लिये विश्व की समस्त चित्रमयी भद्रभुत मामग्री है, प्रकट एवं अप्रकट धन है। यही नहीं, दौ लोक की ज्योतिर्यां, दैवी विभूतियां स्वर्गीय पेश्यर्थ, प्रेरणा और सृष्टि-शक्ति सब उसे प्राप्त होते हैं। दान देने वाले अमृत के भागी बनते हैं। उनकी धायु बढ़ जाती है।

स इदू भोजो यो गृहवे ददाति अन्नकामाद चरते कृशाय ।

अरमस्मै भवति यामहृता उतापरीषु कुणुते सखायम् ॥

(ऋ० १०-११७-३ )

भोज या धन उसी का सार्थक है जो अन्न की कामना से घूमते हुए कृश मिछुक को दान देता है। ऐसा दानी व्यक्ति समय पड़ने पर जिसका आद्वान करता है उसकी उपस्थिति दानी को अलंकृत कर देती है खर्यात् उसका यह लोक तो बनता ही है, परलोक में भी वह अपने सहायक मित्रों को प्राप्त कर लेता है। विश्वहित में दान करने वाले व्यक्ति को धन का अभाव कभी नहीं खटकता। प्रभु उसे मालामाल करते रहते हैं :— सुन्धानाय इन्द्रो

ददाति भासुवं रथ्य ददाति आसुवम् । श्रृङ् १०-१३३-७ अथ० २०-६७-१ नवा-  
उद्देवा—उतारयिः पृणतो नोपदस्यति । श्रृङ् १०-१३७ ।

भहिंसा का अर्थ वैर रथाग है । मैं किसी की हिंसा न करूँ, किसी से द्वेष  
न करूँ, मेरे अन्दर से द्वेषभाव सबका सब समाप्त हो जाय—रेषो प्रार्थना  
वेद में अनेक बार आती है । यथा—भिन्निधि विश्वा अर द्विपः । ( श्रृङ् ८-४५-  
४० अथ २०-४३-१ ) । सनः पर्वदनि द्विपः । ( श्रृङ् १०-१८७-१ से ५ तक  
अ० ६-३४-१ से ५ तक ) । 'स सुत्रामा स्ववां इन्द्रो अस्मे आरादिचद् द्वेषः  
मनुतरुंयोतु ।' ( श्रृङ् ६-४७-१३, १०-१३१-७, अथर्व ७-९२-१, २०-१२५-७  
यत्तु० २०१५२ ) । माड अहं द्विपते रथम् । ( श्रृङ् १-५०-१३ ) । विशा  
द्वेषांसि प्रसुमुक्षपस्मद् । ( श्रृङ् ४-१-४ यत्तु० २१३ ) । आरे देवा द्वेषोऽस्मद् ।  
( श्रृङ् १०-६३-१२ ) । प्रभु ! आप ही सुत्रामा हीं, ब्राण करने वाले हैं, फिर  
मैं अपने ब्राण के लिये हिंसा या द्वेष का सहारा बयों लूँ ? आप मेरे अन्दर से  
द्वेष को निकालकर यहुत दूर केंकु दीजिये । मैं किसी द्वेषी के बजीभूत न बनूँ ।  
द्वेषी का बार मेरे ऊपर तभी सफल हो पाता है जब द्वेष के घड़िये मैं मैं भी  
उससे द्वेष करने लगूँ । यदि किया की प्रतिक्रिया मेरे अन्दर नहीं होगी, तो मैं  
सुरक्षित रहूँगा, द्वेष के अधीन न बनूँगा । और यदि किसी के द्वेष का उत्तर मैं  
द्वेष से ही देता हूँ, अपनी ओर से तो मैं किसी से द्वेष करने लगाना हूँ, तो प्रभो ! आप ही  
समझालिये, मेरा द्वेष उस द्वेषी के कारण है, अतः उस द्वेषी को मैं आपके अवाय  
स्त्री दंष्ट्राधों में रखता हूँ । मेरे अन्दर निदित द्वेषभावना मुस्ते दूर हो  
जाये । 'इदमित् श्रेष्ठो अवसानमागां तिवे मे चावा पृथिवी अभूताम् । असपर्या  
प्रदिशो मे भवन्तु न वै रया द्विष्मोऽभयं नो अस्तु । ( अथर्व १९-१४-१ ) अस्त्रा  
तो यही है कि मैं किसी से द्वेष न करूँ और यदि द्वेष का प्रारम्भ प्रतिक्रिया  
या अन्य किसी कारण से हो गया है, तो मैं उसे प्रारम्भ होते ही समाप्त  
करूँ । ऐमाहोने पर चौ तथा पृथ्वी मेरे लिये बलयागस्वस्य हो सकेंगे ।

<sup>१</sup> योऽस्मान् द्वेष्टि मं वर्य द्विष्मस्तं दो जम्भे दध्मः ।

समग्र दिशायें मेरे लिये असपल, शत्रुभावरहित हो जायगीं। मैं द्वेष नहीं करता, अतः सर्वत्र मेरे लिये अभय ही अभय है। अन्य तो मेरी ओर से निर्भय हैं ही।

हिंसा निर्वल का अस्त्र है। उससे हिंसक की अशक्ति प्रकट होती है। जो जितना ही अधिक सबल है, वह उतना ही अधिक अहिंसक है। बलवान से सभी मित्रता करना चाहते हैं। अतः हम यदि बलवान बनें, तो न हमें किसी से द्वेष करना पड़े और न कोई हमसे द्वेष करे। इस समवर्धन में भी प्रभु ही हमारे भाद्रता हैं। दानी तो उनके समान कोई ही नहीं, बलवानों में भी वे शिरोमणि हैं। अतः वे अनुपम अहिंसक भी हैं। अहिंसा में ही उनका चाह स्वरूप प्रकट होता है। जो व्यक्ति अहिंसक है, उसके अन्दर भी प्रभु के सौन्दर्य अथवा चारूच की झलक आ जाती है।

सुपथ के लिये तीसरी बात ज्ञान की है। ज्ञानियों की संगति करने से प्रकाश प्राप्त होता है जो पथ को प्रशासन बनाता है। पथ का ज्ञान और पथ पर प्रयाण दोनों ही ज्ञानी के सत्संग का फल हैं।

**तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीच च भुराततम् ॥  
तद्विग्रासोविपन्न्यदो जागृतांसः समिन्धते । विष्णोर्यत् परमं पदम् ॥**

(ऋ० १-२२-२०,२१ । साम १६७२,७३ )

ज्ञानी भक्त सर्वच्यापक प्रभु के परम पद का दर्शन करते हैं उसी रूप में जिस रूप में सूर्य द्वी लोक में प्रकाशित हो रहा है। जागरूक बने हुए, प्रभु की स्तुति में लीन ज्ञानी प्रभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो प्रभु का निकटवर्ती है, उमका सत्संग ज्ञान की किरणें प्रदीप्त करेगा जिससे प्रकाशित होकर अन्तःकरण निर्मल बनेगा और हम भी दैवी उयोति में स्नात होने का अवसर प्राप्त करेंगे। 'त आदित्या अभयं शर्मयच्छ्रुत'—ज्ञान-निधान आदित्य देवों की कृपा से हम निर्भय बनेंगे तथा हमें सुख प्राप्त होगा।

देवों के इस सत्संग में दान, अहिंसा, निर्भयता, सुख तथा ज्ञान का जो

प्रसाद प्राप्त होगा, उससे श्रद्धा एवं चरित्रनिष्ठा की उत्तमता होगी। दीक्षित् और व्रती धनकर हम पुण्य पथ पर उसी प्रकार चलने लगेंगे जिस प्रकार सूर्य और चन्द्र चल रहे हैं। जिस कषा वृत्त पर ये भ्रमण करते हैं, वह निश्चित है। हमारा पथ भी प्रभु के प्रशिप में निर्दिष्ट ही जायगा। फिर न संसार का राग रहेगा, न रोग। अघ के स्थान पर पुण्य का उदय होगा जो अभीष्ट की प्राप्ति को निकट खींच लायगा।

**आरिष्टः स मर्तो विश्वं पथते प्रप्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि ।**

**यमादित्यासोनयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॥**

( का० १०-६३-१३ )

ज्ञानी देव जिसे सुपथ पर लगा देते हैं, वह कवयाण का भाजन बन जाता है। वह समस्त दुरितों, पापों को अतिक्रान्त कर जाता है। वह धर्म-परायण बनता है, विश्व में सुर-सम्पदा-समृद्धि से वर्धमान होता है और प्रजाभों से, सन्तति तथा ज्ञान-प्रसवों से, प्रहृष्टतया प्रकृट होता है।

**यं देवासोऽवथ याजसातौ यं शूरसाता मरुतो दिते धने ।**

**प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा यदेमा स्वस्तये ॥**

( का० १०-६३-१४ )

याज, वल और ज्ञान की प्राप्ति में ज्ञानी देव जिसकी सहायता तथा रक्षा करते हैं और हितकारी धन वी प्राप्ति में वीरों के साथी मरुत देव जिसका साथ देते हैं, वह कभी नष्ट न होने वाले रथ रथ पर जा चैठता है जो इन्द्र के शेषशर्य को प्राप्त कराने वाला है और जो जीवन में नवीन प्रभाव ले आता है।

**विश्वं तद् भद्रं यद्यन्ति देवाः । यृदद्यदेम विद्ये सुधीराः ॥**

( का० २-२३-१९, २-२४-१६ यजु० ३४-५८ )

देव जिसकी रक्षा करते हैं, जिस पर अपना धरद हस्त रखने हैं, वह समस्त कल्याणों का भाजन बन जाता है। एम सुवीर, सुन्दर सन्तति पृथं हनि

से युक्त बनकर इन् देवों के यश का, ज्ञान यज्ञ तथा कर्मयज्ञ में, बहुत बहुत गम करें।

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।  
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेऽनो भूयिष्ठान्ते नम उकिं विधेम ॥

( ऋ० १-१८९०१ यजु पाद६, अ४३, ४०१६ )

हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! हमें उसी सुपथ से ले चलो, जिससे सर्वध्रेषु  
ऐश्वर्य, मोक्ष की प्राप्ति हमको हो । आप समस्त कर्मों के ज्ञाता हैं, सबके  
अध्यय और साक्षी हैं । हमें सरल, सुगम, प्रशस्त पथ पर लौगा हो । जो कुछ  
कुटिलता रूप आप अवशिष्ट हो, उसे हमारे अन्दर से निकाल दो । ऐसी कृपा  
वरों कि हम आपकी शरण अहण कर सकें, भक्तिभाव पूर्वक आपके सम्मुख  
प्रणत हों । हमारे अनेकशः भावगद्गद, अद्वाभरित प्रमाण आपको प्राप्त हों ।  
'सुगानः कर्त्त सुपथा स्वस्तये ।' कल्याण के लिये हमारे सुपथ को सुगम बना  
दो । 'मा प्रगाम पथोवयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । मान्तःस्थुर्नो अरातयः ।'  
( ऋ० १०-५७-१ अथर्व १३-१-५९ ) इस पुनीत पथ से हम कभी विचलित  
न हों । हम सदैव सोम का सवन करते रहें, भक्ति पूर्वक आपके चरणों में  
प्रणत होते रहें और यज्ञ का परित्याग न करें । आपकी पूजा, संगतिकरण  
तथा भजन करते हुए, त्यागभाव से जीवन-न्यापन करते हुए, अन्तःकरण में  
अरातियों, अ-दान-वृत्तियों रूप शत्रुओं के स्थान पर यजनीय दिव्यता का वरण  
करते हुए हम आपके समीप बने रहें । 'अदीनाः स्याम शशः शतम्—आपके  
साक्षिय से ही हमारे अन्दर अदीनता, निर्भयता का संचार हो सकेगा । दीनता  
कर्त्तव्यपय से पृथक करने वाली है, अदीनता से अच्युत भाव का जागरण होता  
है । आपकी द्वाया, आपकी शरण हमें अदीन बनावे ।

स्वस्ति पंथा दान का, अहिंसा का, ज्ञान का पथ है, भक्तिभावना पूर्वक  
प्रसु के समीप पहुँचने का पथ है, निर्भयता-पूर्वक काम, ब्रोघादि अन्तः शत्रुओं  
के निष्कासन का पथ है, कुटिलता के निराकरण तथा सरलता के वरण का

पथ है, प्रभु के संदर्शन में जीवन व्यतीत करने का पथ है, अपनी बुद्धि को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने का पथ है, ईश्वर की प्रसन्नता में प्रसन्न रहने का पथ है। यह पथ दिव्य रथ है, यज्ञिय नौका है जिस पर पैर रखते ही निश्चन्तता का साम्राज्य छा जाता है। फिर हृदय की गांड़ खुल जाती है, कष्टों की कमत्र और क्रन्दनों की कराह निकल भागती है, संशय छिन्नभिन्न हो जाते हैं तथा कम-कलाप अपने कुल्लित विषाक को समाप्त कर देते हैं।

प्रभो ! इस राह पर सुने भी लगा दो, इस सुपथ पर सुने भी सहा कर दो, इस दिव्यरथ पर सुने भी चढ़ा लो, इस यज्ञिय नौका में सुने भी स्थान देदो। आपका प्रश्न याकर में भी सुखी हो सकूँगा। जन्म जन्मान्तरों में निर्झूति के घोर कष्टों को भोगता हुआ आज तुम्हारी शरण आया हूँ। आपकी शरण चरम शर्म की श्रद्धार्थी है। वह विशद वर्म है जिस पर किसी शब्द का आघात असर नहीं कर सकता। आपकी यह विशाल शरण मुने भी प्राप्त हो जो स्वस्ति, स्वर्वत, उयोति एवं अभय का दान देने वाली है। विष्णव्यूह इसके आगे वैसे ही फट जाता है जैसे सूर्य के आगे मेघमाला। ऐसी आनन्दप्रद शरण को छोड़ कर मैं और कहां जाऊँ ? हे, तेजस्विन्, प्रतीपपथ पर चलने चलने, पथञ्चष्ट होते होते बहुत दिन हो गये। अब अपने स्वस्ति पंथ का आश्रय दो। मुझ दीन के नाथ, मुझ पतित के उद्धारकर्ता, मुझ कुपथी के सुपथ, मुझ निर्वल के वल, मुझ रथुत को अच्युत बनाने वाले, एक मात्र आप हैं। आप ही वरेण्य शरण्य हैं। प्रभो, शरण दो। इसके अतिरिक्त और कोई सुपन्य नहीं है। इस सुपथ में अन्य समस्त सुपथों का समावैश है। आप ही, आप ही, आप ही। अमुचर, आपही, एक मात्र आप ही।



## स्वस्ति तथा शान्ति

यहां संघर्ष है, पग-पग पर पल-पल में संघर्ष है। व्यक्ति-व्यक्ति में संघर्ष है, वर्ग-वर्ग में संघर्ष है, समाज-समाज में संघर्ष है, राष्ट्र-राष्ट्र में संघर्ष है, संघर्ष की आशंका राष्ट्रों के गुट निर्माण कर रही है, पर यह संघर्ष प्राणी-वर्ग तक ही सीमित है, प्राकृतिक जैव में यह संघर्ष दिखाई नहीं देता। यहां चौ शान्त है, अन्तरिक्ष शान्त है, पृथिवी शान्त है, जल शान्त है, ओषधि-वन-स्पतियाँ शान्त हैं, विश्वेदेव शान्त हैं, ब्रह्मशान्त है—अशान्त है तो यही एक प्राणी-वर्ग। प्राणियों में मनुष्य ही नहीं, पशु-पश्ची तक अशान्त हैं। इस अशान्ति में स्वार्थों का संघर्ष निहित है। कहावत है :—‘बोभन कुत्ता नाऊ-जाति देखि गुरोऽ’—जिसका प्रमुख धाधार स्वार्थ है। एक कवि को दूसरे कवि के पास ढेढ़ सेर सोना देख कर झूँप्हा हो उठी। राजस्थान में त्याग का धन (विवाह समय की दक्षिणा) लेते समय चारों की ओ दशा होती है, उसने त्याग न लेने के लिये चारण-सभा से प्रस्ताव पास कराया। एक श्वान दूसरे श्वान को पत्तल चाटते देखता है, तो भौंकता हुआ उस पर जोर से झपटता है। एक नापित भी अपने यजमान के पास दूसरे नापित को जाते देख शंकाकुल हो जाता है। यह सब होता है—चंद टीकरों के लिये, केवल दो रोटियों के लिये। मुझे खाने को मिले, दूसरे को मिले चाहे न मिले—इस वृत्ति ने ग्राहण भादि को ही नहीं, समग्र मानवों को और मानव ही नहीं, समग्र प्राणियों को संघर्षन्त कर दिया है, एक दूसरे का जानी-दुश्मन बना दिया है। आज जिधर देखो उधर ही समग्र विश्व पर इस प्रवृत्ति का प्रहार हो रहा है।

राष्ट्रीय धरातल पर देखिये तो सबल राष्ट्र निर्वल राष्ट्रों को अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं। द्वेष रखते हैं सबल राष्ट्र, पर उनके साथ पीसे जाते हैं

निर्वल राष्ट्र । शोटी का संघर्ष अपना रूप बद्ध कर यहाँ प्रभाव-संघर्ष बन जाता है । एक चाहता है, मेरी बात रहे, मेरा प्रभाव रहे, मेरी पद्धति चले, दूसरा स्वभावतः इसका विरोध करता है । अमरीका, अफ्रीका, औस्ट्रेलिया आदि में यूरोपीय जातियों ने पहले तो वहाँ के मूल निवासियों को अपने लिये भूमि आप्त करने के लिये मारा, फिर आपस में भी झगड़ने लगे । इस रक्तपात के पीछे भौतिक समृद्धि की छीना-सूखी हो तो थी । यथापि इस समृद्धि के रूप भिन्न-भिन्न हैं—धन, भूमि, व्यापार, प्रभाव आदि, तथापि वे मानव को एक समान हिंस्त्रुति से बोतप्रोत कर देते हैं । मानवता का अंचल इससे कितना भलिन, कितना कर्लकित हो जुका है और अभी किंतना और दूषित होगा, कौन जाने । पहले युद्ध होते थे, मानवता को उज्जबल रंगने के लिये, सदाचार-संरक्षण के लिये, पतितोत्थान के लिये, नारी-संवारण के लिये, दस्युता के दमन तथा दिव्यता की प्रतिष्ठा के लिये । अब युद्ध होते हैं स्वार्थ—सिद्धि के लिये, प्रभाव की घुट्ठि के लिये । किसी की भूमि हँड़प लो, किसी का व्यापार बन्द कर दो, किसी का बल नष्ट कर दो—इसी प्रकार के उद्देश्य आजकल के युद्ध-पिण्डाओं के सम्मुख रहते हैं । मानव शान्ति पूर्वक सहयोग के साथ रहे, एक दूसरे के क्लेश को दूर करे, विज्ञान एवं कलाकौशल का विकास हो, नीति एवं संयम का पालन हो, प्रजा सुख-समृद्धि का अनुभव करे, उसके कल्पाग-पथ में आने वाली विद्वन-वाधायें दूर हों, सभी आध्यात्मिक उन्नति करें—इन पवित्र भावनाओं को कोई सामने नहीं रखता । ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानव हिंस पशु बन गया हो और स्वस्ति को, मंगल एवं भौद को, शान्ति एवं सुख-वस्था को संसार से हटा देने के लिए कठिवद्ध हो ।

कुछ विद्वान कहते हैं कि संघर्ष प्राणियों में ही नहीं, प्रकृति में भी हो रहा है । आकाश में तारे ढूढ़ते हैं, विजलियाँ कौधती हैं, पुरुष-लतारे निकलते हैं, पृथ्वी पर आंधी चलती है, नदियों में बाढ़ आती है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, बन में दावानल तो समुद्र में बदवानल भंडकता है, दीवाल के समान समुद्र में उठती हुई लहरें जलयानों को पंडक मारते निगल जाती हैं, श्याल

जैमा कांग फैलाये हुए उत्सुंग सरंगे तट-बेला का विध्वंस कर देती हैं, जलप्लावन तथा प्रलयंकर तृकान अनुवर्त को उर्वर, सरसा को नीरसा, समुद्र को पर्वत तथा पर्वत को समुद्र में परिणत करते रहते हैं। आप कह सकते हैं कि प्रकृति का ऐसा ही विद्यान है। प्रकृति के ये परिवर्तन सृष्टि की सकार्ह करने के लिये हैं, उसके मल को निकाल कर निर्मल बनाने के लिये हैं, जीर्णता हटा कर उसे अभिनव बौद्धन देने के लिये हैं। ऐसा न हो तो सृष्टि का कर्दम उसे नष्ट-अष्ट कर दे। पतञ्जल वसन्त के अभ्युदय का सूचक है, उसी प्रकार ये शंशा-बाद-दावा आदि सृष्टि के भावी सुन्दर रूप के संदेश बाहक हैं। जो प्रगाढ़ी प्रकृति में चलती है, वही प्राणी-समुदाय में। प्राणियों के संघर्ष भी प्राचीनता के स्थान पर नवीनता का सर्जन करते हैं, रुदियों को हटाकर मानवता को अभिनव आदर्शों से सुखाविज्ञन करते हैं और सहे-सहाये विसे-पिटे सिद्धान्तों से बचाकर उसे सुरभि-प्रशायक नूतन विचारराशि देने हैं जिसने मानव का भवित्य विकसित होता है।

यदि इस विचार-सरणि को स्वीकार किया जाय तो जड़ जगत की भाँति मानव की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। जउ प्राकृतिक विधान जैसा ही प्राणी-विधान है तो मानव पुरुषार्थ क्यों करे? स्वतंत्र-चेना, कर्मनिष्ठ मानव को इस विचार से डेव लगती है। इतिहास भी अपने वृष्टों में ऐसे महान पुरुषों के पुरुषार्थ को ध्यानित करता है जो संघर्ष के विनाश के स्थान पर मानवता के मूलयों की प्रतिष्ठा कर गये हैं। धर्मशास्त्रों में अद्वितीय, संयम, शीघ्र, संतोष, तप आदि के उत्तरदेश हिंसा से विरत होने तथा मामधमाव में रहने के लिये ही दिये गये हैं जिससे मानव स्वार्थ पर आधारित संघर्ष से बचे और प्रेमरूपक दूसे मनुष्यों के साथ सहयोग करते हुए जीवन स्यतीत कर सके।

ब्रेद कहता है : यह संसार पत्थरों से भरी सरिता है। अतः सब मिल कर इसे पार कर जाने का प्रयत्न करो। अपने-अपने राग-द्वेष के बोझ को उतार कर रख दो। तभी उस पार का कल्याण हाथ लग सकेगा।

एक चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता। सभी मानव जब सहयोग करेंगे, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तभी कष्टों की सरिता को पार कर सकेंगे। हम सब का समान उद्देश्य है—विपत्तियों से संत्राण। अतः सबको, इस समान शत्रु पर, मिलकर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसके टिए समान मन्त्र, समान मन, समान चित्त, समान संकल्प, समान हृदय, समान प्रयत्न, समान संगति आदि साधनों का प्रयोग करना होगा। दुर्भग से हट कर सौभग की प्राप्ति समिलित प्रयत्न द्वारा सुगमता से हो सकेगी।

इस समिलन के लिये, संघर्ष से हट कर सहयोग की स्थापना के लिये संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। यह संघर्ष वाद्य संघर्ष की व्येहा कठिन भी है। इसमें किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से ही युद्ध करना पड़ता है। अपने अन्तः शत्रु—काम क्रीधादि पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। जो जितना ही अधिक इस आन्तरिक संघर्ष में विजयी होता है, वह उतना ही अधिक दूसरों के मेल में आ जाता है, अन्यों को अपना ही बन्धु समझने लगता है। आरम्भ-प्रथेन सर्वत्र व्यवहार करने लगता है। जो अपने लिये चाहता है, वही अन्यों के लिये। जो वस्तु अपने लिये प्रतिकूल है, उसका आचरण वह दूसरों के लिये कभी नहीं करेगा। आरम्भतः सर्व भूतों में भावना करना, वैसा ही देखना, वैसा ही आचरण करना संघर्ष को ही समाप्त नहीं करता, मानव अभ्युदय को भी सिद्ध करता है।

आयों के ध्यानिक अनुष्ठानों के प्रारम्भ में जो स्वस्तिधाचन तथा शान्ति प्रक भंत्रों का पाठ होता है, वह मानव मात्र के कल्याण की सूचना देता है। यह स्वस्ति तथा शान्ति मैं या सम अर्थात् एक वचन में, एक व्यक्ति के लिये नहीं प्रत्युत नः अर्थात् यदुवचन में है और हम सब, मानव मात्र, के कुशलज्ञम का मार्ग निर्देश करती है। मन्त्रों में मानव ही नहीं, प्राणीमात्र की हित-कामना निवित है। यही उदार दृष्टिकोण हमें सुख पूर्व सौभग्य की ओर ले जा सकता है। निम्नांकित मंत्रों पर विचार कीजिये :—

इन्द्रोविश्वस्य राजति । शन्मोऽस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ।  
 ( यजु० ३६-८ )

परमैश्वर्य-सम्पद प्रभु का राज्य विश्वभर पर है । वे सब के ऊपर विराजमान हो रहे हैं । वे कृपा करें जिससे मनुष्यादि द्विपद तथा पशु आदि चतुष्पद—हम सभी को शान्ति प्राप्त हो । हम सब शान्त, निरुपद्रव वातावरण में रहें ।

प्रशान्त परिस्थिति में ही ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, उद्योग आदि का विकास संभव होता है । संघर्ष नो इन सबका विद्यातक है । कलह, वैचैती, उपद्रव, अशान्त परिस्थिति सभी चिन्ताकुल बनाते हैं । जब चारों ओर भय की, निराशा की, व्याकुलता की भावमा वर्तमान हो, मानव निश्चिन्त न हो, तब वह विवर्णस की विकराल बेला की ही प्रतीक्षा करेगा, निर्माण का कार्य नहीं कर सकेगा । इसीलिये सुधी पुरुष कह गये हैं : 'सुरचित राष्ट्र में ही ज्ञास्व-चिन्तन की प्रवृत्ति हो सकती है ।' मानवता का विकास चिन्ता में नहीं, सुस्थित चित्त की दशा में होता है ।

सनः पवस्य शं गवे शंजनाय शमर्वते । शं राजन्मोधधीभ्यः ॥  
 ( क्र० १११३ साम ६५३ )

प्रभु पवमान हैं, परम पवित्र हैं और हम सबको पवित्र करने वाले हैं । वे हम सब पर द्रवित हों, दया करें जिससे हमारी गोसम्पत्ति, अश्वमम्पत्ति, जन-सम्पदा तथा भोपधियां शान्त, निरुपद्रव स्थिति में रहें ।

गौ से हमें शरीर-पुष्टिकारक दूध मिलता है और दुदिवर्धक घृत । अश्व हमें एक देश से दूसरे देश में ले जाता है और शाशुओं से बचाता है । भोपधियां हमें नीरोग बनाती हैं, स्वस्थ रखती हैं । जनों के मध्य में ही हम रहते हैं । वे ही हमारे सहायक हैं, दुर्घ-सुख में साथ देने वाले हैं । यदि स्वस्ति एवं शान्ति का अभाव हो तो न शरीर पुष्ट होगा, न मस्तिष्क का विकास होगा, न आवागमन होगा और न नीरोगता ही रहेगी । यह स्थिति अवांछनीय है । इसमें मानव का दम धुटता है । वह रह नहीं सकता । विचारशीलता चली

जाती है। मनुष्य का मनुष्यत्व, मनमशक्ति, ही कियाशील न रहे, तो उसका अस्तित्व ही समाप्त है। अतः सभी मन्मथ देश शान्त वातावरण के निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। जो असम्भव देश है, वे ही कलह की ओर सुइते हैं और अशान्ति का केन्द्र बनते हैं। इन्हीं को दस्युदेश की संज्ञा भी प्राप्त होती है। जो उपचय करने वाला है, वहो दस्यु है। वह मानवता का शत्रु है। ऐसे शत्रु का ही युद्ध द्वारा पराभव करना चाहिये। संघर्ष की, युद्ध की आवश्यकता केवल ऐसे ही व्यक्तियों, कबीलों, समाजों और देशों के लिये पड़ती है। विद्वांसकों को विद्वंस कर देने से ही मानवता सुरक्षित रह सकती है और मानवता के सुरक्षित रहने पर ही दिव्यता का आविर्भाव संभव है। अतः पतयालु, विघटनकारी, शोषक तत्वों का उन्मूलन मानवता के उत्थयन के लिये आदरश्यक हो जाता है।

उह शर्म, विस्तृत सुख, मानव-मानव तक पहुँचने वाला अभ्युदय कैसे सम्पादित हो सकता है, इसका विवरण-विवेचन निम्नांकित मंत्र में पाया जाता है :—

अपामीवामप विश्वा मनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामधायतः ।  
आरे देवा द्वेषोऽस्मद्युयोतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये ॥  
(ऋ० १०।६३।१२)

हम रोगों से दूर हों, सभी प्रकार की अनाहुतियों से पृथक रहें, अराति, अदान, शत्रु आदि से बच कर चले, पाप की ओर प्रवृत्त करने वाले दुष्ट धन को पास न रखें और ह्येष को दूर भगा दें। तभी उस व्यापक सुख की स्थिति हमें प्राप्त हो सकेगी जो स्वस्ति की ओर ले जाता है, कल्याण के लिये समर्प होता है।

जो व्यक्ति या जाति रोगी है, उसके पास सुख है ही नहीं। सुखी जीवन के लिये नीरोग बनना पड़ेगा। रोगरहित काया ही सुख का अनुभव कर सकती है। जो रोगों का अहा बना हुआ है, वह न खा-पी सकता है, न चल-

फिर सकता है। उसके दिन दुख में व्यतीत होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपना निर्माण कर ही क्या सकता है? नीरोग होकर ही वह निर्माण के यज्ञ में कुछ आहुतियाँ ढाल सकेगा। किर स्वस्थ होकर भी जो आहुति नहीं ढालता—सामाजिक, नैतिक, पारिवारिक, धार्मिक, आमुदयिक, धार्मिक आदि यज्ञों में जो कुछ भी भाग नहीं लेता, सभी प्रकार से अनाहुत जीवन व्यतीत करता है, वह विकास-पथ पर प्रवाण ही नहां कर रहा है। रोगरहित होना ही आवश्यक नहीं है, नीरोग होकर निर्माण के कार्यों में भी जुटना चाहिये, यज्ञ आयोजनों में भी अपना भाग देना चाहिये। जो इन आहुतियों से बचता है वह याजक नहीं है, यज्ञिय पथ का पथिक नहीं है, वह अपना कुछ बना नहां रहा। स्वस्थ व्यक्ति पथ पर चल सकता है, पर जो चल ही नहीं रहा, किसी भी दिशा में पैर ही भागे नहीं बड़ता, किसी यज्ञ में उपसाहित होकर भाग ही नहीं लेता, वह स्वस्थ होकर भी अविकृमित तथा अनुकूल ही पढ़ा रहेगा।

धब्द स्वस्थ होकर यदि यज्ञ-पथ पर चल पड़े, निर्माण की किसी दिशा में अग्रसर हो गये, अनाहुतियों से बच गये, तो अराति को भी हटा दो, अद्वान-भाव का परिव्याग करो। ग्रहचर्य नीरोग या स्वस्थ बनने की अवस्था है, तो गृहस्थ यज्ञिय बनने का आश्रम है। अर्जन करने में आहुत होना पड़ता है। कर्जन के साथ दान भी चलना चाहिये। समर्पण अन्त में ग्रन्थु की ही है—उसे दांतों से बांधकर मन रखो। जहाँ, जिय जेव में, जिस व्यक्ति के लिये भी काव्यरक ममझो, उसका दान करो। अपने लिये तो कमाई का उपयोग सभी करते हैं, पर जो दूसरों के लिए भी दरता है, उचित पात्र को देतकर जो हाथ पीछे नहीं सिकोड़ लेता, भागे ददाकर अपने सामर्थ्य के अनुकूल देता है, वही वस्तुतः साधिक यज्ञ कर रहा है, अपना विकास कर रहा है, स्वत्ति या कल्याण का भाजन बन रहा है। धन या शक्ति रहते भी जो परोपकार या पर-संत्राण नहीं करता, उनके धन या शक्ति मित्र नहीं शत्रु हो जाते हैं। विकायशील भानव को ऐसे शत्रु से दूर रहना चाहिये।

जो धन न अपने उपयोग में आ रहा है, न मित्रों की सहायता में लग रहा है और न उससे कोई सामाजिक यज्ञिय कार्य ही निष्पञ्च हो रहा है, वह पढ़ा-पढ़ा या तो सहेगा, या धनी को पाप की ओर प्रबृत्त करेगा। वेद कहता है, पाप की ओर ले जाने वाले ऐसे धन से भी दूर रहना चाहिए। एक अन्य स्थान पर कहा है : या मा लचमीः पतयालुरुजुषा अभिचत्कन्द वन्दनेव वृद्धम् । अन्यत्रासमद् सवितस्ता नितोधाः । ( अथर्व ५-११५-२ ) जो लचमी अजुष्ट है, असेवित है, वह पतन की ओर ले जाने वाली है। वह यृत्त पर अमरवेल की भाँति सुझसे चिपक कर ढैठ गई है—मेरा रक्त चूस रही है। मगवान पेसी लघमी को सुझ से दूर कर दे। यह चालनव में लचमी नहीं, दुर्विद्वत् है, दुष्ट धन है जो अधायतः अघ के, पाप के पाश में आवृद्ध करने वाला है। इससे दूर रहने में ही साधक का क्षयाण है।

नीरोग होकर अर्जन किया, दान किया और पाप से भी बचे अर्थात् न दुष्टधन कमाया और न उसे अपने पास रखा, तो जब एक पग और आगे बढ़ना है। यह पग अद्वेष की अवस्था प्राप्त करना है। चानप्रस्थ में इसकी तैयारी हो जाती है और सन्ध्याम् इसके व्यापक व्यवहार का ढेव है, पर सामान्यतः सभी गृहस्थों के कर्त्तव्यों में भी इसका मुनीत स्थान है। द्वेष हमसे दूर रहे, हम सब मिलकर मैत्री भाव से जीवन-यापन करते हुए विकास-पथ पर बढ़े चलें—यही वांछनीय है, श्रेयस्त्रर है। द्वेष का लबलेश भी दोष रहा तो विकास-पथ अवश्य हो जायगा, सुख के स्थान पर दुख अद्वा जमा लेगा, स्वस्ति नहीं, हुरस्ति, हुर्भवन ( Ill-becoming ) अपना अध्यतन बनावेगा और शान्ति नहीं, अद्वान्ति जीवन में व्याप्त हो जायगी।

द्वेष मेरा ध्यान मुझसे हटाकर द्वेष पर केन्द्रित कर देता है। दिन-रात में उसी के अपकार वही बातें सोचता है, उसे जाप देता है, कोसता है, ऐसा मार्ग अपनाता है। विससे उसकी हानि हो। उसकी हानि होगी या नहीं, अपनी हानि तो मैं कर ही रहा हूँ। द्वेष की अग्नि द्वेष्य को नहीं, प्रथम तो सुने ही जाता है। साधारण मानव ही नहीं, बड़े-बड़े साधक भी इसकी लपटों से

शुलकते देखे गये हैं। द्वेष अहंकार का ही पुत्र है। इससे बचना विरले वीरों का ही काम है। एक याजक दूसरे याजक से ह्रेष करता है। एक दानी दूसरे दानी को प्रतिस्पर्धा एवं ईर्ष्या से देखता है। एक आदर्शवादी अपने सिद्धान्त को मान देता हुआ दूसरे के सिद्धान्त को हेय भिन्न करता है। पूँजीवाद साम्यवाद पर और साम्यवाद पूँजीवाद पर आरोपों की शब्दी लगा देता है। द्वेष के विविध रूपों की यह बौद्धार मानव को कहीं का नहीं रहने देती। उसकी समग्र-साधन-सफलता पर पानी फिर जाता है। द्वेष का यह विकटरूप द्वेष को जन्म देते समय साधक के ध्यान में भी नहीं था। इस द्वेष की समाप्ति पर ही सुख का उदय हो सकता है। यही सुख शर्म है, वास्तविक ब्राह्मणों, शर्मीओं, में निहित सुख है। इसी से स्वस्ति प्राप्त होती है।

मंत्र में स्वस्ति की सिद्धि के लिये जिस साधन-क्रम का उप्लेख हुआ है, वह मूल्यवान है और ध्यान देने के बोग्य है।

इस सम्बन्ध में आश्रमों की ओर हम संकेत कर चुके हैं। शर्म या सुख-शान्ति के मार्ग में वैसे भी शोग, अदान, शत्रुवर्ग, अवज्ञियता, पापप्रवृत्ति तथा द्वेषभाव विघ्नरूप हैं। इनसे हटकर ही मानव वस्तुतः सुखी हो सकता है। विशुद्ध वर्ण दृष्टि से विचार करें तो अनमीवता आरोग्य तथा लम्बी आयु का प्रतीक है। शूद्र अर्थात् सामान्य स्तर के मानव को लम्बी आयु अच्छी लगती है, पर तभी जब काया नीरोग रहे। इसे सुख की आधार-भूमि कहा जा सकता है। अदान से दूर रहना अर्थात् दान, आहुति या त्याग की प्रवृत्ति उत्पन्न करना तभी संभव है जब आपके पास देने के लिए धन हो। वर्णों में धनार्जन की वृत्ति वैश्य की है। शत्रुवर्ग को दूर करने के लिये चत्रिय वर्ण की आवश्यकता है। अवज्ञियता तथा पाप-प्रवृत्ति से हटना तीनों क्या चारों वर्णों के लिये आवश्यक है। द्वेषभाव से ब्राह्मण वर्ण को विशेष रूप से पृथक रहना है। अन्य सान् वर्ण इससे बच नहीं सकते, पर ब्राह्मी वृत्ति तो इसको दूर किये विना सम्पादित हो ही नहीं सकती। अतः शर्म तक, ब्राह्मणत्व तक, पहुँचने के लिये भी उत्तिष्ठित साधन-क्रम अतीव मूल्यवान है।

इसी विषय के नीचे हो मंत्र और दिये जाते हैं :—

स्वति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति ।

स्वस्ति नः पुञ्च कृयेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतोद्यातन ॥

स्वस्तिरिद्दि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्वत्यभि या वाममेति ।

सा नो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥

( श० १०६३-१५, १६ )

हे मरुतो, तुम मर्त्यमानव की रक्षा करने वाले हो, उसके सहायक हो । यह मानव अपनी जीवन यात्रा में कभी निर्जन, वीरान, जलविहीन मरुभूमि में भटकना है और कभी आपोमय समुद्रों की सैर करता है । इसे कभी वजित, भोपग, कण्टकाकीर्ण वृजनों के हुखदायी दृश्य देखने पहते हैं, तो कभी स्वर्ग के दिव्य एवं दर्शनीय, मधुभरित, अमृत आवास भी सामने आ जाते हैं । ये सब मानव की अपनी रचना हैं, उसी के लिये हुए सुहृत एवं हुफ्कत का परिणाम हैं, अपना ही कर्म-विपाक हैं । कुछ देवी भी योनियाँ हैं, मुखन हैं जो उसकी संतति द्वारा निर्मित हैं । इन सभी भुवनों में तुम हमारा कल्याण करो जिससे हमें पैशवर्य प्राप्त हो, पैशवर्य की सबसे बड़ो निधि मीज प्राप्त हो ।

हमें स्वस्ति मिले, पथ में, प्रपथ में श्रेष्ठ, रेक्णस्वत्ती, धनवती, पैशवर्यवती स्वस्ति ही प्राप्त हो—ऐसी स्वस्ति जो हमें बननीय, भजनीय, सेवनीय उत्तम मुक्तावस्था को प्राप्त करा दे । हम चाहे घर में हों, चाहे अरण्य में, वह सुन्दर भावेशों वाली, प्रेरणा-प्रदायिनी, भाव-भरिता, देवगोपा, दिव्यता की रक्षिका स्वस्ति ही हमारा सब प्रकार से पाठ्न और रघ्न करे । वह हमारी अ = मा, अनैश्वर्य, दरिद्रता को अरण में, कान्तर में गिरा दे और हमारे अन्दर प्रविष्ट होकर, अपना आवेश बनाकर, हमारे देवत्व को गोपन-संरक्षण दे । देवत्व में ही समरसता है, संघर्ष से सुरक्षा है । स्वस्ति-वाचन तथा शान्ति-पाठ इसी के उद्देश्योन्नाम, जागरण एवं समावर्तन के लिये किया जाता है ।

## शान्ति का धारा

शब्द ब्रह्म और परब्रह्म की जब चर्चा की जाती है, तब एक से पुरन्धि से रायः पर्यन्त अथवा महत्त्व से पाञ्चमीतिक सामग्री तक का अभिग्राय लिया जाता है और द्वितीय से परात्पर शक्ति का। पुरुषसूक्त ने प्रथम को पुरुष पाद, और द्वितीय को त्रिपाद की संज्ञा दी है। एकपाद के दो भेद हैं। कोई इन्हें चेतन और जड़ कहते हैं, कोई जगत और तस्थुप, कोई प्राण और रथि, कोई आकृति और सामग्री, कोई मस्तिष्क या बुद्धि और रायः अथवा धन। एक पाद द्विविध है—ऐसा पग-पग पर अनुभूत होता रहता है। मेरे अन्दर ही शरीर है और शरीर का संचालक है। निरा शरीर मिट्टी है, सामग्री मात्र है। संचालक की स्थिति इसे सजीव बना रही है और हाथ में लेखनी पकड़ा कर लेख लिखा रही है। जड़ और चेतन के इस युग्म-एकपाद के ऊपर त्रिपाद है, पर ब्रह्म है जो युग्म में से एक का आत्मा तथा दूसरे का प्रेरक है, एक का धारक तथा दूसरे का शासक है, एक को बहुधा करने वाला तथा अपर की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, एक का जनिता तो दूसरे के कर्मों का अध्ययन है।

सामग्री को विशिष्ट आकृतियां देना चेतन का काम है। इस सामग्री के प्रथम तीन भेद होते हैं:—महत्त्व, अहंकार और पञ्चतन्मात्र। महत्त्व से बुद्धि तथा अहंकार से मन उत्पन्न होता है। पञ्चतन्मात्र से पांच ज्ञानेन्द्रियों, पांच कर्मेन्द्रियां और पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं। यही सामग्री है जिससे ब्रह्माण्ड की रचना होती है। इस सामग्री के परम तथा अवम अथवा श्रेष्ठ और कनिष्ठ दो रूप हैं। बुद्धि श्रेष्ठ है, चर्म कनिष्ठ है। वीर्य श्रेष्ठ है, परम है, अनन कनिष्ठ है, अवम है। चेतन के हाथ में पड़ कर यह सामग्री पवित्र तथा अपवित्र बनती रहती है। अनन शुद्ध तथा अशुद्ध और पवित्र तथा अपवित्र है तो बुद्धि भी पापमयी, प्रमादमयी तथा पुण्यवती पूर्व प्रेरणा-

घती कही जाती है। सामग्री तो कुछ कहती नहीं, चेतन ही कहता और किया करता है।

उद्वच कोटि की सामग्री भग कहलाती है। भग का अर्थ है भजनीय अथवा सेवनीय। इसे साधकों ने छः भागों में विभाजित किया है : समग्र पैश्वर्य, वीर्य,<sup>१</sup> यश, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य। प्रथम चार विशुद्ध सामग्री के अन्तर्गत हैं, ज्ञान गुण है तथा वैराग्य भाव है। भाव, गुण तथा उपलब्ध सामग्री का थ्रेप्ट रूप भग है। निमांकित मंत्र में भग के इस स्वरूप को प्रकट किया गया है :—

**भगप्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमांधियमुद्वाददन्तः ।**

**भग प्रणो जनयगोभिरश्वैः भग प्र नृभिर्नृवन्तः इयाम ॥**

( ऋ० ७-४१-३ अयर्वं ३-१६-३ यजु० ३४-३६ )

भग आरो ले जानेवाली है, सत्य की सिद्धि या सफलता देने वाली है, बुद्धि-प्रदात्री है, उत् = ऊपर से, अवा = रक्षण करने वाली है अथवा ऊर्ध्व दिशा का द्वार उन्मुक्त करती है, गौओं ( हन्दियशक्ति ), अश्वों ( प्राणशक्ति ) तथा नरों ( नेतृत्व शक्ति ) से संयुक्त करके हमें नृवन्त बनाती है। आगे ले जाना वीर्य का काम है, सफलता यश है, धी में ज्ञान है, ऊर्ध्व दिशा के उन्मुक्त होने में वैराग्य है, गो तथा अश्व में पैश्वर्य है और नरस्व में श्री है।

निमांकित मंत्र पर भी ध्यान दीजिये :—

**भगपृथ भगदां अस्तु देवास्तेन धर्यं भगवन्तः इयाम ।**

**तं त्वा भग सर्वं इज्जोहवीति स नो भग पुर एता भवेह ॥**

( ऋ० ७-४१-५ अयर्वं ३-१६-५ यजु० ३४-३८ )

<sup>१</sup> कहीं कहीं वीर्य के स्थान पर धर्म है। जीवन में दोनों ही प्रेरक तत्व हैं। इसकी विशेष व्याख्या हमने 'वैदिकनिबन्धावली' के पड़गुणसम्पत्ति शीर्थक निबन्ध में की है।

भग से ही मनुष्य भगवान् बनता है, हम भी इससे भगवान् बनें। हे भग ! सब कोई तुम्हारा ही आङ्गान करते हैं। अतः तुम मेरे आगे यहाँ उपस्थित रहो।

भग अदिति के उन आदित्य देव को धारण करने वाली है। दिव्यता में भग है। मानव को देवपद प्राप्त करने के लिये भग का ही आश्रय लेना पड़ता है। ऊर्ध्व गति इसी के द्वारा सम्पन्न होती है। इसीहेतु भग को श्रेष्ठ सामग्री कहा गया है।

यह भग हमें शान्ति की ओर ले चले। यह श्रेष्ठ सामग्री हमारे जीवन में विच्छोभ उत्पन्न न करे। यदि हम इसे पाकर विचलित, उत्सेजित या चुद्ध हो उठे, तो इसके आधीन हो गये। इसने हमें दबा लिया। हमारी स्वनन्दनना छिन गई। स्वाधीन न रहना, दूसरे के दबाव में आ जाना, दुख का कारण है। 'पराधीन सपनेड सुख नाहीं'—'सर्वं परवशं दुःखम्'। आत्मवशता, स्वाधीनता, स्व में स्थित रहना ही सुख है, आनन्द है। भग आवे, पर हमें पराधीन न बना दे। इससे हम दिव्यता की ओर प्रयाण करें, प्रकाश में विचरण करने के योग्य बनें, विच्छोभ से हट कर प्रशान्त अवस्था की ओर चलें, इसी में कल्याण है।

उद्देश उद्दिग्न करने वाले हैं। स्थिनोज्ञा इसीलिए उद्देशों के आधीन हो जाने को दुखद स्थिति का नाम देता है। भग, जीवन की सर्वश्रेष्ठ सामग्री, उद्देशों को दूर करती हुई, दिव्यता का, प्रकाश का, पोषण करती है। यह प्रकाश हमें शान्ति की ओर ले जाता है। यहाँ भग हमारे लिये शान्तिदायक हो, वहाँ उसका शंसन, कथन, स्तुति, व्यावहारिक प्रयोग भी शान्ति दायक होना चाहिये। भग का प्रभाव हम तक ही सीमित है, पर उसका शंसन दूसरों को भी प्रभावित करता है। अन्य मानव भी भग के महत्व को हृदयंगम करें और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करें, मैं भी शान्त बनूँ और अपने शंसन तथा व्यवहार द्वारा दूसरों को भी इस पथ का पथिक बना दूँ, यही इस शंसन या स्तुति का रहस्य है। समाज में रहना है तो 'संगच्छच्वं' सिद्धान्त का

पालन करना, चाहिये। समाज का यदि एक घटक शान्त है, दूसरे घटक अशान्त एवं उपद्रवी हैं, तो एक घटक की शान्ति भी स्थिर नहीं रह सकती। सामाजिकता का भाव ही सहकार और सहयोग है। शंसन में इसी सहयोग का अन्तर्भुव है। पर यह शंसन शान्ति की ओर ले चले। ऐसा न हो कि शंसन दर्प या अभिमान से संयुक्त होकर कहने तथा सुनने वाले दोनों ही के लिए अहितकर सिद्ध हो; दोनों को शान्ति से हटा दे, पतित कर दें। हमारी श्रेष्ठ सामग्री इसे श्रेष्ठ बनावे और उसका प्रयोग भी इसे श्रेष्ठता की ओर ले चले। हमारी श्रेष्ठता दम्भ में परिणत न हो, दूसरों की ईर्ष्या का कारण न बने। श्रेष्ठता श्रेष्ठता ही रहे—अपने स्वरूप में भी और शंसन में भी, उपलब्धि में भी और प्रयोग में भी, स्वहित अर्थात् वैयक्तिक रूप में भी और व्यवहार में भी—तभी सामुदायिक भद्र की संभावना है। वेद एक के ही नहीं, सब के कल्याण का इच्छुक है। उसकी पदावली में 'मैं' भी है, पर 'नः' की अधिकता है। गायत्री मंत्र जो वेदमाता का सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है, 'धियो योनः प्रचोदयात्' कहता है। मेघामेवस्थोदातु में 'मैं' भी है, पर अन्यत्र बाहुल्य 'नः' का ही है। स्वस्तिवाचन तथा शान्ति प्रकरण के मन्त्र इस विषय में ध्यान देने योग्य हैं।

भग और उसके शंसन के उपरान्त प्राण शक्ति आती है। यही दोनों के प्रयोग तथा उचित व्यवहार की साधिका है। इसके अभाव में न श्रेष्ठ सामग्री का कोई उपयोग है और न उसके शंसन या कथन का। प्राण आत्मा की शक्ति है। आत्मप्रकाश के साथ ही इसका विकिरण होता है। शरीर को यही धारण करती है। अतः इसे पुरन्धि भी कहा जाता है। शरीर पुर है। इसका आधार प्राण है। पुरन्धि शरीर रूपी पुर की धारिका है। प्राण शक्ति है तो शरीर भी टिका है। प्राण है तो सामग्री का उपयोग भी हो रहा है। प्राण है तो मुख से बचन भी निकल रहे हैं, प्राण है तो प्राणी का समाज से भी सम्बन्ध है। प्राण नहीं है, तो उन्नयन, विन्यता की ओर प्रयाण तो जहाँ तहाँ, शरीर रूपी साधन ही व्यर्थ हो जायगा। प्राण

के रहते ही साधन का प्रयोग हो सकता है, प्रथन किया जा सकता है, उत्थान की ओर बढ़ा जा सकता है। प्राण शक्ति प्राणी का सर्वस्त्र है। यह प्राण शक्ति भी, पुरन्धि भी, हमारे लिये शान्ति का हेतु बने।

प्राणवान व्यक्ति चाहे तो अपने बल से अत्याचारों की आंधी खड़ी कर दे और चाहे तो दीन दुखियों का ब्राण करता हुआ समाज में मंगल की वर्षा कर दे। शक्ति का प्रयोग पर-पीडन और आत्मरचन दोनों रूपों में हो सकता है। पहले रूप में वह प्रयोक्ता तथा प्रयोज्य दोनों के लिये हानिकारक है, दोनों को ही दुख में डुखोने वाला है। दूसरे रूप में उससे दोनों ही सुखी होते हैं, दोनों का हितसाधन होता है। जिससे प्रयोक्ता का यह लोक तथा परलोक दोनों सिद्ध होते हैं, उसे छोड़ कर वह शक्ति के दृष्टिप्रयोग की ओर क्यों अग्रसर होता है? वह कल्याण के स्थान पर अकलेयाग का भाजन क्यों बनता है? वह क्यों अपने ही पैरों में कुलहाङ्घो मारता है? क्यों दूसरों को ध्यायित करता है? उसे अपना तथा दूसरों का भला क्यों दिखाई नहीं देता? श्रुति कहती है—‘उताष्टणन् मर्दितारं न विन्दते’—जो दूसरों को दुखी करता है, वह स्वयं भी सुखी नहीं रह सकता। उसका स्थान बृजन है, नरक है, स्वर्ग नहीं। नारकीय कीदा बनना है, तो पुरन्धि का, प्राण शक्ति का दुरुपयोग कर लो। स्वर्ग के दर्शन करने हैं, दिव्यता के प्रकाश में अमृत का उपभोग करता है, तब तो प्राणशक्ति को, पीड़न से हटा कर, प्रीणन की ओर प्रवृत्त करना होगा, दर्प से घचा कर नन्दना की ओर मोड़ना होगा, कलह को छोड़ कर शान्ति-प्राप्ति में प्रवृक्ष करना होगा।

थ्रेष सामग्री, थ्रेष प्रयोग तथा प्राणशक्ति के अतिरिक्त हमारे चारों ओर सामान्य सामग्री भी भरी पढ़ी है। साधारण ही नहीं, उच्च कोटि के प्राणी भी इससे अभिभूत रहते हैं। उच्च कोटि की सामग्री प्रयत्नप्रसूत होती है, पर सामान्य सामग्री तो सहज प्राप्य है। ज्ञान और वैराग्य के लिये, चीर्य और यज्ञ के लिये, ऐश्वर्य और श्री के लिये साधना करनी पड़ती है, पर शारीर तो प्रभु ने दे ही दिया है, फल-अज्ञ-जल प्रभूत मात्रा में इस वसुधा पर विखरे

पढ़े हैं। गंगा-डेन्यूब-मिसीसिपी के साथ, वर्षा सरोवरों को भी जल से भर देती है। मैदान में सर-सरितायें हैं, तो पर्वत पर झरने हैं, कान्तारों में शील तथा सोते हैं, उच्च श्रेणी के फल भी हैं, न हों तो हार्डेरियाँ, कन्द तथा मूल तो हैं ही। यह सब सामान्य सम्पत्ति है, बसुन्धरा विश्वभरा भगवती का अनन्त धन है—किसी की तिजोरी में बन्द नहीं, उन्मुक्त आकाश के नीचे सब के लिये उन्मुक्त, निर्बन्ध, चौड़े में खुला पड़ा हुआ। पर यह सम्पदा भी मानव के संघर्ष का कारण बन जाती है, उसे शान्त और सुखी नहीं रहने देतो। स्वार्थ-लिप्सा उसे आवश्यकता से अधिक सामग्री को स्वायत्त करने के लिये वाध्य कर देती है और परिणामतः मानव स्वार्थ में चांदा पढ़ते ही, कठोरता के कम्तुक एवं परस्पर रक्त-पिपासु बन जाते हैं।

शान्ति के इन शब्दों से कौन कहे कि जिस सामग्री को तुम्हारे हाथ एकत्र करके घर के अन्दर भर रहे हैं, वह वहीं रह जायगी। मृत्यु के उपरान्त तुम उसे साथ नहीं ले जा सकोगे। जो न तुम्हारे उपयोग में आ सकी और न जिसका तुमने दूसरों को उपयोग करने दिया, न जिससे तुमने स्वयं सुख उठाया और न दूसरों को उठाने दिया, वह तुम्हारी तो वहीं नहीं, तुम्हारी भी भी नहीं, किर यह उत्तीर्ण किसलिये? यह संग्रह किसके लिये? यह आपाधापी क्यों? श्रुति कहती है, प्रभु की यह सामग्री, यह सम्पदा, यह धन हमारे लिये शान्तिदायक हो। इसके लिये हम कलह के केन्द्र न बनें, कन्दन के कारण न बनें, शान्ति के बाधक न होकर, साधक बनें।

शान्ति के इस बातावरण को जन्म देने के लिये हमें सत्य तथा संयम की अपनाना होगा। जहां हमारी सामग्री सत्य तथा संयम पर आधारित हो, वहाँ उसका शांसन, व्यवहार भी सत्य तथा संयम का साधी बने। न हम असत्य के बल पर ऐश्वर्यशाली होने का उद्योग करें, दूसरों को घोखा देकर, उनका पेट काट कर श्री-सम्पत्ति बनें और न असंयमपूर्वक उसका उपभोग हो करें। हमारी प्राणजक्षिं भी सत्य तथा संयम का अनुगमन करे। वह असत्य तथा उच्छृङ्खलता से दूर रहे। यदि हमने सत्य तथा संयम का अंचल पकड़ लिया, तो हम सामग्री

का सदुपयोग करते हुए उन्नति-पथ पर निश्चिन्त रूप से आगे बढ़ सकेंगे। सत्य तथा संयम में बढ़ है, असत्य तथा अमंयम में हास है, शक्ति का पतन है। निर्वल पृथ्वी अशक्त इस संसार के संघर्ष में पिस जाते हैं, बलवान् संयमी ही सत्य का आश्रय लेकर यहाँ बच पाते हैं और विजयी बनते हैं। सत्य और संयम उत्थान की आधार शिला हैं। प्राण भी हन्हीं से प्राणवान् बनता है, अपनी शक्ति प्राप्त करता है।

श्रुति हमें यहाँ भी सावधान करती है। सत्य और संयम आधार शिला हैं, इसमें सन्देह नहीं, पर जैसे धन, प्राण तथा सामग्री हमें पथ-अष्ट कर सकते हैं वैसे ही सत्य और संयम भी। जैसे धन का मद है, धन का नशा है, वैसे ही सत्य और संयम भी सुरा का रूप धारण कर सकते हैं। जब मानव अपने सत्यशंसन पर अभिमान करने लगता है, अपने संयम का बड़ा चड़ा कर मूल्यांकन करता तथा दूसरों के समन्वय प्रदर्शन करता है, तब वह वास्तविकता से स्वयं विचलित होता है तथा दूसरों की आँखों में खटकने लगता है। यह उसका पतन है, उत्थान नहीं। इससे वह स्वयं तो अच्छ होता ही है, समाज भी उसके गर्व से असहनशील होकर आन्तर्पथ का अनुसरण कर सकता है। नारद की एक बार अपने ब्रह्मचर्य रूप संयम से इसी प्रकार गर्व हो गया था, युधिष्ठिर भी वडे सत्यवादी बनते थे, पर दोनों ही ढूँढे गये। श्रुति कहती है, सत्य का आश्रय लो, संयम से काम लो, पर उनका शंसन शान्ति का प्रसार करे, कोलाहल का नहीं। डिंडोरा पीटने से भी शक्ति का चय होता है और सत्य तथा संयम का अति-रंजित रूप भी विनाश का कारण बनता है। हमें शान्ति उपलब्ध करती है, उपद्रव नहीं; समरसता की ओर बढ़ना है, विप्रमता की ओर नहीं।

यदि मार्ग में पग-पग पर ठोकर लगने का भय है, उच्च कोटि का गुणाधान, प्राण की पुष्टता, सामान्य सपदा की उपलब्धि, सत्य और संयम का शंसन आशंकाओं से आक्रान्त हैं, तो साधक कहाँ से आश्वासन प्राप्त करे? वया वह निराश होकर प्रयत्न करना छोड़ दे? नहीं, ऐसा नहीं है। आश्वासन का

स्वोत तो साधक के अन्दर ही विद्यमान है। वह निराश हो ही नहीं सकता। वह जानता है, अर्यमा पुरुजात हैं। वे शान्ति प्रदाता हैं। लाख आशंकायें आयें, भय और निराशायें छा जायें, पर मैं पथ पर चल रहा हूँ तो अर्यमा देव मुझे पार लगा ही देंगे। भयावह आशंकाओं के बीच में, कलह और कोलाहल के बातावरण में वे ही मुझे शान्ति देंगे।

अर्यमा अर्य का, श्रेष्ठ का, न्याय्य का समर्थन करने वाले हैं, उसे मान देने वाले हैं। वे पुरुजात हैं, बहुतों में प्रसिद्ध हैं, अनेकों में प्रकट हो जुके हैं। मेरे लिये भी वे प्रकट होंगे, प्रख्यात होंगे। उनका प्रत्याख्यान करने का साहस किसी में भी नहीं है। उनकी न्याय-पद्धति अप्रतर्प्य है। उन जैसा न्याय-कर्ता अन्य कोई नहीं है। वे ही मुझे सत्पथ पर अग्रयर करें, मेरी सामग्री, मेरी प्राणशक्ति, मेरी स्तुति को शान्तिमयी, मंगलमयी, कल्याणमयी बनायें। वे ही मुझे शान्ति दें। वे परम शान्त हैं, समरस हैं, मुझे भी विचोभ से बचायें, उद्घिन्नता से हटायें और अपनी प्रशान्त गोद में स्थान दें। सत्य और संयम मेरे उपकरणों को पवित्र करें, प्राण को प्रतिष्ठित करें, कथन को निर्मल करें और अर्यमा भगवान् मुझे शान्ति धार्म में पहुँचा दें। जीवन याद्रा में इसी वरदान की आकांक्षा है।

ऊपर जो कुछ लिखा गया है वह निम्नांकित मंत्र की ध्याय्या मात्र है—

ॐ शन्नो भगः शमुनः शंसोऽस्तु,  
शन्नः पुरन्विः शमु सन्तु रायः ।  
शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः ।  
शन्नो अर्यमा पुरुजातोऽस्तु ॥

( क्र० ७-३५-२ अथ० १९-१०-२ )

भगः हमारे लिये शान्ति दायक हो, उसका शंसन, कथन हमारे लिये शान्तिप्रद हो, पुरन्विः ( शरीर को धारण करने वाली प्राणशक्ति ) हमारे लिये शान्तिमयी हो, रायः ( धन-सम्पद ) हमारे लिये शान्ति का बातावरण प्रस्तुत

करें, सत्य और सुयम (संयम) की प्रशंसा हमें शान्ति की ओर छे चले, पुरुजात अर्यमा (बहुत्व-नामात्व में प्रकट, प्रत्यात न्यायाधीश परमात्मा) हमारे लिए कल्याणकारी हों। ऐहिक तथा आसुभिक स्थितियाँ दोनों ही हमारा कल्याण-साधन करें। शरीर-सम्पदा के साथ जो निर्वाह के साधन हों, वे शान्तिप्रद हों और यहाँ के कार्यकलाप का जो फल न्यायाधीश प्रभु हमें दे वह भी हमारे लिये शान्तिप्रद हो। शब्द वद्वा तथा परब्रह्म उभय द्वे नें की शान्ति हमें प्राप्त हो।

---

## ज्ञान

परम प्रभु ज्ञान स्वरूप हैं, प्रकृति सत मात्र है—जब हैं, जीव अवपन्न है। अतः ज्ञान प्राप्त करने का प्रश्न न ईश्वर के सम्बन्ध में उठता है, न प्रकृति के। ज्ञान का प्रश्न केवल अवपन्न जीव के लिये है। वह चीच में है और उसे दोनों का ज्ञान प्राप्त करना है। उसे प्रकृति को भी समझना है और प्रभु को भी। यह ज्ञान ही एक के त्याग तथा दूसरे के ग्रहण में परिणत हो जाता है।

प्रकृति और प्रभु दोनों ही जीव के निकट हैं। एक का आधय लेकर वह प्रपञ्च में पड़ता है, दूसरे का आधय लेकर इस प्रपञ्च से मुक्त होता है। ज्ञान इस मुक्ति का प्रमुख साधक है। किसी वस्तु का सम्बन्ध ज्ञान ही उस वस्तु के स्वीकार या निषेध का कारण बनता है। जब प्रपञ्च की निस्सारता जीव के समुख प्रत्यक्ष हो उठती है, तब वह उसे हेय जानकर त्याग देता है। प्रभु वरणीय है, स्वीकरणीय है, उपासनीय है, भजनीय है—ऐसा ज्ञान ही जीव को प्रभु की ओर ले जाता है।

आचार्यों ने ज्ञान तथा विज्ञान में अन्तर किया है। ज्ञान वह है जो जीव को परिधि से हटाकर केन्द्र की ओर ले जाता है। विज्ञान केन्द्र से परिधि की ओर ले जाने वाला है। विज्ञान बहुत एवं नानारूप का विश्लेषण है, ज्ञान प्रभु की उपलब्धि है। ज्ञान के साथ वि उपसर्ग का संयोग उसे वैपरीत्य या वैविद्य से संयुक्त कर देता है। संसार में वैपरीत्य तो है ही विविधता भी पर्याप्त जात्रा में है। फिर बहुत एवं नानारूप भी है। एक ही श्रेणी की क्लेक वस्तुयें हैं और विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं का भी बाहुल्य है। इन सबको जानना और समझना विज्ञान का काम है। वैसे ज्ञान विज्ञान में भी द्विषा पढ़ा है, पर आचार्यों की विभेदक दृष्टि ने पारिभाषिकता की सुव्याप्ति के लिए दोनों के द्वेष पृथक्-पृथक् कर दिये हैं। हम यहाँ ज्ञान को दोनों ही द्वेषों के लिये प्रयुक्त करेंगे।

ज्ञान का प्रारम्भ बाल्यावस्था में घर से ही हो जाता है। विशेष शिक्षण के लिए विद्यालयों में प्राच्यापकों तथा आचार्यों की शरण लेनी पड़ती है। विद्यालयों से पृथक होने पर सब से बड़ा विद्यालय या शिक्षा देने वाला स्थल संसार है, व्यवहार है। जो बात विद्यालय भी नहीं बना सकते, जो ज्ञान आचार्यों से भी नहीं मिल पाता, उसे संसार का व्यवहार सिखा देता है। नीचे लिखे मन्त्र में ज्ञान के उन उपकरणों तथा साधकों की ओर संकेत है जो विद्यालय से सम्बन्ध रखते हैं :—

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धथवाः स्वस्ति नः पूषाविश्ववेदाः ।

स्वस्ति नस्ताद्यर्थो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥

इस मन्त्र का देवता विश्व देवाः है। वैसे तो प्रत्येक मन्त्र कई दिशाओं का ज्ञान देता है, पर इस मन्त्र का तो देवता ही विश्व की दिश्य शक्तियों की सुति कर रहा है। ज्ञान विश्व की सर्वश्रेष्ठ दिश्य शक्ति है। स्वस्ति की आवश्यकता भी सभी हेत्रों को है, पर ज्ञान-ज्ञेन्द्रि-विद्यालयों को तो इसकी महत्वी आवश्यकता है। जहां स्वस्ति नहीं, स्वस्थता नहीं, वहां कोई प्रगति नहीं हो सकती। शिक्षा-हेत्रों में स्वस्ति होगी तो विद्यादान तथा विद्याग्रहण का कार्य सुचारू-रूप से सम्पादित हो सकेगा। आज के विद्यालयों का बानावरण दूषित है। विद्यार्थियों की अनुशासननहीनता, प्राच्यापकों की कर्तव्य-विमुखता, प्रबन्धकर्तृं समितियों की अर्थ-लिप्सा तथा समाज की वाणिज्यवृत्ति को देखकर सुधीजन घर्तमान पूर्व भवित्व दोनों के विषय में शंकालु होने लगे हैं कि हम क्या हो गये हैं और क्या होने जा रहे हैं। अपवाद सभी कालों, सभी देशों तथा सभी जेत्रों में होते हैं, ज्ञान के हेत्र में भी हैं। सच्चे विद्यार्थी, दायित्व का निर्वाह करने वाले प्राच्यापक तथा पवित्र प्रबन्धकर्ता भी हैं, पर इस समय बाहुल्य अस्वस्ति, अस्वास्थ्य तथा अश्लीलता का ही है।

मन्त्र में प्रार्थना है कि वृद्धथवाः इन्द्र हमारे लिये स्वस्ति प्रदाता बनें। विश्वदेवा पूषा, अरिष्टनेमि ताद्यर्थ तथा वृहस्पति भी हमारे लिये कल्याण-कारक हों।

इन्द्र कौन है ? इसका विशेषण वृद्धधर्वा संकेत करता है कि यह बहुत अवण करने वाला विद्यार्थी है । इन्द्र आत्मा है, इन्द्रियों को संयम में रखने वाला ब्रह्मचारी है जो ब्रह्म अर्थात् ज्ञान में विचरण करने वाला है । वैये तो यस्कुन जीव जन्मजन्मान्तर से ध्रवण के अभ्यासी होते हैं, परं विद्यार्थी अवस्था में तो उन्हें विशेष रूप से ध्रवण का आश्रय लेना पड़ता है । जो विद्यार्थी जितना ही अधिक और तन्मयता पूर्वक अपने प्राध्यापक को सुनता है वह जीवित अथवा स्तरगीय ज्ञाननिधियों के संरक्ष में उनको हृतियों द्वारा आता है, वह उतना ही अधिक ज्ञानो वनता है । वृद्धधर्वा इन्द्र हो, बहुश्रुत विद्यार्थी हो अवस्थित का साधक है, अहंश्रुत नहीं । अहंश्रुत से नो वेद, ज्ञान भवभोन होता है कि कहीं यह उसे मार न डाले, अस्वस्ति की अवस्था न उत्थन कर दे ।

आत्मा इन्द्र को धरना विपरिचन रूप सार्थक करना है, तो उसे वृद्धधर्वा वनना पड़ेगा । तभी वह इस मरणशील तथा ज्ञान-रहित शरीर में ज्ञान का प्रवाप तथा जोवन उत्पन्न कर सकेगा और असुन्दर को सुन्दर बना सकेगा । विद्यार्थियों को ज्ञान-देवियों की तो सेवा करनो ही नहीं चाहिये । ज्ञान में वर्षमान तथा शिवा-प्रेमियों की सेवा ही उन्हें विपरिचन बता सकता है । विद्यार्थी के चक्र, ओङ्कर तथा मन उम्मुक्ष हों, जिसे पूर्णप्रह में बद न हों । उसकी याजी मधुर तथा संयत हो । तभी वह ज्ञान का अर्जन कर सकेगा । विद्यार्थी विद्या का अर्थ है, ततुशुभ्रता का नहीं, शरीर को सक्रावट का नहीं । उसे सरसे हटकर विद्या की संगति करतो है । प्रभु ने उसे सर्वग्रामि दिये हैं जो निरन्तर ज्ञानसून के सिन्धु में दुवकी मारकर ज्ञान के विन्दु उसके लिये ला रहे हैं । सारस्वत सिन्धु के देव विन्दु मन के विद्वोभ, अन्तःकरण के चान्द्रशम्य के लिये स्नेहमय मरहम का काम करते हैं । विद्यार्थी ब्रह्मचारी है, ज्ञान में विचरण करने वाला है । उसे ज्ञान की खोज में तपस्वी बनता है । तभी वह तप द्वारा अपने आचार्य और आचार्यों के भी आचार्य प्रभु को तृप्त कर सकेगा । विद्यार्थी को जिज्ञासु तो होना ही है । जिज्ञासा ही उसे ज्ञाननिधियों

के पास ले जायगी। उसे अप्रदर्शित, अहंकारशून्य होकर विनयभाव से अपनी जिज्ञासा उपस्थित करनी चाहिये। अभिमानी ज्ञान के खेत्र में ठोकरें खाता है और ज्ञान-प्राप्ति से बहित रह जाता है। प्रहण तो सब अपने-अपने मानसिक सामर्थ्य के अनुकूल ही करते हैं, पर विनयशीलता से, नन्दना से प्रहण-शक्ति वह जाती है। उसे सत्य तथा अनृत में विवेक करना चाहिये, सत्य के प्रहण करने में श्रद्धा रखनी चाहिये और अनृत के छोटने में सदैव तत्पर तथा उद्यत रहना चाहिये। सत्य ज्ञान की ज्योति जिसके अन्दर जगने लगती है, उसके शोक और दुःख दूर हो जाते हैं। ज्ञान का क्षवच पहन कर वह समस्त प्रतिस्पर्धियों, द्वेषियों को मार भगाता है, जीवन-समर में विजयी बनता है और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। वह वीर्य, इन्द्रियशक्ति तथा सत्य के तेज से मणित हो महिमामय लोकों में विचरण करता है।

विद्यार्थी को मधु-मत्तिका बनना है। जैसे मधु-मत्तिका मधु को घेर कर बैठ जाती है, वैसे ही विद्यार्थी को ज्ञान-निधान, विद्या के सागर आचार्यों की सललीन होकर सेवा करनी चाहिये। सूखी लकड़ी जैसे अपने आपको अग्नि के सामने समर्पित कर देती है और आगेय बन जाती है, वैसे ही आचार्य सूप अग्नि के आगे विद्यार्थी अपने को समर्पित कर दे। तभी वह श्रद्धा तथा मेधा से समर्पित होकर विद्या-प्रकाश से प्रकाशित हो सकेगा। कृदर्शवा तथा सच्चा इन्द्र बनने का यही उपाय है।

विद्यार्थी के साथ विद्यालय में दूसरा प्रमुख स्थान प्राप्त्यापक का है—मंत्र में इसी क्रम से दूसरा स्थान विश्वेदा पूपा का है। विश्वेदा का गर्भ है, अपने विषय का विष-सम्पूर्ण, वेद-ज्ञान रखने वाला तथा अपने विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों का भी ज्ञान रखने वाला। अपने विषय का पूर्ण ज्ञान तो प्राप्त्यापक को होना ही चाहिये, साथ ही विष का सामान्य ज्ञान भी उसे होना चाहिये। पुरु ही विषय का ज्ञान कूप-मंडूकता की कुष्यति में परिगणित होता है। अन्य विषयों का ज्ञान, अपने विषय के ज्ञान को पोषण भी देता है।

अपने विषय के संपूर्ण ज्ञान से तो प्राध्यापक को पुष्ट होना ही चाहिये । मंत्र में इसीलिये पूरा शब्द भी आया है । ज्ञान प्राध्यापक को तो पुष्ट करता ही है, साथ ही विद्यार्थी का भी पोषण करता है । ज्ञान के साथ आचार भी लगा हुआ है । जहाँ प्राध्यापक का ज्ञान विद्यार्थी को प्रकाशित करता है, वहाँ उसका आचार उससे भी अधिक प्रकाश देता है । अंग्रेजी की कहावत है—Example is better than precept—शिक्षा के स्थान पर सदाचार, उपदेश के स्थान पर उदाहरण अधिक प्रभावी होता है । विद्यार्थी जितना प्राध्यापक को सुनकर सीखते हैं, उससे कहाँ अधिक उसके आचार से सीखते हैं । यदि ज्ञान के साथ आचार न हो, तो ज्ञान का प्रभाव तो पड़ेगा, परन्तु वह स्थायी नहीं होगा । आचार ज्ञान को स्थायित्व देता है । उससे उपदेश आत्मातक पहुँच कर जीवन में अंकित हो जाता है ।

प्राध्यापक विश्ववेदा पूरा है । विश्वज्ञान को भी उससे पोषण प्राप्त होता रहता है । यदि प्राध्यापक ज्ञान का अर्जन न करे, अध्ययनशील न हो, तो वह अपने विद्यार्थी को दे ही क्या सकेगा ? जो दीपक स्वयं प्रज्वलित नहीं है, वह अन्य दीपकों को प्रज्वलित नहीं कर सकता । जिसे स्वयं अध्ययन में रुचि नहीं है, वह विद्यार्थियों में रुचि कैसे उत्पन्न करेगा ? जो अपना, अपने ज्ञान का पोषक नहीं है, वह थोथे ज्ञान द्वारा विद्यार्थियों का क्या पोषण करेगा ?

प्राध्यापक को सरस्वति सिंघु में अथगाहन करना पड़ता है । तभी सरस्वती, विद्या, ज्ञान-गणियों का भास्वर प्रकाश उसके समुख विर्कीण कर देती है, उसकी तुदियों तथा कर्मों को चमका देती है । सुमति का शुरुण, उद्घोधन सरस्वती की ही कृपा का फल है । सरस्वती ही जीवन को यज्ञिय बनाती है । वाजिनीवती सरस्वती स्वयं पवित्र है तथा अपने उपासक को भी पवित्र करने वाली है । ज्ञान से उपेत होकर साधक सर्वावरणमल से अपेत हो जाता है । दीपित होकर जब विपश्चित की तुदि निर्मल हो जाती है तो प्रकाश-स्वरूप प्रभु उसमें स्वाप्न हो उठते हैं । ज्ञात की मेषा को पकड़ कर साधक सूर्य

के समान जाउचल्यमान हो जाता है और अपने संपर्क में आने वालों के पारों को भ्रम कर देता है।

प्राच्यापक को अध्ययन के साथ विचारशील भी होना चाहिये। अपने अन्दर भरे हुये का चिन्तन तथा समागत पर उसे मनन करना चाहिये। ज्ञान इसी किया से हड़ता तथा स्थिरता प्राप्त करता है। ज्ञान की जो विश्व-व्याप्त धारा विश्व को धारण कर रही है, वह विचारशील व्यक्ति के मस्तिष्क का स्पर्श करने लगती है और उसे अपने साथ संयुक्त करके, व्यापक रूप देकर, उसे सच्चा विषय बना देती है। ऐसे ही विष अङ्गिरस अभिधान के अधिकारी होते हैं। इनका अङ्ग-अङ्ग रसधारा से आप्लुत रहता है। रसवती सरस्वती श्वर्यं तो आनन्दवती है ही, अपने उपासकों, विद्यार्थियों के हृदय में भी आनन्द का संचार करने वाली है।

सच्ची विद्या की प्रभा अज्ञान के कोहरे को नष्ट कर देती है, अनृत, व्यर्थ, आड़म्बरमयी शब्द-जालिका, बहुभाषिता पर ताला लगा देती है और साधक के मन तथा बुद्धि को ज्यापक बुद्धितत्व के साथ एक करके उसे लकेले ही लोक-मंगलकारी ज्ञानों एवं सत्कर्मों के धारण करने योग्य बना देता है। ऐसे विद्याधनी विष्र क्रान्तदर्शी तथा क्रान्तकर्मी होते हैं। वे वितत, पवित्र सहस्रधार में गोते लगाकर अपनी बाणी को पवित्र करते हैं तथा उसे प्रभविष्णु रूप देकर दूर-दूर तक पहुँचा देते हैं जिससे मानवता पवित्र होती है, उसके व्यवहार शुद्ध होते हैं और विष-बन्धुता का भाव जाग्रत होता है।

प्राच्यापक की वाणी, मन तथा बुद्धि दिव्य होने चाहिये। सांसारिक राग-झौप में ग्रन्थि बुद्धि उपद्रव एवं अनर्थ का कारण है। दिव्यता ही अनुशासन उत्पन्न करके रचनात्मक कार्यों में लगा सकती है।

राष्ट्र में बल अनुशासन से ही आजा है। उद्घटता बल को ही नहीं प्रशासन को भी चींग कर देती है। अनुशासित व्यक्ति एवं समाज के ज्ञान और कर्म ऊर्ध्वं गति करते हुये उसे आगे भी बढ़ाते हैं तथा ऊँचा भी उठाते हैं।

ऐसे समाव एवं व्यक्तिगत से निर्मित राष्ट्र कृतवीर्य, सहजायु, सुहृत, ज्ञान-कवच से सुरक्षित तथा अन्य राष्ट्रों के टिये आदर्श स्वरूप होते हैं। इनकी संस्कृति विश्वव्यापिनी बनती है। इनकी मान्यतायें लोहे के बल पर नहीं, हृदय से स्वीकार्य होती हैं।

संयमी, सदाचारी विद्वान प्राप्त्यापक विश्वतोधार मह करते हैं—ऐसा मह जो सबको सब ओर से धारण करता है, किसी को किसी ओर से भी बिनष्ट नहीं होने देता। कालचक्र में पइकर आर्थिक समृद्धि, राजनैतिक प्रभुत्व भले ही तिरोहित हो जाय, पर जिस त्याग-भाव को ये प्रतिष्ठित कर जाते हैं, उसमें पतिन को भी थी तक चढ़ा देने की शक्ति होती है। गिरी हुई जातियां इसी के बल पर धपने घोरं हुए उत्कर्ष को पुनः प्राप्त कर लेती हैं।

राष्ट्र में आदर्शों की स्थापना विश्वदेवा पूरा पद के अधिकारी वरेण्य राष्ट्र-प्राप्त्यापक ही कर सकते हैं। वे ही राष्ट्रीय दीर्घि के जनक तथा प्रतिष्ठाना हैं। इडलेंड को गर्व है कि उसके हीरो तथा ईटन के विश्वविद्यालयों ने पृथ्वीमन्दल पर ऐसे चक्रवर्ती आंग्ल साम्राज्य की स्थापना की जिसमें सूर्य कभी अस्त नहीं होना था। भारत को भी गर्व है कि उसकी हिम-विष्णु-ब्रह्मुद्धीलगिरि पर्वत-मालाओं की कन्दराओं में जो प्रथवचनि गूँजी, जान्हवी-जगुना-मरस्वती-मिन्दु-महपुषा-नर्मदा-गोदा-कावेरी के द्वान्त तटों पर जो पावन मंस्तुति और सम्यता पर्णी-कूलों और फली, वह युग-युगों तक, पृथ्वी के मंपूर्ण प्रदेशों में छाइ रही और आज इतने सुशीर्ष, व्यापी कालातिषय के उपरान्त भी उसके अदर्शों जीवन्त रूप में सुरक्षित है।

मंत्र में तीसरा स्थान अरिष्टनेनि तार्थ्य का पुत्र है, समवन्धी है। तृष्ण का अर्थ है—तीन अदर्शों का समुदाय। अदर्श का अर्थ गति में रहने वाला या गति को आधय देने वाला है। नद्यत तथा राशि भी इसके अदर्शों के अन्तर्गत हैं। ज्ञानसत्र के प्रकरण में इसका अर्थ होगा तीन प्रकार की गतियों को सुरक्षित रखने वाला संचालक या प्रबन्धक तथा उसमें सम्बन्धित समिति। विद्यालय में तीन गतियां तीन व्यवस्थायें हैं—आर्थिक, सुरक्षा-मन्दन्धी

तथा अध्यापन सम्बन्धी। प्रबन्धक प्रबन्धकर्ता समिति के सहयोग से इन व्यवस्थाओं को सम्पादित करता है। इस हेतु वह तार्द्य संज्ञा का पात्र है। अरिष्टनेमि का अर्थ है जिसकी नेमि या चक्रपरिधि कभी नष्ट न हो। विद्यालय में विद्यार्थी आते और जाते रहते हैं, प्राध्यापक भी अवकाश छहण करते और आते जाते रहते हैं, पर विद्यालय का ज्ञानसत्र चलता रहता है। उसकी अरिष्टनेमिता अरिष्टनेमि तार्द्यपद के अधिकारी संचालक या प्रबन्धक के कारण है। प्रबन्धकर्ता समिति के सदर्य अथवा प्रबन्धक भी परिवर्तित होते रहते हैं, पर प्रबन्धकर्ता यना रहता है। विद्यालय का ज्ञानकार्य विद्यार्थी, और प्राध्यापक के बीच का है। पुराने विद्यार्थी इनाहेक बनकर वर्म्हेन्ड्र में पदार्पण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन विद्यार्थी आ जाते हैं। निर्गत प्राध्यापकों का स्थान नवीन प्राध्यापक छहण करते हैं। पर विद्यालय वही रहता है। ज्ञानदाम का कार्य रक्ता नहीं, चक्रनेमि की भाँति चलता ही जाता है, नष्ट नहीं, अरिष्ट, गतिशील बना रहता है।

जहाँ ज्ञानी आदित्य कार्य करते हों, वहाँ विनाश कैसा? वह तो अरिष्ट, अविनश्वर, अस्तीण रूप में वरावर आगे दौड़ेगा, प्रजा-समृद्धि से सम्पन्न होगा, विघ्न-बाधाओं पर विजय प्राप्त करेगा। पर यह सब होगा स्वस्ति के बातावरण में। अस्वर्ति का प्रदेश होते ही ज्ञान-भवन धराशायी हो जायगा। विद्यार्थी, प्राध्यापक, प्रबन्धक-समिति यदि उपद्रव करने पर उत्तम हो जाय तो विद्यालय एक दिन भी नहीं चल सकेगा। यदि स्वार्थ-पूर्ति का युन उग गया, तो धर्म-धोरे निखिल निर्माण विच्छंस में परिणत हो जायगा। मन्त्र में इसी हेतु स्वस्ति शब्द पड़ा है। सबको स्वस्थता की, वृद्धाण की साधना करनी है, गङ्गापरीता की नहीं। परमार्थभावना, लोक-मंगल-कामना से प्रेरित होकर काम करना है, शृणित स्वार्थ-साधना की पूर्ति करना इष्ट नहीं है।

मन्त्र में चौथा पद वृहस्पति का है। वृहस्पति बुलपति है। वृहस्पति का अर्थ है बहुत, विशाल परिवार का रक्षक। प्राचीन लेखों के आधार पर कहा जाता है कि एक-एक विश्वविद्यालय में दश सहस्र तक विद्यार्थी पड़ा करते थे।

विद्यार्थियों के अनुपात से ही प्राप्यापकों की संख्या भी रही होगी। प्रबन्धक समिति, कार्यालय के लेखक, गणक, मापक, झंडारी तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या भी पर्याप्त रही होगी। इन सबका भरण, पालन, पोषण कुलपति करता था। उसके ऊपर इन सबका भार था। बृहस्पति का अर्थ इससे भी कुछ आगे है। वह कुलपति के रूप में शरीर-पोषण ही नहीं, ज्ञान-पोषण भी करता था। जैसे सूर्य हमारे इस ब्रह्माण्ड का कुलपति है, वह हम सब को प्राण भी देता है और प्रकाश भी, हमारा पालन-पोषण भी करता है और मार्ग-प्रदर्शन भी; उसी प्रकार बृहस्पति पालन तथा रक्षण भी करता था और ज्ञान भी देता था। वह जहाँ चक्षु के छिद्रों को भरता था, दृष्टि-दोषों को दूर करता था, वहाँ हृदय और मन के धावों को भी भरता था। वह सत्ता के सभी पत्तों को देख-भाल करता था।

बृहस्पति वाचस्पति भी है। वह वागी का परमस्थोम है। निखिल वाङ्मय पर उपका अधिकार है। बृहस्पति प्रथम जायमान है। सबका अप्रज्ञ है, सब से बड़ा है, सब से उत्तेष्ठ एवं वरिष्ठ है। इपोलिये वह मह: अर्यात् पूजनीय है और उयोति का परमधाम है। अन्धकार में तो वह रह ही नहीं सकता, हृच्छा भी नहीं कर सकता क्योंकि वह उर्ध्वं दिशा का अधिपति है और उयोति में निवास करता है। बृहस्पति सबसे उर्ध्वं है, मंहिष्ठ है। जहाँ वह पूजनीय है, वहाँ अप्रज्ञ होने के नाते सबके लिये रक्षण करने वाला भी है। जैसे सूर्य की उष्णता तथा उयोति अपने लिये नहीं, हम सबके लिये है, ब्रह्माण्ड के सभी ग्रहों के लिये है, वैसे ही बृहस्पति को वाणी, उसकी विद्या, उसकी सम्पदा सब विद्यार्थियों के लिये है। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है, बृहस्पति ब्रह्म की प्रदक्षिणा किया करता है। यह चलना, यह परिक्रमण सत्ता की रक्षा के लिये अनिवार्य है।

बृहस्पति के ज्ञान और कर्म, मन और शरीर परस्पर अनुकूल रहते हैं। उसके विचार, उच्चार तथा आचार में एकता होती है। उसका व्यक्तिगत इसी कारण प्रभावी होता है। जिन गुणों की प्राप्यापक को अपेक्षा है, वे बृहस्पति

कुलपति में विद्यमान होने ही चाहिये । बृहस्पति में एक विशेषता भी होती है । यह है गुरुओं के भी गुरु परमदेव परमेश्वर का शपने अन्तर्यामी रूप में अनुभव । प्रभु उसके प्रत्येक कार्य में वास करते हैं । उनकी व्याप्ति उसके कियाकलाप को अहंता देती है, प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता देती है । उसके वचन प्रामाणिक होते हैं । जो आदेश उसके मुख से निकलता है, उसके प्रत्याहयान करने का साइंस न विद्यार्थियों में होता है, न प्राच्यापकों में ।

कुलपति का कार्य आजकल राज्यपाल (गवर्नर) करता है, पर वह नाम-मात्र का कुलपति है । उसका न विद्यार्थियों के शरीर से सम्बन्ध है न मन से । प्रबन्ध का कार्य उसकी ओर से उपकुलपति (वाइस चांपलर) करता है, पर उसका भी द्वात्रों के मन तथा शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्राच्यापक पढ़ाते हैं । विद्यार्थी के मन के साथ उनका कुछ देर के लिये सम्बन्ध हो जाता है । शरीर की चिन्ता वे भी नहीं करते । शरीर की चिन्ता तो दूर, वेचारा द्वात्र प्रवेश-शुक्रल, अध्ययन-शुक्रल, क्रीड़ा-शुक्रल, भवन-निर्माण-शुक्रल, पत्रिका-शुक्रल, कालेज-भोज-शुक्रल, पुस्तकालय-शुक्रल आदि के भार के नीचे इतनी ऊरी तरह दबा रहता है कि वह निश्चित होकर एड़ने में मन भी नहीं लगा पाता । ज्ञान-सेना का संपूर्ण दोचा आज विकृत है । पेसी अवस्था में स्वस्ति की आदा करना भी व्यर्थ है । आज का द्वात्र द्वात्र नहीं, प्राच्यापक प्राच्यापक नहीं, प्रबन्धक प्रबन्धक नहीं, कुलपति कुलपति नहीं । जब राष्ट्र की भावी पीढ़ी का निर्माण ही नहीं हो रहा, तो देश का भविष्य कैसे बनेगा ? पुरानन आदर्श नष्ट हो रहे हैं, नवीन आदर्श उनका स्थान नहीं ले रहे कंटकाकीर्ण विष्वलव-काल में से हम सब निकल रहे हैं । कदाचित् यह विष्वलव ही हमें सही रास्ते पर से आवे ।

## ज्ञानसूक्त

वाणी में ज्ञान तथा ज्ञान में वाणी ओत-प्रोत है। वाणी को ज्ञान के विनाशका तथा ज्ञान को वाणी के विनाश समझा नहींजा सकता। अपने मूल रूप में दोनों ही मूरक हैं, पर जैसे-जैसे बाहर आते हैं, वैसे ही वैसे तुदि, मन तथा सुख के सेत्र में मुखर से मुखरतर होते जाते हैं। वैखरी वाणी विभागमयी है, परावाणी में एकत्व है। मानव वाणी अतीव प्रभावदती एवं समर्थ है। इसने मानव जाति की प्रारम्भ से लेकर अब तक की ज्ञानधारा को सुरक्षित रखा है।

तैत्तिरीष उपनिषद, शिरा बल्ली के नवम धनुवाक में स्वाध्याय तथा प्रवचन को छृत, सत्य, तप आदि सभी के साथ संयुक्त किया गया है। स्वाध्याय तथा प्रवचन दोनों वाणी और ज्ञान से संबद्ध हैं। तप क्या है? इस विषय पर चोहते हुए सत्यवचा राथीतर ने सत्य को ही तप कहा। पौरशिष्ठि तपोनित्य ने तप को ही तप कहा। नाक मौद्रगल्प ने यह पद स्वाध्याय और प्रवचन को दिया। उसकी दृष्टि में ज्ञान ही तप है। यही तप है। यही तप है। ज्ञान तप है। ज्ञान शक्ति है।

वेद भी 'तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नाम्यः पन्था विद्यते अयमाय', 'तमेव विद्वान् न विमाय गृत्योः', 'यस्तत्र वेद किमृता करित्यति' आदि पदों द्वारा ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश ढालता है। भगवद्गीता भी 'ज्ञानग्निः सर्वं कर्मणि भस्मसात् कुरुते ज्ञुन्', 'न दिज्ञानेन सदृशं पवित्रं मिह विद्यते', 'यहुनाम् जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रवद्यते', 'ज्ञानं दद्वापरांशान्तिमचिरेणाधिगच्छति', आदि पदों में ज्ञान की प्रशंसा करती है। वेद का अर्थ ज्ञान है। ज्ञान की इम रत्याति से महाभारत को भी वेद कहा जाने दगा। कतिष्य अन्य ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी यही हुआ; यथा—आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, नाट्यवेद आदि। चारों वेदों में भी वेद शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है, पर वहाँ सर्वत्र ज्ञान का ही अर्थ नहीं है, घन, प्राप्ति आदि का भी है।

वेदग्रन्थी में श्वर्वेद को ज्ञानकाण्ड का वेद कहते हैं। इसके दशम मण्डल के ०१ वें सूक्त का देवता ज्ञान है। अपि हैं आङ्गिरस वृहस्पति। वृहस्पति का ज्ञान से अद्भुत सम्बन्ध है, ऐसा हम पीछे लिख चुके हैं। वृहस्पति अङ्गिरा अपि के वंश में उत्पन्न हुये थे। इसलिए उन्हें आङ्गिरस कहा जाता है। नीचे हम इसी सूक्त का अध्ययन प्रस्तुत करेंगे।

वृहस्पते प्रथमं वाचो यद्यं यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः ।

यदेपां श्रेष्ठं यदरि प्रमासीत् प्रेणा तदेपां निहितं गुहाविः ॥ १ ॥

हे वृहस्पति ! विशाल घट्टाण्डों के स्वामी ! सर्वप्रथम जब आपने नार्मों को धारण करने वाली वाणियों को आगे प्रेरित किया तब इनमें जो थ्रेष्ट तथा निदोंप ज्ञान पराशक्ति की गुहा में निहित था, वह इस प्रजाओं के प्रेम से गुहारूप बुद्धि में आविर्भूत हो गया ।

वाणी के चार रूपों में जो प्रथम परा रूप है, वह अचिन्त्य है, उसमें समस्त ज्ञान है, समस्त नाम हैं। प्रभु की प्रेरणा से वह रचना के रूपों में अप्रसर होता है। रचना का प्रथम आविर्भूत रूप महत्त्व या व्यापक बुद्धि तत्त्व है। इसे गुहा या उपेक्ष बहा या हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। जैसे गुहा में कोई बरतु छिपी हो, तो वह दिखलाई नहीं देती, वैसे ही यह विविधरूपा सुष्ठि इस महत्त्व के गर्भ में छिपी रहती है। पर महत्त्व का, व्यापक बुद्धि तत्त्वरूपी गुहा का, प्रहृति से आविर्भाव तो होता ही है। वाणी का परा रूप भी इस बुद्धिरूपी गुहा के साथ पश्यन्ती रूप में प्रकट हो जाता है। प्रहृति के गुण भी बुद्धि तत्त्व के साथ ही प्रकट हो जाते हैं। बुद्धि तत्त्व में सच्च गुण की मात्रा का आधिक्य रहता है, रज तथा तम की मात्रा कम। आगे अहंकार में रज का आधिक्य हो जाता है, सत तथा तम कम रहते हैं। पञ्चतन्मात्राओं में तम की प्रधानता हो जाती है। बुद्धि तत्त्व में वाणी के जिस रूप का आविर्भाव होता है, वह भी सच्च-प्रधान है। मंत्र में इसीलिये उसे थ्रेष्ट तथा निदोंप नाम दिया है। परा रूप में तो उसका एकान्त थ्रेष्ट रूप है ही ।

सर्कुमिव तितडना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकत ।  
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैपां लक्ष्मी निहिताधिवाचि ॥ २ ॥

व्यापक बुद्धि तत्त्व के पश्चात् अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है। व्यष्टि बुद्धि तथा व्यष्टि मन इन्हीं व्यापक बुद्धि तथा मन के अंश हैं। अहंकार भी व्यापक अहंकार का ही भाग है। रचना में बुद्धि तत्त्व के उपरान्त ही विभिन्नता प्रकट होने लगती है। पञ्चतन्मात्राओं में वह स्पष्ट हो उठती है। पर यहाँ तक संगुणता ही रहती है। पांचमहाभूतों के साथ स्थूलता तथा आकार का प्रारम्भ होता है और साकार सृष्टि का रूप दिखाई देने लगता है।

भंत्र के अनुसार बुद्धि में आविर्भूत परावाणी के पश्यन्ती रूप के पश्चात् मन में उसका मध्यमा रूप प्रकट हुआ। बुद्धि के समय दर्शन था। अब मन के साथ विश्लेषण चलने लगा। चलनी या सूप से जैसे सत्तू को साफ किया जाता है, उसके छिल्के या भूमि को इटा दिया जाता है, वैसे ही धीर पुरुष मन में वाणी को परिष्कृत करते हैं, मन अहंकार से उत्पन्न हुआ है। अहंकार रजः-प्रधान है, सदोष है, अतः वाणी के मध्यमा रूप में भी रज का अंश विद्यमान है। मनीषी विद्वान् यतन द्वारा इस मध्यमा वाणी के दोष को दूर करके उसका प्रयोग करते हैं। वाणी के सखा यहाँ वाणी की मैत्री को पहिचान पाते हैं। इनकी वाणी में भद्रा लक्ष्मी निहित रहती है। लक्ष्मी लक्षित करने वाली है। मध्यमा वाणी में अर्ध लक्षित होने लगते हैं। पश्यन्ती वाणी में उनका दर्शन रूप था, सूक्ष्म मध्यमा में अर्थों में पार्यक्य लक्षित होने लगा। वाणी का धीर रूप तो आत्मा के साथ परा रूप में था। पश्यन्ती में उसका आविर्भाव हुआ और मध्यमा में वह पृथक्-पृथक् रूप से लक्षित या संकेतित या इक्कित होने लगा। पश्यन्ती रूप में सखा-भाव भी नहीं था। मैत्री तो तभी होगी जब कोई वस्तु या व्यक्ति अपने से पृथक् रहा दिखाई दे, लक्षित होने लगे। पश्यन्ती की संगुणता के उपरान्त मध्यमा के वैभिन्न में ही इसका मान होता है। सखा—समान इन्द्रियभाव—इसी देश की उपज है।

अब तीसरे मंत्र में वैखरी वाणी का वर्णन किया जाता है :—

**यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् तामन्वयिन्द्रन् क्रषिपु ग्रविष्टाम् ।**

**तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभि सं नवन्ते ॥ ३ ॥**

जब तक वाणी मन में है, मध्यमा रूप में है, तब तक वह छिपी है । मुख के बाहर नहीं आई । मन ने लड़ित तो की, पर अब भी वह प्रविष्ट है । बुद्धि की पश्यन्ती के साथ देवयज्ञ चला था । मन की मध्यमा के साथ ऋषि भी यज्ञ करने लगे । अभी मंत्रोच्चारण-पूर्वक भौतिक यज्ञ करने का समय नहीं आया । मानसिक यज्ञ चल रहा है । वेद मंत्र परम व्योम से उतर कर महत्त्व में होते हुए मन तक आ गये हैं । अभी उनको वैखरी वाणी का रूप प्राप्त नहीं हुआ है । यह रूप कैसे प्राप्त हो ? मंगलमयी वेद वाणी द्वन्द्वों के परिधान में पृथक-पृथक शब्दों द्वारा, स्वरों द्वारा कैसे गृहीत हो, इसके लिये यज्ञ ही सुलभ साधन था । यज्ञ द्वारा वाणी की इस पदवी को, भूमि को, स्थान को खोजा गया । और उसे ऋषियों की मनोभूमि में ग्रविष्ट हुआ पाया गया । उस पुनीत वेद वाणी को, ज्ञानगर्भ-गिरा को आभृत्य, सब ओर से भरकर, चारों ओर से ग्रहण करके, पुरुत्रा-बहुत रूपों में, व्यदधुः—विभक्त कर दिया । शब्द-शब्द अटग हो गये । जो संहित थी, वह विभाजित हो गई । जो एक था, वह चहुंधारी हो गया । बुद्धि में विभाग दिखायी नहीं पड़ा था, मन में दिखाई देने लगा, जब जिह्वा द्वारा, कण्ठ और मुख द्वारा वह उच्चरित होने लगा और अवण द्वारा सुनाई पड़ने लगा । ये सप्त रेभा, सात छंद उसी पुनीत वाणी की स्तुति कर रहे हैं ।

वेद मंत्र उच्चरित हो रहे हैं, सुनाई भी पढ़ रहे हैं, पर क्या वे वस्तुतः दिखाई देते हैं ? वस्तुतः सुनाई देते हैं ? हाँ, पर सबको नहीं—

**उतत्वः पश्यन् न दर्शी वाचमुतत्वः शृण्वन् न शृणो त्येनाम् ।**

**उतो त्यस्मै तन्वं विसर्जे जायेय पत्ये उशती सुधासाः ॥ ४ ॥**

कुछ लोग देखते हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है या मंत्र पुस्तक में लिखे हुए.

हैं, पर देखते हुए भी वे इस वाणी को देख नहीं पाते। कुछ लोग सुनते हैं पर सुनते हुए भी वे इस वाणी को सुन नहीं पाते। उनके लिये वेद मंत्र वैसे ही हैं, जैसे 'भैस के आगे धीन धाजै, भैस खड़ी पगुराय। पर कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें वेद मंत्र दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, जिन्हें वे समझते हैं, हृदयंगम करते हैं और फिर तदनुकूल आचरण करते हैं। इनके लिये वाणी अपने रूप को वैसे ही खोलकर रख देती है, जैसे सुवासिनी, कामयमाना प्रिया अपने प्रिय के आगे अपने शरीर को प्रकाशित कर देती है। अब वाणी-व्यवहार के सम्बन्ध में कहते हैं :—

उत त्वं सख्ये स्थिरपी तमाहुः नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेपु ।

अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुदां अफलाम पुर्षपाम् ॥५॥

कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको वाणी की मित्रता में स्थिरपीत कहा जाता है। इनको बड़े-बड़े समारोहों या समरों में भी नहीं छोड़ा जा सकता। इनके अन्दर वाणी की मैत्री पी ली गई है और स्थिरतापूर्वक आसन जमाकर बैठ गई है। ऐसे सर्वत्र मित्रों को भला कोई कैसे छोड़ सकता है? पर जिन्होंने अफला और अपुर्णा अर्थात् निस्मार वाणी को सुना है, उनके सामने यह मायाविनी शूटी धेनु के समान आचरण करती है। अथवा ऐसे व्यक्ति हो मिष्या मायामयो अधेनु हैं। इनसे जनता का कोई लाभ नहीं होता। जनता इन्हें पूछती भी नहीं। वाणी के सुन्दर प्रयोक्ता को, वाणी के मान्य मित्र को सब शिर आंखों पर लेते हैं, सम्मान देते हैं, निस्तार वाणी बोलने वाले अपमानित होते हैं।

यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति ।

यदीं शृणोत्यलकं शृणोति न हि ग्रवेद सुकृतस्य पन्धाम् ॥६॥

जो सत्य ज्ञान रखने वाले सखा को छोड़ देता है अथवा सख्य ज्ञानमयी वेदवाणी रूप मित्र का परित्याग कर देता है, उसकी वाणी में से सेवनीय शंश निकल जाता है। वह जो कुछ सुनता है, वेद के अतिरिक्त अन्य वाणियों, पौराणिय ग्रन्थों, शास्त्रों को सुनता या पढ़ता है, उसका सुनना और पढ़ना व्यर्थ

है, क्योंकि वह सुकृत के, पुण्य के पथ को नहीं जान पाता। अन्यत्र भी वेद का आदेश है :—“अपक्रामन् पौरुषेयादृ बृणानो दैव्यं वचः”। लौकिक पञ्च में अर्थ होगा :—जो सत्यज्ञानी सत्य की संगति में नहीं रहता, उसे पुण्यपथ का ज्ञान नहीं हो पाता। उसका बोलना या सुनना दोनों ही व्यर्थ जाते हैं।

### मनोगति की असमता

**अध्याणवन्तः कर्णवन्नः सखायो मनो जवेष्यसमा यभूतुः ।**

**आदृश्नास स उपकक्षास उत्वे हृदा इव स्नात्या उत्वे दृढशे ॥ ७ ॥**

सभी मानव सत्य हैं, समान इन्द्रियों वाले हैं, सबके पास आंखें और कान हैं, पर मन की गति सब की एक समान नहीं है। मन को मानस कहते हैं। मानस एक अर्थ मानसरोवर भी है। पर यह मानसरोवर किसी का गहरा और किसी का उथला है। किसी का मानस ऐसा सरोवर है जिसमें घुटने तक जल है, किसी का ऐसा है जिसमें कमर तक जल है और किसी का ऐसा है जैसे एक अथाह गंभीर हृद हो जिसमें खूब ढुबरी मार कर स्नान किया जा सके। मन की गति हा मानव को उच्च-नीच कोटियों में विभाजित कर देती है। शरीर के अन्दर मन की स्थिति मध्य में है। एक ओर उसका ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों तथा शारीरिक चेष्टाओं से सम्बन्ध है तो दूसरी ओर उसका बुद्धि तथा ध्यानन्दमय द्वेष से सम्बन्ध है। उसका प्रभाव दोनों दिशाओं पर पड़ता है। इसी हेतु उसे मानवता का मापदण्ड या कसीटी माना गया है।

इस मंत्र में मनोगति की तीव्रता एवं मनदता को उच्चावच स्थितियों का कारण कहा गया है। अब आगे के मंत्र में मनोगति तथा भावमयता की समानता में भी बुद्धि या ऊदा को अपमानता के कारण ब्राह्मण-भेद का घर्जन किया जाता है :—

### बुद्धि की असमता

**हृदा तप्तेषु मनसो जवेषु यदृ ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः ।**

**अत्राह त्वं विजहु चेद्याभिः ओह ब्रह्मणो विचरन्ति उत्वे ॥ ८ ॥**

जब हृदय की सान पर चढ़ कर, भावना से तीव्र किये गये मनोजबों में, मन की गतियों अर्थात् संश्लेषण-विश्लेषण में समान-ज्ञान वाले सखा आह्वान छुटते हैं, संयुक्त होकर यजन करते हैं, तब कुछ तो बेद्यों, ज्ञातव्य लद्यों से पीछे दूर जाते हैं, बेद्य लद्य तक नहीं पहुँच पाते और कुछ जो भोह-ब्रह्म हैं, उहा-सूक्ष्मवृक्षलपना शक्ति के धनी हैं, वे ज्ञानानन्द में मग्न होकर विचरण करते हैं।

समान मन तथा समान हृदय (भाव) वाले आह्वान भी दुर्दि अथवा कल्पना शक्ति की असमानता के कारण पश्चावर कोटियों में परिगणित किये जाते हैं। प्रत्यक्ष परीक्षण तथा प्रयोगों की बात करने वाले आधुनिक वैज्ञानिक भी कल्पना शक्ति के महत्व को स्वीकार करने लगे हैं और उसका वैज्ञानिक अनुसंधानों में उपयोग भी करते हैं।

### उभयलोक भ्रष्ट

इमे ये नार्वाङ्ग० न परश्चरन्ति, न ग्राहणासो न सुतेकरासः ।

त एते वाच ममि पद्य पापया सिरीस्तंत्रं तन्यते अप्रज्ञश्यः ॥१॥

जो न उधर ही चलते हैं न उधर, न लोक को ही सम्भालते हैं, न परलोक को, न वेदपाठी, ब्रह्मवादी, स्तोता आह्वान ही हैं और न सोमवारी अथवा यज्ञों द्वारा स्वर्ग की साधना करने वाले, वे इस वाणी को प्राप्त भी कर लें, किंतु भी इसके वरदान से, कलभोग से बहित ही रहेंगे, क्योंकि वे पाप-चुदि हैं, अप्रज्ञि हैं, मूर्ख हैं, और केवल हल चलाकर कृपि का विस्तार कर सकते हैं।

आह्वान के लिये दो ही मार्ग ध्येयस्कर हैं, या तो वह यज्ञ करे या ज्ञानी बने। जो इन दोनों में से एक भी मार्ग पर नहीं चलता, किसी को भी नहीं अपनाता, वह उभयतोभ्रष्ट मूर्ख किसान के समान है।

सुतेकरासः में मन की प्रधानता है और आह्वानासः में दुर्दि की।

## यज्ञ रूपी सखा

सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः ।

किल्विषपस्पृत् पितुपणिर्दिं पशामरंहितो भवति घाजिनाय ॥ १० ॥

जब सभासाह, सभा में मान देने वाला, सभ्यों में परिगणित करने वाला यश रूपी सखा जाता है, तो सभी सखा आनन्दित होते हैं, क्योंकि यश किल्विषप को, पाप को नष्ट करने वाला है, अनन की, समृद्धि की प्राप्ति करने वाला है, हितकारी है और बल की प्राप्ति के लिये भी शोभनसाधन है । वेद वाणी यश देती है, पर तभी जब या तो उसका विनियोग यज्ञकर्म में किया जाय, या उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उसका प्रचार किया जाय । ज्ञान के भी दो ही प्रयोग हैं—दर्शन तथा पुण्यकर्म; स्तोता भक्त बनना तथा विनयभाव पूर्वक वेद का पढ़ना और पढ़ाना अथवा चातुर्मास्य, इष्टा पूर्त, वाजपेय, सोम, सौत्रामणि आदि यज्ञों का अनुष्ठान करना । ज्ञान के, वेद वाणी के दोनों ही प्रयोग कीर्तिकर हैं, इस लोक तथा परलोक को बनाने वाले हैं ।

## याजक ब्राह्मणों के चार भेद

ऋचांत्वः पोपमास्ते पुपुष्वान् गायत्रंत्वो गायति शक्वरीपु ।

ब्रह्मात्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिरीत उत्थः ॥ १ ॥

ऋग्वेदी होता ऋचाओं की पुष्टि को वार-वार पोषण देता है, वार-वार ऋचा-पाठ करता है, सामवेदी उद्गाता शक्वरी छन्दों में गायत्र ( सामगान ) को गाता है, अर्थवेदी ब्रह्मा जातविद्या का उपदेश करता है, ( जात विद्या-जात-उत्पन्न अर्थात् सृष्टि की विद्या है, विज्ञान है—ब्रह्मा विज्ञानी होता है—ब्रह्मा से सृष्टि का आविभाव भी हुआ है—ब्रह्मा चतुर्वेदविद् होता है, पर विशेष रूप से वह अर्थवेद का ज्ञाता है । ) और यजुर्वेदी ऋष्वर्यु यज्ञ वेदी, यमिधा, हवि आदि यज्ञ की सामग्री का प्रबन्ध करता है । मात्रा, अर्थात् रिमाण या विस्तार, यज्ञ-वेदी की माप आदि का थोतक है ।

ज्ञान सूक्त का जो अध्ययन ऊपर प्रस्तुत किया गया है, वह वेद धार्णी से विशेषतः सम्बन्ध रखता है। वेदवाणी दैवी वचन है। इसके अतिरिक्त लौकिक धार्णी भी है जो कई प्रकार की है। ज्ञान और विज्ञान यद्यपि दोनों प्रकार की धार्णियों में निवद्ध किये जा सकते हैं, पर जो अभिव्यक्ति या उपन्यास उन्हें दैवी धार्णी में प्राप्त है, वह तथ्य के अधिक निकट है। लौकिक धार्णियों में वैसा अभिव्यक्ति-सामर्थ्य नहीं है। साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वेद धार्णी की गणित भाषा को समझ कर निश्चित विचार-धारा को पकड़ लेना सरल कार्य नहीं है। एक ही शब्द अर्थ की नाना दिशायें प्रकट करता है। कहीं-कहीं तो विशेषण सहायता के लिये उपस्थित हो जाते हैं, पर जहाँ नहीं होते, वहाँ सुकरता भर्ही, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उस समय बहुश्रुतता काम देती है। श्रवियों ने मंत्रदर्शन करके मन्त्रों के ऊपर जो देखता लिख दिये हैं, और मन्त्रों के साथ ही उन्हें सम्बद्ध कर दिया है, उनसे भी अर्थ का दिशा-संकेत हो जाता है। कभी-कभी मन्त्र का कोई शब्द ही अर्थविशेष की सूचना दे देता है। पर सबसे बढ़कर तो प्रभु की कृपा है। यदि उनके साथ सम्पर्क रहे तो अर्थ का प्रकाश हो उठता है।

ज्ञानसूक्त धार्णी के आविर्भाव के साथ प्रारम्भ होता है। धार्णी बुद्धि-सेत्र से चलकर मनोभूमि में प्रवेश करती हुई कण्ठ-तालु आदि द्वारा बैखरी धार्णी में आकर विविध रूपों में विभक्त हो जाती है। धार्णी के साथ ज्ञान भी चलकर बोध तथा मनन का रूप धारण करता हुआ विज्ञान में परिणत हो जाता है। यह केन्द्र का परिधि तक वितान या विस्तार है। मन तथा बुद्धि ज्ञान के विशिष्ट केन्द्र हैं। यश उसका पुनर् है जो या तो ज्ञान के आचार में परिणत होने पर प्रकट होता है, या बुद्धि के वैभव में दृष्टिगोचर होता है। जिसे न मन का उत्कर्प प्राप्त है, न बुद्धि का नैर्मल्य, वह मूँद, शारीरिक अम द्वारा ध्ययना जीवन-निर्वाह करता है। यश उसके भाग्य में नहीं थदा है। धार्णी के व्यवहार में भी कुशलता सम्पादित करनी चाहिये। निसार नहीं, सारगम धार्णी का उच्चारण करना ही व्यवहार को सुगम परं सुन्दर बनाता है। धार्णी

का ऐसा प्रयोक्ता सभी आयोजनों में समरग किया जाता है। वागी प्रभाववती है, परन्तु उसके प्रभाव का बल उसके सफल प्रयोग में निहित है।

वाणी और ज्ञान अन्योन्याधिन हैं—एक दूसरे में जीतप्रोत हैं। मन में छानकर वाणी के प्रयोग करने का अर्थ है ज्ञान की शाखा अर्थात् विश्लेषण से काम लेता। विश्लेषण व्यर्थता को बाहर निकाल देता है, और सारभूत तत्व को रहने देता है। संश्लेषण को किया भी चलनों हैं जो एक सार को, एक सत्य को उसकी खण्डना से निकाल कर सम्पन्न, अखण्ड के साथ संरिलङ्घ कर देती है, एक कर देती है। त्रुदि निर्गायिका है। मन के विविध संकलन-विकल्पों में से वह एक को चुन लेती है। जेवे मन के चेत्र में मानव असमान हैं, वैसे ही त्रुदि के चेत्र में भी। त्रुदि के सबसे ऊचे स्तर पर एकदम है, सामर्थ्य है, पर वहाँ सबकी पहुँच नहीं हो पाती। वह प्रज्ञा के प्रकाश का चेत्र है।

ज्ञान के आधार पर हम बाह्यगों या ज्ञानियों के चार भेद कर सकते हैं। एक स्त्रोता हैं, गुग-झोप का विवेचन करने वाले दार्शनिक हैं। दूसरे कलाकार हैं। आनन्द की सृष्टि करना इनका उद्देश्य है। भाव इनका आधार है। एक विज्ञानी हैं, सृष्टि की विविधता, ज्ञान की विरूपशाखाओं का अव्ययन करना इनका उद्देश्य है। एक याजक हैं। यज्ञ करना और कराना इनका काम है। यज्ञ को श्रेष्ठतम् कर्म कहा गया है। आचार पर इनकी विशेष दृष्टि रहती है। शुण्यकर्मों का सम्पादन इनका ध्येय है।

भारतीय ज्ञानधारा एक से अनेक शाखाओं में फूटती हुई पुनः अनेक को एक की ओर ले जाती है। “एकत्वमनु परयतः” उसका आदर्श है। नामा नाम-स्वप्न जो सृष्टि में परिलिपित होते हैं, उनका ‘नामथा एक एव’ धारण करने वाला एक ही है। एक है, तब तक अरिप्रता है, श्रेष्ठता है, बहुत की ओर चलते ही रिप्रे घेर लेना है। उने पुनः श्रेष्ठता देने के लिये एकत्व को अपनाना पड़ता है।

वेद वहुत्य का तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि वह एक मूल का ही तो

विस्तार है। परिधि अपने केन्द्र को याद रखती है, वहुस्व एकत्र की स्तुति करता है, यह सृष्टि अपने स्थान का गुणगान कर रही है। सात स्वर, सात क्षुन्द एक और सू अल्प के स्तवन में लीन हैं। अचर त्रिमात्रिक होकर वेदव्रयी तथा काण्डव्रयी का सूप धारण कर लेता है। अन्त में सब उसी में लीन हो जाते हैं, क्रीड़ा से थक कर विश्राम पाते हैं।

ओह ब्रह्माणो विचरन्ति उत्थे

—०००००—

## शुचिता

अविनः शुचिवततमः शुचिर्विग्रः शुचिःकविः । शुचो रोचत आहुतः ।  
( श० ८-४४-२१ )

परम गति, परम ज्ञान, परम प्रकाश जहां है, वहां परम शुचिता भी है । साधक शुचिवत होता है । वह पवित्र होने का व्रत लेता है, परन्तु स्वयं शुचिता ने जिसे वरण किया हो और ऐसों में भी जो सदसे श्रेष्ठ हो, वह शुचिवततम परम देव ही है । हम शुचिवत होकर शुचि बनते हैं । इस व्रत में ज्ञान, भाव तथा कर्म तीनों हमारी सहायता करते हैं, वर्योंकि तीनों में पावमानी शक्ति है । वैसे तीनों अपावनता की ओर भी ले जा सकते हैं, परन्तु तभी जब वे अपावन प्रयोक्ताओं के हाथों में हों । साधना में निरत साधक के लिये वे पावक का ही कार्य करते हैं । 'न हि ज्ञानेन सदां पवित्रमिह विद्यते—'ज्ञान के सदा पवित्र यहां अन्य कौन है ? जहां कर्म को कीचड़ कहा गया है, वहां कर्म वासनाओं से तथा इन्द्रियाओं से प्रेरित होता है । निष्काम तथा आसक्तिरहित कर्म को कोई भी विद्वान अपवित्र नहीं कहता और यदि शुभ कामना कर्म के साथ लगी हो, तब भी वह अपवित्र नहीं होगा । फिर कर्म ज्ञानपूर्वक होता है । साधक समझ वृक्षकर नियत कर्म-पथ पर प्रयाण करता है । यह ज्ञान उसके कर्म को अपवित्र रहने ही नहीं देता । ज्ञान वह पावक है जिसके साथ रहने से अपवित्र कर्म ( जिसे कर्दम कहा जाता है ) भस्म हो जाता है । कर्म इसलिए भी पावक है वर्योंकि वह साधक को साधना-पथ पर प्रगतिशील करता है । यजुर्वेद के ४० वें अध्याय के द्वितीय मंत्र में ऐसे कर्म को निलेंप कहा गया है । कर्तव्य केवल कर्तव्य के लिये करना ऐसा साधन है, साधक के हाथ में ऐसा अमोघ अस्त्र है, जो उसे किसी भी पदार्थ के साथ आमतः नहीं होने देता । यह एक अनुपम पूर्व मूल्यवदी सिद्धि है । अतः कर्म को भी हम

पावक की संज्ञा देते हैं। भावतो मूलतः पावक है, अर्भीद्व पावक है। वहीं से ज्ञान तथा कर्म के तानु इटत होते हैं और मूल से संदुक्ष रहकर पवित्र यने रहते हैं। जब वे मूल का परित्याग कर देते हैं और अहमहमिका से ब्रेरित होने लगते हैं तब दोनों ही अपवित्र हो जाते हैं। वेद ऐसे ही ज्ञान को पापी-यसी बुद्धि तथा ऐसे ही कर्म को हुरिएट की संज्ञा प्रदान करता है। साधक का कार्य ही मूल को पकड़ना है। अतः उसके ज्ञान, कर्म एवं भाव तीनों ही पवमान होते हैं। ऊपर उद्घटन मन्त्र में विप्र शब्द ज्ञान का वाचक है, क्वि शब्द भाव का ओतन करता है और आहुतः शब्द से कर्म च्वनित होता है। तीनों साधन हमें शुचिता की ओर ले जाने वाले हैं। जो स्वयं शुचि होगा, वही तो शुचिता का संचार करने तथा कराने में समर्थ होगा। अशुचि तो अपावनता का ही कारण बनेगा।

संसार में तम की, निद्रा की, प्रमादालस्य की, मोह की बहुत अधिक मात्रा है। रज की, चाढ़लय की, दीड़-धूप की, राग-द्वेष की मात्रा भी उससे कम नहीं है। दोनों ही अपावन हैं, पर प्रथम की अपेक्षा दूसरे की अपावनता अधिक बढ़ेक्षकारिणी है। प्रत्येक रथक्ति के साथ तम तथा रज दोनों ही चिपटे हैं। साधक हन दोनों की ही अपावनता से मुक्ति चाहता है। वह भाव-विभोर होकर प्रभु से प्रार्थना करता है :—

स्वामिन् रजः परिचितं, चपलस्वभावं  
जात्या मलीमसमिदं हृदयं मदीयम् ।  
त्वत्पादपद्मविष्वे कुतपक्षपातम्  
घते प्रमोदभरनिर्भरभृहलक्ष्मीम् ॥

स्वामिन्, मेरा हृदय रजोगुण से परिचित और चंचल स्वभाव का है, साथ ही जाति से मलीमस है, मलिनता से जोतप्रोत है, काटिमा से भावृत है, पर आज यह अमर का रूप धारण कर रहा है। अमर भी तो जाति से काला, कमल की रज अर्थात् पराय से परिचित और एक नहीं अनेक पुष्पों पर गूँजने वाला अतएव चपल होता है। पर जैसे अमर के पंख कमल पर गिरते हैं, मेरा

हृदय भी वैसे ही, आपके पाद-पद्मों पर गिर रहा है। उसका पहुँचात कमल पर है, तो मेरा आपके चरणों पर। अतएव अत्यन्त प्रमोद के भार से परिपूर्ण हुआ आज्ञ यह इस तमोमयी एवं रजोमयी भृङ्क की लचमी (सुद्रा, शोभा) को धारण कर रहा है।

कवि का तात्पर्य है कि तम और रज को अपावनता प्रभु के चरणों की शारण ग्रहण करने से ही मिट सकेगी। आचार्य शंकर भी यही कहते हैं :—

अयः स्पर्शं लग्नं स्पष्टिं लभते हेमपदवीम्

यथा रथ्या-पाथः शुचि भवति गंगौधमिलितम्।

तथा तत्त्पत्पापैरतिमलिनमन्तर्मम् यदि

त्वयि प्रेमणासकं कथमिव न जायेत विमलम्॥

नाथ ! लोहा पारस पथर को ढूँते ही तरकाल स्वर्ण में परिणत हो जाता है। नालियों का गम्दा पानी गंगा के प्रवाह में मिलते ही पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार पापों के कारण मलिन पड़ा हुआ मेरा अन्तःकरण जब प्रेमपूर्वक आपके साथ चिपट जायगा तो क्या वह निर्मल नहीं बन जायगा ?

देव में अनेक चार दुरित, अंहस्, ऐनस्, पात्र, अमीव, अग्नाहुति, अराति, दुर्विद्य, अघ, द्वेष, ह्र, आगः आदि अशुचि के विविध रूपों से मुक्त होने के लिये प्रार्थनायें आती हैं। प्रार्थना भक्ति काण्ड का ही एक अङ्ग है। जिन प्रार्थनाओं में भद्र, सुवित, शुचि, स्त्रिए, सुविद्य, अनेहस्, स्वस्ति, शम् आदि जो प्राप्त करने के लिए निवेदन है, उनमें भक्ति काण्ड के साथ पवित्र कर्मकाण्ड भी संयुक्त है। अदिति की अखंडनीय अवस्था प्रभु के ब्रत में निवास करने से ही प्राप्त होती है। प्रभु की समीपता सभी पापों को दग्ध कर देती है। उसके नैकट्य की अनुभूति निखिल संकटों से पार करने वाली है। अतः भक्ति-भावना, उपासना, प्रभु का भजन, शरणागति, प्रपञ्चता ऐसे साधन हैं जो अशुचि को शुचि बना सकते हैं। प्रभु शुचि ही नहीं, शुचितम हैं। उनसे बढ़कर यहाँ शुचि और कौन है ? ऐसे पवित्रतम प्रभु का संपर्क जीवात्मा को निससन्देह पवित्र बना देगा।

भक्ति की ओर उन्मुख होने के लिये आवश्यक है कि हम अपने ऊपर किसी अंकुश का अनुभव करें। सबसे बड़ा अंकुश मृत्यु का है। हम पल-पल में ऐसी भावना जागृत करें कि मृत्यु हमारे शिर पर खड़ी है। न जाने वह कब आ जाय और हमें इस शरीर को छोड़कर चल देना पड़े। अतएव मृण-मृण में धर्म अथवा कर्तव्य-पालन की प्रेरणा हमें सत्पथ पर अग्रसर करती रहे। यज्ञ को सत्पथ का प्रतीक समझा गया है। हमारा जीवन यज्ञिय बने, दिव्यता का बरण करे, देवों की, द्विष्टगुणों पूर्व भावों की संगति में रहे, अदान आदि की दूषित धाराओं के साथ हमारा संपर्क न हो; ऐसा जीवन व्यतीत करने से तम पूर्व रज दोनों ही शान्त हो जायेंगे और सत का आविर्भाव होने लगेगा जो शुचिता पूर्व पवित्रता का जनक है। मृत्यु का अंकुश हमें पाप-पथ पर चलने से रोकेगा तथा धर्म-पथ पर चलने के लिये प्रेरित करेगा। 'गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ।'

इसी के साथ एक अन्य दृष्टि का भी उन्मेप होगा। यह दृष्टि है—प्रभु के संदर्शन में जीवन व्यतीत करना। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, जो कुछ काम करूँ, जिस समय भी करूँ, यदि यह अनुभूति मेरे अन्दर सक्रिय रही कि प्रभु मुझे देख रहे हैं, तो मैं पाप से बच जाऊंगा, अपवित्रता में महीं पढ़ूँगा और निश्चित रूप से शुचिमार्ग-गामी बन जाऊंगा।

प्रभु वैसे भी सबको देख रहे हैं। आवश्यकता है कि हम उनके इस संदर्शन को अनुभव करें। वे तो विश्वतरच्छु हैं ही। उनसे छिपा ही क्या है। चाहे जितना छिपकर कोई काम करे और चाहे जहाँ, चाहे जिसकाल में, पृथ्वी पर, धौ पर, आज या कल या कभी, वह सर्व व्याप्त प्रभु की दृष्टि से ओङ्काल नहीं रह सकता। प्रभु सबके कर्मों के अध्यक्ष है,—'कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः'। ये सबके साथी हैं, 'साथी चेता केवलो निर्गुणश्च।' ये विश्वित हैं, 'अरने कविः काव्येनासि विश्वित्'। ये सबके ज्ञाता हैं। उनसे छिपा कुछ भी नहीं है। सामररथ की अवस्था में हम सब को भी ऐसा ही प्रतिभासित होता है, पर जब अहंकार, मोह और लोभ आ दबाते हैं, तो हम इस आभास से भी

चंचित हो जाते हैं। अतः यह अनुभूति हमारी सतत संगिती नहीं रह पाती। यदि इस भावना को निरन्तर अपने साथ रखें, तो निस्सन्देह हमारी प्रवृत्ति पाप की ओर न हो और हम उस परम शुचि के साथ निवास करना सीखें।

प्रभु-संदर्शन यदि हमारा साथी बन गया तो हम प्रभु की शक्तिमत्ता की छाया में अपने जो निर्भय अनुभव करने लगेंगे। शुचि का संसर्ग हमें शुचि ही नहीं सबल भी बना देगा। प्रभु से पृथक् होना ही तो मृत्यु है। अपविन्न बनना, पापी बनना ही तो मरण है। यदि हम शुचि तथा पवित्र बन गये, तो मरण तो स्वयं मर गया। वह हमें क्या मारेगा? हमारे हाथ में तो जीवन है। अभय ही अभय है, शक्ति ही शक्ति है। प्रभु के साथ रहते हुए' (हते हैं) मा ज्योक्ते संदृशि जीव्यासम्। ज्योक्ते संदृशि जीव्यासम्।) 'हम दिन-रात, आगे-पीछे ऊपर-नीचे, अन्दर-बाहर सदैव-सर्वत्र निर्भयता एवं सबलता का अनुभव करते हुए, निर्द्वन्द्व विचरण करेंगे। सौमनस या प्रसन्नता ही हमारे साथ रहेगी, दुःख-दर्द दूर हो जायेंगे और अद्भुत चैतन्य, निर्मल-कान्ति-पूर्ण आद्लाद हमारे मुखमंडल पर विराजमान रहेगा।

अथं कविः अकविषु प्रचेता भर्त्तेष्वनिः अमृतो निधायि ।

स मा नो अन्न जुहुरः सहस्यः सदात्मे सुमनसः स्याम ॥

हम सब अकवि हैं, विद्युद्ध चैतन्य से कोसों दूर, हमें दिखाई देता ही कितना है, पर प्रभु तो कवि हैं, द्रष्टा हैं, प्रकृष्ट चैतन्य से खोतप्रोत हैं। हम मर्यादा हैं, मृत्यु की चपेटें खाने वाले हैं, भयाकान्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक योनि से दूसरी योनि में, भय से ब्राण पाने के लिए, एक को छोड़कर दूसरे की शरण में जाने वाले। पर उस अमृत स्वरूप प्रभु को छोड़कर यहाँ अन्य कौन शरण दे सकता है? अतः सबको छोड़कर उसी एक की शरण ग्रहण करना चाहिये। उसी का पहला पकड़ना चाहिये। वही सहस्र है। सहनशक्ति उसी की, अपनी, है। परम बल उसी के पास है। वह हमें न छोड़े, जिससे हम सदैव उसकी छाया में रहते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते रहें।

तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्य अपि भद्रे सौमनसे स्याम ।  
स सुत्रामा स्ववां इन्द्रो अस्मे आराच्चिद् द्वेषः सनुतर्युयोतु ॥

हमारी बुद्धि उस प्रभु के साथ एक हो । उस यज्ञिय, परम पूज्य प्रभु की सुमति में हमारा निवास हो । वही हमारा प्रेरण पूर्व नियंत्रण करें और उन्हीं के कल्याणकारी सौमनस में हमारा जीवन व्यतीत हो । हम प्रसन्न रहें, आहूलाद का अनुभव करते रहें, पर यह प्रसन्नता भद्र हो, किसी संगी-सापी की अप्रसन्नता, रोप पूर्व ईर्ष्या का कारण न बने । यह मेरा तथा सबका कल्याण करे । मुझे प्रसन्न देखकर अन्य साथी भी प्रसन्न हों । और यदि ईर्ष्याविदा कोई मेरी प्रसन्नता अर्थात् सौमनस पर आधात करे, तो मुझे प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुत्रामा प्रभु मेरे साथ हैं । वे सुगमता से मेरा ग्राण कर लेंगे । रक्षा करने में वे सर्वोत्तम हैं । उनकी यह रक्षण-शक्ति उनकी अपनी है, किसी से उधार ली हुई नहीं है । अतः यदि कोई मुझ से द्वेष करता भी है तो मुझे द्वेष नहीं करना चाहिये । प्रभु द्वेष को तो मुझ से सभी भाँति और बहुत दूर रखें । द्वेष अग्नि है । जो द्वेष करता है, इसमें दग्ध होता है । प्रसन्नता उसके पास भी नहीं फटकती । फिर द्वेष करके मैं अपनी प्रसन्नता का विनाश करूँ ।

विश्वदानीं सुमनसः स्याम पश्येमनु सूर्यमुच्चरन्तम् ।  
तथा फरत् चसुपतिर्वसुना देवां ओहानो अवसागमिष्टः ॥

प्रभु हमें देसी अवस्था में ले चले जहां अनवरत प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, आहूलाद ही आहूलाद है, जहां पछ भर के लिये भी जौदासीन्य अथवा दिरसता नहीं है । इस अवस्था में निरन्तर सूर्य का उदय है, तम का लबलेश भी जहां चण भर को भी ठहर नहीं पाता । प्रभु ही इस अवस्था में, आहूलाद के ओक में, मुझे बसाने चाले हैं । वे बसुओं के भी बसुपति है, बसाने वालों के भी बसाने वाले और उनके रक्षक हैं । वे मुझे इस सौमनस की स्थिति में बसा दें । इसी दशा में तो दिव्यता निवास करती है । प्रभु ही इस दिव्यता को लानेवाले

है। यह देव-दर्शन सुझे भी प्राप्त हो। और अब की, रक्षण की, ब्राण की चरम, गंतव्य दशा भी तो यही है। मैं यहां सुरक्षित हूँ। यही तो मेरा प्राप्तव्य था। मरण की मारें हेलते-हेलते, व्याकुल बना, चारों ओर छुटपटाता फिरता था। आज निरिंचित हूँ। यह निवास, ये देव, यह प्रकाश, यह सौमनस सदैव मेरे साथ रहे।

साधक को यह अवस्था प्राप्त होती है। इसे प्राप्त करके वह निर्मल हो जाता है। मल के जो परत उसे आच्छादित किये हुए थे, एक-एक कर हट जाते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी में स्नान करके वह शुचिता का वरण कर लेता है। कर्म तो कठोर है ही, ज्ञान भी कृपाण के समान तीव्र धार रखता है। सांख्य अर्थात् ज्ञानकाण्ड के साथ योग अर्थात् कर्म की वलेशकारिता सभी साधकों ने अनुभव की है। योग में भी हठयोग अधिक विलम्ब है। हाँ, भावयोग की सराहना सबने की है। संध्या तथा उपासना की पद्धति ज्ञान एवं कर्म की अवहेलना नहीं करती, पर भावयोग को विशेष स्थान देती है। भक्ति काण्ड में जिसे प्रपत्ति की संज्ञा-प्राप्त है, वह शरणागति ही इस भावयोग की सर्वस्व है। जैसे रथ<sup>१</sup> या नाव में बैठ कर हम निरिंचित हो जाते हैं, हमारा पार उत्तरना या ऊच्य सक पहुँचना सारथी या केवट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, वैसे ही प्रपत्ति रथ या नाव है। हम शरणागत हो जुके। अब प्रभु जाने और उसका सामर्थ्य। चाहे पार करे, चाहे बीच में हुबो दे, हमें इसकी चिन्ता नहीं है। पर प्रभु तो पत्रि हैं, पार लगानेवाले हैं। स्वरित की नाव<sup>२</sup> पर चिठाकर म जाने कितनों को उन्होंने पार लगा दिया। भावयोग का साधक भी पार होता है, परमशुचि के साथ एक होता है और आनन्द का अनुभव करता है। यही परम गति है ही नहीं।

—०५०—

१. ( रथे न पादमादधुः ) ।

२. ( 'सनः पत्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहृतः । यज्ञियाम् नावभारहन् । प्रातर्यावाणं रथमिन्द्रसानविमरित्यन्तमाणहेमा स्वस्तये । दैवीं नावम् स्वरित्राम् ।' )

## समिद्धता

प्रभु समिद्ध हैं। विकाल में, विलोकी में और विद्यशाखों में समयक् प्रकार से समिद्ध हैं। वे निरन्तर, शाश्वत और अपने सहज रूप से समिद्ध हैं, प्रदीप् गति हैं, प्रकाशित हैं, पर कुछ सिद्धों को छोड़कर, वे प्रायः सभी के लिए अप्रकाशित हैं। उनका प्रकाश स्वरूप हम सबकी बाहर तथा अन्दर की आँखों से ओझल रहता है। वे चमक रहे हैं, पर हमें दिखाई नहीं पड़ते। उनकी ज्योति जगमगा रही है, पर हमारी अनुभूति से परे है। वे हैं—अपने अनन्त-चैभव-पूर्ण, शक्ति मान, अजस्त ज्योतिर्मय रूप में, हम सबके अन्दर-बाहर चर्तमान हैं—पर दिखाई नहीं देते—समिद्ध होते हुए भी असमिद्ध, प्रदीप् होते हुए भी अप्रदीप्, प्रकाशित होते हुए भी अप्रकाशित, चर्तमान होते हुए भी अवर्तमान। उनके इस समिद्ध-जाउवर्यमान रूप के दर्शन कैसे हों? उनके इस प्रकाश-विग्रह को हम अपने समुख कैसे उपस्थित करें? उनकी सतत विद्यमानता की अनुभूति को अपने अन्दर कैसे जगावें।

कहा जाता है, सिद्ध उनके दर्शन करते हैं। चित्रशिखंडी ऋषियों के सामने उनकी ज्योति प्रकट हुई थी। यही व्यों, साधारण साधक उनकी कृपा के लबलेश को पाकर ही उन्हें अनुभव करने लगता है। प्रभा से पूर्ण सूर्य, जगत्-मगर करती ज्योत्स्ना के प्रसारक चन्द्र, तिळमिळाती हुई तारकावलि, दूर्वादिल पर मोती के दाने के समान दमकते हुये ज्वास के विन्दु, छताओं के झारमुट में लिले हुए फूल, सब में वह अपने प्रभु की विभूति को देखता है। मनीषियों को मनन-प्रणाली, मेधावियों की धारण-ग्रहण-वती मेधा तथा प्राज्ञों की सहजानुभूति में उसकी ह्लक स्वल्पताओं के लिये प्राप्त हो जाती है। उधान और पतन, धंस और निर्माण, धाया और धूप के दृश्य रिमिक्शन-रिमिक्शन वर्षा और आंधी-नूकान उसकी ओर संकेत करते जान पड़ते हैं। इन संकेतों को,

इस झलक को, इस विभूति को कैसे अपनाया जाय ? हमें अपना सतत साधी कैसे बनाया जाय ?

वेद कहते हैं, प्रभु अग्नि हैं। भर्म उनका विमर्श करने में असमर्थ है। अग्नि को हृदयंगम करना है तो अग्नि बनो, अग्नि को अपने अन्दर प्रज्वलित करो। प्रभु-दर्शन कोई खेल नहीं है जो चलते-फिरते हो जाय। अग्नि का धर्म है जलना-तुम जलो, अनुताप में जलो, पश्चात्ताप में जलो, प्रभु क्यों नहीं मिलते, इस विचार में जलो। यह जलन तुम्हें ज्वाला में परिणत कर सकेगी। अग्नि की ज्वाला बलवती है, बड़ी-बड़ी रेलों को खांचती फिरती है—तुम भी बलवान बनो। अग्नि में तेज है—तुम भी तेजस्वी बनो। अग्नि-ज्वाला विविध मानवहितकारी कार्यों की साधिका है, तुम भी मानवहित में तत्पर रहो। अग्नि वीर्य है, प्राण है, तुम भी प्राण-पुञ्ज बनो। अग्नि शक्ति है, तुम भी शक्तिशाली बनो। हमारी वर्णमर्यादा में चात्रिय इस अग्नि का प्रतीक है, तुम भी चात्र भाव को धारण करो। शूद्र की सेवा और वैश्य का धन भी अपना महत्व रखते हैं, पर वे चात्रशक्ति के मूल्य तक नहीं पहुँच पाते। इन्हें अपने रक्षण एवं अस्तित्व के लिए चात्रशक्ति पर अवलम्बित रहना पढ़ता है। उसके अभाव में ये पनप नहीं सकते। चात्रशक्ति के लिए वे सहायक अवश्य बनते हैं जैसे अग्नि के प्रज्वलन के लिये काष्ठ या ऊपले।

अग्नि अग्नि से ही प्रज्वलित होता है। पहले अग्नि को अपने घरों में बुझने नहीं देते थे। कंडाया लकड़ी लगाकर उसे सुलगाये रहते थे। यह कार्य अब दीपशलाका ने ले लिया है। विजली भी इस कार्य को करने लगी है। वैभव एवं विज्ञान से सम्पन्न घरों में यह कार्य सूर्य-किरणों से भी लिया जाने लगा है, पर वह व्यय-साध्य है। साधारण जनता के वश की बात नहीं है। जो अपने सामर्थ्य से बाहर है, सर्वजन-सुलभ नहीं है, उसकी चर्चा कर देना ही पर्याप्त है। पर अग्नि, विद्युत और सूर्य तीनों एक ही सत्त्व के तीन, स्तर की दृष्टि से, भिन्न-भिन्न नाम हैं। अग्नि को प्रज्वलित करना है तो इन तीन में से ही किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। दीपशलाका के द्वार पर जो मशाला

उनकी प्रखरता या प्रचण्डता नष्ट हो गई है। यहां अग्नि की दाहकता नहीं है, चन्द्र की शीतलता है। यहां रवि अंगारे नहीं वरसाता। वह प्रतिर्थित होकर ज्योत्स्ना की मयन्दमणीया, अहादकारिणी सृष्टि खड़ी करता है, ज्ञान का आतंक और कर्म की भयंकरता—दो निषेधोंने मिलकर यहां भावविधायिनी मंगलमयी एक ऐसी रचना प्रस्तुत की है, जो ब्रिलोकी को तीनों कालों में आप्यायित करती रहती है। वेद के शब्दों में 'चन्द्रमा अप्सु अन्तरा सुपर्णो धावते दिवि' १ यजु० ३३-१० चन्द्र के चारों ओर जलीय मण्डल है। इसीलिए उसका प्रकाश शीतल है। भर्तृहरि सन्तों के सम्बन्ध में कहते हैं :—

मनसि वचसि काये पुण्यपीयूपपूर्णा:  
त्रिभुवनमुपकारथेणिभिः प्रीणयन्तः ।  
परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं  
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ १ ॥

जिनके मन, वचन और शरीर ( कर्म ) पवित्र पीयूप से पूर्ण है, जो तीनों भुवनों को अपने उपकारों द्वारा आनन्दमग्न करते रहते हैं, जो दूसरों के परमाणुतुल्य स्वरूप गुणों को भी पर्वत के समान समझकर अपने हृदय में विकसित किया करते हैं—वे सन्त यहां कितने हैं ?

सन्तों की आग्नेयता ज्योत्स्ना में परिणत होकर यद्यपि अंगारों के स्थान पर अमृत-सिंचन द्वारा विश्व का प्रीणन अवश्य कर रही है, पर अपनी इदता को वह खो नहीं बैठी। पृथ्वी के अन्दर का एक ही द्रव्य अग्नि की अपेक्षाकृत कम उपर्यं पाकर काला कोयला बनता है, पर वही अग्नि उसी द्रव्य को बहुत देर तक पकाकर इवेत हीरे में भी परिवर्तित कर देता है। हीरे में पाकशिया की रसायन इदता भर देती है। अग्नि की यह इदता सन्तों की अविच्छिन्न भद्र भावना, आधार-परायणता और अटल कथनी-करनी की एकता में प्रतिलिपित होती है। उनके चरित्र की इस सुदृढता को लुभावने से लुभावने इश्य भी विचलित नहीं कर पाते।

प्रभु स्वयं सत हैं, व्रतपा हैं और अदाभ्यव्रती हैं। व्रत के अतिक्रमण की बात मोचना भी उनके संबंध में पाप है। वे स्वयं अटल व्रतपालक हैं और अपने भक्तों के व्रत की भी रक्षा करने वाले हैं। सन्त अपने प्रभु के साक्षिघ्य में रहकर निर्भय हो जाते हैं। वे प्रभु पर अपने आपको सर्वात्मना समर्पित कर देते हैं। अतः उनके योग-चेम की चिन्ता प्रभु को होती है। ऐसा शील-सम्बन्ध, चरित्र का धनी, शुभ का संस्थान, भद्र का भवन सन्त ब्राह्मणत्व की ज्ञान-परिधि से ऊपर उठ जाता है। ज्ञान प्रभु तक पहुँचा देगा, पर शील ज्ञानी को प्रभु का चना देगा।

सन्त का पद ऊँचा है, पर है तो वह भी साधनापथ का पथिक ही। साधना के उत्तरवर पर वह अवश्य पहुँच गया है; प्रभु का भी बन गया है, पर अभी प्रभु में घुलने-मिलने की स्थिति नहीं आ पाई। कुछ हिचक अब भी शेष है। प्रभु के साथ एक हो जाना, पुरुष का अनुदर्शन करना, भेदभाव को भूल जाना, पार्थक्य के याकौं को छिन्न भिन्न कर देना ऐसे साधक सिद्ध का कार्य है जो समर्पण की दीनता से भी ऊपर प्रभु के सखा-भाव को प्राप्त कर गया हो।

वेद कहता है, प्रभु हमारे सखा हैं, हम सरय भाव द्वारा ही उन्हें प्राप्त करते हैं। सखा भाव प्रेम का भाव है। प्रभु तो सभी के सखा हैं, पर हम उनके सखा बन सके हैं या नहीं? प्रभु तो सबसे प्यार करते हैं, पर हम भी उनको प्यार करते हैं या नहीं? 'मिलहि न इघुपति विनु अनुरागा। किये जोग तप ज्ञान विरागा'। रामायण उत्तरकाण्ड ६२। 'त्वयि प्रेम्या सत्तं कथमिव न ज्ञायेत रिमलम्'। हमारे इस सरय से ही प्रभु का सखा-भाव हमारे समक्ष समिद्ध हो सकेगा।

सरयभाव में भी आग्नेयता खेल रही है। जाचार्य वल्लभ के शब्दों में आग्नेयता की जो ऊर्ध्वा यहाँ है, वह अन्यत्र कहीं भी नहीं। प्रेम में पावर के परमपूर्ण रूप का पालन होता है। भावना की यह प्रवणता अपने आप में ही खोई हुई है, अनुपम है, अन्य भावों द्वारा अनाप्राप्त है। सरयभाव भक्ति-

सेव का अतीव ऊर्ध्व स्थल है, जहाँ भक्त और भगवान की सधस्थना है। वेद इस सधस्थता की महिमा का वर्णन करते यक्ता नहीं। 'उपमसित्वा सधस्थ था'—( दिमते अनल प्रगट वह होई )। विमुख राम सुख पाव न कोई।—  
उत्तरकाण्ड १२२ ) कहकर वह दूसकी धार-धार कामना करता है।

जपर वेद के जिस मंत्र की स्थान्या की गई है, वह इस प्रकार है :—

त्वं हि अग्ने अग्निना, विप्रो विप्रेण, सन् सता ।

सखा सख्या समिद्ध्यसे । ( अ० ८-४३-१४ )

अग्नि से कर्मकाण्ड, विप्र से ज्ञानकाण्ड, सत से भावारदाता और सखा से भक्तिकाण्ड अभिप्रेत हैं। अग्नि मूळ से लेकर अन्त तक व्याख्यत है। वह क्षमशः अपने विभिन्न स्तरों को पार करता हुआ, निर्मल से निर्मल, उज्ज्वल से उज्ज्वल, पावक से पावक रूप में परिणत होता गया है। सखा भाव में वह अपने स्रोत से एक हो जाता है। मंत्र ने जहाँ साधन-क्रम उपस्थित किया है, वहाँ उसने साध्य के रूप को भी समिद्ध कर दिया है। यही समिद्धता हम सब का अभीष्टित च्येय है।

## चार देवता

पुरुष सूक्त ने जिस चतुरस्र विधान को दिविधा में पृष्ठदाउय, वायव्य, आरण्य तथा आम्य, वाणीविधा में ऋक्, यजु, साम तथा शुन्द ( अर्थर्व ), पशुविधा में गो, अश्व, अज तथा अवि, पुरुषविधा में मुख, बाहु, उह तथा पैर और समाजविधा में आहाग, इत्रिय, वैश्व तथा शूद्र कहा था, वही दैव विधा में अग्नि, प्राण, पूरा तथा विश्वकर्मा, तैजस विधा में द्यौ, सूर्य, अनन्तरिक्षीय विद्युत तथा पार्थिवामिन, ब्रह्माण्ड विधा में महः, स्वः, मुवः, तथा भूः, जलविधा में अम्भ, मरीचि, मर तथा आपः और धातु विधा में हीरा, स्वर्ण, रजत तथा लोहा हैं । हिरण्यगर्भ सूक्त में इस विभाग का प्रस्तार पाया जाता है । “यः प्राणतो, निमिषतो” आदि मंत्र में निर्जीव, सज्जीव, चतुष्पद तथा द्विपद रूपों में प्राणवत्ता का और “येनद्यौहप्रा” आदि मंत्र में उग्र द्यौ, हडा पृथिवी, स्वः तथा नाकः लोकों में रवि का विकास स्पष्टतया प्रतीत होता है । इन्हें हम ज्ञत तथा सत्य का विकास भी कह सकते हैं । यह चतुर्विध विभाग एक ब्रह्माण्ड ही नहीं, सृष्टिभर में पाया जाता है ।

इस विषय में निम्नांकित ज्ञात्या पर विचार कीजिये :—

शान्त इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शामादित्येभिर्वैष्णवः सुशांसः ।  
शान्तो रुद्रो रुद्रेभिर्जलापः शान्तस्त्वपाग्नाभिरिहशृणोतु ॥

( शृ० ७-३५-६ अथ० १९-३०-६ )

सुष्टि प्रकरण में ‘शान्तो अज एक पात्’ आदि मंत्र की व्याख्या में हमने जिन पूरिन, पेह, अहिवृण्य तथा अजपृकपात् नाम की चार स्थितियों का वर्णन किया है और निमित्ति की अवस्था में महर्षि कपिल ने उन्हीं के समानान्तर जिन महान् या महत्त्व, अहंकार, पंचतन्मात्र तथा स्थूल भूतों का नाम लिया है, वस्तुतः वही चार चारों ओर कैले हुए हैं, केवल नाम और रूपों

का अन्तर है जिनकी ओर हमने ऊपर संकेत किया है। प्रस्तुत मंत्र में सृष्टि में कियाशील चार विद्य तत्वों या शक्तियों का वर्णन है।

मंत्र में प्रथम इन्द्र तत्व को लिया है। इन्द्र किसे कहते हैं? ख्याकरण के अनुसार इदि परमैश्वर्यं धातु से रन् प्रत्यय लगाकर इन्द्र शब्द सिद्ध किया जाता है। 'यः इन्दति परमैश्वर्यवान् भवति स इन्दः।' इन्द्र परमैश्वर्यवान् है। इस व्युत्पत्ति को सिद्ध करने वाले कई विशेषण भी इन्द्र के साप लगे हैं, यथा वृद्धध्रवाः, वासवः, प्रभूवसो, मधवत्, तुवीमघ, वसुमान्, वरिवस्त्रकर आदि। निम्नांकित मन्त्रों में भी इन्द्र की इस विशेषता पर प्रकाश पड़ता है:—

**नूरुद्गुत इन्द्र नूरुगृणानः इपं जरित्रे नद्यो न पीपेः।**

( अ० ४-१६-२१; १७-२१; तथा १९ से २४ सूक्तों का ११ थां मंत्र )

हे इन्द्र ! निश्चित रूप से हमने तेरी स्तुति की है। अब स्त्र्यमान तू मुझ स्तोता को इप से, अच्छ से, रवि से, धन-सम्पदा से नदी की तरह परिपूर्ण कर दे। नदी जैसे वर्षों ग्रातु की बाढ़ में जल से भर जाती है और अपनी सम्पत्ति का प्रदर्शन चारों ओर करती है, अपने अस्तित्व का, धनी सत्ता का उद्घोष करती है, वैसे ही मैं धन से, अन्न से परिपूर्ण हो जाऊं। मेरी धनवत्ता खुलकर प्रकट हो।

**पद्या वस्वः इन्द्रः सत्यः सम्भ्राद् हन्ता वृत्रं वरिवः पूर्वे कः।**

**पुरुष्टुत फल्त्वा नः शान्तिं रायः भक्षीय ते अयसो दैव्यस्य ॥**

( अ० ४-२१-१० )

इन्द्र ही वसु का, धन का, सज्जा सम्भ्राद् है। वही वास्तविक धनपति है। वही धन के मार्ग में आने वाले वारक वृत्रों को हटाता है, नष्ट करता है और भक्त साधक को धन देता है। हे पुरुष्टुत ! बहुतों से बहुत बार यहुत बहुत स्तुति किये गये तुम हमें संकल्प तथा कर्तृत्व शक्ति द्वारा धन प्राप्त करने के लिये समर्प बना दो। प्रभो ! इस सम्बन्ध में तुम्हारा दैवी रक्षण हमें प्राप्त हो।

शाचीव इन्द्र पुरुहृद च्युमत्तम तथे दिदं अभितश्चेकिते वसु ।

अतः संगृष्य अभिभूते आभर मा त्वायतो जरितुः काममूनयीः ॥

( ऋ० १५३-३ अथ० २००-१३ )

इन्द्र ! आप शाचीव हैं, शक्ति-ममृतज्ञ हैं, पुरुहृत हैं—अनेक द्वार्य वरने वाले हैं, च्युमत्तम हैं—दिव्यता में सर्वधेष्ठ हैं । यह जो चतुर्दिक् वसु विकीर्ण हो रहा है, अरदों की सम्पदा विश्व में व्यास दिखाई देती है, वह निश्चित रूप से तुम्हारी ही है । हे अभिभूते ! सबके ऊपर विराजमान ! इस सम्पदा में से मुट्ठीभर निकाल कर मुझे भी दे दे । तेरे स्तोता की अभिलापा अपूर्ण न हो ।

त्वं विश्वस्य धनदा असि श्रुतो य ई भवन्त्याजयः ।

तदार्यं विश्वः पुरुहृत पार्थिवो अवस्थुर्नामि भिक्षते ॥

( ऋ० ७३-१० )

धन के लिये यहाँ बड़े-बड़े युद्ध होते हैं, पर इन युद्धों द्वारा धन प्राप्त हो ही जाता हो, ऐसी बात नहीं है । धन के देने वाले तो तुम हो । हे पुरुहृत ! यह पार्थिव प्राणी रक्षा की कामना करता हुआ तुम्हारे ही नाम की भीख माँग रहा है, एकमात्र तुम्हीं को धन का दाता, अपनी कामनाओं का सफल करने वाला मानता है ।

ऋ० १-२९-३ तथा अथर्व २०-७४-३ के सातो मन्त्रों में तुवीनघ इन्द्र से सहस्रों शुभ्री गौओं और अश्रों के प्रशंसनीय दान की प्रार्थना है । अथर्व १०-८-४२ में भी इन्द्र को ‘निवेशनः संगमनोदसूना’ कहा गया है ।

प्रस्तुत मन्त्र में इन्द्र का एक विशेषण देव है । देव का एक वर्ध दानी है । इन्द्र दानी हैं । ‘वसुभिः’ शब्द भी सार्थक है । वसुओं के द्वारा, ऐश्वर्यों के साथ इन्द्र देव हमारे लिये कल्याणकारक हों । मन्त्र के प्रथम पद या चरण का यही अर्थ है । चरण से यह भी ध्वनि निकलती है कि इन्द्र तत्त्व वा वसुनामी दिव्य शक्तियों के साथ ही साहचर्य है । इन्द्र तत्त्व वसुओं के साथ

रहता है। जहाँ जहाँ वसु है, लोक में, ब्रह्माण्ड में अथवा सृष्टि में, वहाँ इन्द्र भी अवश्य है। वसुवत्ता एवं इन्द्रवत्ता सहयोगिनी हैं।

वसुवत्ता रथि के अन्तर्गत है। रथि का एक परिमार्जित रूप सोम है। इन्द्र सोमपीथि हैं। ये सोम पीते हैं। इन्द्र के लिये सोमरस तैयार किया जाता है और उन्हें पीने के लिये बुलाया जाता है। इस इन्द्र का ही एक रूप हमारा सूर्य है जो अपने ऊपर स्थित आपोमयमण्डल के सोम को धरावर पीता रहता है। वसुवत्ता भी रथि का विकसित रूप है। इसके अविकसित प्रारम्भिक रूप का वर्णन मन्त्र के चतुर्थ चरण में है जिसमें खटा ग्ना के साहचर्य में कार्य करता है। यास्क ने निःक्त १२-४६ में ग्ना का अर्थ देवपत्नी लिखा है। इन्द्राणी इन्द्र की, तो अग्नायी अग्नि की भार्या है। पृथ्वी में पति प्रवेश करता है और संतति के रूप में प्रकट होता है। यह उसका पुनर्जन्म अथवा परिमार्जन है। इसी प्रकार सत्य में ऋत का प्रवेश, रथि में प्राण का प्रवेश, सत्ता में गति का प्रवेश संस्कार एवं परिमार्जन का कारण है। ऋतः ग्ना यह तत्त्व है जिसको खटा संस्कृत करता है। खटा का अर्थ है कारीगर। जो खेटि, दीप्त्यति-किसी वस्तु को चमका दे, उसके सामान्य रूप में विशेषता ला दे, वह खटा है। रथि को, सामग्री मात्र को, जो संस्कृत करता है, शाम पर चढ़ाता है, दीप्ति करता है, वह खटा ऋत तत्त्व का ही एक रूप है। लोक भाषा में खटा बढ़ई या लुहार है जो काष्ठ या लोहे से जनेक यंत्र, अख एवं शख्त तैयार करता है। शिश्पकला, उद्योग घन्थे इसी के कारण विकसित होते हैं। ऋतः विशुद्ध रथि को विश के विभिन्न पदार्थों का रूप देना सृष्टि रचना का प्रारम्भिक कार्य है जिसे खटा समादित करता है। चानुर्गर्भ मर्यादा में वसुवत्ता का सम्बन्ध वैश्य से है और खटा का सम्बन्ध भूमिक से या शिश्पकलाकार से। इसे पञ्चतन्मात्राओं का पंचीकरण ह्वारा पंचभूतों में परिणमन भी कहा जा सकता है। एक में सूक्ष्मता है, अपर में स्थूलता। शूद्र का कार्य वैश्य की अपेक्षा स्थूल है। पर रचना के समय सूक्ष्म से स्थूल की ओर आना एक अर्थ रखता है और स्थूल को सूक्ष्म की ओर ले जाना,

सामग्री को संरक्षित रूप देना बिलकुल दूसरी चात है। यहाँ खण्ड का कार्य मना रूप रथि को चमकाना है। इच्छे माल को विशिष्टता से युक्त करना, रुद्धि से धारा और धारों से वस्त्र बनाना शिल्प का कार्य है। खण्ड का भी यही कार्य है। खण्ड की अपेक्षा वसुमान इन्द्र का कार्य विशिष्टतर है, ऐसा न कह कर दोनों के कार्य को एक दूसरे का पूरक कहना चाहिये। वसु से शिल्प का विकास होता है और शिल्प वसु को बढ़ाता है। उद्योग-धर्मों से सम्पदा आती है और सम्पदा से अम के आधार पर व्योग-धर्मे पतनपते हैं—इस सत्य का प्रत्यालयान कौन कर सकता है? अतः किसी को किसी से हीन समझने की घटता करना मूर्खता होगी।

अब हम मन्त्र के द्वितीय चरण की ओर आते हैं। इसमें आदित्य और वरुण का सहचार है। आदित्य का अर्थ बृहदारण्यक—३-९-५ में सर्वम् आददानाऽसवको ग्रहण या स्वीकार करनेवाला किया गया है। वरुण का अर्थ भी वरणीय अर्थात् स्वीकरणीय है। जो सबको अपनाता है, वह स्वयं अपनाने के योग्य है। जो वरणीय है, वह दूसरों को भी वरण करता है। जो दूषित-पवित्र, दुर्गम्य सुर्गम्, कुरम-सुरस सबको ग्रहण करता है और अपने तेज द्वारा पवमान बनकर पवित्रता का प्रसार करता है, वह इस खटि में सर्वोपरि है, सबका शिरमौर है, सम्राट् है। वरुण को इसीलिये राजा कहा गया है। वरुण राजा के राज्य में पावित्र की प्रथा है। हमारे ब्रह्माण्ड में जैसे सूर्य अपवित्रता का विनाश और पवित्रता का संचार करते हैं, वैसे ही वरुण द्वैप का निवारण, अघातु का अपहरण और सुकृत को स्वीकार करते हैं। मन्त्र में इसीलिये उन्हें सुशंसः कहा गया है। सुन्दर है शंसन-कथन जिनका जिनकी वागी अमृत-स्यन्दिनी है, पीयूपवर्षिणी है और जनता जिनके सम्बन्ध में सुन्दर यश का, शोभन कीर्ति का उच्चारण करती है, वे वरुण-वरणीय देव आदित्यों के साथ, आददाना दिव्यशक्तियों के साथ हमारा कल्याण करें। उनका शंसन प्रशंसनीय है। उनका कथन कथनीय है। उनकी वागी वन्दनीय है। वरुण राजा है, तो

बृहदारण्यक ४-१-२ के अनुसार 'वाग्वै सग्राट् परमंशः' है। वाणी भी सप्तांष है। वाणी तैजस अंश का ही सूधमतम रूप है। चानुर्वर्णं मर्यादा में ब्राह्मण भी तैजस है, आग्नेय है, पश्चीम है। तप और रथाग ने उसे दीप्ति प्रदान की है। वह शिर है, सृष्टि का चौ-स्थानीय है।

सत्रिय राजन्य है, परन्तु ब्राह्मणव के आगे छुर्मेवाला है, क्योंकि उसका योनि ब्राह्मण है। वह उसी का अंग है, उसी से उत्पन्न है।

सृष्टि में वरुण प्रतीची दिशा के अधिष्ठित है। ब्राह्मण पश्चिम में पूर्व-भिसुख है—उदय की ओर है; उत्त-ऊपर, अय-स्थिति इतने बाला है। वह वाणी का अधिष्ठित है, वृहस्पति है। बाहर चौ में जो सूर्य है, वही सूर्यों में यहाँ तुदि है। तुदि के प्रकाश में स्वाधीन विचरण करनेवाला ब्राह्मण इसीलिये सबका मूर्धन्य बनता है। अन्य वर्ग उद्गों के भाधीन होते हैं, अतः पराधीन होने के कारण सत्त्वे सग्राट् नहीं कहे जा सकते। जो स्वाधीन है, संयमी है, स्ववक्षी है, स्ववान है, वही सत्त्वा वरुण है, वास्तविक राजा है। सृष्टि में यह स्थान वरुण तत्त्व का है जो भाद्रियों के साथ सुंशास बनता है।

निम्नाकृति मंत्र में भी वरुण का सम्बन्ध भाद्रिय के साथ है :—

उदुक्तमं वरुणपाशामस्मद्वाघमंवि मध्यमं धथाय।

अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥

( श्र० १-२४-१५ अथर्व० ७-८३-६ तथा १८-४-६९ यत्तु० १२-१२ )

यहाँ वरुण तथा भाद्रिय दोनों सम्बोधन हैं। अतः दोनों पक हैं या परस्पर सम्बद्ध हैं। भाद्रिय के व्रत में रहकर, उसका पालन करके हम अनागम, निष्पाप बनते हैं और वरुण हमें अधम, मध्यम तथा उत्तम पाशों से मुक्ति प्रदान करते हैं। इस मंत्र में ऊपर जो ११ वाँ मन्त्र है ( तत्वा यानि ब्रह्मण वन्दमानः ) उसमें वरुण का विशेषण उद्दर्श्यम है जो स्याह्यान मंत्र के 'मुशंमः' का स्मरण कराता है।

'उदुक्तमं' मन्त्र में अधम तथा मध्यम, तम तथा रज के पाशों के साथ

उत्तम सत के पाशों का भी वर्णन है। उनसे भी हमें छूटना है। कार्यायन औत सूत्र २५-११ में सत के पाशों को यज्ञिय पाश कहा गया है :—

‘ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशाः चितता महान्तः ।’  
 वरुण के ये यज्ञिय पाश बड़े सूक्ष्म हैं। ये सतोगुण के पाश हैं जिनसे छुटकारा पाना बड़े से बड़े साधक के लिये भी कठिन है। महाम आदित्यवत ही इनसे छुड़ा सकता है। इसीलिये आदित्य के विभिन्न रूप सविता, विष्णु, महत तथा अकों से मुकि दिलाने की प्रार्थना की गई है। व्याख्यात मंत्र में भी आदित्येभ्यः बहुबचन में ही है। सविता आदित्य का प्रेरक पूर्व उत्पादक रूप है, विष्णु किरणों द्वारा व्याप्त रूप है, महत वायु रूप है जिसके अभाव में सब मर जाते हैं और अकं गतिरूप है जिसके कारण सब गति करते हैं, स्थिरता-छिटुरन-जड़ता-निन्द्रा आदि से निकलकर गतिशील होते हैं। आदित्य के ऐसे द्वादश रूप हैं।

मन्त्र के तीसरे चरण में रुद्र तत्त्व का वर्णन है जो रुद्रों के साथ सृष्टि में कल्पाणकारी बनता है। रुद्र का विशेषण है ‘जलापः’ जिसका अर्थ है सुखप्रद। रुद्र तत्त्व रुलाता है, रोगों को दूर करता है और परिणामतः हँसाता तथा नीरोगता द्वारा सुख का संचार करता है। समाज में यह कार्य सैनिकों, रक्तको अथवा शत्रियों का है जो हुएँ को तादित तथा दण्डित करके रुलाते हैं और सज्जमों की रक्षा करके उन्हें आश्वस्त करते तथा सुख देते हैं। व्यक्ति तथा ब्रह्माण्ड में यह कार्य प्रागता है। सृष्टि में यही कार्य रुद्र का है। रुद्र की शक्तियाँ भी रुद्र कहलाती हैं। वेद में, ‘स्वस्तिनो रुद्रः पात्वंहसः’ रुद्र का पाप से बचाने वाला भी कहा है। रुद्र तत्त्व पाप तथा पापियों का विनाश करता हुआ सृष्टि में पुण्य को पुष्ट कर रहा है। रुद्र तत्त्व के साथ रुद्र शक्तियाँ ही उसे यह विशिष्टता प्रदान करती हैं। रुद्र की शक्तियाँ ही सर्वत्र प्रसूत होकर पाप पर प्रहार करती रहती हैं। सुकृत इसी कारण जीवित रहता है। विश्व की व्यवस्था रुद्रतत्त्व पर ही अवलम्बित है। जहां क्राणशक्ति वड़ी, वहीं धनशक्ति

रुद्रतत्व के कारण, प्राण देव के माध्यम से, आ पहुँचती है और सामरस्य या समर्गवय की साधना में सहायता देती रहती है। सृष्टि का ताना-वाना इसी के कारण सुरचित रहता है। एक और यह विभवंस तो दूसरी ओर निर्माण करती रहती है।

मन्त्र में तारतम्य तथा सम्बन्ध-शब्दुला की हस्ति से हन्त्र की वसुवत्ता तथा वृहण की स्वाधीनता, सग्राह्ता एक स्तर पर हैं जो मन्त्र के प्रथमार्थ में प्रकट हुई हैं और हन्त्र की रुद्रता की सुखदत्ता तथा रक्षा की दीप्तिकारिणी शक्ति दूसरे स्तर पर हैं जो मन्त्र के द्वितीयार्थ में प्रकट हुई हैं। समाज में वैश्य तथा व्राह्मण शान्ति-प्रधान हैं, तो लक्ष्मिय तथा अवजीवी कर्मप्रधान हैं। एक स्तर पर आराम है तो दूसरे स्तर पर उद्घोग तथा कर्तृत्व। इसी आधार पर दोनों स्तरों के रंगों में अन्तर आ गया है। एक शुक्ल वर्ण हैं, तो दूसरे कृष्ण वर्ण। वैठने में रंग छाया के वारण मलिन नहीं हो पाता, परन्तु धूप में कर्म करने के कारण रंग कृष्ण हो जाता है। इसी का प्रभाव स्वभाव पर भी पड़ता है। एक में सौम्यता तो दूसरे में रुक्षता आ जाती है। स्वभावों के ही आधार पर भोजन-द्यवस्था में भी परिवर्तन होता है और भोजन में परिवर्तन शुक्र में परिवर्तन उपर्युक्त करता है। स्वभाव-भोजन-शुक्र, शुक्र-स्वभाव-भोजन की चक्र-शब्दुला परम्परा को अन्म देती और मानव जाति को क्तिपद वर्गों में विभक्त कर देती है। मुख्य वर्ग चार ही रहते हैं, पर सांकर्य के कारण अनेक उपवर्गों की भी सृष्टि होती रहती है। मानव की कर्म-स्वतंत्रता परम-अद्वम स्थितियों का कारण बनती है। हिंसक स्वभाव उदार यनता तथा उदार हिंसक बनता रहता है। दानी काळाभृतर में दुःसंग से कृष्ण घन जाता है और कृष्ण सासंग से दानी घन जाता है। उप्रत पतित सथा पतित उज्जत होता रहता है। अनुकूल परिस्थितियोंमें उज्जत और भी अधिक उज्जत हो जाता है तथा प्रतिशुल परिस्थितियों का संयंग पतित को और भी अधिक पतित घना देता है। फिर भी मूल चार तत्व हृथर-उधर चलते हुए प्रलय पर्यन्त धरना कार्य करते रहते हैं। प्रलय में सब कुछ अपने मूँह स्रोत में समा जाता है, पर सृष्टि के उद्भव

के साथ पुनः वही क्रम चल पहता है—वही महत्तर्व, वही त्रुदि, वही आहुणत्व वही थी, वही वाणी-विभाग, वही तैजस विभाग, वही दैवविभाग, वही लोक-विभाग, वही शुक्र-विभाग, सबका सब पुनः वही। सुष्टि का यह अद्भुत चक्र है, जिसे पूर्णतया समझ लेना कठिन है।

ऋग्यियों की कान्त हृषि ने गुदा-निहित इन विधानों का दर्शन किया था। आज आपें हृषि का अभाव है। इसीलिये वेद मन्त्रों के देवता, उनके अर्थ हमारे लिये दुर्लभ हो रहे हैं। दैवी वाक् वित्तता के आधान विना आद्य नहीं बन सकती। हाँ, प्रभु की कृपा से सब कुछ साध्य हो जाता है। पर उनकी कृपा भी तो सुकर नहीं है। इस संशय-प्रधान, तर्क-प्रसुख युग ने सबकी हृषि को धूमिल कर रखा है। विश्वस्त पूर्वं आश्रस्त होकर बैठने का अवकाश भी तो किसी को नहीं है। क्य हम इससे पराइ-सुख होंगे? क्य हम श्रद्धित्र की ओर चलेंगे? वेद आह्वान कर रहा है:—

अपकामन् पौरुषेयाद् वृणानो दैव्यं वचः ।

प्रणीतीरम्यावर्तस्व विश्वेभिः सत्विभिः सद ॥

( अथर्व० ७। १०।५।१ )

सूक्त का यह अकेला ही मन्त्र है। अपने एकाकी स्वर में ‘धोयगा करता हुआ हम सबको यह निर्मन दे रहा है:—‘मनुष्यों, पौरुषेय वाक्यों से हटते हुए, दैवी वाणी का वरण करते हुए, समर्प सत्ताओं के साथ पुण्यपथों का अनुवर्तन करो।’

## अध्वर तथा स्तोम

अध्वर और स्तोम दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अध्वर के साथ स्तोम तथा स्तोम के साथ अध्वर संलग्न रहता है। अध्वर के विना स्तोम और स्तोम के विना अध्वर की कल्पना नहीं की जा सकती। स्तोम यद्यपि अध्वर का पूर्वज है, तथा पि वैदिक वर्मकाण्ड में दोनों का सहभाव ही प्रदर्शित हुआ है। स्तोम के साथ ही अध्वर बढ़ता तथा सुशोभित होता है। स्तोम ही उसे शक्ति भी प्रदान करता है। स्तोम और अध्वर दोनों मिलकर मानव को निष्पाप कर देते हैं।

अध्वर यह है, अहिंसा है, आजैव है। स्तोम स्तुति है, प्रमु का संस्तवन है, हरिगुण गान है, कीर्तन है, विनय है। जब तक व्यक्ति न अन्हीं बनता, अहंकार-मद की ऊँचाई से नीचे नहीं उतरता, तब तक वह चुंकारता भले ही रहे, पर अपने आप से अपरिचित ही रहता है। विनय-शील मानव ही अपने को पहिचान पाता है। और जिसने अपने को जान लिया, वह अपने स्रोत को, जनक को, मूल को भी जान सेता है। स्तोम के मूल में यही विनय है, यही ज्ञान है।

जो अपने को जानता है, अपने मूल को समझता है, वह अन्यों को भी आमरूप मान कर अकुठिल, अहम् व्यवहार को अपनाता है। वह किसी की हिंसा नहीं करता, अपने से, कुटिलता से, हिंसा से, अपघात से, हुर्वचनों से, द्वेष से सर्दू दूर रहता है। हिंसा बलेशकारिणी है। उसमें जैमा सुर्से कष्ट होता है, वंसा ही दूसरों को भी। हिंसा विधात्री या निर्मात्री नहीं, विधर्ण-कारी है। यदि मैं विधर्णित, विश्वद्वृष्टि, विश्वापिन दोना नहीं चाहता, तो दूसरे भी नहीं चाहते। जिसमें न मेरी स्वच्छ है, न अन्यों की, वह मानव-समाज में क्यों प्रचलित है? कैसे प्रचलित हो गई? और कैसे दूर की जा सकती है? इसे मानव को ही सोचना चाहिये। उसमें सोचने का सामर्थ्य है भी। उसने सोचा भी है। तभी तो ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं।

हिंसा का मूलाधार अहंकार है। अहिंसा की प्रतिष्ठा विनय से होती है। विनय में स्थिरता है, ठहराव है, सोचना और समझना है। विनय में रजोगुण का चावचब्द नहीं, साधिक आत्मस्थिता है। आत्मस्थ होना ही ज्ञान है। जब इस ज्ञान का उदय होता है, तब मागव कर्तव्यपरायण होता है। कर्तव्य-परायगता उसे विघटन से निर्माण या हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाती है। सब भूतों में आत्मवत् व्यवहार चल पड़ता है। केन्द्र ही परिधि तक फैला दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में कौन किसका विरोध करेगा?

अहंकार स्वार्थ है, स्व की गंभीर गर्जना है। जब स्वार्थ-सिद्धि में बाधा आती है, स्व पर टेस लगती है, तब अहं विचलित हो जाता है और वल प्रयोग द्वारा टेस को हटाने, बाधा को कुचलने तथा आधात को नष्ट करने पर तुल जाता है। यही हिंसा है। हिंसा वैयक्तिक तथा सामाजिक दोनों ही रूप धारण करती है। जैसे एक व्यक्ति की अस्तित्व है, अहंकार है, स्वार्थ है, वैसे ही समाज का भी स्वार्थ है। अहंकार सत् एवं असत् दोनों प्रकार का हो सकता है। साधिक अहंकार से प्रेरित हिंसा उस हिंसा से पृथक् है जो असाधिक, अशुचि एवं शृणित भाव से प्रेरित होती है। हमें कल्याण भाव से प्रेरित हिंसा तथा दस्यु-कृत हिंसा में भेद करना चाहिये। प्रथम प्रकार की हिंसा दस्युओं तथा उनके द्वारा अपनाई गई हिंसा के निराकरण में प्रयुक्त होती है। अतः जन-कल्याणमयी होने के कारण साधिक होती है। दस्यु एक व्यक्ति तथा समाज का ही नहीं, अपने व्यक्तित्व का भी शब्द होता है। वह अन्यों के साथ अपना भी अकल्याण करता है। ऐसे व्यक्ति की हिंसा जहाँ समाज के लिये सुखप्रद है, वहाँ स्वयं उसके लिये भी। यह कार्य प्रायः समाज या राष्ट्र-शक्ति द्वारा सम्पन्न होता है, पर कभी-कभी एक व्यक्ति द्वारा भी जिसमें सम्पूर्ण समाज या राष्ट्र की भावना केन्द्रित हो जाती है। राम ने राजसों का वध किया तो मानों राम ने समग्र समाज की भावना को संत्राण दिया, उससी आकांक्षा को पूर्ण किया। राजसी हित भावना से जो समग्र समाज की हिंसा हो रही थी, वह दस्यु-व्यवहार, राजसों के विनाश द्वारा नष्ट हो गई। हिंसा द्वारा हिंसा का

निराकरण किया गया। और जायों, साखुदयों के समाज को बचाया गया। इस हिंसा से समाज तो बचा ही, जिस दस्यु की हिंसा की गई, वह भी उस शरीर से चंचित हो गया जिससे वह अनुचित पूर्व विधातिका<sup>४</sup> हिंसा किया करता था।

दस्यु की हिंसा को नष्ट करने का एक उपाय और है। यह उपाय है स्तोम। स्तोम या स्तुति गुण-दोष विवेचना का नाम है। यदि हम दस्यु को हिंसा की गुण-दोष-विवेचना द्वारा यह समझा सकें कि उसमा कार्य न केवल समाज के लिये, प्रश्न्युत उसके लिये भी अहितकर है, उसमे समाज का ही नहीं, स्वयं उसका भी विभाद होता है, उमके उत्थान में भी घोर वाधा पड़ती है, तो दस्यु अपनी दस्युता छोड़कर आर्यमात्र को अपना लेगा। दस्यु का आर्य बन जाना मानो दस्यु का कायाकल्प है, प्रथम शरीर का मरण तथा नवीन शरीर का जन्म है, उसके प्रथम मलिन भन का अस्त पूर्व नवीन द्रिष्टि भन का उदय है। आत्मात्मिक देत्र में यही प्रणाली धेयस्कर मानी गई है। यदि यह प्रणाली सफल न हो, दस्यु हिंसा का परिदृश्याग न करें, अपनी दस्यु-पद्धति पर ही चलता रहे, और समाज के लिये कष्टक बना रहे, तो उमकी हिंसा ये हिंसा द्वारा भी हटाना चाहिये। विश्वाम का पथ अनवरुद्ध रहे—समाज के लिये और उस दस्यु के लिये भी—इसके लिये मभी सुलभ उपायों का अवलम्बन चाहियीय है।

सामाजिक शायु बाह्य होते हैं, पर अपने शायु तो झपने ही अन्दर दिये पढ़े हैं। वे बाहर के दस्युओं के ही सूक्ष्म रूप हैं। बाहर शायुओं में भाष प्रयान-परिवर्तन द्वारा सुरक्षित हो सकते हैं, पर आन्तरिक शायु तो जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपके साथ रहेंगे। इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी! इनसे तो झपने अन्दर ही सुद करना है, अन्दर से ही इन पर छोट करनी है और मार कर या वशीभूत करके विजय प्राप्त करनी है। तो यह आन्तरिक युद्ध-संचालन कैसे होगा, इस रूप का होगा, जिससे इस शायुरहित हो सकें और सुरक्षित होकर अपना विजय-वापान-विहीन विश्वास कर सकें।

इस युद्ध-संचालन का प्रथम सूत्र चिन्तन है, अपनी वृत्तियों के गुण-दोषों

का विश्लेषण है, आत्म-मंथन है। पर यह कार्य सरल नहीं है। आत्मचिन्तन अस्मिता के आवरण में सुकर नहीं है। जो व्यक्ति अपने को ही सब कुछ समझता है, अपने ऊपर या अपने से अधिक ज्ञानशाली किसी अद्वितीय को स्वीकार नहीं करता, वह आत्म विश्लेषण के लिये सहसा उद्यत नहीं होगा। जब ठोकर लगते-लगते किसी दिन उसे अपने असामर्थ्य का साज्जात अनुभव होने लगेगा और उसके हाथ इसी अज्ञात शक्ति का साहाय्य प्राप्त करने के लिये मूक प्रार्थना में ऊपर उठ जायेंगे, तब वह आत्म चिन्तन के योग्य हो सकेगा। इस चिन्तन में उसे अपनी अशक्ति के पृक नहीं अनेक रूपों का ज्ञान होगा और उस अज्ञात ऊर्ध्व शक्ति के विविध रूपकारी सामर्थ्यों का साज्जात भी होगा। उसके गुणों के प्रकाश में इसे अपने अवशुणों का आभास मिलेगा। यह आभास ही दुर्मुणों के दूरीकरण-पथन में परिणति प्राप्त करेगा और चिन्तक को विज्ञानपथ पर लाकर खड़ा कर देगा। वैदिक परिभाषा में इस प्रक्रिया को स्तोम की संज्ञा दी गई है।

स्तोम-विधि की सफलता उसके सेवन, स्नेहन पूर्व सरय में है। स्तुति में, परम देव के गुण-ग्रान में, उसकी प्रशस्ति के चिन्तन में हम निरन्तर लगे रहें, स्तुति में स्नेह वर्धमान होता रहे, स्नेह आसक्ति और आसक्ति व्यसन का रूप धारण कर ले, यहाँ तक कि वह हमारा पृक अभिज्ञ अङ्ग बन जाय—उसके सरल्य में हम अपना जीवन ही व्यतीत करने लगें—तो निस्पन्देह हमें स्तुति-साफल्य का वरदान प्राप्त हो जायगा। हमारा स्तोम राधन या सिद्धि के शिखर को चूमने लगेगा।

स्तोम उपासना काण्ड की आधारभूमि है। इसमें प्रतिष्ठित होकर ही साधक भक्ति की भावी भूमिकाओं में प्रवेश करने के योग्य बन पाता है। स्तोम मानों साधक की माता है। माता जैसे गर्भ में धारण करके पुत्र को जन्म देती है, वैसे ही स्तुति के गर्भ से साधक का प्रसव होता है। साधक है तो स्थविर, अतीव प्राचीन और पुराण, पर स्तुति उसे नया जन्म देती है, पुराण को अभिनव रूप में उत्पन्न करती है, साधक का स्थविर होते हुए भी यह बाल

रूप है'। और माता जैसे वच्चे को पालन-पोषण करके बढ़ाती है, वैसे ही सुति साधक को उपासना की ओर बढ़ाती है। गाय जैसे घच्चे को खाटकर, घूमकर, निर्मल और दर्शनीय बना देती है, सुति भी साधक को अपने स्नेहन द्वारा, प्रेम-प्लुत करके पवित्र बना देती है।<sup>३</sup>

जब तक जीव इतीम की उर्वर मूर्मि में प्रवेश नहीं करता, तब तरु तृणा-मरीचिका से आन्त निराशा की महभूमि में ही अमण करता रहता है। विविध पदार्थों का विज्ञान उसे वैविद्य के अमरजल में फंगा देता है। एक से पहिचान की, तो उससे भिन्न अपर के अज्ञान से आकान्त भी रहा। एक दिशा में चला, तो दूसरी दिशा अट्ट, असंपृक्त बनी रही, यह उलझन यह विडम्बना, उस एक की सुनि, उस एक के स्तोम, उस एक के गुण-ज्ञान से ही दूर हो पाती है। किंतु साधक भटकता नहीं, स्थिर हो जाता है। तृणा जीर्ण हो जाती है और साधक वालक की भाँति निरीद, निस्पृह एवं स्वस्थ। उसे अपनी सुति ही माता बिल गई, जिसकी गोद में वह निर्भय होकर किलकारियां भर रहा है। माँ उसे 'क्षाह' नहीं, 'सोह' की भीटी लोरियां सुनाकर पुनीत जागरण और सदाचरण में दीक्षित कर रही है।

स्तोम में ही स्थिरता है, समरसता है। स्थिरता जड़व जैसी नहीं, चैतन्य से ओतप्रोत। इस स्थिरति को अर्थव—सज्जान अविचलना, अकंपन की स्थिरति भी कहा का सकता है। उद्गेग प्राणी को विचलित करते रहते हैं, पर सुति में वे शान्त हो जाते हैं। संतोत की सी समस्वरता, समरसता भी स्तोम में प्रियमान है। सामवेद उपासना काष्ठ का वेद है। उसमें शक्ति अर्थात् सुति गीतिका-वद्द है। सामवेद उत्तरार्चिक का प्रथम मंत्र 'उपास्मै गायता नर' पद द्वारा साधकों को हरि-गुण-गान की प्रेरणा देता है। प्राण तो प्रतिपल धने

१. गृष्टः समूव स्यविरं...इन्द्रम् । ऋ० ४१६।१०

२. यजाम इन्मसा बुद्धिन्द्रं । ऋ० ३।३।२७

३. अरोऽहं यत्सं चरथाय माता । ऋ० ४।१६।१०

स्वर्णी में, इवासोच्छ्रुतासों में प्रणव का गाना गाया ही करता है। समस्त प्रजाज्ञों का प्राण सूर्य भी उद्गीथ के गान में संलग्न है<sup>१</sup>। सूर्य की गति को गायत्री कहते हैं। गायत्री का अर्थ है :—गायति च त्रायते च—गायत्री में भी प्रणव का ही गान है। त्रिपदा गायत्री मानों त्रिमात्रिक ओऽकार ही है अथवा उसी की संगीतात्मक व्याख्या है। प्राण ही चक्षु या विद्युत है। वही आदित्य है। प्राण के तीन सबन-प्रातः सबन, माध्यन्दिन सबन तथा तुर्तीय सबन भी वासव, रीढ़ तथा आदित्य या वैश्वदेव साम का गान गाते हैं।

प्राण के स्वर्णी में जिस ओ३म् को ध्वनि है, गीतिका है, वह ओ३म् ही प्रणव है, अचर है, उद्गीथ है।<sup>२</sup> उद्गीथ की प्रशंसा में छान्दोग्य उपनिषद् कहती है :—“इन भूतों का रस पृथ्वी है, पृथिवी का रस आपः ( जल ) है, जलों का रस ओषधियाँ हैं, औषधियों का रस उरुप है, उरुप का रस वाणी है, वाणी का रस ऋक् है, ऋक् का रस साम है और साम का रस उद्गीथ है। यह जो उद्गीथ है, वह रसों में सर्व श्रेष्ठ आठवाँ रस है।” स्तोम अचर ओ३म् की ही स्तुति है, उद्गीथ का ही गान है। जब वाणी प्राण के साथ संयुक्त होती है, जब ऋक् साम-गायत्रों में भर कर गाया जाता है अर्थात् जब दोनों का जोड़ा होता है—मिथुनीभाव होता है, तब यह मिथुन ओ३म् अचर में ही संसृष्ट होता है, एकत्व प्राप्त करता है और उभी एक दूसरे को तृप्त करते हैं। वाणी से प्राण तथा प्राण से वाणी, ऋक् से साम तथा साम से ऋक्, ज्ञान से भक्ति तथा भक्ति से ज्ञान परितृप्त होते हैं। यह ओ३म् अचर, प्रणव या उद्गीथ के गान की ही महिमा है। ज्ञान और भक्ति का आप्यायन इसी ओ३म् गायत्र द्वारा होता है इयोंकि इसी में दोनों आकर मिलते हैं, एक होते हैं। अचर उद्गीथ ( ओ३म्-गान, ऊर्ध्वगान ) को जो इस रूप में समझ लेते हैं,

१. असौवा आदित्यः ओ३मिति स्वरन्लेति । छान्दोग्य १।५।१

२. अय खन्तुयः उद्गीयः स प्रणवः । यः प्रणवः स उद्गीयः ।

छान्दोग्य १।५।१

और उसकी उपासना करते हैं, वे भी कामनाओं को तृप्त करने वाले बन जाते हैं।

ओडम् में ग्रथी विद्या की भी प्रतिष्ठा है। ओडम् का आवग, शंपन तथा गायन ऋक्, यजु तथा साम विद्या का ही प्रतीक है। ज्ञान तथ तक आवग ही है, दूसरों को सुनाना मात्र है जब तक यह भएना अंग नहीं बन जाता, अपने आचरण में परिणत नहीं हो जाता। आचरण अथवा कर्म यानों ज्ञान का शंसन करने लगता है, उसकी सार्थकता या घ्याहया बन जाता है। गायन में आवग तथा शंसन पुक हो जाते हैं। गायक का गान जहाँ दूसरों को तन्मय करने की शक्ति रखता है, अन्यों को भाव-विभोर कर देता है, वहाँ स्वयं गायक भी उसमें दूष जाता है। भक्ति भावना की यही महिमा है, उपर्युक्त यही रसवत्ता है। ज्ञान और कर्म दोनों ही उससे उपहृत होते हैं। साम ( उपासना काण्ड ) को जो प्राग कहा गया है, यह इसी हेतु, वयोंकि ऋक् रूप वाणी कथा यजुः रूप भन दोनों उसी से प्राणवान बनते हैं, उसी में पवित्रता प्राप्त करते हैं।

उद्गीथ का गाना तो सब गाते हैं, पर प्राग जब उद्गीथ गायन करता है, तभी उसकी शक्तिमता वास्तविक रूप में प्रकट होती है। द्वान्द्वय के प्रारम्भ में ही एक कहानी भाती है। प्रजायनि की दो सन्तानें थीं : एक देव और दूसरे असुर। दोनों में युद्ध किय गया। देवों के पाप एक ही अस्त्र है :- उद्गीथ का गान। इसी का उन्होंने अवदान लिया और सर्वयम नाविका में कहा कि तुम हमारे लिये उद्गीथ गाओ। नाविका ने उद्गीथ गाया, परन्तु असुरों ने उसे पाप से बचाया। इसीलिये नाविका सुरभि तथा दुर्गन्धि दोनों को ही संयोगी है, वयोंकि यह पाप से बिद्द है। बागा, चतु, धोष तथा मन की भी यही दशा हुई। असुरों ने हन्दे भी पाप से बचाया। पाप से बिद्द वाणों स्थाय तथा शूद दोनों योग्य है, चतु दग्धनोप दो खाइ अदर्दानोप दोनों को देखते हैं, कान अवगीय तथा अप्रवगीय दोनों को मुनते हैं और

मन भी अच्छी तथा बुरीदोनों प्रकार की कल्पनायें करता है। परन्तु जब देवों ने प्राण से उद्गीथ गाने को कहा और प्राण ने उद्गीथ गान गाया, तो असुरों का उस पर चल न चला, वे उसे पाप से विद्धन कर सके। इसके विपरीत जैसे ढेला पत्थर पर गिरते ही चकनाचूर हो जाता है, वैसे ही असुर नष्ट-भ्रष्ट हो गये।

कहानी का आशय इतना ही है कि उद्गीथ-गान सबको सफलता नहीं देता। चक्षु-धोन्न आदि के समान जो व्यक्ति स्वार्थी है, वे उद्गीथगान से शुभ नहीं हो सकते, विजयी नहीं बन सकते। जो व्यक्ति प्राण के समान निःस्वार्थ भाव से सबकी सेवा में लगे हैं, वे ही उद्गीथ की उपासना द्वारा विजयी बनते हैं। प्राण सु तथा कु में नहीं पड़ता और इसीलिये पाप उस पर प्रहार नहीं कर पाता। जिस पर स्वार्थ का शख न चल सके, जो निरन्तर परोपकार में ही निरत रहे, जो कुछ हाथ लगे, उसे दूसरों की सेवा में लगा दे, वह निस्संदेह पाप से तर जाता है, पवित्र बन जाता है और अमरत्व प्राप्त करता है।

कहानी में स्तोम की महिमा तो ही ही, अध्वर अर्थात् यज्ञ की महिमा भी उसमें आ गई है। उद्गीथगान स्तोम है, पर प्राण का उद्गीथ गान अध्वर-सहित स्तोम है। अध्वर वह स्थिति है जिसमें साधक की हिंसा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह किसी की हिंसा नहीं करता। अंगिरा, शृहस्पति तथा वसिष्ठ ऐसे ही साधक थे। उन्हें स्तोम तथा अध्वर से निकला रस प्राप्त था जो उनके अङ्ग-अङ्ग में व्याप्त था, वे वृहत्तीवाणी के अधिपति थे, वे सर्वातिशायी रूप में घसे हुए थे, उनका धास सर्वध्रेष्ठ था, क्योंकि वे स्तोम तथा अध्वर की उपासना द्वारा केन्द्रस्थ हो गये थे।

जो कोई साधक प्राण-विधि द्वारा उद्गीथ की उपासना करेगा, जो इस के स्तोम में हीन होगा, साम द्वारा अकृतथा यजु अपवा ज्ञान एवं कर्म में मिदास उत्पन्न करेगा, ज्ञान की शुद्धता तथा कर्म की कठोरता को दूर कर अक्ति की भावना को अपनावेगा, प्रभु-प्रबन्ध बनेगा और स्तोम के साथ अध्वर-

पथ पर चलेगा, यह भी अभीष्ट को प्राप्त करेगा, आप्यायित होगा तथा अनागस्त होकर अमरत्य को वरण कर लेगा। मृत्यु रूप पाप से जो पृष्ठक होना चाहता है तथा अमृत देवों की पंक्ति में बैठने का अभिलाषी है, उसके लिये ये दो अमोघ साधन अपनाने योग्य हैं।

स्तोम तथा अध्वर की प्रशंसा वेद में अनेक स्थानों पर है। दोनों के घनिष्ठ सम्बन्ध की ओर हम प्रारम्भ में ही संकेत कर चुके हैं। श्रुतवेद १०-१-५ के मंत्र में विश्वामित्र के पुत्र मधुरक्षुन्दा ने भी हसी तथ्य का दर्शन किया था। मंत्र कहता है :—‘अबने यं यज्ञमध्वरं विश्वनः परिभूरसि। स इदं देवपु गच्छति।’ प्रकाशवरूप प्रभो ! जिस अध्वर यज्ञ को तुम सब ओर से व्याप लेते हो, वही यज्ञ देवों को प्राप्त होता है, देवत्व की ओर ले जाता है, अमरत्य की प्राप्ति कराता है। सारांश यह है कि हम अध्वर यज्ञ करें, पर प्रभु को भी समरण रखें। प्रभु के स्तोम के साथ यज्ञ-सम्पादन करें।

यस्माद्दते न सिद्धयति यज्ञो यिपश्चितश्चन । ( शा० १०-१८-७ )

विपश्चित, विशेष ज्ञानी विश्र भी यदि यज्ञ करता है, तो उसका यह यज्ञ प्रभु के स्तोम के बिना सफल नहीं हो सकता। अर्थात् हम प्रभु-स्मरण, ईश-स्तवन, हरि-गुण-गान के साथ यज्ञ को प्रारंभ करें, अध्वर का अनुष्ठान करें, र्याग-याग करें, तभी सिद्धि प्राप्त होगी।

यः स्तोमेभिः वाच्ये ( शा० ३।३।२।१३ ) जहाँ हम स्तोमो द्वारा अपने को सथा प्रभु को बढ़ाते हैं, यहाँ ‘यज्ञोहिते इन्द्र वर्धनो भूत् ( शा० ३।३।२।१२ ) यज्ञ भी इन्द्र का वर्धनकारी है। यज्ञ द्वारा हम तो समृद्ध बनते ही हैं, अपनी समृद्धि द्वारा प्रभु को भी प्रकाशित करते हैं। यहाँ जो कुछ विभूति, ऊर्ज, थीं, समृद्धि आदि हैं, सब उसी प्रभु की हैं। अतः इनकी प्राप्ति मानों प्रभु की दैन को प्रकट कर रही है, प्रभु का ही प्रकाश कर रही है।

नासुन्वतो सरयं विश्वः—जो यज्ञ नहीं करता, भगवान् उसका साथ नहीं देते। इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं-देव भी यज्ञ करने पाले से ही प्रेम करते हैं, उसी को चाहते हैं। दिग्यता यज्ञकर्ता के पास ही भाती है।

त्रृहन्निद इद्धम पूरां भूरि शस्तं पृथुः स्वरः । येषामिन्द्रो युवा सत्ता । प्रभु जिसके साथी बन गये, उन्हीं का यज्ञ महान है । छान्दोग्य २-२३-१ के अनुसार धर्म के तीन स्कन्ध हैं । प्रथम स्कन्ध यज्ञ, अध्ययन और दान से बनता है, द्वितीय तप से और तीसरा व्याचर्यपूर्वक आचार्यकुल में निवास करने से । यज्ञ और दान में अन्तर है । दान में आप अपने उपहृत को जानते हैं, यज्ञ में नहीं । ३-१६-१ में छान्दोग्य पुरुष के जीवन को ही यज्ञ का नाम देनी है और उसे तीन सबनों में विभक्त करती है । चौबीस वर्ष तक जीवन यज्ञ का प्रातः सबन है । यह सबन मनुष्य को वासव शक्ति से सम्पन्न करता है । यसुओं की वासक विभूतियों से जीवन समृद्ध, योग्य तथा कार्य-दक्ष बनता है । २४ से चवालीस वर्ष तक का समय माध्यनिदन सबन है । इसमें रीढ़ शक्ति की प्रधानता रहती है । काल-कठोर कर्मठता में यह अवधि व्यतीत करनी पड़ती है । अइतालीस वर्ष का तृतीय सबन है जो आदित्य की शक्ति प्राप्त करा देता है । इस प्रकार जीवन रूपी यज्ञ अन्त में दिव्यता की ओर ले जाता है । यही मानव का ध्येय है । उसे देव बनना है, अद्वित, अस्युत तथा अमर बनना है, परम देव प्रभु की प्राप्ति करनी है ।

त्रृहदारण्यक उपनिषद, चतुर्थ ब्राह्मण के १६३० संदर्भ में भी यही बात कही गयी है : स यज्ञुहोति, यद्यजते, तेन देवानां लोकः । मनुष्य जो हवन करता है, यज्ञ करता है, उससे वह देवों के लोक को प्राप्त करता है । स्वस्ति-याचन तथा शान्ति प्रकरण के मंत्रों में यज्ञ तथा देवों का अनेक बार उल्लेख हुआ है । देवों की माता अद्विति है, अखण्ड अवस्था है । मानव, प्रतिपल तोकने-फोड़ने वाली मृत्यु का अनुभव करता है, स्पण्ड-स्पण्ड कर देने वाली, विघटनकारी, विद्यमंक स्थिति में पड़ता है और क्लेश-भाजन बनता है । अतः स्वमावतः वह इस मारक अवस्था से पीछा दूड़ाना चाहता है । वह ऐसी स्थिति की कामना करता है जहाँ पल-पल की यह विपदा की मार उसके ऊपर न पడे, जहाँ वह अखण्डता, अमरता का अनुभव कर सके । वह ऐसी अवस्था उपलब्ध करना चाहता है, जहाँ-पाप-शाप, क्लेश-कष्ट, मरण-जरण उससे कोसों दूर रहें ।

यह अवस्था मात्रा अदिति और उसके पुत्र देवों को प्राप्त है। इसी हेतु मानव जीवन-यज्ञ में देवों का आहारन करता है, दिव्यता को अपने समीप खुलाता है और देवाधिदेव प्रभु का स्तवन, शंसन पूर्व गायन वरता है जिससे वह उनके निष्ठ पर्हुच सके लाभवा ये ही उसके नेदिष्ट दन जांय। मंत्र सो अनेक हैं, पर कपर जो कुछ लिया गया है, वह निम्नांकित मंत्र पर विशेषतया आधित है—

क्षोमं राघति यं जुजोपथ  
विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन ।  
को चोऽध्वरं तुविजाता अरं कर दो  
तः पर्यदत्यंदः स्यस्तये ॥ ( शा० १०।६३।३ )

जिस स्तोम में तुम सन्मय होकर लगे हो तथा मुम्हरे जैसे, अनेक साधक स्थित हैं, जुटे हैं और जुटे ही नहीं, तुम सब जिसके अनन्य ग्रेमी, एकान्त सेवक बन गये हो, उस स्तोम को कौन सिद्धि प्रदान करेगा ? यह जो तुम अध्वर, कुटिलता-रहित, हिंसाविहीन यज्ञ कर रहे हो, आर्जव पूर्व स्याग को अपना रहे हो, क्षदिंसा व्रत पर दृढ हो, अनुष्टानलीन हो, उसे कौन दूर-दूर तक प्रसिद्ध करेगा, कौन उसे अलंकृत करेगा ? अरे ! यह आनन्द रूप प्रजापति ही है जो तुम्हें रज के चांचल्य से निकाल कर मारिवक्ता में स्थिर करेगा, मुम्हरे पापों को पीस ढालेगा । उसका स्तोम-नान करते हुए अध्वरपथ पर चले चलो, मुम्हें स्थिति की अवस्था प्राप्त हो जायगी-स्थिति, अदिति, वश्याण भी असंद आनन्दमयी अवस्था ।

## हमारा योग ज्ञेम

प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्र अपने योग-ज्ञेम की चिन्ता करता है। वैयक्तिक योग-ज्ञेम से एक व्यक्ति या एक परिवार सुरक्षित ही नहीं होता, आगे भी बढ़ता है। राष्ट्रीय योग-ज्ञेम से राष्ट्र के साथ उसके सभी अंग सुरक्षित रहते तथा प्रगति करते हैं। शारीरिक ज्ञेम नीरोग रहना है। जो स्वास्थ्य प्राप्त है, वह बना रहे, रोग आक्रमण करके उसे हिला न दे, यह ज्ञेम है। योग है बलवान बनकर कर्तृत्व शक्ति से सम्पद्ध होना। पारिवारिक ज्ञेम है, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य, सम्पत्ति, यश उयों का त्यों बना रहे। योग है इस सम्पत्ति तथा यश की बुद्धि। राष्ट्रीय ज्ञेम है, राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, सम्पत्ति का संरक्षण, प्रतिष्ठा का स्थिर रखना। योग है—विश्व बन्धुत्व की भावना को ध्यान में रख कर कर्तृत्व तथा यश की सीमाओं का विस्तार करना, सम्पत्ति को बढ़ाना और प्रतिष्ठा को चमकाना। योग-ज्ञेम दोनों लीबन में आवश्यक है। योग न हो, तो ज्ञेम तो रहना ही चाहिवे, क्योंकि ज्ञेम के लाधार पर ही योग संभव है।

अध्यात्म ज्ञेन में आत्मा का ज्ञेम उसी ज्ञान नष्ट हो जाता है जिस ज्ञान वह प्रकृति के साथ सम्पर्क करता है। उसकी भूमि अपनी भूमि नहीं रहती। वह प्रकृति के अधम, मध्यम एवं उत्तम पात्रों से आवृत हो जाती है। आत्म यात्रा में ये विघ्नस्वरूप हैं। इन्हें हटाये जिना ज्ञेम कहीं, कुशल कहीं? इनके हटने पर स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ज्ञेम है तथा परमात्मा की प्राप्ति योग है। योग को संयोग, प्रकृति-पात्रों से आवृत होने को विद्योग और उनसे छूटने को उद्योग बहते हैं। यात्रा के यही तीन पदाव पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय योग-ज्ञेम पर भी लागू होते हैं।

भारत राष्ट्र का ज्ञेम उसी दिन लिन गया, जिस दिन हमारी सीमायें संकुचित हुईं। ज्ञेम का हास स्वरूपता में वाधा ढालता ही है। परिणामतः न

हमारा शारीर स्वभव है, न महितदक् । न कोई सिद्धान्त जड़ पकड़कर ढांडुरित, विकसित एवं मुषित हो पाया है और न कोई संस्था ही सम्मानास्पद बन सकी है । आधुनिकतावाद, अभिनवीकरण हमारी आंखें दिलेतों की ओर ले जाते हैं, अपनेपन को देखने भी नहीं देते । परिणामतः न हम अपने से चिपटे रह सके और न नवीनता को उसकी सम्प्रता में प्रहृण कर सके । न हम इधर के रहे, न उधर के ।

परकीय सिद्धान्तों को जो धादर दिया जाता है, उससे देश, देश की आत्मा, देश की जनता, परम्परागत परिपाठियाँ, समय की क्रूर कसौटी पर कमी गई तथा तस स्वर्ण की भीनि खरी उत्तरनेवाली इयवस्थायें आँखों से ओङ्कल होती जाती हैं । हम खोते तो जाते हैं, पर प्राप्त कुछ नहीं कर रहे । यह दयनीय स्थिति हमें कहाँ ले जायगी ? जब हमारा देम ही सुरक्षित नहीं रह सका, तो योग क्या कर सकेंगे ? देम स्वस्थता है, तो योग घल-घृदि । देम पूँजी है, तो योग पूँजी का प्रस्तार ।

तीतिरीय उपनिषद् के अन्त में प्राप्ति कहते हैं : 'देम इति वाचि'—वाणी में देम है । 'योग देम इति प्राणापानयोः'—योग और देम दोनों प्राण सम्बन्ध में हैं । वाणी में देम है, इसका अभिप्राय क्या है ? क्या देम मेरे भायग पर अधित है ? क्षनुभवी विद्वानोंका अभिमत है कि सरशारिमका वाणी मानव की रक्षा करती है । मधुर धूंवं भूतयाणी का उच्चारण, घक्का के देम का सूचक है । घटोर एवं अनृत वाणी के उच्चारण से घक्का की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का तो ह्रास होता ही है, उसकी आर्थिक तथा सामाजिक शक्तियों के ह्रास की संभावना भी उत्थन्न हो जाती है । प्रथम ह्रास का सम्बन्ध मनो-विज्ञान से है, दूसरे का सामाजिक विज्ञान से । भतः वाणी में देम निहित है, यह स्वतः सिद्ध है । एक हठि और भी है । वाणी से सारदयं यहाँ केवल वाणी ही न लेकर उपलब्ध द्वारा संपूर्ण पद्मनम्भाग्राभों का अर्थ सेना आहिये । वाणी या इति या दाढ़ आकाश का गुण है । भतः पद्मनम्भाग्राभों के गुणों से उनके गुणियों का अर्थ भी छिया जा सकता है । वाणी ही नहीं, देम रस, रूप,

स्वर्ण तथा गंध में और परिणामतः ध्यक्ति के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में है। शरीर में पाँचों तत्त्व विद्यमान हैं। सबकी सुरक्षा उनसे संबंधित गुणों की सुरक्षा पर अवलम्बित है। मेरी वाणी ही नहीं, मेरा अवण, मेरा दर्शन, मेरा रसन, मेरा स्वर्णन, मेरा जिग्रन सब अनुकूल दिशा में प्रयुक्त होते रहें, तो मेरा पंच तत्त्वों से बना शरीर बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सकेगा। प्रतिकूल दिशा विघ्नातिका है, हास या हानि की ओर ले जानेवाली है। जो शरीर सुखे प्राप्त है, मेरी बहुमूल्य सम्पत्ति है। इसके कुशल, केम या सुरक्षा पर ही मेरी भावी प्रगति संभव है।

वाणी में क्षेम है, पर प्राण और अपान में योग तथा क्षेम दोनों हैं। प्राण की क्रिया पञ्चतन्मात्राओं या पंचभूतों से पृथक है। पंचभूत निर्जीव हैं। प्राण उन्हें सज्जीवता देता है। प्राण अपने बाह्य समुद्र में दुबकी लगाकर शरीर के अन्दर प्रवेश करता है। शरीर में नवीन प्राणवत्ता का योग होता है। अपान की क्रिया अन्दर के भल को बाहर फेंकती है। उससे क्षेम सम्पादित होता है। अपान जहाँ दूषित-वायु-मल का अपनयन करता है, वहाँ आमाशय में पड़े व्यर्थ जल तथा अज्ञ के भाग का उत्सर्जन भी करता है। यदि यह क्रिया न हो तो अकेला प्राण बहुत दिनों तक शरीर में नहीं टिक सकेगा। योग क्षेम पर आधारित है। प्राण की क्रिया भी अपान की क्रिया का सहारा लेती है। प्राण तथा अपान के साथ समान, ध्यान और उदान भी सक्रिय रहते हैं। मुख्य प्राण के ही ये विभिन्न भेद हैं। समान प्राण खाये-पीये को एकरस बनाता, ध्यान उस रस को रक्तवाहिनी नाड़ियों द्वारा शरीर भर में फैलाता, अङ्ग-अङ्ग को पोषण देता। और उदान शरीर को ऊपर उठाता, लम्बा बनाता है। इन सीनों का कार्य योग तथा क्षेम दोनों को सहायता देता है।

ध्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की प्राणवत्ता उसकी योग-क्षेम-वाहिका है। अपान प्राण का ही एक भेद है। जैसे शरीर में प्राण अपने अपान-भेद से शरीर के शत्रु-मल को बाहर फेंकता है, वैसे ही राष्ट्र का प्राण अपने उत्तिय या सैनिक रूप में देश के शत्रु को अन्दर नहीं रहने देता, बाहर निकाल के मानता है।

जब तक शयु अन्दर है, तब तक सुप की सोस कहाँ ? देश के शयु वे हैं जो इस देश को अपना देश ही नहीं मानते । देश का अल-जल खाकर पुष्ट होते हैं, पर अपनी धांतें और दिमाग उस देश की ओर रखते हैं जहाँ उनका मजहबी या राजनीतिक लगाव है । ऐसे चक्षि देश के विष्वेस में शुद्धादी का घेट रखते हैं । राष्ट्र की प्राणशक्ति का कर्तव्य है कि वह ऐसे पंचमांगियों, देश-द्वोहियों को पहिचाने और यीन-धीन कर अलग कर दे । शरीर से अलग बर देते से भी काम चल जायगा, पर स्थायी रूप से नहीं । शरीर मन से चलता है । घस्तुतः इनका मानसिक परिवर्तन ही इनके गृथक्करण का शाश्वत समाधान है । यदि ये मन से इस देश को अपना देश समझने लगें, यहाँ की भाषा और सभ्यता को अपनी भाषा और सभ्यता समझें, यहाँ के पूर्वजों को अपना पूर्वज मानें, यहाँ के उत्तरवों को अपना उत्तरव समझाकर अपनायें, तो देश की अस्तित्व-आत्मवत्ता के साथ ये एकत्र का अनुभव कर सकते हैं । यदि ये यहाँ की उर्वरभूमि को, उदाहर अन्तरिक्ष को मरुभूमि या कट्टर मतान्पत्ता में परिणत करने का प्रयान करेंगे अथवा यहाँ की आप्याय-प्रधानता पर धोर भौतिकता की प्रतिष्ठा करना चाहेंगे तो इससे गस्तिर्कों के साथ शरीर का संघर्ष भी अवश्य होगा । वैचारिक विवाद से तथ्य का योध निकल आता है । इस विवाद से हमें घबड़ाने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है । माझात्म्य इस गस्तिरक-संघर्ष में भाग लेगा । शरीर-संघर्ष के समय उत्तिय या प्राण तत्त्व आगे आयेगा । मन की सदायता प्राण करता है तो माझण की सदायता उत्तिय करता है । यदि देश का प्राण जागरूक रहकर शयु की शान्ति का मन से निष्कासन करा देता है तो प्राण की यह अपानता देश के योग-योग के लिये सुखद सिद्ध होती । यदि मन से परिवर्तन न हो, तो शरीर में भी अपनदन, उत्सर्जन, निष्कासन हो ही जाना आहिये । मल के रहते शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है । देश में शयु के रहते शान्ति नहीं है ।

शान्ति कहते हैं :—कर्म इति दस्तयोः—कर्म हमारे दोनों दायों में है । गति रिति पादयोः—गति दोनों पैरों में है । विमुक्ति रिति पायी—विमुक्ति

पायु में है। स्वाधीन राष्ट्रों के हाथ स्थतंत्र होते हैं और वे ही देश-द्वितकारी कर्म कर सकते हैं। स्वाधीन होकर भी यदि हाथ बँधे हों, तो कर्म नहीं हो सकेगा। पैरों में बेढ़ी पड़ी हो, तो गति नहीं हो सकेगी। ये बंधन शारीरिक तथा मानसिक दोनों हो सकते हैं। स्वाधीन देशों में भी ऐसे बंधन हो सकते हैं। यदि शासन ने आज्ञा दी कि देश में केवल दार्करा बनेगी, गुड नहीं, तो गुड बनाने वालों के हाथों में बंधन पड़ गये, उनकी जीविता का साधन चला गया। यदि शासन ने आज्ञा दी कि कालेज बन्द रहेंगे, तो पैरों में चलने की शक्ति रहते भी कुण्ठित हो गई। आप पढ़ने के लिये नहीं जा सकते। करस्थू या १४४ दफा लगाने पर भी समय-विशेष के लिये यही दशा हो जाती है। उतने समय में न आप घूमने जा सकते हैं, न बाजार से सीदा ला सकते हैं। यदि कहाँ विजली या पानी बन्द कर दिया जाए, सो नागरिक की वया दशा होगी? कूप या तैल दीप का भी अभाव हो तो, भोजन-पान-पड़ना आदि सब लुप्त। पूर्ण विसुक्ति। पानी न पहुँचने पर उदरस्थ सामग्री सस्केगी कैसे? प्रकाश न मिलने पर पानी मिलना भी बन्द हो जायगा। नगर की जल-कल विजली की कल से ही चलती है। उद्योग-धन्धे, मिल, कारखाने, आज सब विजली के बल पर ही काम करते हैं। पायु का काम है मल-निपासन द्वारा शारीर का संरचन, रोगों से और मृत्यु से भी मुक्ति प्रदान करना। यह विसुक्ति इसके अभाव में कहाँ से आवेगी? पायु का अपान सम्बन्धी कार्य न हुआ तो भरण सामने आकर खड़ा हो जायगा।

प्रथि के शब्दों में यह तो मानुषी समाज्ञा है, व्यक्ति या राष्ट्र की बाज्ञा शारीरिक साधना है। हमके साथ दैवी समाज्ञा भी अपेक्षित है। व्यक्ति शरीर ही तो नहीं है, उसमें दैवी अंश भी है। यह दिव्यता तुसि या संतुष्टि, मनोबल, यश, ज्योति तथा प्रजाति में चरितार्थ होती है। तृष्णि वृष्टि में है। बल विद्युत में है। यश पशुओं में है। ज्योति नहरों में है। प्रजाति अमृत तथा आनंद है जो उपस्थ में है। तुसि वृष्टि में है। वृष्टि के लिये सूर्य को तपना पड़ता है। यह तप ही पृथ्वी पर फैले लल को बाष्प बना कर ऊपर ले आता तथा मेघ बना-

कर घरसा देता है जिससे पृथ्वी को उर्बरा शक्ति बढ़ती तथा उत्तरादिका शक्ति को सहायता मिलती है। इससे जटाशय या सरिता या सागर में स्थित पानी विना नहर निकाले और दिना मनुष्य के हाथ लगे, खेतों में पहुँच गया। कहुँ मनुष्य मिलकर भी चाहें, तो यह काम नहीं कर सकते। यृष्टि पृथ्वी को ही नहीं, मनुष्यों को भी तृप्ति करती है। ग्रीष्म में सूर्य के उत्ताप में जो येर्चनी फैलती है, वह वर्षा के भाते ही अपने आप शान्त हो जाती है। मानव घादलों को देखते ही सतुष्ट हो जाता है। यह विद्युत में है—आज इसे सिद्ध करने की खावशयकता का अनुभव ही नहीं होता। विद्युत की शक्ति लाती मन योग्य को यात की बात में ऊपर पहुँचा दे, पहाड़ों को तोड़ दे, जल को ऊचा चढ़ा दे। ऐसी ही एक विद्युत मन के रूप में हमारे अन्दर भी है। यह यद्यवान है तो आप यद्यवानों में शिरोमणि बन सकते हैं। मन ही यह शक्ति है जो हमारे बन्धन और मोक्ष का कारण है। यह पशुओं में है। आचीनकाल में तो यह सत्य था ही, आजकल भी सत्य है। यह हायीवाला है, उसके पास एक सदृश भूमि है, उसके गोषु में लाती गीर्यें हैं। इस प्रकार का कथन स्वामी थी कीर्ति को यढ़ाता है। पशुधन है, पर यश का भी कारण है। अस्यात्म में पशु इनिद्रियों भव्यवा दर्शन-श्रवण की शक्ति है। जिसका दर्शन तथा अवण जितना ही उत्तम है, यह उतना ही धधिक यशस्वी है। नहीं है, तो यह हो जायगा। ज्योति नहीं हो में है। बाहर नघन चमकते हैं। वे अंधकार में मन को संतोष देते हैं। सूर्य भी नघन है। यह हमारी पृथ्वी को ही नहीं, प्रदाण भर को प्रकाश देता है। शरीर के अन्दर भी नघन है, सूर्य है। सुदृश सूर्य है। जिसकी उद्दि प्रकाश से, ज्ञान से, जगमगा रही है, यह पन्थ है वयोऽकि यह स्वयं तो प्राणादित है ही, दूसरों को भी प्रकाशित करता है। प्रजाति, अमृत तथा आनन्द उपस्थ में है। संतति से व्यक्ति अमर हो जाता है। जिसका कुछ जब सक चल रहा है, तब तक यह अमर है। संतति का न दोना पर को सुनसान यता देता है। जिछ घर में यहाँ सेठते हैं वहाँ आनन्द हो मानो मूर्तिमान होकर विघरग कर रहा है। यह उपस्थ की शक्ति है। नपुंसकों के पास यह आनन्द कहा। योग-

हीन व्यक्ति या राष्ट्र मर जाते हैं। प्रजाति, संतति, जगत्संख्या की वृद्धि उन्हें जो अमरत्व तथा ज्ञानन्द दे सकती थी, उससे वे वंचित हो जाते हैं।

उपनिषद की मानुषी तथा दैवी समाजायें निम्नांकित मंत्र में समाविष्ट हैं :—

बयं जयेम त्वया युजा वृत्तमस्माकमंशा मुद्रया भरेभरे ।

अस्मद्यमिन्द्र वरिवः सुगं कृषि प्र शत्रूणां मध्यवन् वृष्ण्या रुज ॥

(ऋ० १११०२।४ लघ० ७५०।४)

मंत्र के चार चरणों में चार बातें कही गई हैं। द्वितीय चरण में देम, कृतीय चरण में योग और चतुर्थ चरण में शत्रुओं का मर्दन मानुषी समाजा है। प्रथम चरण में दैवी समाजा है। उपनिषद के व्यापि ने कहा था :— सर्वम् इति आकाशे—आकाश में सब कुछ है। वेद कहता है, सर्व व्यापक प्रभु के अन्दर सब कुछ है। हम उसी के साथ रहते हुए विजयी बने। उसके साथ रहते हुए जो विजय मिलती है, वही सच्ची विजय है। उसके संदर्भन में जीवन व्यतीत करना ही सार्थक है। दिव्यता देव के संसर्ग से आती है। इन्द्रियों उसके संपर्क से प्रकाशवती तथा तेजस्विनी बनती है। बुद्धि, भन, प्राण का विकाश तथा पवित्रीकरण उसी के प्रसाद से सम्पन्न होता है।

शत्रु ने हमारे अंश को आचूत करके हमारे देम पर जो बुटाराघात किया है, प्रभु की कृपा से उसका उद्धार हो। हमारा देम सुरक्षित रहे। परमैश्वर्य, सम्पन्न प्रभु हमारे लिये धनैश्वर्य को सुगम करके हमारा योग-साधन करें और जो शत्रुओं का बल है, उसे नष्ट करें। शत्रु के निरसन, विमर्दन एवं निष्कासन तथा पेरवर्य की वृद्धि में प्राणायान की क्रियायें फलवती होती हैं। ये दोनों शक्तियां वर्धमान हों। हम स्वस्थ बनें, इडू बनें, बलवान बनें। हमारा रूप हमें प्राप्त हो। आकाश के समान सर्व व्यापक प्रभु की छुब्रहाया में रहते हुये हमें शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक शक्ति दोनों की उपलब्धि हो। योग सधा देम के द्वारा हमारा ऐहिक जीवन समृद्ध हो तथा परलोक में कल्याण माप्त हो। हमारे भय-दय तथा निःश्रेयस दोनों ही सिद्ध हों।

मंत्र में इस प्रकार मानुषी तथा दैवी दोनों समाजाओं का भजावेत है। यहाँ कहते हैं :—नामनिष्ठा इति उपासीत—इन्हीं दोनों समाजाओं में प्रनिष्ठा है। हमें इसी की उपासना करनी चाहिये। जो ऐसा करता है, वह प्रनिष्ठाशान होता है। इसी में महत्त्व है। जो इसके समीप बैठता, इसका मंदर्म करता और अद्युक्त जीवन व्यनीत करता है, वह महान हो जाता है। इसी में मन है, मान है। जो इसके अनुकूल आचरण करता है, वह मानवान बन जाता है। हमें मन नहीं है। जो हमें मन की लगाता है, भक्ति करता है, कामनाएँ उसके नामने प्रगत हो जाती हैं। इसी में धृष्टि है, धृष्टपत्र है। इसकी उपासना में व्यक्ति या राकृ व्यक्तिवान बनते हैं। इसमें यम की परिमर या मारण शक्ति निहित है। इसके उपासक के प्रति देव रक्षने वाले सबुत तथा अविषय पूर्व अनिष्ट चाहने वाले आनन्द भी मर जाते हैं।

यहाँ के वाच्य तथा वेद मंत्र बहुत मात्रीन हैं, परन्तु उनकी सम्बन्धता आश्रम भी नवीन है। यदि इस उनके अनुकूल चलें, तो उनका तथा देव का कवयाग-माध्यन कर सकते हैं। हमें योग तथा देव दोनों को आवश्यकता है और दोनों की उपलब्धि के अमोघ साधन ऊपर यहाँ के तथा प्रभु के वचनों का महारा न्देश्वर लिखे गये हैं। आश्रमा यही है कि इन वचनों को भी रुदितादिता का नाथ। अनन्तिवता वा आरोप लगाकर कोई निरस्त्वन न करने लगे, पर यहाँ की बाली मर्यादा है। जो इन साधनों का निरस्त्वर करेगा, वह स्वयं निरस्त्व देगा और जो इनका मान करेगा वह प्रतिष्ठावान बनेगा। हमारा मिदाम्न द्वेना चाहिये, प्राचीन तथा नवीन दोनों के सभ्य तथा उपादेव धर्मों का स्वीकार और प्रदृश। जो धर्मत्व तथा अनुपयोगी है, वह कहीं भी हो, उपादेव है। प्राचीन यहाँ की यागी यदि आश्रम हमारा कवयाग-माध्यन कर सकता है, तो उसे भवनाने के लिये हमें परवाररद नहीं होना चाहिये। हमें योग-येम रा म्यवादन करना है और उसके लिये येष, यर्वोत्तम उपायों वा उपयोग करना है। ये उपाय हमारा कवयाग करेंगे; प्राचीनता वा नवीनता नहीं।

## महान्याहृतियां

वैदिक वाद्यय का अध्येता व्याहृतियों से परिचित है। व्याहृतियां सात हैं—भूः, सुवः, स्वः, महः, जनः, नपः, तथा सत्यम्। इनमें से पहली तीन महान्याहृतियां कहलाती हैं। इसका कारण क्या है? परवर्ती चार व्याहृतियों को यह नाम क्यों नहीं मिला?

व्याहृति का अर्थ है—उक्ति, कथन, वाक्य। महाव्याहृति महावाक्य है। जैसे प्रत्येक सम्बद्धाय के अपने कुछ विशिष्ट महावाक्य हैं, वैसे ही वैदिकों के तीन महावाक्य ये तीन महान्याहृतियां हैं।

वैदिकों में निखिल वाद्यय का मूल पुक्त अच्छर ॐ माना जाता है। वि उपसर्ग लगा देने से यही व्योम बन जाता है। ॐ का अर्थ रक्तक है। व्योम का अर्थ हुआ विकिष प्रकार से रक्ता करने वाला। ऋग्वेद १०-१६४-३९ के अनुसार समस्त ऋचाओं परम व्योम में, अच्छर में, निवास करती हैं। यह अच्छर ही ऋचाओं की रक्ता करने वाला है। भाण्डूक्य उपनिषद्कार ने इस अच्छर को आत्मा भी कहा है। औंकारः आत्मैव। अल्ल औंकार आत्मा ही है।

यह आत्मा चतुष्पात है। अकार इसकी प्रथमा मात्रा है जिसे भूः अर्थात् जागरित स्थान कहा जाता है। उकार द्वितीयामात्रा है जिसे सुवः अर्थात् स्वप्नस्थान कहा जाता है। मकार तृतीया मात्रा है जो स्वः अर्थात् सुपुत्रस्थान वाली है। पहली वैश्वानर, दूसरी तैजस और तीसरी प्राण कहलाती है। यह सब जो कुछ व्यवहार में आता है, जाने-अनजाने जिसके साथ हमारा संपर्क बना रहता है, वह सब इन्हों तीन मात्राओं में आ जाता है। जागरण, स्वप्न और सुपुत्रि तीनों हमारे ऐहिक अनुभव की वस्तु हैं।

इन तीनों से परे जो चतुर्थ त्रिकालातीत है, जो अमात्र है, वह भी अच्छर-ओंकार ही है, परन्तु वह अव्यवहार्य है। उसमें व्यावहारिकता अर्थात् प्रवंच का

उपराम है। वह अद्वैत भवस्था है। ऐहिक अनुभव यहाँ नहीं पहुँच पाता। वह अदृष्ट, अग्राह्य, अचिन्य और अलक्षण है।

ओ३म् की तीन मात्रायें इस प्रकार तीन महाध्याहतियों में व्याख्यात हुई हैं और यह सब जो कुछ व्यवहार्य है, [इन्हीं तीनों के अन्तर्गत आ जाता है। चतुर्थ अमात्र इन तीनों से कहीं अधिक विशाल, विस्तृत और महान् है, पर वह व्यवहार से परे है और जिसने इन तीन को नहीं समझा ल पाया, वह उस चतुर्थ तुरीयावस्था की उपलब्धि से वंचित रहेगा—यह निरिच्छत है। अतः ये तीन महाध्याहतियाँ ही साधक के लिये सब कुछ हैं, प्रतिष्ठा हैं, आधारभूमि हैं। इन्हीं में वह अद्वितीय विवरण करता है। इन्हीं से उसका व्यवहारोपयोगी सम्बन्ध है। यह जागरण, स्वप्न तथा सुपुष्पि, मूलोक, सुवृलोक तथा स्वः स्वः लोक, वहिप्रज्ञ, अन्तःप्रज्ञ तथा प्रज्ञानेशन, सत्ता, चेतन्य तथा आनन्द, प्राणात्मक, शरीर, मन तथा बुद्धि की ग्राही के विकास में ही संलग्न रहता है। यही उसका परिवार है। यही उसका देश है। यही उसकी समरांगण भूमि है। इन्हीं में उसका अस्तित्व खरितार्थ होता है। इन्हीं की चाम विकसित ऊर्ध्व, उन्नत भवस्था उसका तथा अन्यों का व्याधान-साधन करती है। इस भवस्था के उपरान्त ही वह आत्मस्वरूप की उपलब्धि करता है और इस आत्मस्वरूप द्वारा ही परमात्म तत्त्व में प्रविष्ट होता है, उसके साथ एक होता है। इन तीन को साधे बिना वह इस तुरीयावस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः आधार या प्रतिष्ठा होने के कारण प्रथम तीन ध्याहतियाँ महाध्याहतियाँ बदलती हैं। ये तीन इस सब के लिये महावाक्य हैं।

तो वया शेष चार ध्याहतियाँ तुरीयावस्था की सूचक हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तुरीयावस्था सातों ध्याहतियों, सप्त लोकों, सप्त धारों, भौतिक तथा चेतन इतरों के भी ऊपर है। ये सब व्योम में हैं, तो वह इव्यं परम व्योम है। वह आधारों या भी आधार, प्रतिष्ठा वीं भी प्रतिष्ठा, मायाओं की भी माया, पादों का भी पाद, परम प्रशान्त अद्वैतवस्था है जिसका वर्णन यामी के गामण्य से परे है।

वाणी के चार पदों में जो प्रथम पद वाहर बैखरी वाणी में अभिव्यक्त होता है, उसमें कहाँ अधिक शक्तिशाली उसका दूसरा मध्यमा नाम की वाणी का पद है जो मन में रहता है। इससे भी अधिक व्यापक बुद्धि में निहित, उसका पश्यन्ती नाम का तीसरा पद है। चतुर्थ पद पश्यन्ती का भी मूल है तथा परा नाम से अभिहित होता है, जिसे हम भूः, भुवः तथा स्वः तीनों लोकों के निवासी भी नहीं समझ पाते, नहीं कह पाते और जिस तक नहीं पहुँच पाते।

भूः, भर्त्यात् सत्ता से, भुवः अर्थात् चैतन्य में प्रविष्ट होकर स्वः अर्थात् आनन्द में मग्न हो जाना ही हम सब का भ्येय है। इसमें प्रवेश पाने पर कामनाओं का अन्त हो जाता है, आदृशोपिलघ्नि की बल्पना शान्त हो जाती है। किर साधक सपने नहीं देखता, प्रज्ञानघन, आनन्दमय तथा एकीभूत हो जाता है। इस स्थिति में सबका प्रभव एवं अस्थय, जन्म एवं विलय समाविष्ट है। इसे सबकी योनि अथवा उत्स कहा जा सकता है। चेतोमुख बना हुआ साधक इस आनन्दमयी स्थिति का उपभोग दरता है। चतुर्थ अवश्या उपभोग की वस्तु ही नहीं है। न वहाँ वाक्य ज्ञान है, न अन्तः ज्ञान है, न उभयज्ञान है, न प्रज्ञानघन है, न ज्ञान है, न अज्ञान है। परम च्योम, परम शून्य तुरीया वस्था हमारे साधनों से अप्राप्य है।

महाब्याहृतियों से उपर जो चार व्याहृतियाँ हैं, वे स्वः के ही ऊर्जे तथा ऊर्ज्ज्वर स्तरों की सूचना देती हैं। अतः उनका समावेश स्वः में ही हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद की प्रथम बल्ली के पंचम अनुवाक में चतुर्थ महः व्याहृति की प्रशंसा अवश्य की गई है। महः को आदित्य कह कर स्वः को वहाँ भी 'असी लोकः' वह लोक कहा गया है जिससे चौ का स्पष्ट संकेत होता है। यही नहीं, उपनिषदकार पुक पंक्ति आगे की लिख कर स्वः को भी आदित्य कह देता है।

स्वः में ईश्वरत्व होने के कारण हमारे यहाँ कुछ आचार्यों ने ईश्वर संज्ञा

को प्रभु के विभु, घण्टा, परमात्मा आदि नामों के समक्ष नहीं माना। हिरण्यगर्भ, उत्तेष्ठ आदि नाम स्वयं अर्थवैद में स्वतः नाम से निगरनन्तर पर हैं। वैष्णव संप्रदाय के पांचरात्र तथा वैश्वानम भागमों में भी यह अन्तर स्वीकार किया गया है। इन भागमों में अवतार की वर्तना उत्तर्युक्त रूप के ईरवरत्र को आधार मान कर की गई है। भगवान भग अर्पात् ऐरवर्य साक्षा है। यह ऐरवर्य पढ़गुणोपेत है। ये द्वः गुण प्रहृति की ही कलायें हैं। अवतारों में इन कलाओं के न्यूनाधिक्षय पर सोलह अवतार स्वीकृत हुए हैं। सांख्य के पुराण-प्रहृतिवाद को यदि आधार बनायें तो धीर्घता पुराप है। राधा आद्विनी मूल प्रहृति है। संसर्पण या बटराम जीव या चित् शक्ति है। प्रद्युम्न द्वी या भद्रसाव और अनिहद अद्वंकार है। सर्वप्रथम धीर्घता और उनके परिवार बालों को लेकर ही यह वर्तना की गई। परपर्ती राम-परक साहित्य में यही वर्तना राम के परिवार बालों पर भी भारोपित कर दी गई।

इस विवेचन से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि हमारे चिन्तक तीन महाप्राहृतियों के महाव एवं किस सीमा तक महाव देते रहे हैं। भूमुखः इस से सत, चित् एवं भानन्द का अर्थ लेना और उनमें संधिनी, संवित तथा उद्विनी शक्तियों की रिप्रेन्शन मानना परा नहीं अपरा अपरथा एवं ही महाव देना है। हमारा सम्बन्ध इसी अपरा अपरथा से है। परा सो परे है। उसमें सम्बन्ध की यात कहना भी यात्री को धर्मसे में दाटना है। मुण्डर वपनिरद के प्रारम्भ में येदों को भी इसीलिए अपरा विद्या के अन्तर्गत रथान मिटा है। परा विद्या कथन-प्रवग में भाती ही नहीं। यह माप्तूर्वय के दास्तों में अप्यद-देरय सथा पृक्षाम-प्राप्तयमार है।

दैनिक अप्यदार में हमारे जो प्रथान चलते हैं, उनमें भी इन्हीं तीन महाप्राहृतियों का अमुभव देखा रहता है। भूः प्राणामक दारीर है, भुकः मन है और रूप बुद्धि है। इस सभी यात्रों हैं। उनमान दारीर को ऐहर वर

हम किसी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, तो पैर आगे बढ़ते हैं। थकने पर प्राण शक्ति ही काम देती है। यदि आगे कोई वाधा भा गई तो उसे दूर करने में भी प्राण ही सर्वप्रथम सहायता देता है। प्राणवत्ता वह बल अधिवा शक्ति है जिसका संचार प्राण के कारण शरीर में होता है। प्राण ही घो, दुर्घ, फ़ज़, अज्ञ आदि को पचा कर शरीर का इंग बनाता है। अतः प्राण-प्रदत्त शक्ति का ही उपयोग हम मार्म में आई वाधाओं को हटाने में सर्वप्रथम करते हैं, जब प्राण-शक्ति से काम नहीं निकलता, तब हम मन की चिन्तन शक्ति का आधार लेते हैं, सोचने लगते हैं कि इस वाधा को कैसे दूर करें। चिन्तन और मनन में भी कई चाँतें सूझती हैं, पर उनमें से कौन सी बात वाधा का निराकरण कर सकेगी, किम साधन का अवलम्बन अचूक लघ्यपवेष कर सकेगा, इसका निर्णय बुद्धि करती है; मन सोच कर प्रयोग तो कई साधनों का करता है, पर सदैव सफल नहीं होता। बुद्धि इसी हेतु निर्णय के लिये मन की सहायतार्थ आ जाती है। यह सामान्य क्रियाकलाप की बात हुई। विशेष प्रयत्नों में भी, साधना के पथ पर भी, इन्हीं सब का प्रयोग बांधनीय है। पर जैसे सामान्य व्यवहार में अपने संबल की अवस्था समस्त कर हम अपने को किसी अज्ञात शक्ति के हाथों में सौंप देते हैं, वेसे ही साधना में भी अपने सामर्थ्य के साथ हम पग-पग पर उम परम शक्ति के अवलम्बन की आकॉन्टा करते रहते हैं। साधना के अन्त में तो पूर्ण समर्पण ही कार्य देता है। पर इससे महाब्याहृतियों का मद्दत्य कम नहीं होता। शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम् जैसी उक्तियों में खूल, सूदम तथा कारण तीनों शरीर धर्म के साधक हैं।

अतः व्याहृतियों में प्रथम तीन—भू, भुव और द्वः—महाब्याहृतियाँ कहलाती हैं। ये व्याहृतियाँ जिन तीन स्थितियों का व्यञ्जन करती हैं, वे सामान्य जन के अनुभव में आती रहती हैं। साधक इन्हीं तीन स्थितियों का संस्कार करता हुआ साधना-पथ पर अग्रसर होता है। इन्हीं तीन की पवित्रता पर उसका आत्मसाज्जात्कार स्थित है। जिनके अवलम्बन पर हमारा निविल

कार्य-इलाप संचालित होता है और याद्य व्यवहार सिद्ध होता है और भग्न में जो हमें भारमत्वरूप की उपलब्धि कराने में सहायता देती है, उन्हें हम अपने लिये महाव्याहति, महावाच्य, न कहें तो क्या कहें ? शोष व्याहतियों तीसरी स्थः व्याहति के ही विवित एवं उत्तरांशों की सूचना देती है। जनः उत्तरा समावेश स्थः में हो जाने से तीन ही व्याहतियों प्रभुत्यता प्राप्त करती है और महाव्याहतियों कहलाती है।

इस इटि के अतिरिक्त इय० आचार्य मधुसूदन भोजा ने एक अन्य इटि हमारे समझ प्रसन्नत की है। यह इटि ग्रिलोडी से मावद है। यह से लेकर सायम् तक तीन ग्रिलोक्षियों हैं और एक एक ग्रिलोडी में भू, भुक, रथ नाम के तीन तीन लोक हैं। इन ग्रिलोक्षियों को तीन मंडलों की संज्ञा भी दी गई है : सौरमण्डल, परमेष्ठी मण्डल तथा स्वयम्भू मण्डल। भू, भुकः तथा रथः की एक ग्रिलोडी या सौरमण्डल है। इयः, महः तथा जनः की द्वितीय ग्रिलोडी या स्वयम्भू मण्डल है। प्रथम ग्रिलोडी का जो रथः भर्पात् सूर्य है, वह दूसरों या भूः है। इसी प्रकार दूसरी ग्रिलोडी वा जनः जो उत्तरा इयः है, तीसरी ग्रिलोडी वा भूः है। इस इटि से तीन महाव्याहतियों ही यात व्याहतियों में छोतप्रोत हैं और इसी कारण ये महाव्याहतियों कहलाती हैं।

यात व्याहतियों के ही समानान्तर सात ऐदिक घण्ड हैं :—यापय्यी, उपिण्ड, अनुप्तुप, षुदर्ती, पंजि, विष्टुप तथा जगती जिनमें घण्डाः २४, २८, ३२, ३६, ४०, ४४ तथा ५८ भवते हैं। इनमें भी ग्रीत घटना है। २४, ३६ तथा ४० भवती की यतो वा भी मात्र मानव एमार घटों व्रद्धचर्य के भी अपम, मध्यम तथा उत्तम अध्यवा प्रसु, ग्रन्त और भाद्रिय तीन भेद लिये गये हैं। कहीं कहीं ३६ के स्थान पर ५८ भवती भी आता है। ऐदिक निष्पत्ति-पली के येद्यमर्दांदा इतीर्यक ऐतर में हम इस दिता की ओर प्रपत्त हीं। मंदेष्टा कर खुके हैं। एग्नदों के ५८ भवती की भाँति उस एको ही भी ५८ वरायें मानी

जाती हैं। महाव्याहृतियों के त्रैत के आधार पर ही वेदव्रथी हैं। देववाद, ऋषिवाद, पितॄवाद सब एक सुदृढ़ भित्तिपर अवलम्बित हैं। पुरुष, छन्द, लोक, प्राग, शृणि आदि सबके लिये एक ब्रह्म ही तो चर्य है। आर्य इष्टि कितनी व्यापक रही है और उसमें कितनी गंभीरता से चतुर्दिक् पश्चृत नियमों का साक्षात् दर्शन किया है इसका हम लोग सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। महाव्याहृतियों का नामकरण भी इसी व्यापक इष्टि का परिणाम है।

—३५५—

## वेद और आर्य

देवों के अनुसार मानव जाति को भागों में विभाजित है। यह विभाजन प्रशृति के अधार पर है। कुछ मनुष्यों की प्रशृति ऐसी होती है कि ये अपने को सम्मान नहीं पाते। कुद्दि अथवा सदाचार की इटि से ये इतने हीन होते हैं कि न सरपथ का अनुसरण कर पाते हैं और न उसे पहचान ही पाते हैं। इसे प्रशृतिगत असमर्थता भी कह सकते हैं। येद में हमें दास कहा गया है। कुछ दास ऐसे भी होते हैं जो जानवृत्त कर सरपथ का अतिक्रमण करते हैं। ये अपराधी हैं और समाज के लिये घातक हैं। दासों के विपरीत आर्य होते हैं। आर्य अर्य का पुत्र है। अर्य का अर्थ है श्वामी। संसार का श्वामी परमेश्वर है। परमेश्वर में सत या भद्र की सीमा है। परमेश्वर का पुत्र कहलाने पाला आर्य सरपथ का अनुगामी होता है। उसमें इतनी कुद्दि और इतना सामर्थ्य होता है कि यह सत को जान सके और उस पर चल सके। आर्य भले पुरुष को कहते हैं। दास उत्तेजनाओं के वशीभूत होता है। आर्य उत्तेजनाओं पर शासन करता है।

नीचे लिखे मंत्र में आर्य और दाम का भेद स्पष्ट किया गया है :—

विजानीत्यार्यन् ये च दस्यवो घट्दिष्मते रन्धया शासदवतान् ।  
शाकी भव यजमानस्य चांदिता विश्वेत्ताते सघमादेषु चाकन ।

( ग्रा० १-११-८ )

आर्यों और दस्युओं को विशेषस्प से जानो। आर्य यज्ञ करने पाला है। उसके लिये आपती दस्यु पर नियंत्रण रखो और उसके दस्युभाव का विनाश करो। शक्तिशाली यनो। यजमान को यज्ञ करने की प्रेरणा दो। दर्पदूरं यज्ञो में दम तुगदारे इन युजों की कामना करते हैं।

आर्य वर्णी है, यज्ञशील है, व्यामी है, दानी है। दस्यु अवारी है और

एताग के विपरीत संग्रह करने वाला है। इस संग्रह में वह समाज द्वारा गृहीत ब्रतों या नियमों का पालन नहीं करता। नियमों को तोड़ कर वह धन इकट्ठा करता है। स्वभावतः इससे समाज के अन्य प्राणियों को कष्ट होता है। शासक का कर्तव्य है कि वह आदों की, नियम-पालन करने वालों की रक्षा करे तथा दस्युओं को नियम भंग करने से रोके<sup>१</sup>। दास और दस्यु दोनों ही हिसक हैं। वे नियमभंग करके समाज की हिंसा करते हैं। यदि इन्हें अपने काम में सुली दृढ़ी मिल जाय, तो समाज अब उसमय में ही अपना अस्तित्व खो देटेगा। उच्छृङ्खलता का अर्थ ही है, शृङ्खला में न रहना। समाज कुछ ब्रतों या नियमों की शृङ्खला में आवद्ध है और इसी में उपकी सुरक्षा निहित है। शृङ्खला के दूरते ही समाज भी टूट जाता है। इसलिये ऐसे व्यक्तियों को जो नियमों को तोड़ते हैं, शासन द्वारा रोका जाता है। यदि उनका मन-परिवर्तन हो गया, तो अच्छा है, अन्यथा उन्हें कुछ समय के लिये जेल में रख कर, समाज से हटाकर, सुधार का भवसर दिया जाता है और नव भी सुधार नहीं हुआ तो या तो जाजन्म कैद की सजा दी जाती है या फिर फाँसी पर लटका कर इस दारीर से ही अलग कर दिया जाता है। जिससे वे इसका उपयोग ही न कर सकें। सुरक्षा लक्ष्य दुरे को भला बनाना है, दास की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना है। उसे उन साधनों से भी विचित करना है जो उसे कुपय पर चलने में सहायता देते हैं।

दाम को वश में रखने के लिये<sup>२</sup> नियन्ता को शक्ति की आवश्यकता है। जो शासक निर्वल होगा, वह दास को नियंत्रण में नहीं रख सकेगा। दूसरी बात है, दास को दासभाव से हटा कर आर्यभाव के अपनाने की प्रेरणा देना। यह प्रेरणा क्रियारूप में उन व्यक्तियों से भी मिल सकती है जो आर्यभाव रखते हैं, यज्ञ करने वाले हैं, स्यागी और दानशील हैं। यदि शासक की ओर से ऐसे व्यक्तियों को बड़ावा मिलता है, तो उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव

<sup>१</sup> असुन्वतो विषुणः सुन्वतो वृथः (५-३४-६)

<sup>२</sup> यथा वशं नयति दासमार्यः ।

दास की मनोवृत्ति पर भी पड़ेगा। जनता के अन्दर आर्यत्व के सद्भाव को अहण करने की कामना होनी चाहिये। नीचे लिखे मंत्र में भी इसी भाव की व्याख्या है :—

**आसंयतमिन्द्रणः स्वस्ति शशुत्याय वृद्धतीमसृधाम् ।**

**यया दासानि आर्योणि वृत्रा करो वज्रिन्त्सुतुका नाहुपाणि ॥**

( श० ६-२२-१० )

हे इन्द्र ! शशु के विनाश के लिये हमें ऐसी अहिंसनीय तथा महती स्वस्थावस्था प्रदान करो जिससे दासों का वृत्रभाव समाप्त हो, उनके अन्दर जो आर्यत्व को निवारण करने, रोकने, दूर करने या नष्ट करने की प्रवृत्ति है, वह न रहे। वे आर्य बनें। अन्य मनुष्यों के अन्दर भी जो शुभ के प्रति शशुभाव है, वह नष्ट हो। वे सुन्दर सन्तति बाले बनें।

दासों को आर्य बनाना और मनुष्यों को सुशील सन्तान बाला बनाना तभी संभव है जब हम स्वयं स्वस्ति से समर्पज्ञ हों। हमारी स्वस्थावस्था भी अहिंसनीय हो और महान् हो। यदि हमारा स्वस्थ भाव ही आकान्त हो गया या उसमें जुद्रता अथवा संकीर्णता आ गई, तो आर्यभाव से हम स्वयं च्युत हो जावेंगे। जब हमीं दासभाव से दब गये तो दासों को आर्यभाव बाला कैसे बना सकेंगे। अतः आर्यों को आर्यभाव परहड़ रहने की आवश्यकता है। जागरूक, कर्मपरायण आर्य ही विश्व में आर्यत्व का प्रसार कर सकते हैं। आर्यत्व का प्रसार मानों सत का प्रसार है। सत का प्रसार आस्तिकभाव को बढ़ाता है। उससे प्रभु-विश्वास जागृत होता है। प्रभु में अटल विश्वास धर्मपरायण जीवन का प्रभुख आधार है। यह विश्वास अपने अन्दर छिपी स्वार्थ की निकृष्ट प्रवृत्ति को नष्ट करता है तथा त्याग आदि शुभ प्रवृत्तियों को जन्म देता है जिससे मानव संतति फलती-फूलती है। वेद आदेश देता है :—

**“इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कुण्ठन्तो विश्वमार्यम् ।**

**अपघनन्तो अराडणः ।”**

( श० ९-६३-५ )

शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति ईश्वर की (महिमा) को बढ़ाते हैं। वे विश्व में आर्यभाव का विस्तार करते हैं और दूसरों को छलाने वाले अदानी, स्वाधिंयों का विनाश करते हैं।

स्वाधिंयों का विनाश उनको स्थानभाव से सम्पन्न कर देता है। स्वाधीं जिस समय परोपकारी बनता है, उसी समय वह नया जन्म ले लेता है। उसका पुराना रूप नष्ट हो जाता है।

विश्व में हमें सत् एवं ऋत् दो नियम काम करते दिखाई देते हैं। सत् प्राकृतिक व्यवस्था को कायम रखने वाले नियम हैं और ऋत् सदाचार के नियम हैं। सत् एवं असत्, ऋत् एवं अनृत में प्रायः द्वन्द्व चला करता है, पर अन्त में सत् एवं ऋत् की ही विजय होती है। पारसी विश्वास के अनुसार यह द्वन्द्व तब तक चलेगा जब तक सत् की विजय नहीं हो जाती। सत् की विजय होते ही संसार की भी प्रलय हो जायगी। कोसे के अनुसार हम सब परिपूर्ण स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। वेद आर्य को स्वाधीन कहता है जो दूसरों की गुलामी नहीं करता। वह किसी दूसरे का आधित नहीं है। वह स्वतंत्र है। वह अदीन है। यह अदीनता या स्वाधीनता सत् की विजय है। जिसकी सत्ता या अस्तित्व दूसरे का मुहताज नहीं, वही हम संसार में सुखी है, आनन्दी है। परमात्मा स्ववान् है, उसका वीर्य किसी अन्य से प्रेरित नहीं है, वह स्वतन्त्र है। परमात्मा का पुत्र आर्य भी स्वतंत्र होता है।

प्रभु के नियम जहाँ सुष्ठि को व्यवस्था में रखते हैं, वहाँ चेतन प्राणियों में भी सदाचार की प्रतिष्ठा करते हैं<sup>१</sup>। सत् एवं ऋत् दोनों निरन्तर अपना कार्य करते रहते हैं। आर्य धर्मात् सदाचारी व्यक्तियों का कर्तव्य इन नियमों के साथ सहयोग करना है। ऋत् सो अपनी गति में सदाचारी की सहायता कर ही रहा है। दस्युओं को, दुष्टों को, अनाथों को जो दण्ड मिलता है—लौकिक

<sup>१</sup> आर्य इता विसृजन्तो अविक्षमि । ( १०-६५-११ )

एवं पारलौकिक दोनों ही व्यवस्थाओं में—उससे सदाचार की ही संवर्धना होती है। दस्यु इस व्यवस्था में वंधे हुए अपनी मनमानी नहीं कर पाते। दण्ड उन्हें शासित करता रहता है। लौकिक शासन को वे धोखा भी दे सकते हैं और कुछ समय के लिये दण्ड पाने से बच भी सकते हैं, पर परमारमा की व्यवस्था में उनके लिए कहीं भी आग नहीं है। सर्वव्यापक प्रभु की हाटि से कुछ भी ओझल नहीं है। अपराधी अपने अपराध को प्रभु से छिपा ही नहीं सकता। उसे कर्मनुसार फल भोगने के लिये विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, नाना प्रकार की यंत्रणायें सहनी पड़ती हैं, जिस इन्द्रिय से पाप किया है, उससे वंचित होना पड़ता है, विकलांग भी चमना पड़ता है। ये नाना ल्यैक-लोकान्तर जो प्रमुखतः सात भागों में विभाजित हैं, जीव के भोग-स्थान हैं। प्रभु की ओर से मिला हुआ दण्ड भी प्रतिशोध नहीं, जीव के शुद्ध होने का साधन है। लौकिक शासन का उद्देश्य भी अपराधी को दण्ड देने में यही होना चाहिये। दस्यु की दस्युता का संहार करके उसे आर्य बना देना है। दस्यु कोई जाति नहीं, स्वार्थ-कल्पित मानव का नाम है। जो आर्यभाव से विहीन है, वही दस्यु है। उस दस्यु का शोधन उसे आर्यत्व से मंडित कर देने में है। आर्य का अपना हित भी दस्यु को आर्य बनाने में है जिसमें दस्यु का हित तो साथ लगा ही है।

आर्य ज्ञानी है। वह प्रभु के ज्ञान के पीछे चलता है<sup>१</sup>। उसके वर्म ज्ञान के अनुकूल होते हैं। दस्यु इसके प्रतिकूल है। वह विचारशून्य, मानवता रहित, मानव के विपरीत, भिज्ज व्रतवाला तथा कर्महीन भी है<sup>२</sup>। वह पुरुषार्थ की कमाई पर यसर नहीं करता, नहीं करना चाहता। परमारमा ऐसे दस्यु को घर से बाहर कर देता है अर्थात् सदायकों से वंचित कर देता है और

<sup>१</sup> मम देवासो अनु केत मायन् । ( ४-२६-२ )

<sup>२</sup> अकर्मदस्युः अभिनीअमन्तुःअन्य चतो अमानुषः । ( १०-२२-८ )

बंधकार से परिपूर्ण लोकों में ले जाता है। आर्य को वह विस्तृत प्रकाशमय लोक देता है जहाँ सुख, ज्योति, निर्मयता तथा कल्याण प्राप्त होते हैं<sup>१</sup>।

परमात्मा की रक्षग शक्तियों को प्राप्त करते हुए हम आर्यभाव द्वारा ही सब शत्रुओं, दस्युओं को एह कर सकते हैं, उन्हें पराजित कर सकते हैं<sup>२</sup>। परमात्मा सम्पत्ति है, सज्जनों का, आद्यों का रक्षक है<sup>३</sup>। उनका संवर्धनकारी है<sup>४</sup>। वह दाम-द्विंसक का वध है<sup>५</sup>। दूसरों का शोषण करने वाले, रक्त चूपने वाले दस्यु का विनाशक है। ऐसे दस्यु को परमात्मा ने आर्य नाम नहीं दिया<sup>६</sup>। वह भलेमानसों में रहने योग्य नहीं है। आर्य से पृथक् है। प्रमु के बल से आद्यों का मुख प्रदीप्त होता है। उन्हें सुप तथा श्रेष्ठ ज्योति प्राप्त होती है<sup>७</sup> और उनका बल तथा तेज यद्गना है<sup>८</sup>। ऋत की धारा के साथ, सदाचार के परिणामस्वरूप, उनकी इन्द्रियों तथा वाज ( वीर्य, ओज आदि ) चमक उठते हैं। ( १-६३-१४ )

<sup>१</sup> उह नो लोकं अनुनेति विद्वान् स्ववर्तं ज्योति रभयं स्वस्ति ( ६-४३-८ )

<sup>२</sup> आर्येण दस्यून् ( २-११-१९ )

तरन्तो विद्वाः स्वृथः । दासा वृत्वाणि आर्या जिगेय । ( १०-६९-६ )

अपावृणोः ज्योतिःआर्यिः ( २-११-१८ )

ज्योतिरित आर्यिः ( १-५९-२ )

ज्योतिश्चत्रशुः आर्यिः ( १-११७-२१ )

उरु ज्योतिर्जनयन् आर्याय । ( ७-५-६ )

<sup>३</sup> आर्यं प्रावत् । १-१३०-८

<sup>४</sup> आर्यस्य वर्धनम् ( ८-१०३-१ )

<sup>५</sup> वधर्दीस्य ( ८-२४-२७ )

हत्वी दस्यून् प्रार्य वर्णमावत् ( ३-३४-९ )

<sup>६</sup> शुण्णस्य स्नयिता...न यो रर आर्यनाम दस्यवे । ( १०-४३-३ )

<sup>७</sup> प्रैपामनीकं शवसादविच्युतद् । ( १०-४३-४ )

<sup>८</sup> ( १-१०३-३ )

संसार एक चक्र है। इसका अधिपति ईश्वर है। चक्र के ऊपर तथा अबम भाग की भाँति इसमें आर्य तथा दस्यु दो प्रकार के मानव हैं। जैसे चक्र के ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर आता रहता है, वैसे ही यहाँ आर्य दुष्कर्म करके दस्यु हो सकता है और दस्यु सत्कर्म करके आर्य बन सकता है। आर्यभाव दस्युभाव का प्रतिमान है। दस्यु भसुर है, मायावी है तथा अपने को भरने वाला है। आर्य इसके प्रतिशूल है। परमात्मा दस्यु के हृद से हृद बल को नष्ट कर देता है। आसुरी शक्तियों के इस पराभव से संमार का चक्र सुरचापूर्वक चलता रहता है<sup>१</sup>।

पीछे दासों के हमने दो वर्ग किये हैं:—एक वर्ग ऐसे दस्युओं का है, जिन्हें सुधारा जा सकता है। दूसरे वर्ग में वे दस्यु भाते हैं जो द्विष्टा, मानवता या आर्यभाव के शन्त हैं। संसार में जो अशान्ति फैलनी है, युद्ध होते हैं और रक्षपात होता है, वह इसी दूसरे वर्ग के कारण। आर्यों का युद्ध ऐसे ही दस्युओं से होता है। वे सत्यस्वरूप प्रभु को अपने हृदय में धारण कर सत की रक्षा के लिये दस्युओं के विरुद्ध युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। सत कभी हारता नहीं। अन्त में विजय उसी की होती है<sup>२</sup>।

—॥३६॥

<sup>१</sup> विद्वासाय प्रतिमानमार्यः । हृदानि पिप्रोरसुरस्य मायिनः इन्द्रो व्यास्यत्  
चक्रवाँ ऋजिश्वना । ( १०-१३८-३ )

<sup>२</sup> यो तो दास आर्यो वा पुल्युत वदेव इन्द्रं पुष्येचिकेतति ।  
अस्माभिष्टे सुपहा सन्तु शत्रवः त्वया वर्यतान् वनुयाम संगमे ।  
( १०-३८-३ )

## पुनर्जन्म

अपाङ् प्राङ् पति स्वधया गृभीतो अमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ।  
ता शश्वन्ता विपूर्चीना वियन्तान्यन्यंचिक्युर्ते निचिक्युरन्यम् ॥  
( क० १-१६४-३८ अथर्व ९-१०-१६ )

अमर जीवात्मा मरणधर्मा शरीर के साथ संयुक्त होता है । इसका कारण है स्वधा अर्थात् अपने को धारण करने की भावना । स्वधा से गृहीत हुआ जीव सु = अच्छी, किन्तु अधा = नीची प्रकृति के प्रपञ्च में पड़ता है । प्राकृति कैभव देखने में आकर्षक है, पर उसका उपभोग निर्वलता का भी जनक है । जीव इस कैभव के उपभोग में हृचि लेने लगता है, इसीलिये वह शक्तिहीनता का आखेट बनता है । मनु ने ( १२-३८ ) लिखा है कि प्रकृति के तमेगुण से चिपट यर मानव कामो बनता है, रजोगुण से लिपटकर अर्थवान बनता है और सतो-गुण का आश्रय लेकर धार्मिक बनता है । काम और अर्थ की लोलुपता उसे नीचे गिराती है और पशु-पक्षी आदि की योनियों में ले जाती है । काम और अर्थ पर संयम उसे मानव योनि में ले जाता है । धर्म का आचरण उसे पितर तथा देवयोनियों की ओर ले जाता है । काम और अर्थ में अनायक व्यक्ति ही धर्मज्ञान प्राप्त करते हैं । धर्म की जिज्ञासा वेद से शान्त होती है । धर्म के जिज्ञासुओं के लिये श्रुति से दृढ़कर अम्य कोई प्रमाण नहीं है । ( २-१३ ) वेद ही परम प्रमाण है । वेद ही अखिल धर्म का मूल है । अतः द्विजों को, संस्कृत व्यक्तियों को, विशेषतः माहीबृत्तिवालों को वेद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिये । यदि वे वेद को छोड़कर अन्यत्र धर्म करेंगे, तो पुनः शुद्धत्व को प्राप्त कर जायेंगे । ( २-१६८ )

धर्म क्या है ? ज्ञाचार ही प्रथम धर्म है । वेद और उसके अनुकूल स्मृति जिन विधि-नियेषों का वर्णन करते हैं उनमें विधि का स्वीकार तथा नियेषों

का परित्याग ही धर्म का पालन करना है। यह स्वीकार तथा परित्याग आचार में प्रकट होने चाहिये। कथनी को करनी में परिणत करना चाहिये। ज्ञान के अनुकूल आचरण करना ही धर्म है। यदि ज्ञान तथा आचरण में वैपरीत्य रहा तो दर्शन का रूप खड़ा हो जायगा। मनुष्य धार्मिक नहीं बन सकेगा। सदाचार या सद्व्यवहार से ही मानव धार्मिक बनता है। वाणी मात्र से नहीं, रोम-रोम द्वारा सद्व्यवहार की ध्वनि निकलनी चाहिये, हमारे पृक-एक आचरण द्वारा धर्म का जय-धोप होना चाहिये। धर्म व्याख्यान-व्यापार नहीं, आचरण-अनुष्ठान है जो वाणी ही नहीं, अंग-अंग को प्रभावित करता है। हमारी समस्त चेष्टाओं में धर्म प्रतिष्ठनित होता है।

आचरण कर्म है। कर्म तीन प्रकार का हो सकता है : तामस, राजस तथा सामिक। तामस कर्म हेय है व्योंकि वह अधोगति का कारण है। राजस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। सात्त्विक कर्म ही उन्नयन करता है—ऊपर उठाता है<sup>१</sup>। वेद कहता है : उद्यानं ते पुरुप नावयानं—जीव तुहे ऊपर उठाना है, नीचे नहीं गिरना है। अधोगति की मार ग्याते-खाते तू अपने स्वरूप से ही हाथ धो बैठा है। मानव योनि में आकर अब तो अपने स्वरूप को पहिचान, अपने घर की ओर चल। इस पृथिवी की पीठ पर सवार हो जा और यौं लोक का आधान करता हुआ अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जा।

कर्म साधना है, तप है, ऐसा सभी साधक स्वीकार करते हैं। पर सरकर्म बया है, अपकर्म बया है तथा कर्म, भकर्म और विकर्म में परिस्थितियों के प्रभाव से बया और कैसा अन्तर पड़ता है, इस विषय में कभी-कभी बड़े-बड़े कवि, ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं और निर्णय नहीं कर पाते। एक ही कर्म एक समय में करणीय, परन्तु दूसरे समय में अकरणीय बन जाता है। साधारण मानव की चुदिं अम में पढ़ जाती है। वह कर्तव्य और भकर्तव्य में भेद नहीं

<sup>१</sup> ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्या, मष्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणदृतिस्या अधोगच्छन्ति तामसाः । गीता १४-१८

कर पाता। कर्म की गति वस्तुतः गहन है, पर इतनी गहन नहीं कि हम उसका भेदन ही न कर सकें। मनु ने विचिकित्सा के समय श्रुति, स्मृति, सज्जनों का आचार तथा आत्मप्रियता को कसौटी बनाया है। इस कसौटी की विस्तृत व्याख्या हमारे 'जीवनदर्शन' ग्रन्थ में करणीय शोर्पंक निवन्ध के अन्तर्गत मिलेगी। इस पर कसकर हम कर्म के खो-खोटे होने की परीका कर सकते हैं। यह कार्य भी यद्यपि आशातः सरल नहीं है, किंतु भी दिशा-संकेत तो है ही और प्रयत्नसाध्य भी है। तैत्तिरीय उपनिषद् भी कहती है :—

अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा या वृत्त विचिकित्सा या स्यात् ।

ये तत्र श्राह्णाः समर्शिनः, युक्ताः, आयुक्ताः, अलूक्ताः धर्मकामा  
स्युः । यथा ते तत्र वर्तेन्, तथा तत्र वर्तेद्याः ।

( दिक्षावही अनुवादक ११-४ )

यदि तुम्हें कर्म अथवा वृत्त (आचार) के सम्बन्ध में सन्देह हो कि यह करणीय है या नहीं अथवा वरणीय है या नहीं, तो इस विषय में ज्ञानी सदाचारी ब्राह्मणों के पास जानो जो विचारशील हैं, उस कर्म तथा वृत्त से परिचित हैं, सहृदय हैं और धर्म-परायण हैं, कर्म अथवा वृत्त के सम्बन्ध में जैसा इनका वर्तीव दियालाई दे, वैसा ही तुम भी करो। जो व्यक्ति कुछ यात हैं उनसे व्यवहार करने में भी इसी प्रकार के ब्राह्मणों के आदर्श को प्रमाण समझो। व्यवहार साध्यता के लिये यह कसौटी समाज के पास सुलभ है।

कर्म, अकर्म अथवा विकर्म का ज्ञान हो जाने पर भी भावरण का प्रश्न चला रहता है। अनेक बार जानते हुए भी अभ्यास, संस्कारवश, यथार्थ आचरण नहीं कर पाता। एक कर्म के करते-करते जो संस्कार बन गया है, वह आगामी जीवन-क्रम को प्रभावित करता रहता है। अभ्यास पर अभ्यास चढ़ता रहता है। इस अभ्यास-जन्य संस्कार को जो बस गया है, बासना बन चुका है, दूर

करने में सामान्यतः बड़ा समय लगता है और भगीरथ प्रयत्न करना पड़ता है। पर यदि कहीं प्राप्ति पुण्य अवशिष्ट हों, तो भगवत् कृपा के संकेतमात्र से, किसी गुरुजन की प्रसाद-दृष्टि पड़ते ही अथवा भयंकर ठोकर लगते ही संस्कार का प्रभाव नष्ट हो जाता है और मानव पृथ्वी में हो सदाचारी बन जाता है। कर्म का यह चक्र अतीव जटिल है। इसे श्रीकृष्ण सदृश कोई योगीराज ही समझ सकता है और कह सकता है :—बहुनि मे ध्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वैरथ परन्तप ॥। इस कर्मजाल में फँसा हुआ जीव कभी ऊँचा उठ जाता है, कभी नीचे गिर जाता है, कभी सुख भोगता है, कभी दुःख का भाजन बनता है, कभी राजा बनता है, कभी रंक की स्थिति में पहुँचता है, कभी देवयोनि तो कभी पशुयोनि, कभी आह्वाण तो कभी शूद्र, कभी नागरिक तो कभी वन्य, कभी संस्कृत तो कभी असंस्कृत, कभी बलवान् तो कभी निर्बल, कभी सुरूप तो कभी कुरुप-न जाने कितनी विविध उच्चावच स्थितियों को प्राप्त करता रहता है। इम रिथितियों के अनुभव ने ही पुनर्जन्म सिद्धान्त को जन्म दिया है।

लेख के प्रारम्भ में हमने जो मंत्र उद्देश्य किया है, वह पुगर्जन्म के सिद्धांत का समर्थक है। इस मंत्र के अनुसार अमर्य आत्मा मर्त्य शरीर में आकर नाना प्रकार के भोग भोगता है, विविध प्रकार के काम करता है, अनेक लोकों के दृश्य देखता है और एक नहीं, अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। विविध योनियों में विविध प्रकार के शरीर हैं जिनसे विविध प्रकार के स्वभाव, गुण, वृत्तियां तथा चेष्टायें प्रकट हो रही हैं। ये सब जीवात्मा की अपनी कमाई है। शरीर दिखाई देते हैं, गुणों तथा वृत्तियों का ज्ञान होता है, परन्तु जिसकी यह अर्जित सम्पत्ति है, वह जीवात्मा नहीं दिखाई देता, जानने में भी नहीं आता।

जीवात्मा इस हमेले में क्यों पड़ता है ? इसका प्रसुख कारण नीचे लिखे मंत्र में वर्णित है :—

द्वासुपर्णी सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।  
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रिति अनशनन्नयो अभिचाकशीति ॥

( श० १-१६४-२० अथर्व ९-५-२० )

जीवात्मा तथा परमात्मा की साथ रहने वाले सखा एक ही संसाररूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं । जीवात्मा इस वृक्ष के फल को खाता है । परमात्मा खाता नहीं, द्रष्टामात्र है । वृक्ष के फल में स्वाद लेना भोगेच्छा का शोतक है । जीवात्मा की यही निर्वलता है । परमात्मा भोग से पृथक केवल द्रष्टा है । यह उसकी शक्ति है । कोई वस्तु मेरे पास हो, फिर भी मैं उसके प्रति अपनी आसक्ति प्रकट न करूँ, इसमें मेरा स्वत्व सुरक्षित है । यदि आसक्ति हो गई, तो मेरा स्वत्व जाता रहा । मेरे साथ एक और वस्तु आकर चिपट गई और मेरा स्वत्व उसके हाथ बट गया । विभाजन शक्ति को कम करता है । शक्ति का एक ग्रीकरण तो केन्द्रस्थ, स्वस्थ रहने में है । शक्ति की हीनता पराधीनता की ओर ले जाती है । जीव भी भोग के अधीन होकर परतन्त्र होता ही जाता है । ज्ञान और प्रयत्न उसके दो गुण हैं । इन्हें लेकर यह स्वाधीन होना चाहता है, पर नहीं हो पाता । भोग भोगेच्छा को और प्रबल करता है । जब यह भोग से विरत होकर तपस्या करता है, तब कहीं स्वाधीनता की क्षलक सामने आती है । यदि उस क्षलक को पकड़कर यह तप में निरत रहा, त्यागभाव को अपनाता रहा, तो एक दिन अपने स्वरूप में अवस्थित हो जायगा । तप से क्षहंकार को ध्वन्य पृथक रखना होता है और परम प्रभु के समन्वय समर्पण करना होता है, तब कहीं पूर्ण स्वाधीनता के दर्शन हो पाते हैं ।

‘जो कर्ता सो भोक्ता’ की कहावत प्रत्यात है । कर्म का भोग से और भोग का कर्म से नित्य सम्बन्ध है । सुख और दुख भोगरूप हैं और इसी न दिली कर्म का परिणाम है । सुख के साथ दुख ढगा रहता है, परन्तु मोक्ष में दुष्य का एकान्त अभाव हो जाता है । जैसे दिन और रात्रि का चक्र है, सुषि और प्रलय का चक्र है, जन्म और मरण का चक्र है, वैसे बन्ध और मोक्ष का भी चक्र है । मोक्ष को इसीलिये सावधि कहा गया है । उसके भोग

का समय परान्त काल है। परान्तकाल ३६ सहस्रवार सृष्टि और प्रलय के होने का समय है। प्रलयेद १००१५००३ में अधिष्ठण सूक्त या भावचूत सूक्त के अन्तर्गत सृष्टि और प्रलय के चक्र का 'थथापूर्वमस्तुरयत्' शब्दों द्वारा वर्णन किया गया है। वर्तमान सृष्टि जैसी ही है जैसो पूर्वकल्प में भी। सृष्टि या इच्छा प्रकृति का बन्ध है। प्रलय प्रकृति का भोक्ता है। इसी प्रकार जीव का कर्म-फल के अनुसार विविध प्रकार यी योनियों में आवागमन बन्ध है और इस आवागमन से द्युटकारे का नाम भोक्ता है। भोक्ता का धर्थ ही है दृष्ट जाता। दृष्टने का धर्थ है वंघन से पृथक होना। भोक्ता जैसी महान उपलक्ष्य के लिये महती साधना की अपेक्षा है। यह साधना मानव योनि में ही संभव है, पशु-पक्षियों की योनि में नहीं। मानव योनि में भी एक नहीं, अनेक बार जन्म लेना पड़ता है। उसमें भी ध्येणी-विभाग है, परम-अवम के रवर हैं। मानवता की उच्चतम कक्षा में जबतक जीव का प्रवेश नहीं होगा, तब तक वह स्वर्ग का अधिकारी नहीं यन सकेगा।

इमशान में जिस मृत्यु के दर्शन होते हैं, वह शरीर की मृत्यु है, जीव की नहीं। जीव जब शरीर को छोड़ देता है, तब शरीर समाप्त हो जाता है। जीव प्राण-मन-खुदि के साथ दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। यह दूसरा शरीर पहले शरीर की अपेक्षा उत्कृष्ट होगा या निकृष्ट, इसकी पहिचान कुछ-कुछ पहले शरीर को छोड़ने के समय ही की जा सकती है। सबकी मृत्यु एक समान नहीं होती। लक्षिय रण में मृत्यु का वरण स्वेच्छा से करता है। शूद्र तथा वैश्य वृत्तिशाले घर में रहते हुए मरण में अनिच्छा प्रवृद्ध करते हैं, पर उन्हें भी शरीर छोड़ना पड़ता है। प्राणीवृत्तिवालों के लिये शरीर का परित्याग वस्त्र या परिधान के परित्याग के समान है। अतः मरण के समय प्राणी की भावनायें अपने-अपने कृप कर्मों तथा निर्मित वृत्तियों के अनुसार होती हैं। और जिस-जिस भावना को लेकर जीव शरीर छोड़ता है, उसी भावना के अनुद्गुण आगामी शरीर मिलता है।<sup>१</sup>

<sup>१</sup> यं यं भावं स्मरन् वापि त्यजति अन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव-भावितः ॥ गीता ८-६

इम जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही संसार बनते हैं और उन्हीं संसारों के अनुसार हमें जागामी शरीर मिलते हैं। वेद कहता है :—

ये अर्णाञ्चस्तां उ पराच आहुः ये पराञ्चस्तां उ अर्षाच आहुः ।  
इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥  
( श० १-१६४-१९ )

जो नीचे थे, वे ऊपर पहुँच जाते हैं और जो ऊपर थे वे नीचे आ जाते हैं। इन्द्र अर्थात् इन्द्रियों वा स्वामी जीवात्मा जिन कर्मों को वरता है, वे धुरे की भाँति युक्त होकर इसे लोक-लोकान्तरों में एक योनि से दूसरी योनि में ले जाते हैं।

अनच्छ्वये तुरगानु जीवमेजद् ध्रुवं मध्य आ पस्त्यानाम् ।

जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिः अमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ॥ ३० ॥

मृत शरीर का जीवात्मा उस शरीर से निकल कर अपनी स्वधारों के अनुसार, धारण करने वाली कृतियों तथा स्वघनियों के अनुसार, वृत्तियों और स्वभावों के अनुकूल असर होता हुआ भी मर्त्य शरीर को अपना सयोनि बना कर विचरण करता है अर्थात् एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता हुआ चढ़ा जाता है। पास्त्यो<sup>३</sup>, गृहों, योनियों तथा लोकों के मध्य में भ्रुव जीव को भी जो एजत् = हिला देने वाली किया है, वह यही स्वधायें हैं, भोगेच्छा, कर्म, वृत्ति और उनसे बने हुए स्वभाव हैं। यही इस प्राग धारण करने वाले, वेगशाली जीव को सुला देते हैं, परमात्मा से विमुच कर देते हैं, प्रमाद में डाल देते हैं। आत्मा की पवित्रता पर स्वधा ही आवरण डालनी है, उसे मणिनता की ओर ले जाती है और नीची-ऊँची योनियों के दुष्ट-मुख दिखाती अनुभव कराती है।

<sup>३</sup> पस्त्य = अपस्त्याग्निं संधीभूयतिष्ठन्ति जीवायत्र,  
गृहस् इति शब्दकल्पद्वये ।

अपश्यं गोपामनिषद्यमानमा च पराच परिमिश्चरन्तम् ।

स सधीचीः स विपूचीर्वसान वा वरीयति भुवनेष्वन्तः ॥ ३१ ॥

इस अनिषद्यमान, ऊर्ध्व स्थान पर विराजमान, गोपा, इन्द्रियों के पालक जीव को मैंने अघ पूर्व ऊर्ध्व, अवर पूर्व परले पथों से विचरण करते हुए देखा है । यह कभी अनुकूल, कभी प्रहिकूल, कभी सम, कभी विपम दक्षाओं को अपनाता हुआ, ऊंची-नीची योनियों में चसता हुआ मुखनों के अन्दर वार-वार आया-जाया करता है । सधीची धारण करने वाली अवस्था है तो विपूची निम्न प्रवाही विचलन, विरेचन पूर्व निष्कामन की अवस्था है ।

य ई चकार न सो अस्यवेद य ई ददर्शद्विषगिन्तु तस्मात् ।

स मातुर्थोना परिवीतो अन्तः घुम्पजा निष्ठतिमाविवेश ॥ ३२ ॥

जननी के गर्भ में छिल्ही और ज्ञान से ढका हुआ जीवात्मा अनेक जन्म धारण करता है । यह घुम्पजा = अनेक जन्मों तथा संवत्तियों वाला बनता है और धोर से धोर दुर्गति में पड़ता है । इस हुदैशा में यह जो कुछ करता है, उसे स्वयं भी नहीं जानता और जो कुछ देखता है वह भी इससे छिपा हुआ ही रहता है । उदात्त आत्मा का यह कैसा अघःपतन है ।

अधोगति में पढ़ा हुआ, वल्लेशाक्षान्त जीव व्याकुल होता हुआ इसीऽिये प्रभु से प्रार्थना करता है :—

न विज्ञानामि यदि येदमस्मि निष्यः सञ्चरो मनसा चरामि ।

यदा मागन् प्रथमजा ग्रहतस्यादिद् वाचो अश्वुवे मागमस्याः ॥३३॥

मैं नहीं जानता, मैं बता हूँ । या मैं यह जारी हूँ ? जारी के साथ सद्योनि, समानधाम बनकर मुस्त जरीर के अतिरिक्त जपना अस्तित्व सुझ नहीं पड़ता । मैं अपने इन विचारों से विलकृष्ट दब गया हूँ, अच्छी तरह दंप गया हूँ । अब तो प्रभु ही कृपा करें, जल वी प्रथमजा को प्राप्त करावें । तभी इस बागी का भाग भोग्य बन सकेगा—समझ में भा सकेगा ।

जीव जलचर सथा वानस्पत्य योनियों में भी जाता है, इससा समर्थन निर्मांकित मंत्रों से होता है :—

**शप्त्वग्ने सविष्ट्र सौपदीर्णुरध्यसे । गर्भेसन् जायसे पुनः ॥**  
( यु १२-३६ )

मंत्र के दो धर्म हैं :—एक अग्नि पररु है जो विज्ञान के अन्तर्गत आता है और दूसरा आत्मपररु है जो पुनर्जन्म से सम्बन्ध रखता है। विज्ञान के अनुसार अग्नि जहाँ बाहर है, वहाँ जलों तथा ओषधियों के अन्दर भी है। जड़ से विद्युत रूप अग्नि आजकल बाहुल्य से पैदा की जानी है और उससे घरों में रोशनी ही नहीं होती, रेट्री आदि भी पकाई जाती है, पंखा चडाया जाता है, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों विजडी से चलती हैं, रेले चलती हैं, आदि, आदि। ओषधियाँ आमतेय हैं, यह रसायन में ही नहीं, अन्तादि में भी सत्य है। काष्ठ और विशेषतः शामी तथा पीपल की लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है। यह इनके गर्भ में रहती हुई प्रकट भी हो जाती है। वांसों की पारस्परिक रणझ से भी यन की दावारिन भढ़क उठती है।

पुनर्जन्म के सम्बन्ध में आत्मा जलचरों की योनियों में भी जाती हुई मानी गई है। वृक्षों, वनस्पतियों तथा ओषधियों में जीवात्माओं की स्थिति अन्तःसंज्ञ है। पेसा मनु द्वारा स्वीकृत है। इनके गर्भ में रहकर जीव पुनः मानव योनि में आता है। भोगयोनियों के उपरान्त उसे मानव योनि की कर्मभूमि प्राप्त होती है।

**प्रसद्यभस्मना योनिमपश्च पृथिवीमग्ने ।**

**संस्तुज्यमातुमिष्टु ज्योतिष्मान् पुनरासदः । ( यु ० १२-३८ )**

इस मंत्र के भी पूर्व जैसे दो धर्म हैं : एक भविनपररु, दूसरा आत्मपररु। अग्नि भवत्त होकर जलों तथा पृथिवीयों योनि को प्राप्त होकर पुनः मानाओं के साथ मिलती है और ज्योतिष्मान धर्थात् प्रवृत्तिन रूप में उपस्थित हो जाती है। अग्नि की मानायें धर्थात् अग्नि को मान देने वाली सूर्य की किरणें हैं, जल है, काष्ठ है, जैक्ष पहले लिख चुके हैं। आत्मा जब द्वारीर को छोड़ता

है, तब शरीर तो भस्म हो जाता है, परन्तु आत्मा प्राणादि को लिये हुए जलीय अथवा पार्थिव योनि को प्राप्त होकर पुनः माताओं का संसर्ग कर उनके गर्भ में आता है। आत्मा स्वयं ज्योतिष्मान है। उसका यह ज्योति रूप बुद्धिमान मानव के रूप में पुनः प्रस्तु होता है।

विभिन्न योनियों में जाने के कारणों पर प्रकाश ढालते हुए मनु कहते हैं :—

**शरीरजैः कर्म दोपैर्यातिस्थायरतां नरः ।**

**चाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्य जातिताम् ॥ ( १२-९ )**

कर्म के जो दोष शारीरिक हैं, जैसे हस्या, चोरी, ध्यनिचार, उनके कारण मनुष्य बृहदादि स्थावर योनि को प्राप्त करता है, वाणी से किये पापों के द्वारा ऐसी और मृगादि का शरीर धारण करता है तथा मन से किये पापों द्वारा चाण्डाल भादि का शरीर मिलता है। यह अंगजन्य पाप का परिणाम है।

**देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वश्चराजसाः ।**

**तिर्यक् त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविद्यागतिः । ( १२-४० )**

गुणों की दृष्टि से विचार करें तो सात्विक गुगलस्तत्त्व व्यक्ति देवयोनि को प्राप्त करते हैं, रजेगुणी मानव योनि में आते हैं तथा समोगुणी तिर्यक् योनि में जाते हैं। तामसी तथा राजसी गति जग्न्य, मध्यम तथा उत्तम तीन-तीन भागों में विभाजित है, परन्तु सात्विकी गति के प्रथमा, द्वितीया तथा उत्तमा तीन भेद हैं। इन भेदों के अनुसार योनियों भी भिन्न भिन्न हो जाती हैं जिनका विस्तृत विवरण मनुभृति के १२ में अध्याय में दिया गया है। मनु लिखते हैं :—इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च । पापान् संयमित संसारान् अविद्वौसो नराधमाः । १२-५२ । हन्द्रियों के वसीभूत, धर्म-सेवन से रहित, अज्ञानी अधम नर पापस्थी योनियों को पाते हैं। किन्तु जो धर्म-प्राप्तया है, हन्द्रियों को संयम में रखने वाले हैं, वे ज्ञाननिधि, प्रभुप्रेमी नर उर्ध्वं लोकों में जाते हैं। सांख्य १-१ सूत्र के अनुसार मनुष्य का परम पुरुषार्थ त्रिविध दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति करने में निहित है।

उत्तर्व लोकों की गतियां भी अनेक हैं, परन्तु उनमें दो प्रमुख हैं : पितृयान तथा देवयान। पितृयान पथ के पथिक परोपकारी, आदर्श चरित्र, भद्र पुरुष होते हैं। देवयान पथ पर वैज्ञानिक पूर्व द्वार्शनिक चलते हैं। इन दोनों में सत्कर्म और ज्ञान-प्रकाश का अन्तर है। पितरों की दिशा दक्षिण तथा देवों की दिशा उत्तर है। इस आधार पर हन्हें दक्षिणायन तथा उत्तरायण मार्ग भी कहा जाता है। एक को चान्द्रमस तथा दूसरे को सौर्यायण ज्योति भी कहते हैं। गीता ने हन्हें कृष्ण तथा शुक्ल गति का नाम दिया है। ये दोनों ही गतियां वृहस्पति से ऊपर नहीं जातीं, ऐसा गीता का मत है।

गीता के आठवें अध्याय में जो देवयान तथा पितृयान का वर्णन है, उसमा स्रोत छान्दोग्य उपनिषद् में और छान्दोग्य का स्रोत वेद में है। वेद बहुत है :—

द्वे सूर्ती अशृण्यं पितृया महं देवानामुन मर्त्यानाम् ।

ताभ्यामिदं विश्वमेऽत् समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥

( श० १०-८८-१५ यजु० १९-४७ )

मर्त्य मनुष्य अपने शुभ कर्मों के अनुसार पुण्य का फल भोगने के लिये दो मार्गों से जाते हैं—एक पितृयान से और द्वितीय देवयान से। पिता और माना पृथ्वी के बीच में यह सब जो गतिशील है, इन्हीं दोनों मार्गों में समा जाता है। इसके पूर्व मंत्र १२ में वैद्यामर अग्नि का वर्णन है जो अद्वाम् = द्विवसों धर्यात् प्रकाश का केतु या प्रतीक है। यही अग्नि प्रकाशमयी ऊगाओं का विस्तार करता है जिनकी अर्थि या द्वाला से व्यापक अन्धकार दूर होता है। यह देवयान अग्नि सूर्य की संवत्सराग्नि है जिसका वर्णन छान्दोग्य उपनिषद् में भी है।

छान्दोग्य उपनिषद् ने शिष्ट मानवों के दो भाग दिये हैं। एक भाग में चास करके लोकोपकार के कार्यों में संदर्भ रहते हैं, दूसरे भरण्य में रहते हुए अद्वा-सहित तप का जीवन व्यनीत करते हैं। इन्हें वैद्यामस भी कहा जाता है। एक लोक-संग्रही हैं, लोक-मंगल-विधायक हैं, दूसरे तपस्वी या भास-

साधक हैं। एक चन्द्र या पितॄलोक को तो दूसरे ब्रह्मलोक को जाते हैं। एक का पन्थ पितॄयाण है तो दूसरे का देवयान है।

तत् ये इत्थं विदुः ये च इमे अरण्ये अद्वातप इति उपासते ते  
अचिंपम् अभि संभवन्ति । अचिंयो अहः । अहः आपूर्यमाण पक्षम् ।  
आपूर्यमाणपक्षात् यान् पडुदड्डेति मासान्स्तान् ॥१॥ मासेभ्यः  
संवत्सरं । संवत्सरात् आदित्यम् । आदित्यात् चन्द्रमसं । चन्द्रमसो  
विद्युतं । तत् पुरुषो मानवः स पक्षान् ब्रह्म गमयति । एष देवयानः  
पन्था इति । ( ०-१०-१,२ ) ।

जो अरण्य में अद्वा और तप का अनुष्ठान करते हैं, वे अचिं के समुद्र  
हो जाते हैं। अचिं से दिन, दिन से शुक्लपक्ष, शुक्लपक्ष से छुः उत्तरायण  
मासों को, मासों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से ऊर्ध्व-  
स्थानीय महः नाम के चन्द्रमा को, चन्द्रमा से तपः नाम की विद्युत को प्राप्त  
करते हैं। तब वह विद्युत मानव पुरुष इन्हें ब्रह्मलोक में ले जाता है। यह देवयान  
पन्थ है। विद्युत पुरुष का वर्णन—विद्युतः पुरुषादधि यजु० ३२-२ में भी है।

अथ ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम् इति उपासते ते धूममभिसंम-  
यन्ति । धूमात् रात्रिं । रात्रेः अपरपक्षम् । अपरपक्षात् यान् पडुदक्षिणैति  
मासान्स्तान् । न एते संवत्सरं अभि प्राप्नुवन्ति ॥२॥ मासेभ्यः  
पितॄलोकं । पितॄलोकात् आकाशम् । आकाशात् चन्द्रमसं ।

एष सोमोराजा । तदेवानामन्नं । तं देवा भक्षयन्ति ।

( ५-१०-३,४ )

तस्मिन् यायत्संपातम् उपित्वा अथ एतमेव वाद्यानं पुनः निवर्तन्ते  
( ५-१०-५ )

जो ग्राम में इष्टापूर्ते<sup>१</sup> तथा दान का अनुष्ठान करते हैं, वे भूम को सामने  
पाते हैं। भूम से रात्रि, रात्रि से कृष्णपक्ष, कृष्णपक्ष से छुः दक्षिणायन मासों

<sup>१</sup> दर्श वीर्यमास आदि यज्ञ तथा बृहारोपण, फलाराम = फलों के बाग  
लगाकर सबके उपयोग के लिये छोड़ देना, कूप-बावली आदि का निर्माण ।

को प्राप्त करते हैं। मासों से ये संवत्सर को प्राप्त नहीं करते, किन्तु पितृलोक को जाते हैं। पितृलोक से आकाश और आकाश से चन्द्रमा को जाते हैं। यह सोम राजा है। यह देवों का अन्न है। देव उसे खाते हैं। वेद ने भी कहा है : सोमेन आदित्यः यज्ञिनः । सोम से ही आदित्यों को बल प्राप्त होता है। जब तक उनके संपात का समय नहीं आता, तब तक वे इस चन्द्रमा में वास करके पुनः उसी मार्ग से पृथ्वी पर लौट आते हैं।

तत् ये इह रमणीयचरणाः अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिम् आपद्येन् । ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिय योनिं वा वैश्ययोनिं वा । अथ ये इह कपूर्यचरणाः अभ्याशो ह यत्ते कपूर्यां योनिम् आपद्येन् श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डाल योनिं वा ॥ ( ५-१०-७ )

इनमें जो रमणीय आचरण के अभ्यासी होते हैं, वे रमणीय योनि को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वी योनि को। जिनके चरित्र कुसित होते हैं, वे कुसित योनि को प्राप्त करते हैं। शान या सूकर या चाण्डाल योनि को।

अथ पतयोः पथोः न करतरेण चन । तानि इमानि क्षुद्राणि असकृत् आवर्तीनि भूतानि भयन्ति । जायस्व म्रियस्य इति पतत् तृतीयं स्थानं । तेन असौ लोको न संपूर्यते । तस्मात् जुगुप्सेत । ( ५-१०-८ )

तदेप श्लोकः । स्तेनोहिरण्यस्य सुरां पिवंश्च गुरोस्तत्पमाद्यसन् ।

ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरन् स्तैरिति ॥ ९ ॥

जो पितृयान तथा देवयान दोनों पथों में से किसी के भी योग्य नहीं होते, वे ये छुट भूत हैं जो बार-बार आवर्तन धर्यात् जन्ममरण के चक्र में पड़ते हैं। पैदा हुए और मरे—ऐसा इनका तीसरा स्थान है। ऐसे प्राणियों से उस लोक की संपूर्ति नहीं होती। सब इनसे पृष्ठा करते हैं। इस पर यह श्लोक है :—स्वर्ण की चोरी करने वाले, शाराय पीने वाले, गुह की दैया पर सोने वाले ( गुह पक्की से व्यभिचार करने वाले ) और ब्रह्म-हत्यारे ये चार तो पतित होते ही हैं, पांचवें वे भी पतित होते हैं जो इनसा साथ देते हैं।

श्रीमद्भागवत, तृतीय स्कन्ध, दशवें अध्याय के श्लोक ८ तथा ९ में सहाम तथा निष्काम कर्म करने वालों की गतियों का वर्णन है। सकाम कर्म करने वालों को भूः, भुवः तथा स्वः तीन लोक प्राप्त होते हैं। ये तीन लोक ब्रह्मा के एक दिन अर्थात् १४ मन्त्रन्तरों की अवधि तक स्थित रहते हैं। इस अवधि को पृक कल्प का समय भी कहा जाता है। एक कल्प के पश्चात् इन तीन लोकों की प्रलय हो जाती है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, उन्हें महः, जनः, तपः तथा सत्य लोकरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक के इन विभागों की स्थिति दो परार्थ अर्थात् ब्रह्मा की पूर्णायु पर्यन्त मानी गई है। निष्काम कर्मयोगी मोक्ष के इस अमृत भोग को भोगने के पश्चात् जबीन ब्रह्मसर्ग में पुनः उत्पन्न होते हैं, ऐसा कथन भागवत ३-३२ के श्लोक १३, १४, १५ में आता है।

पुनर्जन्म का सिद्धान्त आर्य जाति में वैदिक काल से ही चला आता है। चौदू तथा जैन वेदों को मान्यता नहीं देते, पर पुनर्जन्म का सिद्धान्त उनको भी स्वीकार है। चार्वाक मत वाले अवश्य भौतिकवादी हैं। इस जन्म शौर इस लोक के अतिरिक्त वे न पुनर्जन्म मानते हैं, न किसी परलोक की सत्ता स्वीकार करते हैं। इसाई तथा मुसलमान भी पुनर्जन्म में विश्वाम नहीं रखते। जर्मनी का प्रसिद्ध दार्शनिक पैमैन्युल काण्ट इसाई होते हुए भी आचारशास्त्र के आधार पर पुनर्जन्म को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता अवश्य दे राया। अब तो यूरोपीय देशों में कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद आदि के अध्ययन में विदेश रुचि उत्पन्न हो रही है। कर्मसिद्धान्त का समाधान जैसा पुनर्जन्म करता है, वैसा अन्य किसी चाद द्वारा हो भी नहीं सकता। शृणियों ने तो इसका साक्षात् दर्शन कर लिया था। इसीलिये इतनी गढ़नता, पर उपर्युक्त के साथ ये इसका प्रतिपादन कर सके।

## मोक्ष

मोक्ष का अर्थ है छूटना । किससे छूटना ? बन्धन से । बन्धन क्या है ? आत्मा का प्रकृति के उत्तम, मध्यम तथा अधम पाशों में बद्ध होना । ये तीनों पाश क्रमशः सत्य, रज तथा तमोगुण के हैं । जब आत्मा इन पाशों को चीरकर प्रकृति के संपर्क से पृथक हो जाता है, तभी मुक्त कहलाता है । प्रकृति के संपर्क को छोड़कर प्रभु के संपर्क में पहुँचना और उसे अनुभव करना ही मोक्ष है ।

प्राकृतिक संपर्क वे, गुणों के आधार पर, तीन स्तर हैं । तमोगुण का आधिक्य प्राणी को प्रमाद के अवैन कर देता है, उपे नितिक्य, मूढ़, दंभी तथा क्रोधी बना देता है । रजोगुण वाचाउ तथा उद्योगी बनाता है । सत्य के संपर्क से शान्ति तथा प्रसन्नता का उदय होता है । सत्य के आधार से दैवी सम्पत् प्राप्त होती है । रजोगुण तथा तमोगुण आसुरी सम्पदा को प्राप्त कराने वाले हैं । आसुर सम्पत् वर्धन या कारण है, दैवी सम्पत् मोक्ष का । सत्य को इसीलिये संधिनी शक्ति वहा गदा है वयोःकि यह मोक्ष के साथ सन्धि कराने वाला है । मानवयोनि से ऊपर जो देवयोनि है उसमें सत्यगुण का ही प्राधान्य रहता है ।

मोक्ष एक सापेह शब्द है । एक स्थिति से छूटकर जब हम दूसरी स्थिति में पहुँचते हैं, तो पहली स्थिति से तो मोक्ष हो गई, परन्तु यह अन्तिम स्थिति तो नहीं है । ज्ञात के नियिल तन्तुजाल को चीरकर जबतक पार न हो जाय, सबतक वास्तविक मुक्ति नहीं । आत्मा अपने शुद्ध, बुद्ध, नित्य स्वरूप में जब तक प्रतिद्विन न हो जाए, प्रकृति का परदा दूर न हो जावे, तब तक सापेहता यनी रहती है । मोक्ष की निरपेक्ष स्थिति तो 'तदपश्वत्, तदभवत्, तदासीत्' में है—स्वरूप-अपरस्थान में है ।

मोक्ष के तारतम्य का अनुभव सुपुसि, समाधि, बृहत् अमृत तथा ब्रह्मरूपता

में किया जा सकता है। जो मनुष्य स्वस्थ तथा परिश्रमी है, उसे गहरी नींद आती है। स्वप्नों से भरी हुआ निदा अप्रता उत्पन्न करती है। प्रगाढ़ निदा में ही सुपुसि शब्द सार्थक होता है। सुपुसि का अर्थ अच्छी सुखमयी निदा है। ऐसी निदा में इन्द्रियों तो सो ही जाती हैं, वह मन भी सो जाता है जो स्वप्नों में अपनी महिमा अनुभव करता, अनेक नाटक खेलता और देखता रहा है। सुपुसि में हम चेतोमुख तथा आनन्दभुक रहते हैं—चैतन्य के द्वारा आनन्द का भोग करते हैं। यह अवस्था स्वस्थ, परिश्रमी एवं निश्चन्त अधिक के लिये सहज होती है। समाधि की अवस्था प्रयत्नप्रसूत है। योगी विविध प्रकार के अभ्यासों द्वारा जब इन्द्रियों को प्रत्याहार द्वारा तथा मन को रखान द्वारा निर्विषय कर देता है, तब उसकी चेतना एक देश में पृक्षाप्र हो जाती है। आज्ञा चक्र की ज्योति में यदि स्थिति हो गई, तो ध्युधान की अनुपस्थिति में आनन्द का अनुभव होने लगता है और एकाप्रता की दीर्घ अवधि में सहसार चक्र के नान्दन स्वर्ग में प्रवेश भी हो जाता है। सुपुसि बहुतों को सुलभ है, यह यह समाधिजन्म आनन्द बहुत कम, विरल योगियों के ही भाग्य की वस्तु है। बहुत अमृत की अवस्था निर्धनक्लवस्य, ज्योतिसम्पद्ध देवों को प्राप्त होती है। ध्यान्दोग्य उपनिषद के आधार पर पुरुषसूक्त की ध्याद्या में इस इमर्शन कर चुके हैं। बहुत अमृत का अर्थ है मोक्ष की अवधि तक ग्रहणलोक में अमृत का आस्वादन करना, स्वतन्त्र होकर लोक लोकान्तरों में भ्रमण करना, सत्यसंकल्पादि स्वाभाविक गुण-सामर्थ्य से ध्याद्यत आनन्द का उपभोग करना। सप्त ध्याद्यियों में जिष अनितम सत्यधाम का नाम है, यही सत्यम् अर्थात् ग्रहणलोक है। ग्रहणलोक से नीचे परमेष्ठी तथा परमेष्ठी से नीचे सूर्य लोक है। सूर्य से ग्रहणलोक पर्यन्त स्वर्ग है। स्वर्ग के ही सुख विशेष को बहुत अमृत कहते हैं। ध्यान्दोग्य उपनिषद बहती है :—

स वा एव पतेन देवेन चक्षुया मगसा एतान् कामान् पश्यन् रमते। ये पते ब्रह्मलोके तं वा पतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात् तेपां सर्वे च लोकाः आत्माः सर्वे च कामाः। स सर्वान् च लोकान्

वाप्नोति । सर्वान् च कामान् । यः तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ।  
( ८-१२-५-६ )

सुकात्मा ब्रह्मलोक में परमात्मा के उप = समीप, आसते = विराजमान होते हैं । इसी हेतु उन्हें समस्त लोक तथा काम प्राप्त रहते हैं । सुकात्माओं के चक्षु, मन आदि भौतिक नहीं, दैवी होते हैं जिनके द्वारा वे इन कामों को देखते हुए रमण करते हैं ।

भौतिक शरीरधारी जीवों को सुख-दुख ग्रसित करते रहते हैं । वे सदैव मृत्यु के मुख के बीच में रहते हैं । दैवी वर्ष्म में निवास करने वाले देव मृत्यु की चपेट में नहीं आते । वे उयोति के रथ पर चढ़कर, अहीन प्रज्ञा से सम्पन्न होकर, अनाग्रस वते हुए इतन्न विचरण करते हैं ।

मोक्ष की अवधि परान्तकाल की है । महर्षि दयानन्द के दावों में (सत्यार्थ-प्रकाश, नवमस्मुलास ) तेंतालीस लाख बीस सहस्र वर्षों की एक चतुर्युगी, दो सहस्र चतुर्युगियों का एक अहोरात्र, ऐसे सीस अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष और ऐसे शत वर्षों का एक परान्तकाल होता है । इतना समय मुक्ति में आनन्द के उपभोग का है । श्रीमद्भागवत तृतीय स्कन्ध अध्याय ११, श्लोक १८-३२ में काल का वर्णन करते हुए लिखा है कि ब्रह्मा के एक दिन के पश्चात् जो रात्रि या प्रलय आती है उसमें केवल तीन लोक ( भूः, मुवः तथा स्वः ) नष्ट होते हैं । ऊपर के महः जनः, तपः, सत्य चार लोक ( जो ब्रह्मलोक हैं तथा जिनमें देव मुक्ति के आनन्द को भोगते हैं ) नष्ट नहीं होते । वे ब्रह्मा की भायु पर्यन्त ( परान्त काल तक ) थने रहते हैं । तीन लोकों की प्रलयगति को न सह कर देयमहः लोक से जनः लोक को चले जाने हैं । मुण्डक उपनिषद् कहती है :—ते ब्रह्मलोकेऽपरान्तकाले परामृतात् परिसुच्यन्ति सर्वे । ३-२-६ वे सब ब्रह्मलोक में परान्तकाल की समाप्ति पर एराक्षेति के अमृत का उपभोग करके छृटते हैं । वे मुक्त जीव कभी कभी सृष्टि के प्रारम्भ में ही अमैथुनी रचना में दृष्ट्यज्ञ होते हैं और यज्ञ द्वारा ही यज्ञ करके धपने से पूर्व विद्यमान नादलोकवासी देव पूर्व साध्यों में जा भिलते हैं ।

ग्रह्य स्पता यथा है ? गीता कहती है :—

‘आ ग्रह्यभुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽर्जुन । मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते’ ॥ ( ८-१६ )

ग्रह्यलोक पर्यन्त जितने लोक हैं, ये सब पुनरावर्ती हैं, यार-यार उ-एक होते तथा नष्ट होते रहते हैं । पर जो सुख प्राप्त कर लेते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता । ग्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञेरिष्टद्वा स्वर्गति प्रार्थपन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मशननित दिव्यान् दिवि देवभोगान् ॥ ९-२० ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं चोणे पुण्ये मर्यालोकं विशनित । ९-२१ जो ग्रेविद्य धर्थात् ज्ञान, कर्म एवं उपासना में शीर्ण हैं, सोमपा तथा पूतपाप हैं, ये यज्ञों के द्वारा स्वर्ग की कामना करते हैं और पुण्य इन्द्रलोक को प्राप्त करके दी में दिव्य देवभोगों का उपभोग करते हैं । तदनन्तर ये विशाल सर्व लोक के सुखों को भोगकर तथा पुण्य के चीज़ होने पर मर्यालोक में प्रवेश करते हैं ।

यहाँ स्वर्ग से मर्यालोक में लौटना बैसा ही है जैसा छान्दोग्यकार ने पितृयानियों के विषय में लिखा है । देवयानी ग्रह्य को प्राप्त करते हैं । पर देव ने देवों को ही बहुत अमृत का आस्तादन करने वाला कहा है । बृहददेवामो अमृतत्वमानशु—यह बहुत अमृतत्व बहुत तो है, पर तिथि नहीं । पुराण-सूक्त ने भी ‘त्रिपादस्यामृतं दिवि’ तथा ‘उतामृतत्वस्येशानो यश्ननेतानि रोहति’ वहकर नित्य अमृत तथा बहुत अमृत में भेद किया है । प्रभु जैसे मर्यालोक तक ही है, वैसे ही बहुतभोग वाले अमृत का भी । जीव की परागति ग्रह्य लोक तक ही है । उसके आगे तो गति ही ही नहीं । गीता परम गति तथा संसिद्धि के सम्बन्ध में कहती है :—

धोमितयेकाक्षरं व्रह्याद्यादरन् मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमांगतिम् ॥ ( ८-१३ )

<sup>१</sup> ऐतरेय उपनिषद इसे स्वर्ग और अमृत नाम देती है :— स य एवं विद्वान् अस्मात् शरीरभेदात् ऊर्ध्वं उत्कम्य अमृतिमन् स्वर्गलोके सर्वान् कामान् आपवा अमृतः समभवत् समभवत् । २-६

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ ( ८-१५ )

जोड़म् इस अद्वर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है, वह परमगति की प्राप्त करता है । महान् आत्मा परम संसिद्धि को प्राप्त होनेर और मुझे प्राप्त करके अनिश्चय, दुःखों के भागार पुनर्जन्म दी प्राप्त नहीं होते ।

कठोपनिषद् के अनुसार—

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सदा । तुद्विश्च न विचेष्टते तामाहुः परमांगतिम् ॥ ( ६-७ )

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्यहृदि ध्रिताः । अथ मर्त्यो अमृतो भवति अथ ब्रह्म समश्नुते ॥ ( १४ )

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येहृ ग्रन्थयः । अथ मर्त्यो अमृतो भवति पतावद्भुशासनम् ॥ ( १५ )

जब पांचौ ज्ञानेन्द्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं और तुद्वि भी विविध पूर्व विपरीत चेष्टायें नहीं करती, तब उसे परम गति कहते हैं । हृदय में आश्रित सब कामनायें जब छुट जाती हैं और हृदय की ग्रन्थियां द्विलभिक्ष हो जाती हैं, तभी मर्त्य अमृत घनता है, और ब्रह्म को प्राप्त करता है । ब्रह्म का अर्थ है—महान्, यदा, व्यापक । अर्थात् १-२२-२० में इसी को व्यापक विष्णु का परम पद कहा गया है ।

इन दाढ़ीों में ब्रह्मरूपता की महत्त्वा तो विद्यमान है, पर वह निय है, यह तो पिछे नहीं होता । ब्रह्मरूपता के पूर्व यदि अब्रह्मता है, अल्पता है, तो उसके पश्चात् भी वह होनी चाहिये । कम से कम वह पहले तो नहीं थी, किर निश्चिता कैसी ? निय वह है जो विकाल में अवधित रूप से रहे । जब ब्रह्मरूपता से पूर्व पुनर्जन्म की शङ्खाड़ा है, तो ब्रह्मरूपता की प्राप्ति निय कहा रही ? किर ब्रह्मरूपता नियक्तुप घनने के प्रयत्न के पश्चात् प्राप्त हुई है—

अतः उसका आरम्भ है। और प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हुई हो, तब भी जिसका आरम्भ है, उसका अन्त भी होना चाहिए। इस प्रकार महारूपता चाहे जितनी ग्रन्थ हो, महान हो, एक दिन उसका भी अन्त होगा। छान्दोश्य ने देवयानी को भी घट्ट प्राप्ति कराई है, पर पितृयानी की गति से उसको शेष्ठर माना है, नियंत्रण नहीं। छान्दोश्य ने स्वर्ग के भी विभाग किये हैं। पितर चान्द्रमस ज्योति तक ही जाते हैं, पर देव महालोक तक जाते हैं। देवों में भी वसुओं को प्रथम, रुद्रों को द्वितीय, आदिर्यों को तृतीय, महतों को चतुर्थ तथा साध्यों को पंचम कोटि का अमृत भोगने को मिलता है। ( छान्दोश्य ३-६,७,८,९ ) ये कोटियाँ पृक से एक ऊपर हैं। देव अपने-अपने उपमोग में प्रवेश करके फिर उस रूप से भी ऊपर जाते हैं। इन कोटियों में आदिश्य के उदय तथा अस्त की दिशाओं का भी चर्णन है। साध्यों की स्थिति से ऊपर जाकर उदय-अस्त नहीं, मध्याह्न की अवस्था रहती है। 'सहृदिवा है अस्मै भवति'—सदैव दिन ही दिन रहता है। वेद ने इस स्थिति का चर्णन करते हुए कहा है :—'परयेमनुसूर्यमुच्चवरन्तम्' हम सदैव ऊर विराजमान सूर्य के दर्शन करते रहें।

अतः महारूपता भी जो उपलब्ध हुई है, अनन्त नहीं है। तारतम्य की दृष्टि से उसका स्थान सर्वधेष्ठ अवश्य है। अनावृत्ति का कथन भी अर्पणाद रूप है। जो हुःस उण-उण में जीव को ब्याकुल करता है, उससे मुक्ति पा जाना हो एक महती उपलब्धि है, किर उस उपलब्धि का एक नहीं, दो नहीं, ३६ सहस्रवार दृष्टि-प्रलय के चक्र-काल-पर्यन्त अविनाशात्व स्थिर रहे, तब तो निस्सन्देह यह महतों महीयान ही है।

मोक्ष का चर्णन करते हुए वेद कहता है :—

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वाः प्रदिशोदिशाद्य ।  
उपास्थाय प्रथमजा मृतस्थात्मनाऽस्त्मानमभि संविदेश ॥

जीवारमा विविध योनियों, लोकों तथा सब दिशाओं पूर्वं प्रदिशाओं में घूम कर जब थक जाता है, तब ऋत की प्रथमता, प्रज्ञा का आश्रय लेकर आत्मा के द्वारा आरमा में प्रविष्ट हो जाता है।

परिद्यावा पृथिवी सद्य इत्वा परिलोकान् परि दिशः परि स्वः ।

ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य तदपश्यत् तदभवत् तदासीत् ॥

( यजु० ३२-१२ )

सिद्ध जीव साधना-सम्पन्न होकर मुक्तावस्था में द्वावा से पृथ्वी तक सद्य, शीघ्र ही, ज्ञ भर में घूम आता है, स्वर्गलोक के दर्शन कर आता है, चतुर्दिक अमण करता हुआ लोकों तथा दिशाओं को सब ओर से देखता है। ऋत के फैले हुए तन्तु को चीरकर वह आनन्द को अनुभव करता है, आनन्दरूप हो जाता है। आनन्द रूप ही वह था ।

वाणी का धारण करने वाला जो ब्रिहान् इस अमृत अवस्था का वर्णन करता है, वह पिता का भी पिता है, रक्तकों का भी रक्तक है। यजु० ३२-९ अथर्व वेद द्वितीय काण्ड प्रथम सूक्त के मंत्र संदेश ४ तथा ५ में भी यजुर्वेद के ऊपर उद्दृष्ट संत्रों के समान ही वर्णन पाया जाता है ।

देवयान का मार्ग ही स्वर्ग की ओर ले जाता है, इसका संकेत नीचे लिखे मंत्रों में है :—

ईजानश्चित्तमारक्षदग्निं नाकस्य पृथ्वात् दिवमुत्पतिष्यन् ।

तस्मै प्रभाति नभसो ज्योतिषीमान् स्वर्गः पन्थाः सुकृते देवयानः ॥

( अथर्व १८-४-१४ )

यज्ञ करते हुए जो याजक चैतन्यारिन पर आरोहण कर जाते हैं, वे नाक की पीठ से चौं की ओर जाते हैं। उन्होंने मुकुटी याजकों को नभ में स्वर्ग को ले जाने वाला ज्योतिषमान देवयान पन्थ दिखाई देता है ।

देवा यज्ञमृतवःकल्पयन्ति हविः पुरोडाशं सुचोयज्ञायुधानि ।

तेभिर्याहि पथिभिर्देवयानैवैरीजाना स्वर्गं यन्ति लोकम् ॥

( अथर्व १८-४-२ )

शतु रूप देव यज्ञ तथा यज्ञ के साधन हवि, पुरोदाश, खुक, यज्ञायुध आदि की रचना करते हैं। तू उन्हीं देवयान मार्गों से चल, जिनके द्वारा यज्ञ-कर्ता स्वर्गलोक को जाते हैं।

**ऋतस्यपन्थामनुपश्यसाध्वंगिरसः सुकृतो येन यन्ति ।**

तेभिर्याहि पथिभिः स्थर्गं यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति दृतीये नाके अधि यि थयस्व ॥ ( अथर्व १८-४-३ )

ऋत के इस पन्थ को देख, जिस पर साधु, सुकृती अंगिरस चलते हैं। इन्हीं मार्गों से तू स्वर्ग को चल, जहाँ आदित्य देव मधु का भद्रण करते हैं। तू दृतीय नाक के ऊपर विशेष रूप से आध्रय ग्रहण कर।

**स्वर्गलोक। अमृतेन विष्टुः ( अथर्व १८-४-४ )**

स्वर्ग लोक अमृत से व्याप्त हैं। वे सुकृती पुण्यवान व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं। जैसे सुकृत में येणी-विभाग है, वैसे ही स्वर्गलोक एक नहीं, अनेक हैं और उनमें भी पुण्यकलों के अनुसार विभाग है। पितृयान तथा देवयान इसीलिये पृथक-पृथक मार्ग हैं। छान्दोग्य ने हृष्टापूर्तदान आदि पुण्यकर्म करने वालों को पितृयान द्वारा चान्द्रमस इयोति में भेजा है और तपस्वियों, आध्यात्मिकों को देवयान द्वारा ग्रह्य लोक की प्राप्ति कराई है।

अथर्व वेद का १८ वां काण्ड; सूक्त ४ पितृमेष कहलाता है। उसमें विशेषरूप से पितरों का ही वर्णन है, पर स्वर्ग का वर्णन करते हुए उसमें पितृयान तथा देवयान दोनों का ही प्रतिपादन आ गया है। दोनों ही ग्रन्थ के पन्थ हैं। हुकृती इन मार्गों में पैर भी नहीं रख सकते। पुण्यवान सुकृती ही इन मार्गों पर चलकर ऊर्ध्वागति प्राप्त करते हैं।

इस सूक्त में विशेषण का वर्णन प्रथम मंत्र में ही इस प्रकार है :—

आरोहत जनिंश्रीं जातयेदसः पितृयाणैः सं य आरोहयामि ।

अवाङ्मृद्येवितो हृव्यंयाह रंजाने युक्ताः सुकृतां धत्त लोके ॥

( १८-४-४ )

हे जातवेदस अग्नियो ! यज्ञ द्वारा तुम्हारे अन्दर वह शक्ति उत्पन्न हो गई है, कि तुम अपनी जननी की गोद में आरोहण करो, वहाँ पहुँचो । ये पितृ-याण पथ हैं, इनके द्वारा मैं तुम्हें वहाँ सम्यकरूप से पहुँचाता हूँ । प्रिय तथा प्रेरित हृष्टवाह हस्यों को वहाँ ले गया है । तुम भी वहाँ मिलकर इस यज्ञकर्ता को, पुण्यकर्मा यजत्र को, सुकृतियों के लोक में, स्वर्ग में पहुँचा दो, स्थापित कर दो ।

अथर्ववेद ने इस सूक्त में पितरों को देवनाओं के हुन में भागीदार बनाया है । शीता की भाँति यहाँ भावृत्ति तथा अनावृत्ति का भेद नहीं दिखाई देता ।  
यथा—

यूयमग्नेशंतमाभिस्तनूभिरीजानमभिलोकं स्वर्गम् ।

अश्वा भूत्वा पृष्ठिवाहो वहाथ यत्र देवैः सधमादं मद्दन्ति ॥

( १८-४-१० )

हे अग्ने ! तुम पृष्ठिवाह अश्व बनकर इस पवित्र यज्ञकर्ता को शन्तम शरीरों के साथ स्वर्गलोक में पहुँचा दो जहाँ सुकृतात्मा देवों के साथ आनन्द का उपभोग करते हैं ।

यज्ञः पति विततः कल्पमानः ईजानमभिलोकं स्वर्गम् ।

तमग्नयः सर्वहुतं जुपन्तां प्राजापत्यं मेष्यं जातवेदसः ॥

श्रूतं कृष्णन्त इह माव चिक्षिपन् ॥ ( १८-४-१३ )

यज्ञ फैलकर समर्थ बना हुआ यज्ञकर्ता को स्वर्ग लोक में पहुँचा देता है । इस पवित्र, प्रजापति के योग्य सुकृती को जातवेदस अग्नियो प्यार करें, सेवित करें । इस पके हुए को वहाँ स्थापित करें, नीचे न फेंकें ।

ये यजत्र लोककृतः, पथिकृतः लोक का, सत्यपथ का निर्माण करनेवाले हैं । देवानां = देवों के, हुतभागः = हुत में भाग लेने वाले ये, इहस्य = यहाँ ठहरें ।

सांगाः स्वर्गं पितरो मादयस्वम् । १८-४-६४ पितर अग्नों सहित स्वर्ग में आनन्द करें । पितरों के आने का वर्णन नीचे लिखे मंत्रों में है :—

आयात पितरः सोम्यासो गम्भीरैः पथिभिः पितृयाणैः ।  
आयुरस्मम्यं दधतः प्रजां च रायश्च पोषै रभि नः सच्चयम् ॥  
( १८-४-६२ )

हे सोम्य पितरो ! गम्भीर दितृयाण पथों से आओ, जिन मार्गों से गये ऐ उन्हीं मार्गों से आओ । हमें प्रजा, सम्पत्ति आयु तथा पोषण सामग्री से सम्पन्न करो ।

परायात पितरः सोम्यासोगम्भीरैः पथिभिः पूर्याणैः ॥ ( १८-४-६३ )  
पितृयाण शब्द के स्थान पर इस मन्त्रमें पूर्याण शब्द का प्रयोग हुआ है । पूर्याण का अर्थ है पहले का मार्ग । यहीं पितरों के परायात = किर लौट जाने का उल्लेख है । इसी प्रकार आने और लौट जाने के दर्णन देवों के सम्बन्ध में भी मिलते हैं । पितरों के पास पूर्याण या पितृयाण हैं तो देवों के पास देवयान तथा ज्योति के रथ हैं । सज्जाजो ये सुवृष्टो यज्ञमाययुः=जो देव द्यौ के निवासी हैं, सम अस्त्री तरह मेरा ज्ञाते=चमकते, दर्शन या शोभित होते हैं, सुवृष्टः=स्वयं उच्चत तथा दूसरों को सुन्दर, शोभन वृद्धि देने वाले हैं, वे हम यज्ञ में आवें । इवस्तये वायुमुपद्रवामहै सोमं...वृहस्पतिं सर्वंगं=इत्याण के लिये हम वायु, सोम तथा सर्वंगों वाले वृहस्पति को बुलाते हैं ।

पूताः पथिवैः पवन्ते अञ्जादिवं च यन्ति पृथिवीं च लोकान् ।  
( अथव १२-३-२५ )

आयन्ति दिवः पृथिवीं सचन्ते । ( १२-३-२६ )

पूत पवित्र देव अपनी पावन शक्तियों के साप अभ्र से द्यौ लोक में पहुँचते हैं तथा पृथिवी और अन्य लोकों में भी जाते हैं । देव द्यौ में निवास करते हैं, पर घरों से पृथिवी पर भी आते हैं । देवों न ज्ञाते पवते धाम किञ्चन=देवों के विना कोई भी धाम पवित्र नहीं होता । इस प्रकार देव देवयानी तथा पितृयाणी दोनों के अवतरण का वर्णन करता है । जिन अवतारी पुरुषों का आदिमांद पृथिवीमंडल पर धर्म की स्थापना के टिप्पे हुआ करता है, वे इन्हीं देवों या

पितरों में से होते हैं और अपने उपयुक्त शरीर को प्रमुख की प्रेरणा से प्राप्त कर लेते हैं। इनमें तथा सामान्य मनुष्यों में इतना ही भेद होता है कि दिव्यान्माओं के जन्म तथा कर्म दिव्य होते हैं, सामान्य मनुष्यों के पार्थिव।

स्वर्गलोक की दिव्यता का वर्णन नीचे लिखे मंत्रों में है :—

यद्यज्योतिरज्जस्यं यस्मिन् लोके स्वर्हितम् ।

तस्मिन् मां धेहि पव्यान अमृते लोके अक्षिते । ७

यज्ञानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः ।

लोकायत्र ज्योतिर्भूतः तत्र मामसृतं कृधि ॥ ९

यत्र कामानिकामाश्च यत्र व्रान्तस्य विष्टपम् ।

स्वयाच यत्र तुष्टिश्च तत्र मामसृतं कृधि ॥ १०

यत्रानन्दाश्चमोदाश्च मुदः प्रमुद आसते ।

कामस्य यत्राप्ताः कामाः तत्र मामसृतं कृधि ॥ ( १ च १११३ )

इन्द्राय इन्द्रो परिस्त्रव-यह अन्त में प्रत्येक मंत्र की टेक है।

हे इन्दु, हे मेरे सोम ! अपने इस इन्द्र पर दया करो, मेरे लिये द्विति हो जाओ। तुम भार्जव में निवास करते हो, अपने ऊंचे ऋगुधाम से बरसो। तुम सिंचक हो, महमूमि को भी सींचकर हरा भरा करने वाले हो। विरह-तप्त-मेरी इस हृदय-भूमि को अपनी कृपा की खण्ड से सरस एवं शीतल कर दो। तुम ऋतवाणी, सत्यव्यवहार, श्रद्धा एवं तप से प्रकट होते हो। आज मुझ इन्द्र के लिये भी प्रकट हो जाओ<sup>१</sup>। हे मेरे इन्दु ! मुझे उस अमृत, अद्वित लोक में ले चलो, जहाँ अजन्म उयोति है, निरन्तर प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ रवः निहित है, सब कुछ अपना ही अपना है, आनन्द ही आनन्द है, जहाँ इच्छानुसार स्वर्व्यन्द विचरण है, चौ के उस प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय नाक

<sup>१</sup> आपवस्वदिशाम्पतेआर्जीकात् सोम मोट्वः ।

ऋत बाकेन सर्येन अद्वयातपसा सुतः ।

इन्द्राय इन्द्रो परिस्त्रव । शृ० १-११३-२ ।

धाम में, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय दिव्य धाम में सब छोक उपोतिष्ठमन्त हैं, जहाँ काम हैं, निकाम हैं, स्वप्ना है, त्रुटि है, जो सूर्य की केन्द्रस्थली है, जहाँ आनन्द है, भोग है, सुद है, प्रसुद है, काम की कामनाएँ जहाँ परिपूर्ण हैं, काम-साफल्य की जो चरम भूमि है, अथ का, भोग का जहाँ अतिरोद्ध है, जहाँ मधु या अमृत के उपभोग की चरम सीमा है, जहाँ दैवीभोगों, दिव्य ऐश्वर्यों की पराकाष्ठा है, जहाँ भोग इन्द्रियों से नहीं-केवल चेतना-मुख से भोगे जाते हैं, जहाँ दुःख का लबलेश भी नहीं है, वहीं, वहीं है मेरे इन्दु ! वहीं, है सुधास्तावी । वहीं मुझ इन्द्र को ले चलो । यह इन्द्र अब इन्द्र है, इन्द्रियों का स्वामी है, दास नहीं । यह स्वर्ग के योग्य है, भस्त्रार्थ नहीं । इसे अब स्वर्गलोक में पहुँचा दो, स्थापित कर दो ।

—४३—

## संशोधिका

हृपया नीचे लिखी सारणी के अनुसार शब्दों को शुद्ध करके पढ़ें।

पृष्ठ	रेक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	३	तवेतत्	तवेत्तत्
१०	१२	दुर्गाण	दुर्गाणि
२२	३	अस्वस्तित	अस्वस्ति
२६	२४	२१	११
३९	१३	प्रतिपाद्य	प्रतिपाद्य
४१	१५	अमृत्व	अमृतत्व
६५	१६	स्नेहित	स्नेहिल
७४	६	राक्षस	राक्षस
७५	३	अग्नि से	अग्नि (भा, वाणी, अग्नि) से
७८	१०	विवरण	विचरण
१०२	१४	पद्धति	गच्छति
१४८	८	के	से
१६३	१९	न थी	नयी है
१९३	९	स्वलित	स्वस्ति
२४७	२०	चतुर्या	चतुर्यी
२१७	५	सम्मति	सत्पति
२७४	२५	अनुबूल	अनुबूल
२७५	१६	पास्त्यों	पस्त्यों
२८८	२४	उपास्पाय	उपस्थाय

